

स्कन्द पुराण द्वितीय खण्ड

(सरल भाषानुवाद सहित, जनोपयोगी संस्करण)



सम्पादकः

वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

चारों वेद, १०८ उपनिषद, षट् दर्शन;

२० स्मृतिर्मां और १८ पुराणों के

प्रसिद्ध भाष्यकार

प्रकाशकः

संस्कृति संस्थान

ध्याजा कुतुब (वेद नगर) बरेली

प्रकाशक :

डा० चमनलाल गौतम
संस्कृति संस्थान
हवाजा कुतुब (वेद नगर)
वरेली (उ० प्र०)

✽

सम्पादक :

पं० श्रीराम शर्मा आचार्य

✽

सर्वाधिकार सुरक्षित

✽

प्रथम संस्करण

१९७०

✽

मुद्रक :

दाऊदयाल गुप्त
सस्ता साहित्य प्रेस
मयुरा

✽

शुल्य सात रुपये पचास पैसे

दो शब्द

स्कन्द पुराण के इस द्वितीय खण्ड में “काशी-खण्ड” “अवन्ती खण्ड” और “रेवा खण्ड” का समावेश है। ये तीनों शैवमत के तीन प्रधान क्षेत्र हैं। काशी की महिमा और विशेषता तो सर्वत्र विदित है। शैव धर्म और संस्कृत विद्या का सर्व प्रधान केन्द्र होने के कारण वह समस्त देश में प्रसिद्ध है और भारत वर्ष के चारों कोनों के यात्री प्राचीन काल से वहाँ आते रहे हैं। संभवतः हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक और अटक से लेकर कामक्षा देवी तक के दो हजार लम्बे-चौड़े प्रदेश में कोई ऐसा प्रसिद्ध नगर नहीं मिल सकता जो काशी से अधिक प्राचीन और भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। यद्यपि वेदों का आविर्भाव पंचनद प्रदेश में हुआ, पर उनका पठन-पाठन अध्ययन-अध्यापन, मनन मुख्यतः काशी में ही हाता आया है और भारत भर के विद्वार्थी सदा से वहाँ आते रहे हैं।

काशी में शैव तीर्थों की गणना कर सहना बठिन है। प्रत्येक गली बूझ में शिव के अनेक मंदिर खड़े हैं और दशाश्वमेरु, मणिकर्णिका, ज्ञान बापी, कपाल मोचन, त्रिलोचन आदि अनेक प्रसिद्ध तीर्थ हैं, जिनका वर्णन इस खण्ड में किया गया है। यद्यपि प्राचीन काल की काशी तथा प्राचीन काल में अनेकों बार सूटी और तोड़ी-फोड़ी गई काशी की स्थिति में बहुत कम अन्तर है तो भी ‘स्कन्द पुराण’ के “वाराणसी वर्णन से वहाँ का एक महत्त्व पूर्ण चित्र नेत्रों के सम्मुख उपस्थित हो जाता है। प्रायः न पुराने समस्त तीर्थ—स्थल रह गये हैं और न वह भावना शेष रह गई है, तो भी काशी की महिमा अभी समस्त हिन्दू जगत में अशुण्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

अवन्तिका—वर्तमान उज्जैन नगरी भी प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है। इसकी महाराज विक्रमादित्य की राजधानी कहा जाता है, जिनके नाम के सम्बन्ध का हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं।

“स्कन्द पुराण” की दृष्टि में इस क्षेत्र का महत्त्व इतना अधिक है कि उसने यहाँ की क्षिप्रा नदी को संसार की समस्त नदियों में शिरोमणि बतलाया है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर होकर मनुष्य श्रेष्ठ गति पा नेता है। इस तीर्थ के अधिपति “महाकालेश्वर” की भी अत्यन्त महिमा है। (इसके सिवाय अन्य स्थानों में जो प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब भी सूक्ष्म रूप में यहाँ मौजूद हैं। समस्त देश में काशी, प्रयाग, अमरकटक, भरत, केदार, करवीर, एकाभ्रक, भद्रक आदि जितने प्रधान शैव क्षेत्र हैं, उन्हीं में महाकालेश्वर के महाकालवन की गणना की जाती है। यहाँ रह कर तप, उपासना करने से मनुष्य के संसार पापों का क्षय होकर पुण्य-पथ का मार्ग दर्शन मिलता है। इस महा कालवन में एक महाकालेश्वर शिव ही नहीं है। वहाँ कोटोश्वर, त्रिदशेश्वर, कपाल मोवन देव, कपिलेश्वर, हनुमत्केश्वर, पिप्पलाद, स्वप्नेश्वर, विश्वतोमुख, सोमेश्वर, वैश्वानरेश्वर, गणपेश्वर, प्राणेश, दण्डयाणि, पुष्पदत्त दुर्वासेश्वर, कालेश्वर, कूटुम्बेश्वर, मखण्डेश्वर, बधिरेश, यात्रेश्वर, वाल्मीकेश्वर, स्रगमेश्वर, पिशाचेश्वर, विद्याघर तीर्थ, सोमवती तीर्थ, सोभाग्य तीर्थ, चक्रपाणि तीर्थ, सोम तीर्थ आदि नामों से इतने तीर्थ हैं, जिनकी गिनती का सुनना भी कठिन है। इसमें सन्देह नहीं कि अवन्तिका किसी समय मध्य भारत का सब से प्रमुख तीर्थ रहा है। आज बल भी हिन्दुओं के सबसे बड़े धार्मिक ममारोह “कुम्भ मेला” के चार प्रमुख केन्द्रों में से एक उज्जैन (अवन्तिका) भी है। ‘स्कन्द पुराण’ में इसका वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है।

रेवा खण्ड में नर्मदा तटवर्ती तीर्थों का वर्णन है। कई स्थानों पर पुराणकार ने नर्मदा की महिमा बढ़ाकर बतलाई है और शैव मत के अनुयायियों की दृष्टि से यह घस्याभाविक भी नहीं है। (गंगा भी यद्यपि शिवजी की जटाओं से बहती हुई मानी गई है, फिर भी यह सब प्रथम विष्णु के चरणों को धोने के लिये प्रकट हुई थी) इन तीर्थों में उसमें विष्णु की प्रधानता ही मानी जायगी। (पर नर्मदा का शिवजी के पत्नीन से उत्पन्न कहा गया है। महात्म्य गंगा के तुल्य ही माना जाता है और उसके समीप वर्ती भूभाग में हजारों तीर्थ धब भी स्थित हैं। नर्मदा की

स्तुति करते हुए समस्त मुनियों ने बड़े भक्ति भाव से कहा था ।

“हे पुण्य जल के आश्रय वाली ! हे परम शुभे ! आपको हमारा नमस्कार हो ! आप विशुद्ध सत्त्व वाली और गुरों के द्वारा सेवित हैं । आप भगवान रुद्र के अंग से परम वरिष्ठ हैं, आपको हमारा नमस्कार है । हे वरों के प्रदान करने वाली देवि ! हे शिवे ! आपको प्रणाम है ! दोनों लोकों में सौख्य के प्रदान करने वाली देवि ! आपतो अनेको भूतों के समुदायों को समाश्रय देने वाली और अनघ हैं, आपको हमारा नमस्कार है । आप समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ हैं । हे पाप हरे ! हे विचित्रते ! आप गन्धर्व राक्षस, उरगों के द्वारा सेवित अंग वाली हैं । हे सनातनि ! आप समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाली और मोक्ष के प्रदान करने वाली हैं । आप हमारा कल्याण करें ।”

रेवा छण्ड में भी नारदेश्वर, अग्निरस तीर्थ, स्कन्द तीर्थ, कोटि तीर्थ, अग्नि तीर्थ, जमदग्न्य तीर्थ आदि बहुसंख्यक नर्मदा तट वर्तते स्थानों का माहात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन है । इसमें सन्देह नहीं कि इस पुराण में तीर्थों का माहात्म्य पौराणिक ग्रंथवाद की प्रणाली से बड़ी रोचकता पूर्वक और बड़ा चढा किया गया है, जिससे सामान्य जनता की भक्ति उनके प्रति सुदृढ बनी रहे । साथ ही यह भी स्वीकार करना पडता है कि ये स्थान प्राकृतिक तथा परम्परागत दृष्टि से आत्म शुद्धि में सहायक हैं, और जो शुद्ध भाव से उनका सेवन करेगा वह अवश्य कल्याण साधन कर सकेगा । पर लेद है कि इस समय स्वार्थी जनो ने पग कमाने के उद्देश्य से तरह-तरह के ढोंग फैलाकर वहाँ के वातावरण को दूषित कर दिया है, जिससे उनकी प्राचीन महिमा अधिकांश में नष्ट हो गई है । इस स्थिति का सुधार हो और तार्थ फिर से अपनी त्याग और तपस्यामय गरिमा को प्राप्त करें, इस उद्देश्य से हमने ‘स्कन्द पुराण’ में वर्णित हजारो तीर्थों के सविस्तार वर्णन में से इस प्रकार चुने हुये तीर्थों का वर्णन दिया है, जिससे पाठकों के हृदय में ऐसी ही पवित्र और परमाद्य युक्त भावनाओं का उदय हो ।

“एक
उसने
बतलें
गति
महि
सूक्ष्म
केवा
मे म
उपा
मार्ग
महीं
हनुम
गणप
श्वर,
श्वर,
सीधें
है ।
प्रमुख
“कुम्
है ।

विषय सूची

४४	नियम विधि माहात्म्य वर्णन	६
४५	द्वादशाक्षर महिमा वर्णन	१४
४६	पंचाक्षर मंत्र माहात्म्य वर्णन	२२

॥ काशी खण्ड ॥

४७	तीर्थाध्याय वर्णन	३४
४८	गायत्री महत्त्व वर्णन	४७
४९	मणिकर्णिकाख्यान वर्णन	५४
५०	गंगा महिमा वर्णन एवं दशहरा स्तोत्र कथन	७०
५१	वाराणसी महिमा वर्णन	८५
५२	ज्ञानवापी माहात्म्य वर्णन	९९
५३	योगाख्यान वर्णन	११३
५४	दशाश्वमेध माहात्म्य वर्णन	१३३
५५	त्रिलोचनादिर्भाव वर्णन	१४७
५६	व्यासभुजस्तम्भ वर्णन	१५४

॥ अवन्ती खण्ड ॥

५७	महाकालवन प्रशंसा वर्णन	१६७
५८	अग्नि आविर्भाव वर्णन	१७३
५९	महाकालवन निवास विधि वर्णन	१७९
६०	विद्याधर तीर्थ माहात्म्य वर्णन	१८५
६१	दशाश्वमेध माहात्म्य वर्णन	१८८
६२	महाकाल यात्रा माहात्म्य वर्णन	१८९
६३	घात्मीकेश्वर महिमा वर्णन	१९५

६४	गणेश माहात्म्य वर्णन	२०१
६५	सोमवती तीर्थ माहात्म्य वर्णन	२०२
६६	सौभाग्य तीर्थ माहात्म्य वर्णन	२१०
६७	प्रतिकल्पाभिधान वर्णन	२१७
६८	शिप्रा माहात्म्य एवं ज्वरानुग्रह वर्णन	२२५
६९	विष्णु स्तोत्र और ध्यान वर्णन	२३२
७०	कुटुम्बेश्वर माहात्म्य कथन	२४८
७१	अखण्डेश्वर महिमा वर्णन	२५२
७२	हमुमत्केश्वर माहात्म्य वर्णन	२५७
७३	शकरादित्य माहात्म्य वर्णन	२६१
७४	रामेश्वर तीर्थ माहात्म्य वर्णन	२८२
७५	विष्णु माहात्म्य वर्णन	२९०
७६	गया तीर्थ माहात्म्य वर्णन	३०३
७७	नाग तीर्थ महिमा वर्णन	३०९
७८	भवन्ती माहात्म्य वर्णन	३१४
७९	गणेश्वर माहात्म्य वर्णन	३२९
८०	प्रयागेश्वर माहात्म्य वर्णन	३३६

॥ रेवा खण्ड ॥

८१	पुराण संहिता वर्णन	३४५
८२	रेवा माहात्म्य वर्णन	३५०
८३	नर्मदा पञ्चदशनाम वर्णन	३५९
८४	नर्मदा स्तोत्र वर्णन	३६७
८५	कावेरी सगम माहात्म्य वर्णन	३७२
८६	शूलभेद प्रशमा वर्णन	३७९
८७	कालरात्रिकृत जगत्साहर वर्णन	३८५
८८	सृष्टि सहरण सरम्भ वर्णन	३९५
८९	ब्रह्मकृत शिवस्तुति वर्णन	४०२

९०	द्वादशादित्य रूपेण जगत्संहरण वर्णन	४०७
९१	नमंदा माहात्म्य वर्णन	४१३
९२	वाराहकल्प वृत्तान्त वर्णन	४१६
९३	मेघनाद तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४२४
९४	भीमेश्वर तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४३३
९५	नारदेश्वर तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४३४
९६	वाघस्कन्द मधुस्कन्द तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४०
९७	सुवर्ण शिला तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४१
९८	करंज तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४२
९९	कामद तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४२
१००	भडारी तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४६
१०१	स्कन्द तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४४६
१०२	अङ्गिरस तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४५३
१०३	कोटि तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४५५
१०४	केदारेश्वर माहात्म्य वर्णन	४५६
१०५	पिशाचेश्वर माहात्म्य वर्णन	४६६
१०६	अग्नि तीर्थ सर्प तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४७६
१०७	श्रीकपाल तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४७९
१०८	जामदग्न्य तीर्थ माहात्म्य वर्णन	४८२
१०९	रेवाखण्डपुस्तक दानादि माहात्म्य वर्णन	४९१
११०	सत्यनारायण विप्र संवाद वर्णन	४९८

स्कन्द पुराण

—(*)—

४४—नियम विधि माहात्म्य वर्णन

पितृणांतर्पणं कुर्याच्चिद्धद्यायुक्तेन चेतसा ।
 स्नानावसाने नित्यं वसुप्ते देवे महाफलम् ॥१॥
 सङ्गमेसरितां तत्र पितृन्संतर्प्य देवताः ।
 जपहोमादिकर्माणि कृत्वा फलमनन्तकम् ॥२॥
 गोविन्दस्मरणं कृत्वा पश्चात्कार्याः शुभाः क्रियाः ।
 एष एव पितृदेवमनुष्यादिषु तृप्तिदः ॥३॥
 श्रद्धाधर्मयुतानाम् स्मृतिपूतानिकारयेत् ।
 कर्माणिसकलानीह चातुर्मास्येगुणोत्तरे ॥४॥
 सत्संगोद्विजभक्तिश्च गुरुदेवाग्नितर्पणम् ।
 गोप्रदानं वेदपाठः सत्क्रियासत्प्रभाषणम् ॥५॥
 गोभक्तिर्दानभक्तिश्चतदा धर्मस्य साधनम् ।
 कृष्णेसुप्तेविशेषेण नियमोऽपि महाफल ॥६॥
 नियमः काट्यो ब्रह्मन् फलव नियमेन किम् ।
 नियमेन हरिस्तुष्टो यथा भवति तद्वद ॥७॥

श्री ब्रह्माजी ने कहा—श्री देवदेव के शयन करने पर स्नान के त मे परम श्रद्धा से युक्त चित्त के द्वारा अपने पितृगणों का तर्पण नित्य करना चाहिए—इसका महान फल हुआ करता है ॥१॥ सगिताओं संगम मे वहाँ पर पितृगण और देवों का तर्पण भनी भाँति करके जब तथा होमादि कर्मों को करके मनुष्य अनन्त फलों की प्राप्ति करता है । भगवान् श्री गोविन्द का स्मरण करके पीछे अन्य शुभ ऐं करनी चाहिए । यह ही पितृ-देव और मनुष्य आदि में तृप्ति के

देने वाला है ॥२-३॥ इस गुणोत्तर चातुर्मास्य में यहाँ पर धर्मयुत धृदा और समस्त कर्मों को स्मृति से पूल करावे । सत्पङ्क, द्विजों में भक्ति गुरुदेव और अग्नि का तांण—गोदान, वेदपाठ, मत्कवा, सत्य भाषण भी भक्ति, दान भक्ति, सदा ये सब धर्म के साधन हुआ करते हैं । भगवान् श्रीकृष्ण के शयन कर जाने पर विशेष रूप से नियम भी महान् फल वाले होते हैं । देवपि नारदजी ने कहा—हे भगवन् ! नियम किम प्रकार का होता है ? और उस नियम के द्वारा फल क्या हुआ करता है ? जिस प्रकार से नियम से श्री हरि भगवान् तुष्ट हुआ करते हैं—यह कृपया हम को बतलाइये ॥४-७॥

नियमश्चक्षुरादोनाक्रियासुविविधासुच ।

कार्योविधावतापुंसात्तत्प्रयोगान्महासुखम् ॥८

एतत्पङ्कवर्गहरणं रिपुनिग्रहण परम् ।

अध्यात्ममूलमेतद्धि परम शौक्यकारणम् ॥९

तत्र तिष्ठन्तिनियतं क्षमासत्यावयोगुणः ।

विवेकलपिण सर्वे तद्विष्णोःपरमंयदम् ॥१०

कृतं भवति यज्ञीय कृतकृत्यत्वमत्र तत् ।

स्यात्तस्य तत्पूर्वजाना येन ज्ञातमिदं पदम् ॥११

तन्मूहूर्त्तमपिध्यात्वा पापजन्मशतीद्भवम् ।

भस्मसाधाति विहितनिरञ्जननिषेवणात् ॥१२

प्रत्यहमङ्कवद्यस्य क्षुत्पिपासादिकःश्रमः ।

सयोगीनियमीनित्य हरौमुप्तेविशिष्यते ॥१३

चातुर्मास्ये नरो भक्त्या योगान्यासरतो न चेत् ।

तस्य हस्तात्परिभ्रष्टममृतं नात्र संशया ॥१४

श्री ब्रह्माजी ने कहा—धुर (अस्त्र) आदि की अनेक क्रियाओं में नियम होता है । जो विद्या वाले पुष्प हैं उनको उभको करना चाहिए । उसके प्रयोग से महान् सुख समुत्पन्न होता है । इस पङ्कवर्ग का हरण शत्रुओं का परम निग्रहण होता है । यही अध्यात्म का मूल होता है और यही परम शौक्य का कारण हुआ करता है । वहाँ पर नियत रूप से क्षमा

और सत्य आदि समस्त सद्गुण स्थित रहा करते हैं। ये सब विवेक रूपी हांते हैं और वही श्री भगवान् विष्णु का परम पद है। यज्ञीय अर्थात् यज्ञ कर्म का फल कृत होता है। यहां पर वह ही कृत कृत्यत्व (मफलता) है। उसके पूर्वजों का वह होता है। जिसने इस पद की भलीभांति जान लिया है। उस मुहूर्त्त मात्र भी ध्यान करके सौ जन्मों में किया हुआ भी पाप भस्मसात् हो जाया करता है। भगवान् निरञ्जन के मेवन से यह सब विहित होता है। जिसका प्रतिदिन मूख-प्यास आदि धर्म-संकुचित होता है वह योगी और नित्य ही नियमों का पालक है। भगवान् को सुप्त होने पर विशेष रूप से होता है। चातुर्मास्य में नर भक्ति-भाव से यदि योग के अभ्यास में रत नहीं होता है तो यही समझ लेना चाहिए कि उसके हाथ से प्रमत्त परिभ्रष्ट हो गया है इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥८-१४॥

मनोनियमितं येन सर्वेच्छासु सदागतम् ।

तस्य ज्ञाने च मोक्षे च कारणं मन एव हि ॥१५

मनोनियमने यत्नः कार्यः प्रज्ञावतासदा ।

मनसा मुगृहीतेन ज्ञानाप्तिरखिला ध्रुवम् ॥१६

तन्मनः क्षमया ग्राह्यं यथावह्निश्च वारिणा ।

एकया क्षमया सर्वो नियमः कथितो बुधैः ॥१७

सत्यमेकं परो धर्मः सत्यमेकं परं तपः ।

सत्यमेकं परं ज्ञानं सत्ये धर्मः प्रतिष्ठिता ॥१८

धर्ममूलमहिंसा च मनमाता च चिन्तयन् ।

कर्मणा च तथावाचातत एतांसमाचरेत् ॥१९

परस्वहरणं चौर्यं सर्वदा सर्वमानुषैः ।

चातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मदेवस्ववर्जनम् ॥२०

बकृत्यकरणं चैव वर्जनीयं सदा बुधैः ।

अनीहः सर्वकार्येषु यः सदा विप्रवर्तते ॥२१

जिसने सभी प्रकार की इच्छाओं में जाने जाने मन को नियमित कर लिया है उसके ज्ञान में और मोक्ष में एक मात्र कारण मन ही होगा

है जिसका नियम-विषमित्रत कर लेना सर्वोपरि भाषन माना गया है । अतएव प्रज्ञावान् पुरुष को धरने मन के नियमन करने में मदा ही प्रयत्न करना चाहिए । जब यह मन सुषहीन हो जाता है तो निश्चय ही पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति ही आया करती है । जेम मन को शमा के द्वारा शास्य करना चाहिए जिस प्रकार से अग्नि को दान्ति जन से को जानो है और उस अग्नि पर काबू पाया जाता है । बुध पुरुषो ने एकमात्र क्षमा को ही सर्वश्रेष्ठ नियम कहा है) एक मत्स्य हो परम धर्म होता है और एक मात्र सत्य का परिपालन करना ही परम तप हुआ करता है । तप ही सर्वोत्तम ज्ञान है क्योंकि सत्य में ही धर्म प्रनिश्चिन रक्षा करता है । धर्म का मूल प्रहिता है, मनसे उमरा विन्तन करने हुए कर्म के और बचन के द्वारा इस प्रहिता का समावरण करना चाहिए । पराये धन का प्रपहरण करना और कर्म है इसीनिये मत्र अनुष्यो कोपवन्दा और चातुर्मत्य में विशेष रूप से इसका वर्जन कर देना चाहिए । ब्राह्मण का मोर देवो के धन का वर्जन कर देवे । जो भी ब्रह्मत्व है उनका करना युधो के द्वारा वर्जन करने के योग्य है । जो पुरुष सर्वदा ईश से रहिन होता है वह सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है ॥१५-२१॥

स च योगी महाप्राज्ञः प्रज्ञाचक्षुरहं न धीः ।
 अहङ्कारो विषमिदं शरीरे वर्तते नृणाम् ॥२२
 तस्मात्स सर्वदा त्याज्यः सुप्ते देवे विशेषतः ।
 अनीहयाजितक्रोधो जिनलोभो भवेन्नरः ॥२३
 तस्य पापसहस्राणि देहाद्यान्ति सहस्रधा ।
 मोहं मानं पराजित्य शमरूपेण शयुणा ॥२४
 विचारेण शमोग्राह्यः सन्तोषेण तथाहितः ।
 मात्सर्यमृजुभावेन नियच्छेत्समुनीश्वरः ॥२५
 चातुर्मस्ये दयाधर्मो न धर्मो भूतविद्रुहम् ।
 सर्वदा सर्वमासेषु भूद्रोहं विवर्जयेत् ॥२६
 एतत्पापसहस्राणां मूलं प्राहुर्मेनीयिनः ।
 तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कार्या भूतदया नृभिः ॥२७

सर्वेषामेव भूतानां हरिनित्यं हृदि स्थितः ।

स एव हि पराभूतो यो भूतद्रोहकारकः ॥२८

यस्मिन् धर्मो दयानंभू स धर्मोद्विषितो मतः ।

दयाविना न विज्ञानं न धर्माज्ञानमेव च ॥२९

तस्मात्सर्वात्मभावेन दयधर्मः सनातनः ।

सेव्यः स पुरुषं नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः ॥३०॥

(वह ही योगी महा प्रज्ञा से सुसम्पन्न होता है जिसको प्रज्ञा का चक्षु हृद्भा करता है और अहङ्कार की वृद्धि नहीं होती है।) मनुष्यो के शरीर में यह अहङ्कार विष के ही तुल्य हुआ करता है। अतएव विशेष रूप से देव के सुप्त हो जाने पर उसे निश्चय रूप से स्थाय्य देना चाहिए। ईहा के अभाव होने से मनुष्य क्रोध को जीतने वाला और लौभ पर विजय प्राप्त करने वाला हो जायगा ॥२२-२३॥ उस व्यक्ति के सहस्रो पाप देह से सहस्रो टुकड़े होकर चले जाया करते हैं। मोह और मान को शम रूपी शत्रु के द्वारा पराजित करके विचार के द्वारा शम का ग्रहण करना चाहिये तथा सन्तोष के द्वारा भी ग्रहण करे। ऋणभाव से अर्थात् सरलता से मात्सर्य को वह मुनीद्वर नियन्त्रित करे। चातुर्मास्य में क्षमा ही धर्म होता है। भूतो से विद्रोह करना धर्म नहीं होता है। सर्वदा ही सभी मासों में भूतो के साथ द्राह करना वर्जित कर देवे। मनीषीगण इसको सहस्रो पापों का मूल कहा करते हैं। इसीलिए समस्त प्रयत्नों से मनुष्यो को भूतो पर दया करने चाहिए। समस्त प्राणियों के हृदय में नित्य ही श्री हरि भगवान् स्थित रहा करते हैं। वह ही पराभूत होता है जो भूतो से द्रोह के बरने वाला होता है। जिस धर्म में दया नहीं होती है वह धर्म ही दोषयुक्त होता है। दया सर्व प्रधान है। इसके बिना न विज्ञान ही होता है और न धर्म का ही ज्ञान हुआ करता है। इसलिये सर्वात्म्य भाव से दया ही सनातन धर्म होता है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से मनुष्यो को उसी परम पुत्र्य की सेवा करनी चाहिये ॥२४-३०॥

४५—द्वादशाक्षरमहिमावर्णन

एकदा भगवान् रुद्रः कैलाशे सिखरे स्थितः ।
 दधार परमां लक्ष्मीमुमया सहितः किल ॥१
 गणानां कोटयस्ति सस्तं यदा पर्यवारयन् ।
 वीरवाहुर्वीरभद्रो वीरसेनश्च भृङ्गिराट् ॥२
 रुचिस्तुष्टिस्तथानन्दीपुष्पदन्तस्तथोत्कटः ।
 विकटः कण्टकश्चैव हरः केशो विघण्टकः ॥३
 मालाधरः पाशधरः शृङ्गा च नरनस्तथा ।
 पुष्पोत्कटः शालिभद्रो महाभद्रो विभद्रकः ॥४
 कणपः कालपः कालोघनो रक्तलोचनः
 विकटास्यो भद्रकश्च दीर्घजिह्वो विरोचनः ॥५
 पारदो धनदो ध्वांक्षी हंसको नरकस्तथा ।
 पञ्चशीर्षं त्रिशोर्षं च क्रोडदंष्ट्रो महाद्भुतः ॥६
 सिंहवक्त्रो वृषहनुः प्रचण्डस्तुण्डिरेव च ।
 एते चान्ये च बहवस्तदाभवत्समीपगाः ॥७

महावि गालव ने कहा—एक समय पर भगवान् थी रुद्रदेव कैलाश परवत की सिखर पर समन्वित थे और उन्होंने उमा देवी के सहित विराजमान होते हुए परम लक्ष्मी की धारण किया था । जिन समय में तीन करोड़ गण उनके चारों ओर में स्थित थे जिनमें परम प्रमुख गणों के नाम में हैं, वीरवाहु, वीरभद्र, वीरसेन, भृङ्गिराट्, रुचि, तुष्टि, नन्दी, पुष्प दन्त, उरुट्ट, विकट, कण्टक, हर, केश, विघण्टक, मालाधर, पाशधर, शृङ्गा, नरन, पुष्पोत्कट, शालिभद्र, महाभद्र, विभद्रक, कणप, कालप, काल, धनप, रक्त लोचन, विकटास्य, भद्रक, दीर्घजिह्व, विरोचन, पारद, धनद, ध्वांक्षी, हंसक, नरक, पञ्चशीर्ष, त्रिशोर्ष, क्रोडदंष्ट्र, महाद्भुत, सिंहवक्त्र, वृषहनु, प्रचण्ड, तुण्डि ये तथा अन्य भी बहुत से गण उनके समीप में गमन करने वाले थे ॥१-७॥

महादेव जयेत्युच्चैर्भद्रकालीसमन्विताः ।

भूतप्रेतपिशाचानां समूहा यस्य वल्लभाः ॥८

अस्तुवंस्तं समीपस्था वसन्ते समुपागते ।
 वनराजिर्विभातिस्म नवकोरकशोभिता ॥९
 दक्षिणानीलसंस्पर्शः कवीनां सुखकृद्नभो ।
 विद्योगिहृदयाकर्षी किशुकः पुष्पशोभितः ॥१०
 द्वन्द्वादिविक्रियाभावं चिक्रीडुश्चसमन्ततः ।
 तस्मिन्विगाढेसमये मनस्युन्मादकेतथा ॥११
 नन्दी दण्डधरः सञ्ज्ञादृष्ट्वाचक्रे हरोपरः ।
 धलं चापलदोषेण तपः कुर्वन्तु भो गणाः ॥१२
 तदा सर्वे वनमपि भूकाण्डजमगुः पुनः ।
 गणास्तेतप आतस्थुर्दृष्ट्वा कान्तिं चसन्तजाम् ॥१३
 सतः सा विश्वजननी पावती प्राह शङ्करम् ।
 इयं ते करगा नित्यमक्षमाला महेश्वरः ॥१४

ये सब भद्रकाली देवी के सहित महादेव प्रभु की जय हो, ऐमा उच्च स्वर से कह रहे थे जिसके परम प्रिय भूत, प्रेत और पिशाचों के समुदाय ही हुआ करते हैं ॥८॥ उनके समीप में स्थित हुए ये सब वसन्त के समुपागत होने पर उन प्रभु का स्तवन कर रहे थे । समस्त वन की पत्तियाँ नदीमें कोरको (कलियो, से शोभित होकर विभाषित हो रही थी । दक्षिण दिशा की ओर से आने वाला वायु कवियों को सुख देने वाला हो रहा था । जो विद्योगीजन ये उनके हृदय को समाकषित करने वाला था और किशुक पुष्पो की परम शोभा से युक्त हो रहा था ॥९-१०॥ उस मन में उन्माद उत्पन्न करने वाले विगाढ समय में सभी ओर में द्वन्द्वादि की विक्रिया के भाव की क्रीडा करने वाले दूसरे हर दण्ड के धारण करने वाले नन्दी ने देख कर सब की सावधान किया था, हे समस्त गणो ! अपलता के दोष को मत करो । सब तपश्चर्या करो । फिर सभी गण भूकाण्डज वन में चले गये थे और वसन्त के द्वारा उत्पन्न की गई कान्ति को देख कर तपस्या करने में समास्थित हो गये थे । इसके अनन्तर वह समस्त विश्व की जननी पार्वती देवी भगवान् शङ्कर से बोली-

हे महेश्वर ! यह आपके करकमल में रहने वाली अश्रों की मात्रा है
॥११-१४॥

त्वया किं जप्यते देव सन्देहमिति मे मनः ।

त्वमेकः सर्वभूतानामादिकृत्सकलेश्वरः ॥१५

न माता न पिता बन्धुस्तव जातिर्न कश्चन ।

अहं तव परं किञ्चिद्विधिं नास्तीति किञ्चन ॥१६

धमेण त्वं समायुक्तो श्वासोच्छ्वास परायणः ।

जपन्नपि महाभक्त्या दृश्यसे त्वं मया सदा ॥१७

स्वतः परतरं किञ्चिद्यत्त्वं ध्यायसि चेत्तदा ।

तन्मे कथय देवेश यद्यहं दयिता तव ॥१८

इवि पृष्ठस्तदा शम्भुर्वाच हरिमेतनुः ।

हरैर्नामिसहस्राणां सारं ध्यायामि नित्यशः ॥१९

जपामि राम नामाङ्कमवतारं तु सत्तनम् ।

चतुर्विंशतिसंख्याकान्प्रादुर्भावान्हरेगुणान् ॥२०

एतेषामपि यत्सारं प्रणवाख्यं महत्फलम् ।

द्वादशाक्षरसंयुक्तं ब्रह्मरूपं तनातनम् । २१

हे देव ! आपके द्वारा यह किय का जाप किया जाता है, मेरे मन में यह सन्देह होता है ? आप तो स्वयं ही समस्त प्राणियों के एक ही आदि स्वरूप हैं, सभी के ईश्वर हैं । आप का न तो कोई पिता है और न कोई माता ही है, न कोई बन्धु है, न जाति ही है । मैं तो आपसे पर कृपि को भी नहीं जानती हूँ कि कोई अन्य भी आप से ऊपर है ॥१५-१६॥ आप धम से समायुक्त रहा करते हैं और स्वास, उच्छ्वास के करने में परायण रहा करते हैं । मेरे द्वारा सदा ही आप महा भक्ति से जाप ही करते हुए दिललाई दिया करते हैं क्या आप से भी कोई परतर है जिसको कि आप चित्त से ध्यान किया करते हैं ? हे देवेश्वर ! यह आप मुझे कृपा कर के बतला दीजिए क्योंकि मैं तो आपको प्राण प्रिया हूँ । इस तरह से पार्वती देवी के द्वारा पूछे गये श्री हरि के सेवक भगवान् श्री शम्भु ने कहा— श्री हरि भगवान् के सहस्रो नामों के सार का मैं नित्य ही ध्यान किया

करता हूँ । मैं श्री गगनागारिक सर्वधोष्ठ ध्रुवतार का जाप किया करता हूँ । चौबीस सख्या वाले भवान् श्री हरि क प्रादुर्भाव हुए हैं ऐसे श्री हरि के गुणों का जाप किया करता हूँ । इन सत्रका सार जो सार है वह प्रणव नाम वाला है और वह सनातन द्वादश अक्षरों से संयुक्त ब्रह्म का ही रूप है ॥१७ = १॥

अक्षरत्रयसवन्ध ग्रामत्रयममन्वितम् ।

सविन्दु प्रणव शश्वज्जपामि जपमालया । २२

वेदसारमिदं नित्यं ह्यार सततोद्यतम् ।

निर्मलं ह्यमृतं शान्तं सद्रूपममृतीपमम् ॥२३

कलातीतं निर्विशगनिर्व्यापारं महत्परम् ।

विश्वानारं जन्मघ्यं कोटिब्रह्माण्डवीजकम् ॥२४

जडं शुद्धक्रियं वाऽपि निरञ्जनं नियामकम् ।

यज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्रं घोरसमारबन्धनात् ॥२५

अक्षरसहितं यच्च द्वादशाक्षरबीजकम् ।

जपनं पापकोटीनां दावाग्नित्वं प्रजायते ॥२६

एतदथ परं गुह्यमेतदेव परं महः ।

एतद्धि दुर्लभं लोके लोकत्रयविभूषणम् ॥२७

प्राप्यते जन्मकोटीभिः शुभाशुभरिनाशकम् ।

एतदेव परं ज्ञानं द्वादशाक्षरचिन्तनम् ॥२८

तीन अक्षरों से सम्बद्ध, तीन ग्रामों से समन्वित, विन्दु से युक्त प्रणव को ही मैं जाप करने की इस माला से निरन्तर जप किया करता हूँ । यह सततोद्यत अक्षर नित्य ही देव का सार भूत है । यह परम निमन, प्रमृत, शान्त सदरूप वाला, प्रमृत के ही समान, कलातीत, निर्विशग, निर्व्यापार, विश्व का आभार, परमहृत जगन्मध्य, कोटि ब्रह्माण्ड का बीज, जड, शुद्ध क्रिया वाला, निरञ्जन और नियामक है जिसका ज्ञान प्राप्त करके प्राणी इस परम घोर समारबन्धन से बहुत हा शीघ्र मुक्त हो जाया करता है ॥२२-२५॥ इस अक्षर के सहित जो द्वादश अक्षरों वाला बीजक है उसको जाप करने वाले को तीनों पापों को भस्म करने के लिये

दावाग्नित्व ही आया करता है अर्थात् दावाग्नि के समान ही सब पापों का भस्म कर दिया करता है । यह ही सबसे अधिक गोपनीय एवं महान् है और सब से अधिक तेज है । यह इस लोक में धृत्यन्त दुर्लभ है तथा तीनो लोको का यह विभूषण है । यह शुभाशुभ का विनाश करने वाला करोड़ जन्मों में प्राप्त किया जाता है । यह ही परम ज्ञान है कि द्वादश अक्षरों का चिन्तन किया जावे ॥२६-२८॥

चातुर्मास्ये विशेषेण ब्रह्मद चिन्तितप्रदम् ।

एतदक्षरज स्तोत्रं यः समाश्रयते सदा ॥२९

मनसा कर्मणा वाचा तस्य नास्ति पुनर्भवः ।

द्वादशाक्षरसयुक्तं चक्रद्वादशभूपितम् ॥३०

मासद्वादशनामानि विष्णोर्गोभक्तितत्परः ।

शालग्रामेपुतान्युक्त्वा न्यसेदघहराणि च ॥३१

दिवसे दिवसे तस्य द्वादशाहफलं भवेत् ।

द्वादशाक्षरमाहात्म्य वर्णितुं नैव शक्यते ॥३२

जिह्वासहस्र रपि च ब्रह्मणापि न वर्ष्यते ।

महामन्त्रोद्दय लोके जप्तो ध्यातस्तुतस्तथा ॥३३

पापहा सर्वमासेषु चातुर्मास्ये विशेषतः ।

इद रहस्य वेदाना पुराणामनेकशः ॥३४

स्मृतीनामपि सर्वासा द्वादशाक्षरचिन्तनम् ।

चिन्तनादेव मर्त्याना सिद्धिर्भवति हीप्सिता ॥३५

चातुर्मास्य में विशेष रूप से यह ब्रह्मज्ञान के प्रदान करने वाला और मन के सभी चिन्तित अभीष्टों के प्रदान करने वाला हुआ करता है । इन अक्षरों से समुत्पन्न स्तोत्र का जो सदा समाश्रय किया करता है और मन, वाणी तथा कर्म के द्वारा इस का ध्यान रखता है उसका फिर इस सप्ताह में पुनर्जन्म नहीं होता है । द्वादश अक्षरों से सयुक्त और द्वादश चक्रों से यह भूषित है । जो भगवद्भक्ति में परादण्ड मनुष्य जिष्णु के मास में इन द्वादश नामों को बहकर शालग्राम की सेवा में अघों के हरण करने वालों को समर्पित कर देता है उसको दिवस-दिवस में द्वादश दिन का फल हुआ

करता है । द्वादश अक्षरो का माहात्म्य ऐसा अद्भुत है कि यह वर्णन नहीं किया जा सकता है । जिस शेष के एक सहस्र जिह्वाएँ है उनके द्वारा वह भी नहीं वर्णन कर सकता है और चार मुखों वाले ब्रह्मा के द्वारा भी नहीं वर्णन किया जा सकता है । यह लोक में महामन्त्र है । इस का किया हुआ जाप, ध्यान, स्तवन सभी मासों में पापों का हनन करने वाला होता है । चातुर्मास्य में इराका विशेष फल हुआ करता है यह वेदों का और अनेक पुराणों का तथा समस्त स्मृतियों का द्वादशाक्षर का चिन्तन करना परम रहस्य होता है । इसके केवल चिन्तन करने ही से मनुष्यों को ईप्सित सिद्धि हो जाया करती है ॥२६-३५॥

पुण्यदानेन जाप्येन मुक्तिर्भवति शाश्वती ।

वर्णस्तथाश्रमैरेव प्रणवेन समन्वितः ॥३६

जपैर्घर्षानैःशूमपरैर्भोक्षयास्यतिनिश्चितम् ।

शूद्राणाञ्चवापि नारीणां प्रणवेन विवर्जितः ॥३७

प्रकृतीनां च सर्वासां न मनो द्वादशाक्षरः ।

न जपो न तपः कार्यं कायव्लेशाद्विशुद्धिता ॥३८

विप्रभवत्या च दानेन विष्णुध्यायेन सिध्यति ।

तासां गंत्रो रामनाम ध्येयः कोट्यधिको भवेत् ॥३९

रामेति द्व्यक्षरजपः सर्वपापामनोदकः ।

गच्छतिष्ठच्छानो वा मनुजोरामकीर्तनात् ॥४०

इहनिवृत्तिमायाति प्राप्ते हरिगणो भवेत् ।

रामेतिद्व्यक्षरो मन्त्रो मन्त्रकोटिस्तथाधिकः ॥४१

सर्वासां प्रकृतीनाञ्च कथितः पापनाशका ।

चातुर्मास्येऽप्य सम्प्राप्ते सोप्यनन्तफलप्रदः ॥४२

चातुर्मास्ये महापुण्ये जप्यते भक्तिनत्परेः ।

देववन्तिष्फल तेषां यमलोकस्य सेवनम् ॥४३

पुण्य दानों से—आप से शाश्वती मुक्ति हुआ करती है । सब वर्णों के द्वारा तथा समस्त आश्रमों के द्वारा प्रणव से युक्त जप, ध्यान से क्षम पराचल लोग निश्चित भोक्ष को प्राप्त हो जाया करेंगे । प्रणव से रहित

इस मन्त्र का जाप शूद्र वर्ण वाले एवं नारीगण भी करके मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करते हैं। सब प्रकृतियों का यह दादशास्त्र मन्त्र नहीं है। सबको इसका जप या तप नहीं करना चाहिए। काय क्लेश से विमुक्तिता प्राप्त करके धर्मों की भक्ति, दान और भगवान् की विष्णु के ध्यान से ही इसकी सिद्धि होती है। उन का तो केशव श्रीराम का नाम ही महा मन्त्र है। इसका ही ध्यान जेप सबको करना चाहिए। यह करोटों गुना अधिक हुआ करता है ॥३६-३६॥ "राम"—इन दो मन्त्रों का जाप समस्त पापों का अपमोदन करने वाला होता है। गमन करते हुए, स्थित रहते हुए, ध्यान करते हुए मनुष्य श्री राम नाम के धीर्तन से इस संसार में निवृत्त हो प्राप्त हो जाता करता है और अन्त में ही हरि का पद हो जाता है। 'राम'—यह दो मन्त्रों वाला मन्त्र संकटों करोड़ मन्त्रों से भी अधिक होता है। यह सभी प्रकृतियों वाले प्राणियों के लिये पापों का नाश करने वाला कहा गया है। यह भी चातुर्मास्य के प्राप्त होने पर अनन्त फलों का प्रदान करने वाला होता है ॥४०-४३॥

न रामार्दाधिक किञ्चित्पठन जगती तले ।

रामनामाश्रया ये वै न तेषा यमयातना ॥४४

ये च दोषा विघ्नकरा मृतका विग्रहाश्चये ।

रामान्नेव विलय यान्तिनाथ विचारणा ॥४५

रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ।

अन्तरात्मस्वरूपेण यच्च रामेति कथ्यते ॥४६

रामेति मन्त्रराजोऽयं भयव्याधिविदूषकः ।

रणे विजयदश्चापि सर्वकार्याधिसाधकः ॥४७

सर्वतीर्थफलप्रोक्तो विप्राणामपि कामदः ।

रामचन्द्रेति रामेति रामेति समुदाहृतः । ४८

द्वयक्षरो मन्त्रराजोऽयं सर्वकार्यकरो भुवि ।

देवाऽपि प्रगायन्ति रामनाम गुणाकरम् ॥४९

चातुर्मास्य के महान् पुण्यो वाले समय में भक्ति में परायण मनुष्यो

द्वारा इसका ज्ञाप किया जाता है। उनको देवों के ही समान यमलोक

का सेवन निष्फल हुआ करता है। इम जगतीनल मे श्रीराम के शुभ नाम से अधिक अन्य कुछ भी पठन करने का नहीं है। जो केरल श्री राम क परम शुभ नाम का ही समाश्रय लेलिया करते हैं उनको यम की मानना नहीं होती है। जो भी दीप हैं या विघ्नो के करने वाले हैं, मृतक तथा विग्रह हैं वे सभी श्री राम के नाम ही से विजय वो प्राप्त हो जाया करते हैं—इसमे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह श्रीराम समस्त प्राणियों में चाहे स्थावर हो या जङ्गम हो, अन्तरात्मा क स्वल्प से रमण किया करते हैं जो भी 'श्री राम' यह कहा जाया करता है। "श्री राम" यह भगवन्नाम ही महा मन्त्र राज है जो समस्त भयो श्रीर व्याधियो का विनाशक होना है। यही मन्त्रराज रण स्थल मे भी विजय के प्रदान करने वाला होता है और समस्त कार्यों का साधन करने वाला है। यह समस्त तीर्थों का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। यह विप्रो को भी कामताजा का प्रदाना हाना है जिन समय 'श्री राम चन्द्र', श्रीराम, 'श्रीराम', इस प्रकार से नाम का मुख से उच्चारण किया जाना है सब मनोरथ पूरा हो जाया करते हैं। यह केवल दो ही अक्षरो वाला मन्त्रराज है जा कि इम भूमण्डल मे सभी बापों की सिद्धि कर देने वाला होगा है। वन गुणो की खान 'श्रीराम'—इस नाम का देवगण भी गायन किया करते हैं—इतना महामहिमा से दुषत यह नाम है ॥४४-४६॥

तस्मात्स्वमपि देवेशिरामनाम मदा वद ।

राम नाम जपेद्यो वै मुष्यते सर्वं क्लिप्तियं ॥१०

सहस्रनामज पुण्य रामनाम्नैव जायते ।

चानुमस्मिन् विशेषेण तत्पुण्य दशधात्तरे ॥२१

हीनजातिप्रजाताना महद्दह्यन्ति पानकम् ॥५

रामोऽहमविश्वमिदमग्रम्वतेजसाव्याप्यजनान्तरात्मनः ।

पुनानिजन्मान्तरजानानिस्थूतानिभूष्माणिकषागच्छदग्धरा ॥

इतिथे ह दशति । आप भी गण श्रीराम क परम शुभ नाम का

उच्चारण किया करो। जो भी न ई श्रीराम के शुभ नाम का जप किया करता है यह समस्त विघ्नो से मुक्त हो पाया करता है ॥२०॥

एक महत्प्र अग्य भगवन्नामों के खेने से जो पुण्य-फल होता है वह हम एक ही 'राम'—इस नाम के मुख से उच्चारण करने पर हो जाया करता है । चातुर्मास्य में विशेष रूप से इसका दस गुना अधिक पुण्य होता है । जो हीन जातियों में जन्म ग्रहण करने वाले मनुष्य हैं उनके महान् पातक को यह दण्ड कर दिया करता है ॥५१-५२॥ यः श्री राम का परम पवित्र शुभ नाम इस समय विश्व को अपने तेज से व्याप्त करके जनों के अन्तरात्मा के द्वारा अग्य जन्मों के भी स्थूल एवं सूक्ष्म समस्त पातकों को एक ही क्षण में दण्ड कर के सबको पवित्र कर दिया करता है ॥५१॥

४६—पञ्चाक्षरमन्त्रमाहात्म्यवर्णन

ज्योतिर्मात्रस्वरूपाय निर्मलज्ञान चक्षुषे ।
 नमः शिवाय शान्नाय ब्रह्मणे लिङ्गमूर्तये ॥१
 आख्यातं भवता सूत विष्णोर्माहात्म्यभुतमम् ।
 समस्ताघहरं पुण्यं समासेन श्रुतञ्चनः ॥२
 इदानीं श्रोतुमिच्छामो माहात्म्यं त्रिपुरद्विपः ।
 तद्भक्तानाञ्च माहात्म्यमशेषाघहरम्परम् ॥३
 तन्मन्त्राणाञ्च माहात्म्यं तथैव द्विजसत्तम ॥
 तत्कथायाश्चतद्भक्तैः प्रभावमनुवर्णनम् ॥४
 एतावदेव मर्त्यानां परं श्रेयः सनातनम् ।
 यदीश्वरकथायां वै जाता भक्तिरहेतुको ॥५
 अतस्तद्भक्तिलेशस्य माहात्म्यं वष्यते मया ।
 अपि कल्पायुषा नाऽलं वक्तुं विस्तरतः कञ्चित् ॥६
 सर्वेषामपि पुण्यानां सर्वेषां श्रेयसामपि ।
 सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञः परः स्मृतः ॥७

मङ्गलाचरण—ज्योति ही जिनका स्वरूप है तथा निर्मल ज्ञान के नेत्र वाले, परम शान्त स्वरूप से युक्त, लिंग की मूर्ति वाले प्रह्ला श्री शिव - भगवान् की सेवा में-नमस्कार समर्पित है ॥१॥ श्रुतियो ने कहा—हे श्री

सूनजी । आपने भगवान् श्री विष्णु का परमोत्तम माहात्म्य का वर्णन किया जो समस्त पापों का हरण करने वाला है । हम सब ने सक्षेप में उसका ध्वण किया है ॥२॥ अब हम सब त्रिपुरासुर के हन्ता श्री शिव का माहात्म्य सुनना चाहते हैं । उनके भक्तों का माहात्म्य अक्षेप अर्थों का हरण करने वाला है । हे द्विज श्रेष्ठ ! उनके मन्त्रों का माहात्म्य, उनकी कथा और भक्ति प्रभाव का अनु वर्णन कीजिए । श्री सूतजी ने कहा— मनुष्यों का इतना यही परम सनातन श्रेय होता है कि उनकी ईश्वर की कथा में बिना हेतु वाली भक्ति उत्पन्न हो जाये । इसीलिये उनकी भक्ति के लेश का माहात्म्य मेरे द्वारा वर्णन किया जाता है । इसका पूर्ण विस्तार से वर्णन तो एक कल्प की आयु में भी कभी कहा नहीं जा सकता है । समस्त प्रकार के पुण्यों और सभी तरह के धर्मों एवं सम्पूर्ण यज्ञों में यह नाम का यज्ञ ही परम प्रमुख बताया गया है ॥३-७॥

तत्रादौ जपयज्ञस्य फलं स्वस्त्ययन महत् ।

शैव पञ्चाक्षरं दिव्य मन्त्राहुर्महर्षयः ॥८

देवानां परमो देवो यथा वै त्रिपुरान्तकः ।

मन्त्राणां परमो मन्त्रस्तथाशैवः पञ्चाक्षरः ॥९

एष पञ्चाक्षरो मन्त्रो जप्तुणा मुक्तिदायकः ।

ससेव्यते मुनिश्रेष्ठैरक्षेपं सिद्धिकाङ्क्षिभिः ॥१०

अस्यैवाक्षरमाहात्म्यं नालम्बकुं चतुर्मुखः ।

श्रुतयो यत्र सिद्धान्त गताः परम निर्वृताः ॥११

सर्वज्ञः परिपूर्णश्च सच्चिदानन्दलक्षणः ।

स शिवो यत्र रमते शैवे पञ्चाक्षरे शुभे ॥१२

एतेन मन्त्रराजेन सर्वोपनिषदात्मना ।

लेभिरे मुनयः सर्वे परब्रह्मा निरामयम् ॥१३

नमस्कारेण जीवत्व जिवेऽत्र परमात्मनि ।

ऐक्यङ्गतमतोमन्त्रः परब्रह्ममयो ह्यसौ ॥१४

उसमें जप यज्ञ का फल महान् स्वस्त्ययन अर्थात् कल्याणकारी होता है । महर्षि गण छँ प्रक्षर वाले शैव मन्त्र को ही परम दिव्य कहते हैं ।

समस्त देवों में परम देव भगवान् त्रिपुरान्तक हैं उसी भाँति यह पडक्षर शैव मन्त्र सभी मन्त्रों में प्रधान मन्त्र है। यह पाँच अक्षरों वाला मन्त्र ऐसा है कि जो इसका जप करने वाले पुण्य हैं उनको यह मुक्ति के देने वाला होता है। इसी लिये मिद्धि की आकांक्षा करने वाले समस्त श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा इसका सत्सेवन किया जाता करता है ॥८-१०॥ इसी मन्त्र के प्रक्षर का माहारम्य चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारा भी नहीं कहा जा सकता है। जिसमें मिद्धान्त को प्राप्त हुई श्रुतियाँ परम निवृत्त हो गई हैं। सबको जानने वाले, परिपूर्ण और और सत्, चित् एवं भ्रानन्द के लक्षण वाले वह शिव स्वयं जिस पाँच अक्षरों से युक्त शुभ शैव मन्त्र में रमण किया करते हैं। इस समस्त उपनिषदों के स्वरूप वाले मन्त्र राज के द्वारा सभी मुनियों ने निरामय परम ब्रह्म को प्राप्त किया था। इस परमात्मा शिव में नमस्कार से जीवत्व ऐश्वर्य को प्राप्त हुआ था अतएव यह मन्त्र परब्रह्म मय है ॥११-१४॥

भवपाशनिबद्धानां देहिनां हितकाम्यया ।

आहोँनमः शिवायेति मन्त्रमाद्य शिवः स्वयम् ॥१५

किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैः किं तीर्थैः किं तपोऽध्वरैः ।

यस्योँनमः शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥१६

तावन्नमन्ति संस्मरे दारुणे दुःखसंकुले ।

यावन्नोच्चारयन्तीमं मन्त्रं देहभृतः सकृत् ॥१७

मन्त्राधिराजराजोऽयं सर्ववेदान्तशेखरः ।

सर्वज्ञाननिधानश्च सोऽयश्चैव पडक्षरः ॥१८

कैवल्यमार्गदीपोऽयमविद्या सिन्धुवाडवः ।

महापातकदावाग्निः सोऽयं मन्त्रः पडक्षरः ॥१९

तस्मात्सर्वप्रदो मन्त्रः सोऽयं पञ्चाक्षरः स्मृतः ।

स्त्रीभिः शूद्रैश्च सङ्कीर्णैर्घयिते मुक्तिकाण्डक्षिभिः ॥२०

नास्यदोक्षणं होमश्च न सस्कारो न तर्पणम् ।

नकालोपदेशश्च सदाशुचिरयं मनुः ॥२१

भव के पास में निवृद्ध देह धारियों के हिनों की कामना से भगवान् शिव ने स्वयं आद्य मन्त्र "ॐ नमः शिवाय" यह मन्त्र कहा था । जिस पुराण को "ॐ नमः शिवाय" यह मन्त्र हृदय गोचर होता है उस को धन्य यद्वा से मन्त्रों से, तीर्थों से, तपश्चर्माओं से और ऋषियों से क्या प्रयोजन है ? अर्थात् फिर किसी मन्त्रादि की आवश्यकता ही नहीं है । ये देहधारी सभी तक इस दास्य और अनेक दुखों से सबुल सत्तार में अमल किया करते हैं जब तक एक बार भी इस महामन्त्र वा भुक्त से उच्चारण नहीं किया करते हैं । यह पञ्चाक्षर मन्त्र धन्य मन्त्रों के अधि राजों का भी राजा है । समस्त वेदान्तों का शिरोमणि है । सम्पूर्णज्ञान का विधान है । यह मन्त्र कैवल्य (मोक्ष) के मार्ग वा प्रदीप है और अधिष्ठा शिष्य वा वाङ्मय है । यह मन्त्रराज महान् पातकों को क्षय करने के लिये दास्य के समान है । ऐसा ही महामहिमामय यह छै अक्षर वाला मन्त्र है । इसी लिये सभी भुक्त के प्रदान करने वाला यह पञ्चाक्षर मन्त्र कहा गया है । जा भी मुक्ति की इच्छा रखने वाले स्त्रोगण दूध घोर महीलं जानि वाले प्राणी हैं उन सभी के द्वारा यह धारण किया जाता है । न तो इस मन्त्रराज को कोई दीक्षा होती है—न होम होता है—न कोई सस्कार हो होता है घोर न संख्य द्रुपा करना है । इस मन्त्र वा कोई विशेष बाल भी नहीं होता है घोर न कोई उपदेश ही होता है । यह मन्त्र तो सदा ही धुनि रहा करता है ॥१५-२१॥

महापातकविच्छिद्यै शिवइत्यक्षरद्वयम् ।

अल नमस्किशायुक्तो मुक्तये पङ्किलयते ॥२२

उपदिष्ट सद्गुरुणा जप्तः श्रेष्ठे न पावने ।

नद्योपधेष्मि ॥ मिद्धि ददानीति किमदमुनम् ॥२३

अतः सद्गुरुमाधित्यं प्राह्योऽयं मन्त्रनायकः ।

पुण्यश्रेष्ठेषु जप्तव्यः मया मिद्धि प्रवच्छति ॥२४

गुरवो निर्मलाः सान्ता माधरो मितभाषिणः ।

नामकोपनिमुक्ताः सदावारा जितेन्द्रियाः ॥२५

एतेः कारुण्यतो दत्तो मन्त्रः क्षिप्रं प्रसिद्धयति ।
 क्षेत्राणि जपयोग्यानि समासात्कथयाम्यहम् ॥२६
 प्रयागं पुष्कर रम्यं केदारं सेतुबन्धनम् ।
 गोकर्णं नैमिपारण्यं सद्यः सिद्धिकरं नृणाम् ॥२७
 अत्रानुवर्ण्येते सद्भिरितिहासः पुरातनः ।
 असकृद्वा सकृद्वापि शृण्वता मङ्गलप्रदा ॥२८

महान् पातको के विच्छेद करने के लिये "शिव" ये दो प्रक्षर ही पर्याप्त होते हैं । और ये ही शिव दो प्रक्षर यदि नमस्क्रिया से युक्त हों अर्थात् 'नमः शिवाय' इन रूप में हो तो फिर यह मुक्ति के लिये परिकल्पित हो जाता है । यदि यह किमो सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट हो जावे और फिर किसी पावन क्षेत्र में इन का जाप किया जावे तो यही मन्त्र तुरन्त ही इच्छित सिद्धियों के प्रदान कर दिया करता है—इसमें कुछ भी मद्भुतता नहीं है । इसीलिये किमी सद्गुरु के समभ्रव प्राप्त करके इन मन्त्रों में शिरोमणि मन्त्र को चरण करना चाहिए । पुण्य क्षेत्र में हो इसका जाप करना चाहिए जिससे यह मन्त्र तुरन्त ही सिद्धि को प्रदान किया करता है । जो गुरु वृन्द निर्मल—परममान्त—साधुवृत्ति धारि मितभाषण करने वाले—काम, क्रोध से विशेष रूप से निर्मुक्त-सदाचरण से सम्पन्न-इन्द्रियों को जीतने वाले हों । ऐसे गुरुगणों के द्वारा कथना के भाव से उपदेश किया हुआ मन्त्र शीघ्र ही सिद्धि देने वाला होता है । अब हम मन्त्रों के जाप करने के योग्य क्षेत्रों का बर्णन संक्षेप से करते हैं ॥२२-२६॥ प्रयाग-रम्यपुष्कर-केदार-सेतुबन्ध-गोकर्ण-नैमिपारण्य ये क्षेत्र मनुष्यों को तुरन्त ही सिद्धि करने वाले होते हैं ॥२७॥ यहाँ पर एक परम पुरातन इतिहास सत्पुरुषों के द्वारा वर्णित किया जाता है । इसको अनेक बार या एकबार ही ध्वज करने वानो जो यह मङ्गल प्रदान करने वाला होता है ॥२८॥

मथुरायां यदुश्रेष्ठो दासाहं इति विश्रुतः ।

यभूय राजा भर्तृमान्महोत्साहो महाबला ॥२९

शास्त्रज्ञो नयवाच्छूरोर्धैर्यवानमितिद्युतिः ।

अप्रधृष्य सुगम्भीरः सग्रामेष्वनिवर्तितः ॥३०॥

महारथो, महेष्वासो, नानाशास्त्रार्थकोविदः ।

वदान्यो, रूपसम्पन्नो युवा लक्षण सयुतः ॥३१॥

स काशिराजतनयामुपयेगे, वराननाम् ।

कान्ता कलावतीना रूपशीलगुणान्विताम् ॥३२॥

कृतोद्वाह स, राजेन्द्र सप्राप्य निजमन्दिरम् ।

राश्री, ता शयनारूढा सङ्गमाय समाह्वयत् ॥३३॥

सा स्व भर्त्रा समाहूता बहुश प्राथिता सती ।

नवबन्ध मनस्तस्मिन्नचागच्छत्तदस्त्रिकम् ॥३४॥

सङ्गमाय यदा हूता नागता निजवत्सभा ।

बलादाहर्तुं कामस्तामुदतिष्ठन्महीपतिः ॥३५॥

मयुरा मे यदुषी मे श्रेष्ठ दाशार्हं विश्रुत था । यह महान् बल ग्रीर उत्साह बाना बहुत ही मतिमान् राजा हुआ था । यह राजा शास्त्री का ज्ञाता, नीति जानने वाला अति धुरवीर अभितयुक्ति से सम्पन्न-धैर्य वाला प्रथमं न करने के योग्य, परम गम्भीर और सग्रामी मे लौटकर न जाने वाला था । यह महारथो—महान् धनुषगारो और नाना शास्त्रो के धर्मो का कोविद था । यह भूपति परम दानशील रूप लावण्य से युक्त युवा और सभी मुरदलों मे सम्पन्न था । उस राजा ने श्रेष्ठ सुन्दर मुल वाली काशिराज की पुत्री क माय विवाह किया था । यह अत्यन्त कान्त और रूप तथा शील एव गुणा से अन्विता थी ग्रीर इसका नाम कलावती था । विवाह करी वह राजेन्द्र अपने मन्दिर मे प्राप्त हो गया था । रात्रि मे शयन मे समाह्वय हुई उसकी राजा ने सङ्गम करने के लिये अपने समीप बुलाया था । वह अपने स्वामी के द्वारा बुलाई भी गयी और बहुत बार उस से प्रार्थना भी की गयी थी किन्तु उसने उस सङ्गम करने क लिये अपने मन की इच्छा नहीं की थी और वह उस राजा के समीप मे भी नहीं गयी थी । जब सङ्गम करने के लिये समाह्वन होने पर भी अपनी वत्सभा को न समागत देखा तो उसको बलपूर्वक अपने

समीप मे लाने की इच्छा वाला वह राजा स्वयं ही उठकर लड़ा हो गया था ॥२६-२९॥

मा मा स्पृश महाराज ! कारणज्ञां व्रतेऽस्थिताम् ।
 धर्माधर्मो विजानासि मा कार्पीः साहस मयिः ॥२६
 यदाचित्प्रियेण मुङ्क्तं यद्वोचते तु मनीषिणाम् ।
 दम्पत्योः प्रीतियोगेन सङ्गमः प्रीतिवर्द्धनः ॥२७
 प्रियं यदा मे जायेत तदा सङ्गस्तु ते मयि ।
 का प्रीतिः किं सुखं पुंसां बलाद्भोगेन योषिताम् ॥२८
 जप्रीतां रोगिणो नारीमन्तर्वन्तो धृतप्रताम् ।
 रजस्वलाभकामाञ्च न कामेत बलात्पुमान् ॥२९
 प्रीणनं लालनं पोषं रञ्जनं मार्दवं दयाम् ।
 कृत्वा बधूमुपगमेद्युवतीप्रमदान्पतिः ।
 युवती कुसुमे चैव विधेयं सुरमिच्छता ॥३०
 हृत्युक्तोऽपितयासाध्यसासराजास्मरविह्वलः ।
 बलादावृष्यतां हस्तेपरिरेभेरिरंशया ॥३१

राजी ने कहा—हे महाराज ! आप मेरा स्पर्श न कीजिए क्योंकि मैं कारण को जानने वाला हूँ और शत मे इस समय में समाप्ति है । आप ही स्वयं ही विज्ञ हैं और धर्म तथा अधर्म को भली भाँति जानते हैं । मेरे विषय में हम समय आप साहस न करिये ॥२६॥ मनीषियों को जो भ्रष्टा सगा है वहीं पर प्रिय के द्वारा भोग किया गया है । दम्पती का प्रीति के योग से जो सङ्गम होता है वही प्रीति का बंधन करने वाला हुआ करता है । विग समय में धुके विष लगेगा उसी समय में मुझसे घावका संभव होगा । यत्पूर्वक स्त्रियों के उपभोग करने में पुण्य की क्या तो मुझ प्राप्त होगा और दंभों में प्रीति ही होगी ॥३१-३८॥ पुरुष को चाहिए कि जो भी रक्षित हो, रोगिनो हो, गर्भवती हो उस कारण करने वाली हो, रक्षणा हो और काम की मागना में रक्षित हो ऐसी सभी को यत्पूर्वक संभव करने की इच्छा न करे ॥३९॥ प्रेम करते पति को चाहिए कि भार्या का भली-भाँति

प्रीणन, सादन, षोषण, रञ्जन, मादंभ और दया की भावना करके ही युवती यून के साथ उपगम करे । मृग की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि युवती में और कुमुद में ऐसा ही व्यवहार करे । इस प्रकार से उस साध्वी के द्वारा बहुत कुछ कहे जाने पर भी काम से विह्वल उस राजा ने रमण करने की इच्छा से बलपूर्वक उसको अपने समीप में हाथों से लीचपर परिवर्तण किया था । जैसे ही उस का स्पर्श ही केवल उसने किया था कि देखा कि वह सहसातप हुए लोहे के पिण्ड के समान थी और अपने धापरो मानो जल-सी रही थी । राजा ने भय से विह्वल हो कर गुरन्त ही उसका त्याग कर दिया था ॥४०-४१॥

तांस्पृष्टमात्रांसहसातप्तायः पिण्ड तन्निभाम् ।

निदेहन्तोमिवात्मानं तत्याज भयविह्वलः ॥४२

अहो मुमहदाश्चर्यमिदं दृष्टं तव प्रिये ।

कथमग्निममं जातं वपुः पल्लवकोमलम् ॥४३

इत्यं मुविस्मतो राजा भीतः सा राजयत्नना ।

प्रत्युधाच विहर्म्यनं विनयेन शुचिस्मृता ॥४४

राजग्ममपुरा घाल्ये दुर्वासा मुनिवृत्तयः ।

शंयी पञ्चाक्षरी चित्तां कारुण्येनोर्षदिश्यान् ॥४५

तेन मन्त्रानुभायेन ममांगं बलुपीज्जितम् ।

स्प्रष्टुं न शक्यतेपुम्भिः मपापेदवर्जिततः ॥४६

एषा राजप्रकृतिनामुत्तटागणिकादयः ।

मदिरास्वादनिरता निषेध्यन्ते मदास्त्रिया ॥४७

न स्नानं क्रियते नित्यं न मन्त्रो जप्यते शुनिः ।

नाराध्यते स्वदेशानः कथं मांस्प्रष्टुमहंसि ॥४८

तां नमादयाहि मुधोनि ! शंयी पञ्चाक्षरी शुभाम् ।

विद्याविश्वस्तपापोऽहं स्वयोच्छामि रति प्रिये ॥४९

राजा ने कहा—हे प्रिये ! मैंने आज मुमहदा अपरा यह आश्चर्य

देखा है । आन्वा पर पञ्चाक्ष के मन्त्रान्तरम कोमल करीर ऐसा अग्नि के समान बंते हुए कल्प हो गया है ? एक तरह से वह राजा बहू हो

विस्मिता हो गया था और भयभीत हो गया था । वह राज बल्लभा हंस
 वर शुचि स्मित वाली विनय के साथ इससे प्रति उत्तर देने लगी
 ॥४३-४४॥ राज्ञी ने कहा—हे राजन् ! मैंने मेरे वचन में ही मुनिगो
 में श्री प्रदुर्धासाजी ने कष्टना करके पञ्चाक्षरी शैवी विद्या का मुझे उपदेश
 दिया था । उस मंत्र के ही अनुभाव से यहाँ मेरा अग कन्या से परित्यक्त
 हो गया है । इस मेरे अग की पापों से युक्त पुरुषों के द्वारा जो कि अन्न
 अर्जित है स्पर्श नहीं किया जा सकता है । हे राजन् ! आपने प्रकृति से
 ही कुलटा और शशिका आदि का उपभोग किया है और सदा ही
 मदिरा के समास्वादन में आप निरत रहते हैं । नि तो आप नित्य स्नान
 ही करते हैं और न किमी पवित्र होकर आप के द्वारा मन्त्र का जाप ही
 किया जाता है । आप कभी ईशान प्रभु का समराधन भी नहीं किया
 करते हैं तो आप ऐसे समावर्णों वाले हीकर मुझे स्पर्श करने के धाम्य
 कैसे हो सकते हैं ? राज्ञी ने कहा—हे सुश्री ! आप अथवा मुझे वह
 परम शुभ शैवी पञ्चाक्षरी विद्या प्रोक्तोद्धये । हे प्रिये ! विद्या के द्वारा
 विध्वंस पापों वाता होकर मैं आप के माथ रमण करने की इच्छा
 करता हूँ ॥४५-४६॥

नाह तवोपदेश वै कुर्यामम गुरुभवान् ।

उपातिष्ठ गुरुराजगर्ग पन्तैर्विदावरम् ॥४०॥

इति सम्भाषमाणौ । तौ दम्पनी गर्गमन्निविम् ।

प्राप्य तच्चरणौ मूर्च्छन् वचन्दी ते वृत्ताञ्जली ॥४१॥

अथ राजागुरु प्रीतमभिपूज्य पुन पुन ।

समाचष्ट विनीतस्मिा रहस्यात्ममनीरयम् ॥४२॥

वृत्तार्थं मा कुर गुरो सप्राप्त करुणाद्रंवी ॥

शैवी पञ्चाक्षरी विद्यामुपदेष्टु त्वमर्हसि ॥४३॥

अनाशात यदाज्ञति यत्कृत राजकमणा ।

१ तरपाप येन शुच्येत तन्मन्त्र देहि मे गुरो ॥४४॥

२ एवमभ्यर्थितो राजा गर्गो ब्राह्मणपुङ्गव ।

तौ निनायमहापुण्य यालिन्धास्तटमुत्तमम् ॥४५॥

सत्र पुण्यतरोर्मूले निपण्णोऽथ गुरुः स्वयम् ।

पुण्यतीर्थजले स्नातं राजानं समुपोषितम् ॥५६

प्राङ्मुखं चोपवेश्याथ नत्वा शिवपदाम्बुजम् ।

तन्मस्तके करं न्यस्थ ददौ मन्त्रं शिवात्मकम् ॥५७

राज्ञो ने कहा—मैं आपको उपदेश नहीं करूँगी, आप मेरे गुरु हैं । मन्त्रवेत्ताओ भी शरिष्ठ गगं मुनि गुरु के समीप मे उपस्थित होइये । सूत जी ने कहा—इस प्रकार से परस्पर मे सम्भाषण करते हुए वे दम्पती गगं मुनि के समीप मे प्राप्त हुए थे । वहाँ पहुँचकर दोनों ने हाथ जोड़ कर उनके चरणो मे शिर के बल प्रणाम किया था । इसके अनन्तर राजा ने परम प्रसन्न हुए गुरुदेव की वारम्बार पूजा करके अत्यन्त विनीत भाव वाला होकर उसने एकान्त मे अपना मनोरप उनसे कहा था । राजा ने कहा—हे गुरुदेव ! आप तो करुणा से युक्त बुद्धि वाले हैं । आपकी सेवा मे सम्प्राप्त हुए मुझको कृतार्थ कीजिए । आप मुझे पञ्चाक्षरी शंवी विद्या का उपदेश करने के योग्य हैं । हे गुरुवर्य ! राजकर्म से मैंने बिना जाना हुआ तथा ज्ञात भी जो भी कुछ पाप किया है वह जिसके भी द्वारा शुद्ध हो जावे वही मन्त्र का उपदेश अब मुझे आप कर दीजिये । इस प्रकार से राजा के द्वारा प्रार्थना किये गये ब्राह्मणों मे परम धष्ठ गगं मुनि उन दोनों की महापुण्यमय कालिन्दी के उत्तम तट पर ले गये थे । वहाँ पर पुण्य तरु के मूल मे गुरु स्वय बँठ गये थे, और उस राजा के मस्तक पर अर्पण कर कमल रखकर उस शिव स्वरूप मन्त्र को उसका दे दिया था ॥५०-५७॥

तन्मन्त्रधारणादेव तद्गुरोर्हस्तसंगमात् ।

निर्ययुस्तस्य वपुषो वायसाः शनकोटयः ॥५८

ते दग्धपक्षाः कोशंतो निपतन्तो महीतले ।

भस्मीभूतास्ततः सर्वे दृश्यन्तेस्मसहस्रशः ॥५९

दृष्ट्वा तद्द्वायसकुलं दस्यमानं सुविस्मितौ ।

राजा च राजमहिषी तं गुरु पर्यपृच्छताम् ॥६०

भगवन्निदमाश्चर्यं कथं जातं शरीरतः ।
 वायसानां कुलं दृष्टं किमेतत्साधु भण्यताम् ॥६१
 राजन्भवसहस्रेषु भवता परिघावता ।
 सञ्चितानि दुरन्तानि सन्ति पापन्यनेकशः ॥६२
 तेषु जन्मसहस्रेषु यानि पुण्या निसन्ति ते ।
 तेषामाधिक्यतः क्वापि जायते पुण्ययोनिषु ॥६३

उस ही मन्त्र के धारण करने ही से और उनकी गुरुदेव के ज्ञापन के संगम से ही उसने शरीर से सँकड़ों करोड़ कौए निकले थे । वे जले हुए पंखों वाले चीखते हुए तथा भूमि के तल में निपतित होते हुए सहस्रो ही भस्मी भूत होगये थे ऐसे दिखलाई दिये थे । उस घायलों के समूह को दग्धोद्भूत हुआ देखकर वे दोनों ही परम विस्मित हुए थे । तथा राजा और राज्ञी दोनों ने ही उन श्री गुरुदेव से पूछा था—हे भगवन् ! यह परम आश्चर्य इस शरीर से कैसे हुआ है जो कि यह कौओं का समुदाय इस शरीर से समुत्पन्न हुआ, यह क्या मामला है, कृपया इसे ध्याप भली भाँति बतलाइये । श्री गुरुदेव ने कहा—हे राजन् ! आपने अपने सहस्रो जन्मों में दौड़ लगाते हुए अनेक परम दुरन्त पाप सञ्चित किये थे । उन सहस्रों जन्मों में जो कुछ तुम्हारे पुण्य थे उनकी अधिकता से कहीं पुण्य योनियों में जन्म लेते हैं ॥५८-६३॥

तथा पापीयसी योनि ववचित्पापेन गच्छति ।
 साम्ये पुण्यान्ययोश्चैव मानुषी योनिमाप्तवान् ॥६४
 शैवी पञ्चाक्षरी विद्या यदा ते हृदयं गता ।
 अधानां कोटयस्त्वत्तः काकरूपेण निर्गता ॥६५
 कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागम्य कोटयः ।
 स्वर्णस्तेयसुरापानभ्रूणहत्यादिकोटयः ।
 भवकोटिसहस्रेषु येऽप्ये पातकराशयः ॥६६
 क्षणाद्भ्रूस्मीभवन्त्येव शंवेपञ्चाक्षरे धृते ।
 आसंस्तवाद्य राजेन्द्र ! दग्धाः पातककोटयः ॥६७
 अनया सह पूतात्मा विहरस्व यथामुग्धम् ।

इत्याभाष्य मुनिश्चेष्टस्तंमन्त्रमुपदिश्य च ॥६८

ताभ्यां विस्मितचित्ताभ्या सहितः स्वगृहं गयो ।

गुरुवर्यमनुज्ञाप्य मुदितो तो च दम्पती ॥६९

ततः स्वभवनं प्राप्यरेजतु.रम महाद्युती ।

राजादृढं समाश्लिष्य पत्नी चन्दनशीतलाम् ॥७०

सतोष परमं लेभे नि स्वाः प्राप्य यथा धनम् ॥७१

अशेषवेदोपनिपत्पुराण शास्त्रावतंसोऽयमघान्तकारी ।

पञ्चाक्षरस्यैवमहाप्रभावोमयासमासस्कथितोऽरिष्टः ॥७२

तथा कही पर पाप से पापीयमी योनि कां जाते ही जत्र पाप और पुण्य दोनों ही समान अवस्था मे प्राप्त हुए हैं तभी आपने इस मानुषी योनि को प्राप्त किया है ॥६४॥ वही पञ्चाक्षरी विद्या जिस समय मे आपके हृदय मे पहुची तो तुम्हारे जो करोडो पाप थे वे सब अब आपके दारीर से धायसी के रूप मे निबले पड़े हैं । इनमे करोडो ही तो प्रह्य हत्या का पाप है और करोडो ही अगम्य स्थियो मे गगन करने के पाप है, स्वर्ग की चोरी, मदिरा-पान, हत्या आदि के भी करोडो पापों के समूह सब पचाक्षरी मन्त्र के धारण करते ही क्षण भर मे भस्मीभूत हो गये । हे राजन् ! आपके करोडो पातको के समुदाय दग्ग होगये । अब आप परम पवित्र हो गये है । आप अपनी इस भार्या के साथ सुखपूर्वक विहार कीजिए । यह कह कर उस श्रेष्ठ मुनि ने उस मन्त्र का उपदेश दिया । फिर विस्मित चित्त वाले इन दम्पति के साथ अपने गृह को ये चले गये । वे दम्पति भी गुरुदेव को अनुज्ञा प्राप्त कर परम प्रसन्न हो गये । फिर वे दोनों अपने अपने भवन मे समागत होकर महान् द्युति और शोभा से सम्पन्न हुए । राजा ने फिर उस चन्दन के समान शीतल अपनी पत्नी का भलो भाति आनिगन किया । उसे परम संतोष हो गया, जैसे कोई दरिद्र धन को पाकर मट्टान् सतुष्ट हो जाता है । यह पचाक्षरी महामन्त्र का महान् प्रभाव है, जो सम्पूर्ण दोषों के नाश के लिए उपनिपद तुल्य अरिष्ट है,सववेद,शास्त्र, पुराणों का भूषण रूप एव विपत्तियों का अन्त करने वाला है इस अरिष्ट उपाख्यान को मैंने संक्षेप मे कहा है।६४-७२।

स्कन्द पुराण

काशी खण्ड

४७—तीर्थाध्याय वर्णन

शृगुसूत महाभाग कर्थाथु तिसहोदराम् ।
या वं हृदिनिधायेह पुरुषः पुरुषार्थभाक् ॥१
ततः श्रीदर्शनानन्दसुधाधाराधुनी मुनिः ।
अवगाह्य सपत्नीकः पराम्दमवाप सः ॥२
बह्लिकुण्डसमुद्भूत! सूतनिमंलमानस ।
शृणुष्वकं पुराविदिग्भाषितं यत्सुभाषितम् ॥३
परोपकरणं येषां जागतिहृदये सताम् ।
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदःस्युः पदे पदे ॥४
तीर्थस्नाननता द्युद्धिबहुनार्ननं तत्फलम् ।
तपोभिरुग्रं स्तन्नाप्यमुपकृत्या यदाप्यते ॥५
परोपकृत्यायोधर्मोधर्मोदानादिसम्भवः ।
एकत्रतुलितौ धाना तत्रपूर्वोऽभवद्गुरुः ॥६
परिनिमंथ्य वाग्जाल निर्णीतमिदमेव हि ।
नोपकारात्परो धर्मो नापकारादध परम् ॥७

महामुनि श्री पाराशर्य जी ने कहा—हे सुत सूत ! आप तो परम महान् भाग वाले हैं । अब श्रुति की ही सहोदर एक कथा का श्रवण करो जिसको हृदय में धारण करके पुरुष इस ससार में परमात्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया करता है । इसके उपरान्त यह मुनि अपनी पत्नी के सहित श्री दर्शन के आनन्द सुधा की धारा धुनि में चरके परम मुद को प्राप्त हुए थे ॥१-२॥ हे बन्धि ! कुण्ड से

समुपन्न होने वाले । धर्मका मन परम निर्मल है । हे सूत । पुरा वेत्ताओं के द्वारा भाषित एक जो सुभाषित है उसका आश्रयण कीजिए । जिन सत्पुरुषों के हृदय में परायणों के उपकार करने का भाव सदा जागृत रहता है उनके विपदायें नष्ट हो जाया करती हैं और उनको पद-पद में सम्पदायें उपस्थित रहा करती हैं ॥३-४॥ अनेक तीर्थों का स्नान करने से वह उस प्रकार की बुद्धि सम्पुत्पन्न नहीं होती है और बहुत से धर्मों से भी वैसी बुद्धि नहीं हुआ करती है और न ऐसा फल ही प्राप्त होता है । परम तप से भी वह प्राप्त नहीं होता जो दूसरा के उपकार क करने से प्राप्त किया जाया करता है । परायणों के उपकार से जो धर्म होता है वह धर्म और दानादि अन्य मुक्तियों से सम्पुत्पन्न होने वाला धर्म इन दोनों की धाता ने एक ही स्थान में रखकर तोला था तो इन दोनों में उपकार से होने वाला धर्म ही गुरु हुआ था । इसलिये समस्त वाणियों के जाल का परिम-पन करके यही निणय किया गया है कि परोपकार से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों के उपकार करने से अधिक कोई भी अन्य महान् धर्म नहीं होता है ॥५-७॥

उपकतु रगस्त्यस्यजातमेनश्चिदशनम् ।

क्यताहृक्काशिजदु ख क्वताहृक्श्रीमुखेक्षणम् ॥८

वरिकर्णाग्रचपलञ्जीवितविविधवसु ।

तस्मात्परोपकरणकायमेक विपश्चिना ॥९

यल्लक्ष्मीनाममात्राप्या नरो ना माति कुनचिद् ।

साक्षात्समीक्ष्य ता लक्ष्मी वृतकृत्योभग्नमुनिः ॥१०

गच्छन् यदृच्छयासोथदूराच्छ्रीशं लमक्षत ।

पत्रसाक्षान्निवसतिदेव श्रीनिपुरान्तक ॥११

उवाच वचन पत्नीतदाप्रोतमनामुनि ।

इहस्थितैवपश्य त्व वान्तेकान्तनर परम् ॥१२

श्रीशैलशिखरश्रीमदिदन्तद्यद्विलोचनात् ।

पुनर्भवोमनुष्याणाभवेऽनभवेत्कश्चित् ॥१३

गिरिश्रतुरशीत्यायं योजनानं हि विस्तृतः ।

सर्वलिङ्गमयो यस्मादतः कुर्यात्प्रदक्षिणम् ॥१४

उपकार करने वाले महामुनि अगस्त्य जो का यह निदर्शन हो गया है । उम जैसा काशिश्र दुःख कहाँ है और वैसा धी भुख का ईक्षण कहाँ है ? हाथी के कान के अग्रभाग के समान चपल यह जीवित और धन है । इसलिये विद्वान् पुरुष को एक परायो का उपकार करना चाहिए । जो लक्ष्मी के नाम मात्र की प्राप्ति से मनुष्य कहीं पर भी नहीं समाता है, वह मुनि साक्षात् उस लक्ष्मी का समीक्षण करके कृत कृत्य हो गये थे । गमन करते हुए उसने सद्दृष्ट्या से दूर से ही उस शैल को देखा था जहाँ पर श्री त्रिपुरान्तक देव साक्षात् निवास किया करते हैं । उस समय मे प्रीतिपूर्ण मन वाले मुनि अपनी परनी से यह वचन बोले थे—यही पर स्थिति होती हुई आप काल मे परम कालान्तर को देखो । यही धी शैल का वह शिखर है जो धी वाला है और जिसके विलोकन करने से इस ससार में मनुष्यो का पुनर्जन्म कभी भी कहीं पर नहीं होता है । यह गिरि शौरासी योजनो के विस्तार वाला है । यह सर्व लिङ्गमय है इसीलिए इस को प्रदक्षिणा करनी चाहिये ॥८-१४॥

किञ्चिद्विजप्तुमिच्छामि यद्याज्ञा स्वामिनो भवेत् ।

ब्रूते हि याऽननुज्ञाता पत्या सा पतिता भवेत् ॥१५

फियक्तुकामादेवि ! ब्रूहितत्वमशङ्कता ।

न त्वाद्दृशीनावाक्यहिपत्यु. खेदायजायते ॥१६

तत. पप्रच्छ सा देवी प्रणम्य मुनिमानता ।

सर्वेषाञ्च हिनार्थाय स्वसन्देहापनुत्तये ॥१७

श्रीशैलशिखरं दृष्ट्वा पुनर्जन्मनविद्यते ।

इदमेव हि सत्यञ्चेत्किमथ काशिरिष्यते ॥१८

आकर्ण्य वरारोहे! सत्यं पृष्ट त्वयामले !

निर्णीतमसकृच्चैतन्मुनिभिस्तत्त्वचिन्तकैः ॥१९

मुक्तिस्थानान्यनेकानि कृतस्तथापि निर्णयः ।

तानि ते कथयाम्यथ दत्तचित्ता भव क्षणम् ॥२०

लोपामुद्रा ने कहा—मैं कुछ जानने की इच्छा करती हूँ यदि स्वामी की आज्ञा मुझे प्राप्त हो जावे। जो पति की आज्ञा न प्राप्त करके ही बोलती है वह नारी पतित हो जाया करती है ॥११५॥ अगस्त्य मुनि ने कहा—हे देवि ! आप क्या बोलने की इच्छा वाली हैं ? आप निःशङ्कित होकर ही तत्त्व को बोलिये। आप जैसी पत्नियों का वचन कभी भी पति को खेद करने वाला नहीं हुआ करता है। इसके पश्चात् परम विनय होकर उस देवी ने मुनि को सर्व प्रथम प्रणाम किया था और फिर पूछा था जो कि सभी के हित के लिये था और अपने हृदय में स्थित सन्देह को दूर करने के लिए भी था। लोपामुद्रा ने कहा—श्री शैल शिखर का दर्शन करके पुनर्जन्म नहीं होता है—यही बात यदि सत्य है तो फिर काशि को किसलिये चाहा जाया करता है ? अगस्त्य मुनि ने कहा—हे अमले—हे वरारोहे ! आपने सत्य ही पूछा है तो अब ध्वनि करो—तत्त्वों के ज्ञाता मुनिगण ने इसका कितनी ही बार निर्णय किया है कि मुक्ति के तो अनेक स्थान हैं। जसमें भी निर्णय किया गया है। उनको मैं यहाँ पर कहता हूँ। आप धनु भर के लिये दत्त चित्त (सावधान) हो जाओ ॥१६-२०॥

प्रथम तीर्थं राजन्तुप्रयागाख्यसुविश्रुतम् ।
 कामिकसर्वतीर्थानाधर्मकामार्थं मोक्षदम् ॥२॥
 त्रिमिपञ्च कुरुक्षेत्रं गङ्गाद्वारमवन्तिका ।
 क्षयोध्या मथुरा चंब द्वारकाप्यमरावती ॥२२॥
 सरस्वतीसिन्धुमङ्गो गङ्गासागरसङ्गमः ।
 कान्तीचञ्चम्बकञ्चापिसप्तगोदावरीतटम् ॥२३॥
 कालञ्जरं प्रभासञ्च तथा चदरिकाश्रमः ।
 महालयस्तथोद्धारक्षेत्रं वैपीरूपोत्तमम् ॥२४॥
 गोकर्णोभृगुकच्छश्च भृगुतुङ्गश्चपुष्करम् ।
 श्रीपर्वतादितोर्थानिघारातीर्थं तथैव च ॥२५॥
 मानसान्यपितीर्थानिसत्यादीनिचर्वप्रिये ।
 एतानिमुक्तिदान्येवनाश्रकार्याविचारणा ॥२६॥

गयातीर्थञ्च यत्प्रोक्त तत्पितृणा हि मुक्तिदम् ।

पितामहानामृणतो मुक्तास्तत्तनया अपि ॥२७

सबसे प्रथम तीर्थों का राजा प्रयाग नाम वाला बहुत प्रसिद्ध है । यह सब तीर्थों का कामिक है अर्थात् चाहने वाला है एव समस्त तीर्थों को इच्छायें पूरा करने वाला है तथा धर्मार्थ काय और मोक्ष का प्रदान करने वाला है । अब अन्य विजेय तीर्थों के नामों का विवरण दिया जाता है जो मुक्ति के प्रदाना हैं—नैमिष—कुरुक्षेत्र—गङ्गा द्वार—अवतिका—अयोध्या—मथुरा—द्वारका—अमरावती—सरस्वती—सिंधुसङ्ग—गङ्गा सागर—सागर—काशी—अम्बरक—सप्त गोदावरी तट, कालजर—प्रभाम—बदरिकाश्रम—महालय—योद्धार क्षेत्र—पौरुषोत्तम क्षेत्र—गोकुल—भृगुकच्छ—भृगुतुंग—पुष्कर—श्री, पर्वत, घ्राव तीर्थ—धारा तीर्थ—मानस आदि तीर्थ—हे प्रिये ! सत्यादि तीर्थ—ये सभी तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं—इस विषय में तनिक भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । गया तीर्थ जो कहा गया है वह उसके पितृगणों को ही मुक्ति का देने वाला होता है । उनके पुत्र भी महान पितामहों के ऋण से मुक्त हो जाया करते हैं ॥२१-२७॥

मानसान्यपितोर्थानियान्युक्तानिमहामते ।

कानिकानिचतानीहृष्टे तदास्थातुमर्हसि ॥२८

शृणुतीर्थानिगदतोमानसानिममानये ।

येषुनम्यङ् नर स्नात्वाप्रयातिपरमागतिम् ॥२९

सत्य तीर्थं क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिग्रह ।

सर्वभूतदयातीर्थ तीर्थमाजबमेवच ॥३०

दानतीर्थं दमस्तीर्थं सन्तोषस्तीर्थमुच्यते ।

ब्रह्मचर्यं परतीर्थं तीर्थं चप्रियवादिता ॥३१

ज्ञानतीर्थं धृतिस्तीर्थं तपस्तीर्थं मुदाहृतम् ।

तीर्थानामपि ततोर्थं विशुद्धिर्मनस परा ॥३२

न जलाप्लुतदेहस्यस्नानमित्थमिचोयते ।

सरनातोपोदमस्नात शुचि शुद्धमनोमल ॥३३

यो लुब्धः पिशुनः क्रूरोदाम्भिवोविपयात्मकः ।

सर्वतीर्थेष्वपि स्नात पापो मलिन एवमः ॥३४

सर्वमिणी ने कहा—हे महामते ! मानस तीर्थ भी आपने जो बतलाए हैं वे कौन-कौन यहाँ पर से होते हैं—यह भी कृपा करके मुझे बतलाने के योग्य हैं ? महामुनि अगस्त्यजी ने कहा—हे भन्धे ! बोलने वाले मुझसे आप उन मानस तीर्थों का भी श्रवण कर लीजिए जिनमें मनुष्य स्नान करके परमोत्तम गति को प्रयाण किया करता है । एक तो मानस तीर्थों में सत्य तीर्थ है—दूमरा क्षमा तीर्थ है और ममस्त इन्द्रियो का निग्रह कर लेना यह भी एक महान् मानस तीर्थ है । मम प्राणियों पर दया का भाव मदा रखना तीर्थ है और सर्वदा कुटिलता रहित सोधापन (सरलता) रखना यह भी मानस तीर्थ होता है । दान तीर्थ है—दम (दमन करना) तीर्थ है और सदा मन में दूरुनया सतत्व की भावना को स्थिर भाव से रखना भी मानस तीर्थ कहा जाता है । पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को धारण रखना ममसे परम तीर्थ होता है पाठों प्रवार्गों से ब्रह्मचर्य के धारण करने का ही नाम ब्रह्मचर्य है केवल स्त्री से साक्षात् सगम ही नहीं करना ब्रह्मचर्य का परिपालन नहीं होता है । सत्य के साथ मदा प्रिय भाषण करना भी एक मानस तीर्थ होता है । ज्ञान रचना तीर्थ है—धैर्य रखना भी तीर्थ है और तपश्चर्या करना भी मानस तीर्थ होता है । इन समस्त बतलाये मानस तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ एवं प्रमुख तीर्थ मन की शुद्धता है । केवल जन में कुब्रियाँ लगाने वाले देह का स्नान नहीं कहा जाता करता वास्तव में वही स्नान किया हुआ है जो दमन से स्नान किया हुआ है और जिसके मन का मन शुद्ध है वही शुचि होता है । जो मुख्य अर्थात् लोभ से परिरूपण है—विशुद्ध अर्थात् पोथ पोछे दूमरो की चुराई करने वाला या चुगनी बरन वाला है—जो क्रूर अर्थात् घस्यन्त पठोर निर्दयी है—जो दाम्भिक अर्थात् कायरपूर्ण दिखावा करने वाला है और जो विषयों में डूबा हुआ है वह भन्धे ही सभी तीर्थों में कथो न स्नान किया हुआ हो वह फिर भी महान् पापी है और मलिन ही रहा करता है ॥२८-३४॥

न शरीरमलत्यागाग्ररो भवतिनिर्मलः ।
 मानसे तु मले त्यक्ते भवत्यन्तः मुनिर्मलः ॥३५
 जायन्ते च भ्रियन्ते च जलेष्वेव जलोत्सवाः ।
 न च गच्छन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमलाः ॥३६
 विगयेष्वतिसंरागो मानसो मल उच्यते ।
 तेष्वेव हि विरागोऽप्यनेर्मत्स्यं समुदाहृतम् ॥३७
 चित्तमन्तर्गतं द्रष्टं तीर्थं स्नानान्न शुद्ध्यति ।
 शतशो यजलं घातं सुराभाण्डमिवाशुचिः ॥३८
 दानमिच्छया तपः शौचं तीर्थं सेवाश्रुतं तथा ।
 सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥३९
 निगृहीतेन्द्रियप्रामोद्यत्रं च चवसेधरः ।
 तत्र तस्य कुरुक्षेत्रं नैमिषं पुष्कराणि च ॥४०
 ध्यानपूते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे ।
 यः स्नाति मानसे तीर्थे स याति परमां गतिम् ॥४१
 एतत्ते कथितं देवि ! मानसं तीर्थं लक्षणम् ।
 भौमानामपि तीर्थानि भूष्यत्वेकारणशृणु ॥४२

केवल शरीर के इस ऊपरी मल के त्याग कर देने से मनुष्य निर्मल या शुचि नहीं हो जाया करता है। मन में रहने वाले मल के त्याग देने पर ही मनुष्य अन्दर से मुनिर्मल हुआ करता है। जलधारी जीव जल ही में समुत्पन्न होते हैं, जीवन में वही रहना करते हैं और अन्त में उस ही में उनकी मृत्यु भी हुआ करती है किन्तु वे विशुद्ध मनोमल वाले न होने के कारण कभी स्वर्ग लोक में नहीं जाया करते हैं। प्रथम तो ये जलचर तिर्यक योनि वाले ज्ञान से ही शून्य होते हैं फिर भी शुचिता के स्वरूप की ये कुछ जान ही नहीं सकते हैं। मानस मल उसी को कहा जाता है जो सांसारिक विषयों में अर्थात् इन्द्रियों के विभिन्न विषयों में अर्ध्धी तरह से राग होता है। उन्हीं में विराग का होना मन की निर्मलता कही जाया करती है। यह अन्दर में छिपा रहने वाला चित्त प्रत्यन्त ही दुष्ट हुआ करता है। यह इस ऊपरी स्नान के कर लेने से कभी भी शुद्ध

नहीं हुआ करता है । सैकड़ों बार जल से जैसे मंदिरा का पाप धो भी लिया जावे तो भी वह पवित्र न होकर अशुचि ही रहा करता है ॥३५-३८॥ दान-इज्या-तप-शौच-तीर्थाटन-थुत ये सभी तीर्थ ही होते हैं किन्तु भाव की प्रगणता है । यदि भाव शुद्ध नहीं है तो इनका कोई फल नहीं है । जिसने घपनी समस्त इन्द्रियों को पूर्णतम जीतकर अपने काबू में कर लिया है वह जहाँ पर भी कहीं निवास करे उसके लिए वही स्थल परम पवित्र कुक्षेत्र-नैमिष और पुष्कर है अर्थात् तीर्थ है । जो ध्यान से पवित्र ज्ञान रूपी जल में जो राग-द्वेष के मल का प्रपहरण कर देने वाला है मनुष्य स्नान किया करता है जिसको कि मानस तीर्थ कहते हैं वह पुरुष परमोत्तम गति को प्राप्त किया करता है । हे देवि ! हमने आपके सामने यह मानस तीर्थ का समग्र लक्षण बतला दिया है । अब इन भूमि में रहने वाले तीर्थों का भी कारण सुन लो अर्थात् मानस तीर्थ ही सर्वोत्तम तीर्थ हैं तो इनकी रचना का क्या कारण है उसका भी अब ध्यान कर लो ॥३९-४२॥

यथा शरीरस्योद्देशाः केचिन्मेघ्यतमाः स्मृताः ।

तथापृथिव्यामुद्देशाः केचित्पुण्यतमाः स्मृताः ॥४३

प्रमाथादद्भुताद्भुतैः सलिलस्य च तेजसा ।

परिग्रहान्मुनीनाञ्चतीर्थानापुण्यनास्मृता ॥४४

तस्माद्भूमिषु तीर्थेषु मानसेषु च नित्यशः ।

उभयेष्वपि यः स्नातिसयाति परमागतिम् ॥४५

अनुषोढ्य त्रिरात्राणि तीर्थान्यनभिगम्य च ।

अदत्त्वा काञ्चनगाश्च दरिद्रो नाम जायते ॥४६

अग्निशोमादिभिर्यज्ञैरिष्ट्वा विपुलदक्षिणैः ।

न तत्फलमवाप्नोति तीर्थभिगमनेन यत् ॥४७

यस्य हस्ती च पादो व मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्यातपश्चकीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥४८

प्रतिग्रहादुपावृत्तः सन्नुष्टो येन केनचित् ।

अहस्कारविमुक्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥४९

जिम प्रकार से इस शरीर के कुछ उद्देग भ्रमात् माग परम पवित्र माने गये हैं । ठीक उसी भाँति से इस पृथ्वी के भी कुछ भाग परम पुण्य तम कहे गये हैं । इस भूमि के अद्भुत प्रभाव से—जल के विशेष तेज से घोर भुनि गणों के परिग्रहण करने से इन समस्त तीर्थों की पुण्यता बतलाई गई है । इसलिए भूमिगत तीर्थों का भी महत्त्व अवश्य ही होता है अतएव मानवों का कर्तव्य यह होना चाहिए कि इन भूमिगत तीर्थों में और साथ ही मानस तीर्थों में भी निरत ही दोनों में स्नान करना चाहिए । इन दोनों ही प्रकार के तीर्थों में जो स्नान किया करता है वही मानव परम गति को प्राप्त होता है । तीर्थों में पहुँचकर जो तीन रात्रि तक उपवास नहीं करता है तथा जहाँ पर जाकर सुप्राँ दाग एवं गोदान नहीं करता है वह पुरुष दरिद्र ही रहा करता है । अग्निष्टोम आदि यज्ञों से जिनमें बहुत अधिक बक्षिणा खी गई हो मनुष्य वह फल प्राप्त नहीं किया करता है जो तीर्थों के अभिगमन से फल होता है । जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन सुतंत होना हैं वह विद्या—तप—कीर्ति और तीर्थों का फल प्राप्त किया करता है । प्रतिग्रह से उपावृत्त होने वाला अर्थात् दान न लेने वाला और जो भी कुछ मिल जावे उसी से सन्तुष्ट रहने वाला तथा अहंकार से रहित होता है वह तीर्थाटन के फल को प्राप्त कर लिया करता है ॥४३-४६॥

अदम्भको निरारम्भोलम्बाहारोजितेन्द्रियः ।

विमुक्तःसर्वसंगैर्गः सर्तीर्थंफलमश्नुते ॥५०

अकोपनोऽमलमतिः सत्यवादीद्वढव्रतः ।

आत्मोपमश्चभूतेषु ॥ तीर्थंफलमश्नुते ॥५१

तीर्थान्यनुसरन् धीरः श्रद्धधानः समाहितः ।

कृतपापो विशुद्धयेत किंपुनः शुद्धकर्म कृत् ॥५२

तिर्यग्योनि न वै गच्छेत्कुदेशे नव जायते ।

न दुःखी स्यात्स्वर्ग भाव्य मोक्षोपायञ्च विन्दति ॥५३

अश्रद्धधानः पापात्मानास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः ।

हेतुनिष्ठश्चपठचेतेनतीर्थंफलभागिनः ॥५४

तीर्थानिचयथोक्तैर्नविधिनासञ्चरन्ति ये ।

सर्वद्वन्द्वपहाधीरास्तेनराः स्वर्गभागिनः ॥५५

तीर्थयात्राञ्चिकीर्णुः प्राग्विधायोपोषणं गृहे ।

गणेशञ्च पितृन्विप्रान्साधुञ्चकत्या प्रपूज्य च ॥५६

दम्भ से रहित—बिना आरम्भ वाला—बहुत हल्का और कम आहार करने वाला—इन्द्रियो को जीतने वाला और सब प्रकार के सगों से जी विमुक्त रहने वाला है वह भी तीर्थोदन करने का फल प्राप्त कर लिया करता है । जो बिना क्रोध वाला निर्मल मति वाला—सत्य भाषण करने वाला—दृढ व्रत वाला और समस्त प्राणियों में अपनी ही आत्मा के समान भाव रखने वाला जो मनुष्य हुआ करता है वह तीर्थ करने का पूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर लिया करता है । तीर्थों का अनुसरण करता हुआ—धीरज वाला—धृष्टा से समन्वित एव परम समाहित जो मनुष्य होना है वह पापों के करने वाला भी विमुक्त हो जाता करता है और जो शुद्ध कर्मों के करने वाला होता है उसके विषय में तो कहा ही क्या जावे ॥५०-५२॥ ऐसा जीव कभी भी तीर्थक योनि में नहीं जाता करता है और कभी दुःख में भी उत्पन्न नहीं होता है । वह मनुष्य कभी दुःखित नहीं होता है तथा स्वर्ग लोक का भोक्ता एव मोक्ष प्राप्त करने का उपाय पाया करता है ॥५३॥ जो धृष्टा नहीं रखने वाला है तथा पापात्मा की और ईश्वर को सत्ता की तृप्ति मानने वाला नास्तिक—अधिकांश समय दिन नहीं हुआ ही और जो हेतु में ही निष्ठा रखने वाला हो ऐसे के पाप प्रकार के भादमी यों भी तीर्थों के फल के योग्य नहीं होते हैं । जो यथोक्त विधि से तीर्थों का पयटन किया करते हैं और सभी प्रकार के द्वन्द्वों के सहने वाले एव धीर होते हैं वे ही मनुष्य स्वर्ग के भागोदार हुआ करते हैं । जब जोई भी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा जाता हो तो पहिले उसकी घर में ही उपोषण करना चाहिए और बिम्ब विनायक भगवान् गणेश का पूजन कर तथा पितृगण, विप्र वृन्द और साधुओं का पूजनार्चन करना चाहिये ॥५४-५६॥

कृतपारणकोद्दृष्टो गच्छेन्नियमघृक्पुनः ।
 आगत्याभ्यर्च्यचपितृन्यथोक्तफलभाग्भवेत् ॥५७
 नपरीक्ष्योद्विजस्तीर्थेष्वन्नार्योभोज्यश्च ।
 सक्तुभिः पिण्डदानञ्च चरुणापायसेनच ॥५८
 कर्तव्यमृषिभिर्द्वैष्टपिण्याकेन गुडेन च ।
 थाद तत्र प्रकर्तव्यमर्घ्यावाहनवर्जितम् ॥५९
 अकालेष्वथवा काले तीर्थेष्वथादञ्च तर्पणम् ।
 अविलम्बेन कर्तव्यं नैव विघ्नं समाचरेत् ॥६०
 तीर्थं प्राप्य प्रसङ्गेन स्नानं तीर्थे समाचरेत् ।
 स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राश्रितं न च ॥६१
 नृणां पापकृतां तीर्थे पापस्य क्षमनं भवेत् ।
 यथोक्तफलदं तीर्थं भवेच्छ्रद्धात्मनां नृणाम् ॥६२
 षोडशाक्षं स लभते यः परार्यञ्च गच्छति ।
 अर्द्धं तीर्थं फलं तस्य यः प्रसङ्गेन गच्छति ॥६३

किये हुए उपवास का पारण करके नियमों को धारण कर परम
 हर्ष से सद्युत होकर फिर तीर्थ यात्रा को गमन करे । वहाँ से घाकर भी
 पुनः अपने पितृगण का अर्चन करे—सभी बह पुण्य फल का भागी हुआ
 करता है ॥५७॥ तीर्थों में कभी भी किसी द्विज की परीक्षा न करे । जो
 भी भ्रम का घर्षो हो उसको ही भोजन करा देना चाहिये । भोजन
 सलू से करावे तथा पिण्डदान भी सलू से करावे । और चरु एवं पायस
 के द्वारा करे । ऋषियों के द्वारा ॥ पिण्याक एवं गुड से करना चाहिए ।
 अर्घ्य और अवाहन से रहित वहाँ पर थाद भी करना चाहिए । काल
 हो अथवा अकाल ही में तीर्थ में थाद और तर्प अविलम्ब से हो कर
 देवे और कभी भी इधमें विघ्न न करे । प्रसङ्ग वशा भी यदि तीर्थ में प्राप्त
 हो जावे तो वहाँ पर स्नान का समाचरण अवश्य ही करे । यह मनुष्य
 वहाँ पर स्नान का फल तो अवश्य ही प्राप्त कर लेगा किन्तु उसे तीर्थ
 यात्रा करने का फल नहीं प्राप्त होगा ॥५८-६१॥ पापों के करने वाले
 मनुष्यों के तीर्थ में पापों का क्षमन हो जाया करता है । तीर्थ जिस प्रकार

से पुण्य-फल का प्रदान करने वाला होता है वह थड़ा घाले मनुष्यों को ही होना है ॥६२॥ जो कोई दूमरों के लिए ही तीर्थों में गमन किया करता है वह फल का सोलहवाँ अंश प्राप्त किया करता है । जो किसी अन्य कार्य के प्रसङ्ग से तीर्थ में पहुँच जाता है उसको तीर्थ यात्रा का आधा फल ही प्राप्त हुआ करता है ॥६३॥

कुशप्रतिकृतिं कृत्वा तीर्थ वारिणि मज्जयेत् ।
 मज्जयेच्च यमुद्दिश्य सोष्टमांशं लभेत वै ॥६४
 तीर्थोपवासः कर्तव्यः शिरसो मृण्डनं तथा ।
 शिरो गतानि पापानि यान्तिमुण्डनतोयतः ॥६५
 यदह्नितीर्थं प्राप्तिः स्यात्ततोहनः पूर्ववासरे ।
 उपवासस्तु कर्तव्यः प्राप्ताह्निं श्राद्धोभवेत् ॥६६
 तीर्थं प्रसगात्तीर्थागमप्युक्तं त्वत्पुरो मया ।
 स्वर्गमाधनमयैतन्मोक्षोपायश्च वै भवेत् ॥६७
 काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोद्या द्वारावत्यपि ।
 मयुरावन्तिका चैताः सप्तपुर्योऽसौ मोक्षदा ॥६८
 श्रीशैलो मोक्षदः सर्वः केदारोपि ततोऽधिकः ।
 श्रीशैलाच्चापि केदारात्प्रयागं मोक्षद परम् ॥६९
 प्रयागादपितीर्थाग्र्यादविमुक्तं विशिष्यते ।
 यथा विमुक्ते निर्वाणं न तथाक्वाप्य संशयम् ॥७०

कुशा की एक प्रतिकृति बनाकर तीर्थ के जल में मज्जित करा देवे । जिस उद्देश्य को लेकर उसका मज्जन करावे उसका अष्टमांश फल उसे प्राप्त हो जाया करता है । तीर्थ में जाकर उपवास अवश्य ही करे और वहाँ पर गुण्डन भी करावे । गुण्डन के जल से शिर में प्राप्त हुए समस्त पाप चले जाया करते हैं । जिस दिन में तीर्थ की प्राप्ति होवे उस दिन के प्रथम दिन में ही उपवास करना चाहिए और प्राप्त हो जाने वाले दिन में श्राद्ध देने वाला होवे । इस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मैंने आपके आगे तीर्थों के अङ्ग का भी वर्णन कर दिया है । यही स्वर्ग का साधन होता है और मोक्ष प्राप्त करने का भी उपाय है । काशी,

कान्ती (कान्ती), माया नामवाली (हरिद्वार), अयोध्या, द्वारवती (द्वारका), मथुरा, भवन्तिका (उज्जैन) ये सात पुरियाँ ऐसी हैं जो मोक्ष के प्रदान करने वाली होती हैं ॥६४-६८॥ श्री शैल सम्पूर्ण मोक्ष प्रदाता है । केदार गिरि उससे भी अधिक होता है । श्री शैल और केदार से भी परम मोक्ष का देने वाला प्रयाग हुआ करता है ॥६९॥ प्रयाग से भी अधिक जो कि समस्त तीर्थों में प्रथम है (उत्तम) होता है अविमुक्त तीर्थ हुआ करता है । जैसा इस अविमुक्त तीर्थ में निर्वाण होता है वैसे तो कहीं भी नहीं होता है—यह निःसन्देह है ॥७०॥

अन्यानि मुक्तिक्षेत्राणि काशीप्राप्तकराणि च ।

काशी प्राप्याऽपि मुच्येत नान्यथा तीर्थं कोटिभिः ॥७१॥

अथार्थं कथयिष्येहमितिहासं पुरातनम् ।

यथाविष्णुगणैरुक्तं द्विजाय शिवधर्मणे ॥७२॥

तीर्थाध्यायमिमं श्रुत्वा नरोनियतमानसः ।

थावयित्वा द्विजाश्चापि श्रद्धाभक्ति समन्विता ॥७३॥

क्षत्रियान्धर्मनिरतान्ब्रह्मसन्मार्गवर्तिनः ।

शूद्रान्द्विजेषु भक्तांश्च निष्पापो जायते द्विजः ॥७४॥

अन्य भी मुक्ति के क्षेत्र हैं और वे काशी के प्राप्त करा देने वाले होते हैं किन्तु काशी में तो प्राप्त होकर ही मानव मुक्त होनाया करता है अन्यथा करोड़ों तीर्थों से भी नहीं होता है ॥७१॥ इस विषय में हम एक परम पुरातन इतिहास आपको कहेंगे जैसा कि भगवान् विष्णु के गणों ने शिव धर्मा द्विज से कहा था । इस तीर्थाध्याय को मनुष्य नियत मन वाला होकर श्रवण करता है तथा द्विजों को इसका श्रवण कराना है जो कि सुनने वाले श्रद्धाभक्ति से युक्त हो एवं धर्म में विदित क्षत्रियों को तथा सन्मार्ग में रहने वाले ब्रह्मों को और द्विजों में भक्ति रखने वाले शूद्रों को मुनाता है वह द्विज निष्पन्न हो जाता करता है ॥७२-७४॥

४८—गायत्री महत्त्व वर्णन

गायत्रीमन्त्रतोयाढ्यं दत्तं येनाञ्जलित्रयम् ।
 काले सवित्रे किं न स्यात्तो न दत्तं जगत्त्रयम् ॥१
 किं किं न सवितासूते काले सम्यगुपासितः ।
 आयुरारोग्यमैश्वर्यं वसूनि स पशूनि च ॥२
 मित्रपुत्रकलत्राणि क्षेत्राणि विविधानि च ।
 भोगानष्टविधांश्चापि स्वर्गं चाप्यपवर्गकम् ॥३
 अष्टादशसुविद्यासु मीमांसातिगरीयसी ।
 ततोपितकशास्त्राणिपुराणे तेभ्य एव च ॥४
 ततोपि घर्मशास्त्राणितेभ्यो गुर्वाश्रुतिद्विज ! ।
 ततोप्युपनिषच्छ्रेष्ठा गायत्री च ततो धिका ॥५
 दुर्लभा सर्वमन्त्रेषु गायत्री प्रणवान्बिता ।
 न गायत्र्याधिकं किञ्चित्त्रयीषु पारगीयते ॥६
 न गायत्री समो मन्त्रो न काशीसदृशी पुरी ।
 न विश्वेशसमलिङ्गं सत्यं सत्यं पुनः पुनः ॥७

महा महर्षि धी ध्रगस्त्य जी ने कहा—गायत्री मन्त्र से संयुक्त तीन जल की अञ्जलियाँ जिस पुरुष ने भगवान् सविता के लिये समय पर समर्पित करदी हैं उसने क्या त्रिभुवन को नहीं दे डाला है ? तात्पर्य यह है कि उनमें सभी कुछ समर्पित कर दिया है । शास्त्र में बताये हुए समय पर भली भाँति उपासित सूर्यदेव क्या नहीं प्रदान किया करते हैं अपना सभी कुछ दे देते हैं । आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, पुत्र, कलत्र, विविध क्षेत्र, आठों प्रकार के भोग, स्वर्गलोक का निवास और अपवर्ग यह सभी प्राप्त होते हैं ॥१-३॥ अटारह विद्याओं में मीमांसा विद्या अत्यन्त बड़ी है । इस से भी अधिक गुरु तर्क शास्त्र हैं । उनसे भी अधिक पुराण हैं और उन से भी अधिक घर्म शास्त्र होते हैं और इनसे अधिक गुरु श्रुति है । हे द्विज ! श्रुतियों से भी अधिक गुरु उपनिषद् हैं और इनमें भी परम श्रेष्ठ गायत्री होती है । इससे अधिक कोई भी नहीं

हे । प्रणव से समान्वत गायत्री सभी मन्त्रो मे दुर्लभा है । त्रयी मे अर्थात् वेद त्रयी मे गायत्री से अधिक कुछ भी नहीं परिशीत किया जाता है ॥४०६॥ गायत्री के समान कोई अन्य मन्त्र नहीं है और काशो के समान अन्य कोई भी पुरी नहीं है । विद्वनाथ भगवान् तुल्य कोई भी शिव लिङ्ग नहीं है—यह पुनः पुनः पूर्णतया सत्य है—सत्य है ॥७॥

गायत्री वेदजननी गायत्रीब्राह्मणप्रसूः ।

गातारं प्रायतेयस्माद्गायत्री ते न गीयते ॥८

वाच्यवाचकसम्बन्धोगायत्र्याः सविगुह्यो यो ।

वाच्योसौ सविता साक्षाद्गायत्री वाचिका परा ॥९

प्रभावेर्णवगायत्र्या सस्त्रियःकौशिकीवशी ।

राजपितृपरित्यज्यब्रह्मपिपदमीयिवान् ॥१०

सामर्थ्यं प्राप चात्युच्चरन्त्यद्भुवनमर्जने ।

किं किं न दद्याद्गायत्री सम्यगेवमुपासिता ॥११

न ब्राह्मणो वेदनाठात्र शास्त्रपठनादपि ।

देव्यास्त्रिकालमभ्यासाद् ब्राह्मणः स्याद्धि नान्यथा ॥१२

गायत्र्येवपरविष्णुर्गायत्र्येव परःशिवः ।

गायत्र्येवपरोब्रह्मा गायत्र्येव त्रयी ततः ॥१३

देवत्रय सभगवानशुमाली दिवाकरः ।

सर्वेषा महमाराशिः कालः कालप्रवतक ॥१४

यह गायत्री वेदो की जननी है । गायत्री ब्राह्मणो को प्रसूत करने वाली है । क्योंकि इसका जो गायन (जाप) करता है उसको यह सुरदाता (प्राण) दिया करती है इसीलिये इसको गायत्री कहा जाता है । गायत्री और सविता इन दोनों का वाच्य-वाचक सम्बन्ध होना है । वाच्य तो भगवान् सविता देव हैं और गायत्री साक्षात् परा उनको वाचिका होती है ॥८-९॥ इस गायत्री देवो के प्रभाव से ही यशो क्षत्रिय कौशिक (विद्वामित्र) राजपितृ का त्याग करके ब्रह्मपिपे के पद को प्राप्त हो गये थे ॥१०॥ दूसरा बहुत उँचा भुवन के निर्माण करने की भी उन्हीं माधर्ष्यं प्राप्त करभो थो । भनी भाँति से उपासना भी की हुई

गायत्री देवी मनुष्य को क्या क्या नहीं दे दिया करती है ? अर्थात् सभी कुल प्रदान कर देती है । वेदों के पाठ करने से ब्राह्मण नहीं बना करता । और शास्त्रों के पढ़ने से भी ब्राह्मण व नहीं आता है केवल तीनों कालों में गायत्री देवी की उपासना के अभ्यास से ही ब्राह्मण हुआ करता है अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व नहीं माना है । यह गायत्री देवी ही परम विष्णु है और गायत्री ही परम शिव हैं—गायत्री ही परब्रह्मा है तथा वेदमयी भी गायत्री ही होती है । वह भगवान् बहुमाली दिवाकर देव देवत्रय अर्थात् तीनों देवों का स्वरूप तथा यह सभी तैजों का समूह है और काल का प्रवर्तक साक्षात् काल है ॥११-१४॥

अर्कमुद्दिश्य सततमस्मल्लोकनिवासिनः ।

श्रुतिद्व्युदाहरन्तीमा सारासारविवेकिनः ॥१५

एषोहदेवः प्रदिशोनुमर्वाः पूर्वोह जानःस उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ् जनस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

सदवमुपतिष्ठेरन् सौरः सूक्तैरनन्दिता ।

येनमन्त्यनते विप्रा विप्राभास्करसन्निभाः ॥१७

पुष्यार्कप्यथहस्तार्कं मूलार्कप्यथवादिज ।

उत्तरार्कऽथयत्कार्यं तत्फलत्येवनान्यथा ॥१८

पौषेमास्यर्कदिवसेय स्नात्वाभान्करोदये ।

दान होमजपकुर्यादर्चामकंस्यचक्रत ॥१९

श्रद्धावानेकभक्तश्च कामक्रोधाधिर्वाजिन ।

सहाप्तसरोभिर्द्युतिमान्सवसेदत्रभोगवान् ॥२०

अयनेविपुवेचापि पडशीतिमुखेषु वा ।

धिष्णुपधाञ्चये दद्युर्महादानानि सुव्रतः ॥२१

हमारे लोक के निवासी जन जो सार और अमार के विवेकी हैं निरन्तर भगवान् सूर्य का उद्देश्य करके इन ध्युति का उदाहरण किया करते हैं ॥१५॥ यह ही देव सब दिशा-प्रदिशाओं में है । यह ही सबसे पूर्व में उत्पन्न हुए हैं, यह ही मन्दर गर्भ में हैं, यह ही उत्पन्न हुए हैं और

वह ही जनिष्यमाण है, यह ही मनुष्यों के पीछे और सभी ओर मुख करने वाला स्थित है ॥१६॥ सदा ही अतन्द्रित होते हुए सौर (सूर्य सम्बन्धी) सूक्तों के द्वारा उपस्थान करना चाहिए । जो विप्र यहाँ पर भगवान् सूर्य को नमन किया करते हैं वे विप्र भास्कर के ही समान तेज वाले हुमा करते हैं । हे द्विज ! पुष्यार्क में अश्वत्थार्क में, मूलार्क में या उत्तरार्क में जो भी कुछ किया जाता है वह ही फल देने वाला होता है अन्यथा कुछ भी फल नहीं देता है ॥१७-१८॥ रविवार के दिन पीप मास में जो सूर्योदय के समय पर स्नान करके दान, होम और जाप किया करता है तथा मुन्दर व्रत वाला सूर्य देव का अर्चन करता है उसे परम श्रद्धा वाला, एक ही समय में भोजन करने वाला तथा काम, क्रीडादि रहित रहता है । वह यहाँ पर समस्त भोगे वाला होकर अप्सराद्यो के साथ निवास किया करता है । और अत्यन्त शुचि से युक्त होता है । अयन में, विपुत्र में अथवा पदशीति मुखी में जो विष्णुपदी में महान् व्रत वाले दान दिया करते हैं वे वैकर्तन लोक में वास किया करते हैं ॥१९-२१॥

तिलालुजुह्वति माज्याश्च ब्राह्मणान् भोजयन्ति च ।

पितृनुद्दिष्य च श्राद्धं ये कुर्वन्ति विपश्चितः ॥२२

महापूजाञ्च ये कथु महामन्त्राञ्जपन्ति च ।

तेऽत्र वैकर्तने लोके विकतनसमप्रभाः ॥२३

न दरिद्रा न दुःखार्ता न व्याधिपरिपीडिताः ।

सक्रमेष्ट्वर्कभक्ता ये नविरूपा न दुभगाः ॥२४

संक्रमेषु न यदंत्तं न स्नातंतीर्थवारिषु ।

विशेषहोमो न कृताकपिलाज्याप्लुतैस्तिलैः ॥२५

ते दृश्यन्ते प्रतिद्वारं विहीननयनाननाः ।

देहिदेहीति जल्पन्तो देहिनः सपटञ्चराः ॥२६

समंकृष्णलकेनापि यो दद्यत्काञ्चनं कृती ।

सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे सवसेदत्र पृण्यभाक् ॥२७

जो उपर्युक्त अवसरों में घृत के महित तिलों का हवन किया करने हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो विद्वान् पुण्य अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर श्राद्ध किया करते हैं। जो कोई महापूजा करते हैं तथा महा मन्त्रों का जाप किया करते हैं वे इस वैकर्त्तन लोक में विकर्त्तन (सूर्य) के समान प्रभा से सुमम्पन्न होकर निवास करते हैं। वे लोग कभी भी दरिद्र नहीं होते हैं और न कभी दुःखों से प्राप्त तथा व्याधियों से पीड़ित ही हुआ करते हैं। सक्रमण काल में अर्थात् सूर्य की संक्रान्ति के समय में जो सूर्य देव की भक्ति किया करते हैं वे न तो कभी विरहप ही होते हैं और न दुर्भाग्य वाले ही हुआ करते हैं ॥२२-२४॥ जिन्होंने संक्रान्ति में कभी कुछ भी दान नहीं दिया है और तीर्थों के जल में स्नान नहीं किया है तथा कोई विशेष होम भी कपिला के घृत से ध्युत तिलों से नहीं किया है वे प्रत्येक द्वार पर नयन और ध्यान से बिहीन होकर दिखलायी दिया करते हैं। ऐसे लोग सपटञ्चर हाते हुए, 'हम को कुछ दा' ऐसा कहते हुए देहवारों घूमा करते हैं। जो कोई कृती कृष्णलोक के समान भी सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सुवर्ण का दान करना है वह परम पुण्यात्मा इस लोक में श्राकर निवास किया करता है ॥५-२७॥

सर्वगङ्गासमन्तीय सर्वैश्वर्यासमाद्विजा ।

सर्वदय स्वरासमराहुग्रस्ते दिवाकरे ॥२८

दत्त जप्त हुतं स्नातं यत्किञ्चित्मदनुष्ठितम् ।

भानूपरागेश्राद्धादि तद्धेतुर्बन्धनसन्निधेः ॥२९

रविवारे सक्रमश्चेदुपरागोऽथवा भवेत् ।

तदा यदर्जित पुण्य तदिहाक्षयमाप्यते ॥३०

भानुवारो यदा पश्य्या मप्तम्यामथ जायते ।

तदायत्सुकुनं कर्म कृतन्तदिह भुज्यते ॥३१

हसो भानुः सहस्राशुस्तपनस्तापनोरविः ।

विकर्त्तनो विवस्वाश्च विश्वकर्मा विभावमु ॥३२

विश्वरूपो विश्वकर्ता मातृण्डो मिहिरोऽगुमान् ।

आदित्यश्चोरणगुः सूर्योऽयंमा द्रघ्नोदिवाकरः ॥३३

द्वादशात्मा सप्तहयोपास्करोऽहस्करः खगः ।
 सूरःप्रभाकरः श्रीगाल्लोकचक्षुर्ग्रहेश्वरः ॥३४
 त्रिलोकेशो लोकसाक्षी तमोरिः शश्वतः शुचिः ।
 गभस्तिहस्तस्तीव्रांशुस्तरणिः सुमहोरणिः ॥३५

दिवाकर भगवान् के राहु के द्वारा ग्रस्त होने के अवसर पर सभी जल गङ्गा के समान होता है और सभी द्विज ब्रह्म के सदृश हुआ करते हैं तथा सभी कुछ दान में दी हुई वस्तु सुवर्ण के ही तुल्य होती है । दान दिया हुआ, जाप किया हुआ, हवन, स्नान, और जो कुछ भी सद् अनुष्ठान होता है एव श्राद्ध आदि सभी सूर्य के ग्रहण के समय में ब्रह्म सन्निधि का हेतु हुआ करता है । अर्थात् यह सभी ब्रह्म के समीप में पहुँचाने वाला होता है । रविवार के दिन में संक्रमण हो अथवा ग्रहण उस समय में जो पुष्य का अर्जन होना है वह यहाँ पर अक्षय होकर प्राप्त किया जाता है । पक्षी या सप्तमी तिथि में रविवार हो तो उस समय में जो भी कुछ सुकृत का अर्जन किया गया है वह यहाँ पर भोगा जाया करता है ॥२८-३१॥ अब सत्तर भगवान् भास्कर नामी का उल्लेख किया जाता है—हस्त, भानु, सहस्रांगु, तपन, तापन, रवि, विकर्तन विवस्वान्, विद्वकर्मि, विभावसु, विद्वरूप, विद्वकर्ता, मातृण्ड, निहिर, भंशुमान्, आदित्य, उष्णगु, सूर्य, अयंसा, ब्रह्म, दिवाकर, द्वादशात्मा, मत्स्य, भास्कर, अहस्कर, खग, सूर, प्रभाकर, श्रीमान्, लोक चक्षु, ग्रहेश्वर, त्रिलोकेश, लोकसाक्षी, तमोरि, शाश्वतः, शुचि, गभस्ति हस्त, तीव्रांशु, तराणि, सुमहोरणि, ॥३२-३५॥

द्युमगिहरिदश्वोर्कोभानुमान्भयनाशनः ।

सन्दोश्रोवेदवेद्यश्चभास्वान्पूपा वृषाकपिः ॥३६

एकचक्ररथो मित्रो मन्देहारस्तमित्त्रहा ।

दंत्यहा पापहर्ता च धर्मो धर्मप्रकाशकः ॥३७

हेलिकश्चित्रभानुश्चकलिघ्नस्तादयंवाहनः ।

दिवपतिःपद्मिनीनायाकृशेशयकरोहरिः ॥३८

धर्मराशिमदुं निरोदयदचण्डाशुः ऋश्यपात्मजः ।

एभिः सप्ततिसर्याकैः पुष्यैः सूर्यस्य नामभिः ॥३९

प्रणवादिचतुर्थ्यन्तं नमस्कारसमन्वितः ।
 प्रत्येकमुचरन्नाम दृष्ट्वा दृष्ट्वा दिवाकरम् ॥४०
 विगृह्यपाणियुग्मेन ताम्रपात्र सुनिर्मलम् ।
 जानुभ्यामवनी गत्वा परिपूर्यजलेन च ॥४१
 करवीरादिकुसुमं रक्तचन्दनमिथितं ।
 दूर्वाकुरै रक्षतेश्चनिक्षिप्तं पात्रमध्यतः ॥४२
 दद्यादध्यंमनर्घ्यायसवित्रेभ्यानपूषकम् ।
 उपमौलि समानीय तत्पात्र नान्यदृङ्मना ॥४३
 प्रतिमन्त्रं नमस्कुर्यादुदयास्तमये रविम् ।
 अनया नाम सप्तत्या महामन्त्ररहस्यया ॥४४

द्युमणि, हरिदश्व, अर्क, भानुमान्, भयनाशन, छन्दोऽश्व, वेदवेद्य, भास्वान्, पूषा, वृषाकपि, एकचक्र रथ, मित्र, मन्देहारि, तमिलहा, दैत्यहा, पापहर्ता, धर्म, धर्म प्रकाशक, हेलिक, चित्रमानु, कलिघ्न, तादयं वाहन, दिक्षपति, पद्मिनीनाथ, कुशेशयकर, हरि, धर्मराशि, दृनिरीक्ष्य, घण्टाशु, कश्यपात्मज, ये कुल सत्तर सह्या वाले परम पुण्यमय भगवान् सूर्य के नाम हैं । इनमें प्रत्येक नाम के पहिले प्रणव लगाकर चतुर्थी विभक्ति सूय क सभी नामों के आगे जोड़ कर 'नम' इस नमस्कार वाचक शब्द को जोड़ देवे । यथा 'ॐ सूर्याय नम' । इसी भाँति उपरि कथित प्रत्येक नाम को उच्चरित करते हुए दिवाकर देव का बारम्बार दान करे । सुन्दर एवं निमल जल से युक्त ताम्र पात्र को दोनों हाथों में ग्रहण करे और दोनों पृष्ठों से भूमि में जाकर जल से परिपूरित करे । करवीर आदि के पुष्पो से मिथित, रक्त चन्दन से मिथित, दूर्वाकुर, घोर अक्ष निक्षिप्त द्विमे हो ऐसे उस पात्र के मध्य से घनर्घ्यं मविना देने के लिये ध्यान पूर्वक मन्त्र देना चाहिए । मन्त्र के समीप पर्यन्त उस पात्र को ले कर ही अन्य आर दृष्ट तथा मन को न लेजाकर अर्घ्य देना चाहिए ॥३६-४४॥

एव फुर्धन्नरो जानु न दरिद्रोनदु सभाक् ।

व्याधिभिमुं ज्यतेघोरं रपिजन्मान्तराजितः ॥४५

विनीपघेविनावेद्येविना पथ्यपरिग्रहेः ।

कालेन निघनं प्राप्तःसूर्यलोके महीयते ॥४६

इत्येकदेशः कथितो भानुलोकस्य सत्तम ।

महातेजो निघेरस्य को विशेषमवंत्यहा ॥४७

इसी रीति से प्रत्येक उपयुक्त मन्त्र के द्वारा उदय और अस्त के समय में रविदेव को नमस्कार करना चाहिए । यह सूर्यदेव के शुभ नामों को सत्तमि है इससे जो कि महामन्त्र के रहस्य से सम्बन्धित है मनुष्य को प्रतिदिन ही नमस्कार करना चाहिए । ऐसा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्रो और दुखों के भोगने वाला नहीं हुआ करता है । जन्मान्तों की अर्जित व्याभियों से भी वह मुक्त होजाया करता है । इन व्याभियों से छुटकारा पाने के लिये किसी ओषधि, वैद्य तथा पथ्यपरिग्रह आदि की आवश्यकता ही नहीं हुमा करता है । जब उपका अन्त समय आता है तो मृत्यु प्राप्त करके वह सूर्य लोक में ही प्रतिष्ठित हुमा करता है । हे सत्तम ! भानु लोक का यह एक देश तुम्हारे सामने वर्णित कर दिया है । यह महा तेज का निधि है । इसकी क्या विशेषता जानते हो ॥४५-४७॥

४८— मणि कर्णिकाख्यानवर्णन

प्रसन्नोऽसियदिस्कन्द! मयिप्रीतिरनुत्तमा ।

तत्समाचक्ष्वभगवंश्चिरंयन्मेहृदिस्थितम् ॥१

अविमुक्तमिदक्षेत्रं कदारम्य भुवस्तले ।

परां प्रथितिमापन्नं मोक्षदञ्चाभवत्कथम् ॥२

कथमेपा त्रिलोकीडया गीयते मणि कर्णिका ।

तत्राऽऽसीत्किम्पुरा स्वामिन्यदा नाऽमरनिम्नगा ॥३

वाराणसीतिकाशीति रुद्रावासइतिप्रभो ॥

अवाऽ नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ।

आनन्दकानन रम्यमविमुक्तमनन्तरम् ॥४

महाश्मशान इतिचकथ ह्यातंशिखिध्वज ॥

एतदिच्छाम्यह थोतुं सन्देहमेऽपनोदय ॥५

प्रश्नभारोयमतुलस्त्वया यः समुदाहृतः ।

कुम्भयोनेऽभुमेवार्थमप्राक्षीदम्बिकाहरम् ॥६

यथा च देवदेवेन सर्वज्ञेन निवेदितम् ।

जगन्मातुः पुरस्ताच्च तथैव कथयामि ते ॥७

महामर्हण प्रवर श्री भगवत्य जो ने कहा—हे स्कन्द देव ! आप यदि मुझ पर परम प्रसन्न हैं और मुझ में आपकी उत्तम प्रीति विद्यमान है तो हे भगवन् ! मेरे हृदय में बहुत समय से स्थित उसको ही कहिए कि यह अविमुक्त क्षेत्र इस भूमि के तल में कब लेकर आरम्भ हुआ है और यहाँ पर परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है तथा यह मोक्ष के प्रदान करने वाला कैसे हो गया है ? इसमें यह त्रिलोकी की ईड्य (स्तवन करने के योग्य मणिकर्णिका कैसे गायी जाती है ? क्या पहिने श्री वहाँ पर जब कि यह अमर नदी (गङ्गा) नहा थी यह विद्यमान थी ? हे स्वामिन् ! हे विभो ! वाराणसी, काशी, और रुद्रावास ये नाम इस महापुरी ने कैसे प्राप्त किये थे ? आनन्द कानन इसके अनन्तर रम्य अविमुक्त और महा इमशान ये सब नाम भी हे शिखिध्वज ! किम प्रकार से भूमण्डल में विह्वल हुए हैं—यह सभी मैं श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ । आप मेरे सन्देश का अपनोदन (निवारण) करिये । श्री स्कन्द देव ने कहा— आपने यह महान् भारी प्रश्नो का समुदाय कर डाला है । हे कुम्भयोने ! अम्बिका माता ने भगवान् श्री शम्भु से भी यही प्रश्न पूछा था । देवों के देव सर्वज्ञ प्रभु ने जिस प्रकार से निवेदित किया था उन जगत की माता के समक्ष मे इसका उत्तर अर्पित किया था ठीक वैसे ही उत्तर मैं भी आप को बतलाता हूँ ॥१-७॥

महाप्रलयकाले च नष्टे स्थावरजंगमे ।

आसीत्तमोमयं सर्वमनर्कग्रहहारकम् ॥८

अचन्द्रमनहोरात्रमनग्न्यनिलभूतलम् ।

अप्रधानं वियच्छून्यमन्यतेजोविवर्धितम् ॥९

द्रष्टृत्वादिविहीनञ्च शब्दसाशंसमुज्झितम् ।

व्यपेतगन्धरूपञ्च रसत्यक्तमदिङ्मुखम् ॥१०

इत्यं सत्यन्वतमसि सूचीभेद्ये निरन्तरे ।
 तत्सद्ब्रह्मेति यच्छ्रुत्यासर्दकं पतिपाद्यते ॥११
 अमनोगोचरोवाचां विषयं न कथंचन ।
 अनामरूपवर्णञ्च नस्थूलं नच यत्कृशम् ॥१२
 अह्रस्वदीर्घमलघुगुरुत्वपरिवर्जितम् ।
 न यत्रोपचयः कश्चिन्नया चापचयोपिच ॥१३
 अभिघत्त सचकितं यदस्तोति श्रुतिपुनः ।
 सत्यं जानमनन्तञ्च यदानन्दं परं महः ॥१४

जित समय में महा प्रलय का काल उपस्वित्त हो गया था और यह
 श्यावर तथा जङ्गम जगत सभी नष्ट हो गया था उस समय में यहाँ सर्वत्र
 अन्धकारमय ही था । न तो सूर्य था और न ब्रह्म एवं तारको का ही मण्डल
 विद्यमान रहा था । चन्द्र, अग्नि, घनिल, मूलत और ग्रहो रात्रि कुछ भी
 नहीं था । बिना प्रधान वाला अन्य तेज से विवर्धित यह शून्य निगत था ।
 इसके द्रष्टा में भी यह विहीन था एवं शब्द, स्पर्श से समुज्जित था । गन्ध
 रूप, रस, दिशा इन सब से रहित था । इस प्रकार के सूचीभेद्य अर्थात्
 अत्यन्त गहरे निरन्तर रहने वाले सत्यमन्ध तम में वह एक सद् ब्रह्म या
 त्रितिका श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है । वह मन, वाणी का
 किसी भी प्रकार से गोचर विषय नहीं था । उसका कुछ भी नाम, रूप
 और बणं नहीं था । वह न तो स्थूल ही था और न कृश था । वह ह्रस्व,
 दीर्घ, लघु, गुह सबसे वर्जित था । न तो जिसमें कुछ भी उपचय था और
 न कोई भी अपचय ही था । श्रुति बहुत ही चकित हो कर यही कहती
 थी कि कुछ है जो सत्य स्वरूप, अनन्त, ज्ञानरूप, परम आनन्द रूप एक
 तेज है ॥८-१४॥

अप्रमेयमनावारमविकारमनाकृति ।

निर्गुणं योगिगम्यञ्च सर्वव्याप्येककारणम् । १५

निर्विकल्पं निरारम्भं निर्मायं निरुपद्रवम् ।

यस्येत्यं सविकल्प्यन्ते सज्ञाः संज्ञोदितस्यैव ॥१६

तस्यैकलस्य चरतोद्वितीयेच्छाभवत्किल ।

अमूर्त्तेनस्वमूर्त्तिश्च तेनाकल्पस्वलीलया ॥१७

सर्वेश्वर्यं गुणोपेतासर्वज्ञानमयी शुभा ।

सर्वंगा सर्वरूपा च सर्वदृक्सर्वे कारिणी ॥१८

सर्वैकवन्द्या सर्वाद्या सर्वदा सर्वसङ्कृतिः ।

परिकल्पयेति तां मूर्त्तिमोश्वरीं शुद्धरूपिणीम् ॥१९

अन्तर्दधे पराख्यं यद् ब्रह्म सर्वगमव्ययम् ॥२०

ध्रुति भी यही कहती है कि वह ब्रह्म अप्रमेय, आशार से रहित, अविकार, बिना आकृति वाला, निर्गुण, उपद्रवों से हीन, योगियों के द्वारा ही जानने के योग्य, सर्व व्याप्य, एक मात्र कारण रूप, निर्विकल्प, निरारम्भ, माया से धून्य ऐसा ही वह है जिसके विषय में इसी प्रकार से अनेक विकल्प होते हैं वे ही उसकी संगोदित की संगोदित हैं । इस भाँति एक कण उसके सञ्चरण करते हुए उसी में एक स्वयं ही दूसरी इच्छा समुत्पन्न हुई थी और उस अमूर्त्ति ने अपनी एक मूर्त्ति अपनी ही लीला से कल्पित की थी जो कि सब ऐश्वर्य और समग्र गुणों से समुपेत थी तथा सर्व ज्ञान मयी, शुभा, सर्वत्र गमन करने वाली, सर्वरूपा, सर्वदृक् और सब कुछ करने वाली थी । वह सभी के द्वारा वन्द्यमाना, सबकी आद्या और सर्वदा सर्व संकृति रूपा थी । ऐसी उस शुद्ध रूप वाली ईश्वरी उस मूर्त्ति की कल्पना करके वह सर्वग अव्यय ब्रह्म जो पराख्य है अन्तर्हित होगये थे ॥१५-२०॥

अमूर्त्तिं यत्पराख्यं वैतस्यमूर्त्तिरहं प्रिये ! ।

अर्वाचीनपराचीना ईश्वरं मां जगुर्बुधाः ॥२१

ततस्तदेकलेनापि स्वैरं विहरतामया ।

स्वविग्रहात्स्वयं सृष्टास्वशरीरानपायिनी ॥२२

प्रधानं प्रकृतित्वाञ्चा मायागुणवतीपराम् ।

बुद्धितत्त्वस्यजननीमाहुर्विकृतिवजिताम् ॥२३

मुगपच्च त्वयाशक्त्यासाकंकालस्वरूपिणा ।

मयाऽहं मुसुपेणतत्क्षेत्रं चापि विनिमित्तम् ॥२४

साशक्तिःप्रकृतिःप्रोक्तासतुमानीश्वरःपरः ।
 ताम्याञ्चरममाणाम्यांतस्मिन्क्षेत्रेघटोद्भव ॥२५
 परमानन्दरूपाभ्यां परमानन्दरूपिणी ।
 पञ्चकोशपरीमाणे स्वपादतलनिर्मिते ॥२६
 मुने! प्रलयकालेऽपि न तत्क्षेत्रंकदाचन ।
 विमुक्तं हि शिवाम्यां यदविमुक्तं ततोविदु ॥२७
 न यदा भूमिवलयं न यदाऽपां समुद्भव !
 तदा विदुतुं मोक्षेन क्षेत्रमेतद्विनिर्मितम् ॥२८

हे प्रिये ! जो परारूप इसका समूर्त रूप था उसकी मूर्ति ही मैं हूँ ।
 शक्तिवीन और परावीन बुधमरण मुझको ही ईश्वर कहकर गान किया
 करते हैं । इसके उपरान्त एक कल और स्वतन्त्र रूप से विहार करते हुए
 मैंने अपने ही विग्रह से अपने ही शरीर बायीं, धनपायिनी प्रयाग प्रकृति
 आपको जो माया और परा गुणवती हैं सृजन किया था । आपको बुद्धि
 तरव की जननी एवं विह्वल से रहित कहते हैं । एक साथ शक्तिरूपिणी
 आपके साथ काल रूपी आद्य पुरुष मैंने पापों से रहित यह क्षेत्र विशेष
 रूप से निर्मित किया है ॥२१-२४॥ भगवान् स्कन्द देव ने कहा—वही
 शक्ति प्रकृति कही गयी है और पुरुष पर ईश्वर कहे गये हैं । हे घटोद्भव
 उन दोनों के उस क्षेत्र में सञ्चरण करते हुए जो कि परम आनन्द के
 स्वरूप वाले हैं उस परमानन्द रूप वाले पाँच कोस के परिमाण
 से युक्त, अपने ही पाद तल के द्वारा निर्मित यह क्षेत्र है । हे
 मुने ! वह क्षेत्र प्रलय काल में भी जबकि सभी का विलय होजाया
 करता है शिव और शिवा से विमुक्त नहीं हुआ करता है अतएव वह
 "अविमुक्त" इस नाम से प्रख्यात हो गया है । हे जल से समुत्पन्न होने
 वाले ! जिस समय में यह भूमि मण्डल भी नहीं था उसी समय ये ईश्वर
 ने विहार करने के लिये इस क्षेत्र का निर्माण किया है ॥२५-२८॥

इदं रहस्यं क्षेत्रस्य वेदकोऽपि न कुम्भज ।

नास्तिकाय न चत्तव्यंकदाचिच्चमंचक्षुषे ॥२९

श्रद्धालवे विनीताय त्रिकालज्ञानचक्षुषे ।

शिवभक्तायशान्ताय वक्तव्यञ्चमुमुक्षवे ॥३०

अविमुक्तं तदारभ्य क्षेत्रमेतदुदीर्यते ।

पर्यङ्कभूतं शिवयोर्निरन्तरसुखास्पदम् ॥३१

अभावः कल्प्यते मूढयंदा च शिवयोस्तयोः ।

क्षेत्रस्यास्य तदाभावः कल्प्यो निर्वाणकारिणः ॥३२

जनाराध्यमहेशानमनयाप्यचकाशिकाम् ।

योगाद्युपायविज्ञोऽपिननिर्वाणमवाप्नुयात् ॥३३

अस्यानन्दवनं नाम पुराऽकारिपिनाकिना ।

क्षेत्रस्यानन्दहेतुत्वादविमुक्तमनन्तरम् ॥३४

आनन्दकन्दधीजानामंकराणि यत्तस्ततः ।

शोयानि सर्वलिङ्गानि तस्मिन्मानन्दकानने ॥३५

अविमुक्तमिति रघातमासीदित्यं घटोद्भव !

तथा पारयाम्यय मुने ! यथाऽऽसीन्मणिऋणिका ॥३६

हे गुम्भज ! इस क्षेत्र के इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता है ।

जो धर्म पशु बाला नास्तिक हो उनके प्राये द्वा परम गोपनीय रहस्य को कभी भी नहीं कहना चाहिए ! जो धड़ानु हो, परम विनीत हो, त्रिकाल के ज्ञान की श्शु याता जो हा, शिव के परम भक्त, शान्त और जो मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो उमको ही यह कहना चाहिए । तभी से आरम्भ करके यह क्षेत्र अविमुक्त इस नाम से कहा जाया करता है । यह शिव और शिवा इन दोनों का पर्यङ्क के समान ही है और निरन्तर गुण का अस्पद होता है ॥२६-३१॥ जिस समय मे मूर्तों के द्वारा उन दोनों शिव और शिवा का अभाव कल्पित किया जाता है उगा समय में निर्वाण देने वाले इस क्षेत्र का अभाव कल्पना करने के योग्य होता है ॥३२॥ महेश्वर प्रभु को धारापना न करने और बाजी पुरी मे न पहुँच कर जो उरायो का विल भी योग से ही निर्वाण पद को प्राप्त नहीं किया करता है ॥३३॥ पिनाकी भगवान् ने ही पहिले इसका ध्यानन्दवन यह नाम रखा था क्योंकि यह क्षेत्र आनन्द का हेतु होता था । इसके अनन्तर

इसका नाम अविमुक्त रखा गया था । जहाँ-तहाँ पर आनन्द कन्द बीजों के अंकुर वहाँ पर जानने चाहिए । उस आनन्द कानन में सभी निङ्ग जानने के योग्य हैं । हे घटोद्भव ! इस प्रकार से यह अविमुक्त इस नाम से विख्यात हुआ था । हे मुने ! और मन्त्रिकाण्डिका जिस तरह से हुआ था उसको भी मैं कहता हूँ ॥३४-३६॥

प्रागानन्दवने तत्र शिवयोरममाणयोः ।

इच्छेद्यभूत्कलशजः सृज्याः कोप्यपरः किल ॥३७

यस्मिन्न्यस्ते महाभारे आवां स्वःस्वरचारिणी ।

निर्वाणश्राणन कुर्वः केवलं काशिशायिनाम् ॥३८

स एव सर्वं कुरुते स ए व परिपाति च ।

स एव सवृणोत्यन्ते तव भयनिधिःसच ॥३९

चेतःसमुद्रमाकुञ्च्यचिन्ताकल्लोलदोलितम् ।

सस्वरत्नतमोपाहंरजोविद्रुमवल्मितम् ॥४०

मस्य प्रयादात्तिष्ठावः सुखमानन्दकानेन ।

परिक्षिप्तमनोवृत्ती भवहिचिन्तासुरे सुखम् ॥४१

संप्रधामैतिस विमुःसर्वं तश्चिस्वरूपया ।

तया सहजगद्वाभ्याजगद्वाताऽथघूर्जटिः ॥४२

सग्ये व्यापारयाञ्चक्रे इवामङ्ग सुधामुचम् ।

ततः पुमानाविरासोदेकस्त्रैलोक्यमुन्दरः ॥४३

हे कलशज ! पहिले उस आनन्द वन में दोनों शिव और शिव के रमण करते हुए उनको ऐसी इच्छा हुई थी कि कोई दूसरा स्थल भी सृजन करना ही चाहिए । जिन पर समस्त भार न्यस्त करके हम दोनों स्वच्छन्द चरण करने वाले हो जावें । हम वेवन काशी में ध्यान करने वालों को ही निर्वाण का धारण किया करेंगे ॥३७-३८॥ वह ही सब कुछ किया करते हैं और वह ही परिपालन किया करते हैं । यही धन्त समय में सबका संभरण किया करते हैं और वह सभी ऐश्वर्यों के विधि है । यह चित्त समुद्र के समान है जो कि चिन्ता रूपिणी तरङ्गों से दाहित रहा करता है । सन्वगुण की जो भावनायें उसमें विद्यमान हैं वही रत्न के

समान है धीर तमोगुण का प्रभाव ही इसमें मयानक चाह है तथा रजोगुण के विन्दुओं से यह वलित रहा करता है । ऐसे इस चित्त को प्राकुञ्चित करके जिसके प्रसाद से उस आनन्द कानन में सुखपूर्वक स्थित रहे । चिन्ता से प्राणुर परिक्षिप्त मनोवृत्ति में सुख कहाँ हो सकता है ? उन प्रभु ने यह सम्प्रधारण करके जगत् के धाता विभु धूर्जटि भगवान् ने चित्स्वरूप वाली उस जगत की धात्री के साथ सभी ओर से अपने लक्ष्य अंग में सुधा का स्रवण करने वाले नेत्र व्यापार वाला किया था । इसके पश्चात् एक पुरुष जो त्रैलोक्य में परम सुन्दर था आविर्भूत अर्थात् प्रकट हुआ था ॥३६-४३॥

शान्तः सत्तगुणोद्धितो गाम्भीर्यैजितसागरः ।

तथा च क्षमयायुक्तो मुनेऽस्तव्योपमोऽभवत् ॥४४

इन्द्रनीलद्युतिःश्रीमान्पुण्डरीकोत्तमेषः ।

सुवर्णकृत्तिसुच्छायदुक्कलयुगलावृतः ॥४५

लसत्प्रचण्डदीर्घण्डयुगलद्वयराजितः ।

उल्लसत्परमामोदनाभीहृद्भुशेक्षयः ॥४६

एकासर्बगुणावासस्त्वेकसर्वकलानिधिः ।

एकःसर्वोत्तमोयन्मात्ततोयपुरुषोत्तमः ॥४७

ततो महान्तं तं वीक्ष्य महातहिमभूगणम् ।

महादेव उवाचेदं महाविष्णुभंवाभ्युत ॥४८

तथ निःश्वमितं वेदास्तेभ्यः सर्वमवंप्यसि ।

वेददृष्टेन मार्गेण कुरु सर्वं यथोचितम् ॥ ९

इत्युक्त्वा तं महेशानो बुद्धितत्त्वस्वरूपिणम् ।

शिवया सहितो रुद्रो विवेशाऽऽनन्दकाननम् ॥५०

हे मुनिवर ! यह पुरुष परम शान्त स्वरूप वाला सत्व गुण से उदित—गम्भीरता से सागर को भी जीत लेने वाला तथा क्षमा से युक्त अलक्ष्य उपमा वाला था ॥४४॥ इन्द्रनील मणि के समान उसके अंग की द्युति थी, धी से सम्पन्न पुण्डरीक के तुल्य उत्तम नेत्रों वाला—सुवर्ण के समान जाज्वल्यमान आहृति वाला सुन्दर कान्ति से सम्पन्न

शोर दो वस्त्रों से समावृत था । शोभा से युक्त एवं प्रचण्डदीर्घदंष्ट्र (बाहुपुगल) से वह बिराजमान था । उत्तलित परम आभोद से नाभि रूपी हृद मे कुशेशय होने वाला था अर्थात् क्षयन करने वाला था । यह एक ही थे और समस्त सद्गुणों का आवास स्थान थे । यह एक ही समस्त कलाओं के निधि थे । यह एक ही सबसे उत्तम थे । इसी कारण से यह पुण्यपोलम हुए थे । इनके अनन्तर उनकी महती महिमा से भूषित एवं महाद् देवकर श्रो महादेव यह बोले—हे शम्भु ! आप महा विष्णु हो जाइये । ये वेद सब प्रापका ही निःश्वसित हैं । उन से प्राप सभी कुछ जान लेंगे । वेद के द्वारा दृष्ट जो मार्ग है उसी मार्ग के द्वारा प्राप सब यमोचित् करिए । महेश्वर प्रभु बुद्धि तत्त्व के स्वरूपधारी उनसे यह कह कर भगवान् छद्म किर शिवा के साथ आनन्द वानन मे प्रवेश कर गये थे ॥४४-५०॥

ततःसभगवान्विष्णुमौलावाज्ञा निघायच ।
क्षणध्यानपरोभूत्वा तपस्येवमनोदधौ ॥५१॥
खनित्वा तत्रचक्रैणरम्यां पृष्करिणीहरिः ।
निजाङ्गस्वेदसन्दोहंसलिलैस्तामपूरयत् ॥५२॥
समासहस्रं पठ्चाशत्तप उग्रञ्चचार सः ।
चक्रपृष्करिणीतीरे तत्र स्थाणुसमाकृतिः ॥५३॥
ततःसभगवानीशो मृडान्यासहितोमृडः ।
दृष्ट्वाऽवलन्ततपसा निश्चलंमौलितेक्षणम् ॥५४॥
तमुवाच हृषीकेश मौलिमान्गोलयन्मृडु ।
अहो महस्व तपस्त्वहोघर्यं च चेतसः ॥५५॥
अहो अनिन्वनो बह्विज्वलत्येष निरन्तरम् ।
अल तप्त्या महाविष्णो! वरं वरय सत्तम ॥५६॥
मृडस्याऽऽम्नोऽदितमिदं प्रत्यभिज्ञयाभाषितम् ।
उन्मौलितदृग्गम्भोजः समुत्तस्थो चतुर्भुजः ॥५७॥

इसके अनन्तर भगवान् विष्णु ने अपने गर्तक पर प्रभु शिव की प्राज्ञा को पारण करके एक क्षण भर ध्यान मे समास्थित होकर फिर

तपश्चर्या करने ही में अपना मन स्थिर किया था । श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा वहाँ पर एक सुरम्य पुष्करिणी का खनन करके अपने हाँथों से प्रबलमान स्वेद के जल से उसको परिपूर्ण कर दिया था ॥५१-५२॥ फिर उन्होंने पचास सहस्र वर्षों तक अत्यन्त उग्र तपस्या की थी । उस चक्र पुष्करिणी के तट पर वहाँ पर एक स्याणु (सूखे हुए काष्ठ का ढल) के समान घाँस के बाले मृदानी के सहित भगवान ईश मृद ने तप से जलते हुए—निश्चल नेत्र मूँदे हुए इनको देखा था । उस समय में बारम्बार मस्तक को हिताते हुए भगवान शिव भगवान हृषीकेश से कहा—प्रोहो ! इस तपश्चर्या की कौसी भद्रमुत्त महिमा है तथा इस तपस्वी के चित्त का धैर्य भी कौसा विलक्षण है । ओ हो ! बड़े ही आश्चर्य की बात है कि बिना ही ईंधन के यह अग्नि निरन्तर जलती रहा करती है । हे महा विष्णो ! अब आप तप मत करिये । यह आपकी पर्याप्त तपस्या हो चुकी है । हे सत्तम ! आप मुझसे बरदान माँग लीजिए ॥५३-५६॥ यह तो भगवान् क्षत्रिय का ही कथन है—ऐसा उस भाषित को पहिचान कर चतुर्भुज प्रभु अपने वसन्त के समान नेत्रों का खोलकर सड़े हो गये थे ॥५७॥

अन्यत्र कृत्वा पापानि बहूनि सुमहान्ति च ।

अथ द्दधानोऽतत्त्वज्ञो यद्यत्र च विपद्यते ॥५४॥

महिमन्यनभिज्ञोपिक्षेत्रस्यास्य जनादेन ! ।

तस्य या गतिरुद्दिष्टा ता निशामय सुप्रत ॥५५॥

पञ्चक्रोशी प्रविशतस्तस्य पातकसन्ततिः ।

यहिरैव प्रतिष्ठेत नान्तर्निविशते क्वचित् ॥५६॥

भयाद् वहिः स्थितायाञ्च तस्य पातकसन्ततो ।

त्रिशूलपाशपाणीना गणाना सीमचारिणाम् ॥५७॥

प्रवेशमाश्रादनघः सर्वैरेनोभिरुज्जितः ।

सस्नायमणिकर्णिकया पुण्यं प्राप्नोत्यनुत्तमम् ॥५८॥

सर्वतीर्थपुसस्नानाद्यत्पुण्यं समवाप्यते ।

तत्पुण्यमाप्यते सम्यमणिकर्णिकमज्जनात् ॥५९॥

भयवान् शिव ने कहा—एग्य स्थल में बड़े से बड़े बहुत से पाषो को करके धुँदा भाव न रखने वाला और तत्वों का ज्ञान नहीं रखने वाला पुरुष यदि यहाँ पर विपन्न होता है । हे जनार्दन ! इस क्षेत्र की महिमा का अनभिज्ञ भी हो तो उसको जो गति ब्रह्म होती है हे सुब्रह्म ! उसको श्रवण करो । इस पक्ष कोसी में प्रवेश करते हुए ही उसके पातको की सन्तति बाहिर ही लुप्त रहा करती है और कहीं पर भी वह उसके मन्दर प्रवेश नहीं किया करती है । भय से बाहिर ही स्थित हुई उसके पातको की सन्तति रहती है । क्योंकि त्रिशूल हाथों में लेकर सीमा में सञ्चरण करते रहने वाले गए वहाँ रहा करते हैं जहाँ का भय पातको को रहा करता है । मनुष्य के प्रवेश भाव के करने ही से समस्त पाषो से वह परिस्मृत हो आया करता है और धनध होकर फिर उस मणिकणिका में भली भाँति स्नान करके अति उत्तम पुण्य को प्राप्त कर लिया परता है । समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य-फल प्राप्त किया जाता है उतना ही महान पुण्य-फल मणिकणिका में एक ही बार स्नान करने से प्राप्त किया जाता है ॥१८-६३॥

विधिनातत्रसस्नायमृद्गोमयकुशादिभिः ।

स्वपाखावारुणोमंत्र्यं दूँर्वापाभार्थदभक्तैः ॥६४

सर्वतीर्थेषुयत्पुण्यसर्वदानेषुयत्फलम् ।

मणिकर्ण्यविधिस्नातः श्रद्धयातदवाप्नुयात् ॥६५

अश्रद्धयापियःस्नातोमणिकर्ण्यविधानतः ।

सोऽपिपुण्यमवाप्नोतिस्वर्गप्राप्तिकरं परम् ॥६६

श्रद्धया विधिवस्स्नात्वा कृत्वा देवादितर्पणम् ।

तिलवह्नियंबैः सम्यक्सर्वयज्ञफलं लभेत् ॥६७

श्रद्धधानोविधिस्नातः कृतसर्वोदकाक्रिया ।

जपन्देवान्समम्यच्य सर्वमन्त्रफलं लभेत् ॥६८

स्नात्वामीनेन विश्वेशदशानान्नियतेन्द्रियः ।

सर्वेषुसृष्टं श्रेयो लभेद्वाचयमः शिवे ॥६९

स्नाने देवार्चने जप्ये मलमूत्रविसर्जने ।

मीनं कुर्यात्प्रयत्नेन दन्तधावनहोमयोः ॥७०

उक्त मणिकर्णिका मे विधि पूर्वक भली भौति स्नान करना चाहिए, मृत्तिका, गोमय, कुश आदि से तथा अपनी शाखा के बाह्य मन्त्रों के द्वारा दूर्वा, अपामार्ग और डाम से शास्त्रोक्त विधान के अनुसार ही वहाँ पर स्नान करे । अन्य समस्त तीर्थों में जो स्नानादि करने का पुण्य-फल होता है तथा सम्पूर्ण दानों में जो पुण्य होता है वही पुण्य मणिकर्णिका में विधि पूर्वक स्नान करने से और थडा के साथ स्नान करने से प्राप्त कर लिया जाता है । मणिकर्णिका में बिना थडा की मायना के भी जो विधि के सहित स्नान कर लेता है वह भी पुण्य प्राप्त कर लेता करता है जोकि परम स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला होता है । थडा से विधि पूर्वक स्नान करके देवादि का तर्पण तिल, बर्हि और जो से करे तो वह मनुष्य भली-भौति सभी मन्त्रों के करने का फल प्राप्त किया करता है । निपत इन्द्रियो वाला पुरुष मीन होकर स्नान करे और फिर श्री विश्वनाथ भगवान् के दर्शन करे तो हे शिवे ! वह मीनी समस्त व्रतों के पुण्य एवं श्रेय को पा लेता है । थडा वाला पुरुष सविधि स्नान करके और सम्पूर्ण जल की क्रिया करके जाप करता हुआ देवों का अर्चन करे तो समस्त मन्त्रों के फल को पा लिया करता है । मीन रहने की बहुत बड़ी महिमा है । स्नान में, देवों के अर्चन में, जाप करने में, मल-मूत्र के त्याग करने में तथा दान करने में और होम करने क अनन्तर में प्रयत्न पूर्वक मीन रहने का ही अभ्यास रखना चाहिए ॥६४-७०॥

विश्वेश्वर समभ्यर्च्यं सूपचारं विधानता ।

यावज्जीवं शिवार्चयाः फलमाप्नोति वं सकृत् ॥७१

दरुवाऽरुपमनि देवेति!न्यायेनोपार्जितं घनम् ।

अविमुक्ते ममक्षेत्रे न दरिद्रो भवेत्कवचित् ॥७२

धिविधं घनमाधर्ज्ययोऽविमुक्ते न यच्छति ।

संप्राप्यनिघनं मूढोऽप्यप्रशोचति सर्वं दा ॥७३

रम्याणि यानि रत्नानि गोगजाश्वाम्बराण्यपि ।
कृतानि तानि श्रेयोर्थमधिमुक्तनिवासिनाम् ॥७४

विश्वेशप्रीणनार्थायघननिघनमेववा ।

न्यायेनकाश्यांयःकुर्यात्सघन्यःसचधर्मवित् ॥७५

योऽसौ विश्वेश्वरो देवः काशीपुर्यामुमे ! स्थितः ।

लिङ्गरूपधरः साक्षान्ममश्रेयास्पदं हितव् ॥७६

समस्त पूजनोपचारो के द्वारा श्री विश्वेश्वर प्रभु का विधान के साथ समन्वयन करना चाहिए । जब तक जीवित रहे तब तक एक बार के ही दिवाचन का फल प्राप्त किया करता है ॥७१॥ हे देवेश ! न्याय से उपार्जित धन का बहुत थोडा सा भी भाग दान करके उस अविमुक्त क्षेत्र में फिर कभी वह मनुष्य दरिद्र नहीं हुआ करता है ॥७२॥ अनेक प्रकार के धन को प्राप्त करके भी जो मूढ़ इस अविमुक्त क्षेत्र में दान नहीं देता है वह मूढ़ मृत्यु प्राप्त करके फिर अन्धश्र सचदा ही शोच किया करता है । जो रम्य रत्न हैं तथा गौ, गज, अश्व और वस्त्र आदि हैं वे सब अविमुक्त में निवास करने वालो के श्रेय के लिये ही किए गये हैं । श्री विश्वनाथ भगवान् के प्रसन्न करने के ही लिये यह धन तथा निघन है । न्यायपूर्वक जो काशी में इनका उपयोग किया करता है वही पुरुष परम धन्य है और वह ही मनुष्य धर्म का ज्ञाता है । हे उमे ! जो यह विश्वनाथ देव काशी-पुरी में लिङ्ग के स्वरूप को धारण करके स्थित हैं वह साक्षात् मेरा स्वरूप है और परम श्रेय के आस्पद होते हैं ॥७३-७६॥

अविमुक्तं महत्क्षेत्रपञ्चक्रोशपरीमितम् ।

ज्योतिर्लिङ्गं तदेकहिंशैर्यंविश्वेश्वराभियम् ॥७७

एकदेशस्थितमपियथामातंण्डमण्डलम् ।

दृश्यते सर्वं गं सर्वःकाश्यांविश्वेश्वरस्तथा ॥७८

निष्प्रत्यूहेन योगेन नानाजन्माजितेन च ।

यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यां त्यजतस्तनुम् ॥७९

तन्वा तर्पांसि सर्वाणि बहुकालं जितेन्द्रियैः ।

यत्फलं लभ्यतेऽन्यत्र तत्काश्यामेकरात्रतः ॥८०

अक्षेयमहिमज्ञोऽपि थद्धाहीनोऽपि कालतः ।
 काशीप्रवेशादनघोऽमृतत्वं लभते मृतः ॥८१
 कृत्वाप्येनासि चोग्राणि कालात्प्राप्याथ काशिकाम् ।
 त्यक्त्वा तनुं प्रसादान्मे मामेव प्रतिपद्यते ॥८२
 विना मम प्रसादं वं कःकाशीप्रतिपद्यते ।
 विना ब्रध्नंविशालाक्षिदिनकृत्कइहोच्यते ॥८३
 अत्राप्यकाशीकोदेवि!निरन्तरमुखंलभेत् ।
 ब्रह्माद्याः प्राकृतैः पाशैर्यतोवद्धानिरन्तरम् ॥८४

यह अविमुक्त एक परम महान् क्षेत्र है जो पाँच कोश के परिमाण में स्थित है और वह श्री विश्वनाथ नाम वाले प्रभु एक ही ज्योतिर्लिङ्ग जानने चाहिए । एक ही देश में स्थित जिस तरह से यह मातंजु मंडल राव के द्वारा सर्वत्र गमन करने वाला दिग्गदाई दिया करता है वैसे ही काशी में यह भगवान् विश्वनाथ प्रभु हैं । निर्विघ्न योग के द्वारा जो कि अनेक जन्मों में अज्ञित किया गया है जो भी बुद्ध फल अथवा प्राप्त होता है वह केवल काशीपुरी में निवास करके शरीर के त्यागने से ही मिल जाया करता है ॥७७-७९॥ इन्द्रियो को जान कर के बहुत बाल पर्यन्त समस्त तपश्चर्याओं का तपन करके अग्न्य स्वन में मनुष्यों के द्वारा जो पुण्य-फल प्राप्त किया जाता है वह समस्त वागीपुरी में एक रात्रि के ही निवास करने से प्राप्त हो जाया करता है ॥८०॥ इस महादेश की महिमा को न जानने वाला भी और भ्रष्टा से रहित भी उम पुरुषबाल से वाशी में प्रवेश करने ही से निष्ठाप ही जाया करता है और वहाँ पर मृत्यु प्राप्त करके अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है ॥८१॥ महान् उग्र पापी को करके भी वाई जानपन वागीपुरी को प्राप्त कर लेता है और वही पर शरीर का त्याग करता है ता वह मेरे प्रसाद में मुक्त हो कर प्राप्त कर लिया करता है ॥८२॥ बिना मेरी श्रुपा क कोन वागी पुरी को प्राप्त कर सकता है अर्थात् मेरे प्रसाद क हुए बिना कोई भी वागी पुरी को प्राप्त हो नहीं कर सकता है जिस तरह से हे विशालाक्षि ! वहाँ पर मृत्यु के बिना दिनरतु कोन बड़ा जाया करता है ? ॥८३॥ हे देवि !

काशी को प्राप्त न करके निरन्तर मुक्त बोन प्राप्त कर सकता है ? अर्थात् कोई भी नहीं करता है क्योंकि अज्ञान सभी प्राकृत पाशों से निरन्तर बद्ध है ॥८४॥

चतुर्विंशतिभिः पाशैस्त्रिगुणैः कियया दृढैः ।

कण्ठे बद्धा विमुच्यन्ते कियं काशी विना जनाः ॥८५॥

बहूासर्गो योगोऽथ कृच्छ्रसाध्यन्तपो हियत् ।

योगाद् भ्रष्टस्तपोभ्रष्टो गर्भवलेद्यसहः पुनः ॥८६॥

कृत्वाऽपि काश्या पापानि काश्यामेव त्रियेत चेत् ।

भूत्वा रुद्रपिशाचोऽपि पुनमु क्तिमवाप्स्यति ॥८७॥

काश्या मृताना जन्तूनादेवात्पापकृतामपि ।

न पातो नरकेतेपातेषा शास्ताहमेवयत् ॥ ८८ ॥

काय विज्ञाय सापाय स्मृत्वा गर्भस्य वदनाम् ।

त्यक्त्वा राज्यमपि प्राज्य सेव्या काशी निरन्तरम् ॥८९॥

अर्तकितसमभ्येत्य यमदूना सुदारुणा ।

बद्ध्वापाशैर्हनिष्यन्तिक्षिप्रकाशीतत श्रयेत् ॥९०॥

नपापेभ्यो भययत्र नभययत्रव यमात् ।

न गर्भवासभीयंत्र ता काशी को न सश्रयेत् ॥९१॥

अद्यप्रात परश्वोत्रामरणप्राप्यमेव च ।

यावत्कालविलम्बोऽस्तितावत्काशीसमाश्रयेत् ॥९२॥

प्राप्ते तु मरणे पृ सा पुनर्जन्म पुनर्मृति ।

अपुनभवभूमि च तस्मात्काशी श्रयेद्विषुध ॥९३॥

चौबीस पाशों से जो कि त्रिगुणों की क्रिया से अत्यन्त दृढ हैं । सभी मनुष्य इनसे कण्ठ में बद्ध रहते हैं ये काशी के बिना कैसे विमुक्त हो सकते हैं ? अर्थात् नहीं होते हैं ॥८५॥ यह योग बहुत उप सर्गों वाला होता है अर्थात् इसमें अत्यधिक विघ्न बाधाएँ हुआ करती हैं और तप-दधियाँ जो होती हैं वह बहुत कष्टों के द्वारा साध्य होती हैं । योग से भ्रष्ट हो जावे और तप से जो भ्रष्ट हो जाता है वह फिर गर्भ के बलेशों का

सहन करने वाला बनता है अर्थात् उसका पुनर्जन्म होता है ॥८६॥ काशी पुरी में रहकर भी पापों को करके भी जो काशी पुरी में ही अपने प्राणों का त्याग किया करता है वह रुद्रदेव का पिशाच होकर भी पुनः मुक्ति को प्राप्त किया करता है ॥८७॥ काशीपुरी में मृत हुए जन्तुओं के यदि वे दैवदश पाप करने वाले भी हो तो उनका पतन नरक में नहीं होना है क्योंकि उनका शासक भी यहीं ही होना है । अर्थात् से युक्त इस शरीर को समझ कर और गर्भगत वेदना का ज्ञान करके अर्थात् स्मरण करके परम विशाल राज्य को भी त्याग करके निरन्तर काशीपुरी का ही सेवन करना चाहिए ॥८८-८९॥ अनर्कित के समीप में आकर सुदारुण यमराज के दूत पक्षी से बातकर हुनन करेंगे । इसलिये बहुत शीघ्र ही काशीपुरी का समाश्रय ग्रहण करना चाहिए । काशी में मृत्यु प्राप्त होजाने पर दुबारा न जन्म ही होता है और न मृत्यु ही होती है । जहाँ पर पापों से कोई भी भय नहीं होता है और न यमराज के द्वारा दण्ड प्राप्त करने का ही फिर भय रहा करता है । वहाँ पर गर्भ में वास करने का भी भय नहीं रहता है ऐसी उस काशी का कौन मूढ़ है जो आश्रय ग्रहण न करेगा । यह काशीपुरी तो अपुनर्भव की भूमि है । इसलिये शुभ पुरुष का कर्तव्य है कि उस काशीपुरी का सेवन करे ॥९०-९३॥

पुत्रक्षेत्रकलत्राख्या त्यक्त्वा माया हि वैष्णवीम् ।

भवान्तरेऽनेकरूपाम्भवन्ती काशिका श्रयेत् ॥९०॥

दूरं मे मरण युवाहमधुना धार्यं न चित्ते त्विति

श्रोतव्यो निमृत्तं कृतान्तमहिपत्रैवेयघण्टारवः ।

नैकटघात्प्रकटोत्कटश्रमघटामप्राप्य हित्वा द्रुतं ।

जीर्णां पर्णकुटी ततः पट्टमतिर्गच्छेत्पुरी घूर्जटेः ॥९१॥

अगस्त्यस्य पुरःसूत! कथयित्वा कथामिमाम् ।

सर्वं पापप्रशमनी पुनःस्कल्लवाचह ॥९६॥

पुत्र, क्षेत्र और कलत्र नाम वाली वैष्णवी माया का त्याग करके भवान्तर में अनेक रूप वाली और भय वा नाश करने वाली काशीपुरी का सेवन करना चाहिए । भगवान् रुद्र ने कहा—मेरा मरण अभी

बहुत दूर है और प्रभो में युवा हूँ, ऐसा वित्त में कमी भी धारण नहीं करना चाहिए चुप-चाप यमराज के वाहन महिष (भैंसा) के गले में बंधे हुए घण्टा की ध्वनि सुननी चाहिए । निकटना में प्रकट उत्कट धरा को पाकर ही शीघ्र त्याग करके पटुमति वाले पुरुष को धूर्जटि भगवान् की पुरी काशी में जीर्ण पर्यंकुटी का ही निवास ग्रहण करना चाहिए । भगवान् व्यास देव ने कहा—हे सूत ! अगस्त्य के आगे इस कथा को जो समस्त पापों का प्रशमन करने वाली है यह कह कर फिर भगवान् स्कन्द ने कहा था ॥१४-१६॥

५०—गङ्गामहिमावर्णन एवं दशहरास्तोत्रकथन

वाराणसीतोप्राथतं यथा चानन्दकाननम् ।

तथा च कथयामीह देवदेवेन भाषितम् ॥१

निशामयमहाबाहो ! विष्णो ब्रैलोक्यसुन्दर ! ।

प्राप्तं वाराणसीत्याख्यामविमुक्तं यथा तथा ॥२

निर्दग्धान्सागराञ्छ्रुत्वा कपिलक्रोधवह्निना ।

अश्वमेधाश्वसंयुक्तान्पूर्वजान् स्वान् भगोरथः ॥३

सूर्यवंशे महातेजा राजा परमधामिकः ।

आरिराधयिपुंगंङ्गां तपसे कृतनिश्चयः ॥४

हिमवन्तं नगश्रेष्ठममात्यन्यस्तराज्यधुः ।

जगाम यशसां राशिहृदिधीर्युः पितामहान् ॥५

ब्रह्मशापाग्निनिर्दग्धान्महादुर्गतिगानपि ।

विना धिमागंगां विष्णो ! को जन्त्स्त्रिदिवं नयेत् ॥६

भगवान् श्री स्कन्द ने कहा—यह जिस प्रकार से आनन्द कानन वैसे ही वाराणसी, इम नाम से भी प्रथित है और मैं उसी माँति से देवों के देव के द्वारा भाषित को कहता हूँ । श्री ईश्वर ने कहा—हे महान् बाहुओ वाले ! हे विष्णो ! हे ब्रैलोक्य में परम सुन्दर ! अब आप यह गुनाहमे कि जैसे यह अविमुक्त दोन वाराणसी इस नाम को प्राप्त हुआ है ।

राजा भगीरथ ने कपिल मुनि के क्रोध की घग्नि से अभ्रमे । यज्ञ के अश्व से समन्वित अपने पूर्वजों को सगर के पुत्रों को निर्दग्ध सुनकर यह सूर्य वश में महान् तेजस्वी और परम धार्मिक राजा हुआ था । इसने गङ्गा की आराधना करने की इच्छा वाला होकर तप करने के लिये निश्चय किया था ॥१-४॥ इसने अपने मन्त्रियों पर समग्र राज्य का भार छोड़कर फिर यह पर्वतों में परम श्रेष्ठ हिमालय पर सुन्दर यशो का समुदाय स्वरूप राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा वाला होकर तप करने के लिये चला गया था । हे विष्णो ! ब्रह्म वाप से भस्मवात् हुए महात् दुर्गति वाले उन सगर के सुतों को त्रिमायमा (गङ्गा) के बिना किसकी सामर्थ्य है जो स्वर्ग में पहुँचा सके । ॥५-६॥

ममैव सापराभूतिस्तोथरूपा शिवात्मिका ।

ब्रह्माण्डानामनेकानामाधार, प्रकृति, परा ॥७

शुद्धविद्यास्वरूपा च त्रिशक्ति-करुणात्मिका ।

आनन्दामृतरूपा च शुद्ध धर्मस्वरूपिणी ।८

यामेता जगता धात्री धारयामि स्वलीलया ।

विश्वस्य रक्षणार्थाय परब्रह्म स्वरूपिणीम् ॥९

त्रैलोक्ये यानितीर्थानि पुण्यक्षेत्राणि यानि च ।

सर्वत्र सर्वे ये धर्माः सर्वे यज्ञाः सशिक्षणाः ॥१०

तपासि विष्णो ! सर्वाणि श्रुति सागा चतुर्विधा ।

अह च त्वञ्च ऋचापि देवताना गणाश्च ये ॥११

पुरुषार्थाश्च सर्वे वंशक्तयो विविधाश्च याः ।

गङ्गाया सर्व एवमेतं सूक्ष्मरूपेण सस्थिताः ॥१२

सस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वकृत्तुषु दीक्षितः ।

चीर्ण सर्वशक्तः सोपि यस्तु गङ्गा निवेवतं ॥१३

तपासि तेन तप्तानि सर्वदानप्रदः स च ।

स प्राप्तयोगनियमो यस्तु गङ्गा निवेवते ॥१४

यह गङ्गाजी मेरी ही एक जन के स्वल्प बालों इन्तरी भूति है जो

शिवात्मिका ही है । यह धरती ब्रह्माण्डों की आधार और परा प्रकृति है ।

यह शुद्ध विद्या के स्वरूप वाली, तीन शक्तियों से युक्त, कल्याणिका, आनन्दामृत के रूप वाली एवं शुद्ध धर्म के स्वरूप वाली है। जिस इसको समस्त जगत् की धात्री को मैं अपनी सीता ही से धारण किया करता हूँ। इस पर ब्रह्म के स्वरूप वाली को मैं विश्व की रक्षा करने के ही लिये धारण किया करता हूँ। इस त्रिलोकी में जो भी तीर्थ हैं तथा पुण्य के क्षेत्र हैं, सर्वत्र सब जो धर्म हैं तथा दक्षिणा से युक्त यज्ञ हैं और हे विष्णो ! समस्त जो तप है तथा अंगों के सहित सब चारों प्रकार के वेद हैं, मैं भीर घाप और कोई भी, देवताओं के गण जो हैं, समस्त पुरुषार्थ तथा विविध शक्तियों से सभी इस गङ्गा में मूढम रूप से स्थित रहा करते हैं। जो पुरुष धी गङ्गा देवी का सेवन करता है अपने सम्पूर्ण योग के नियमों को प्राप्त कर लिया है और उस सभी तपों का भी तपन कर लिया है तथा वह सभी दानों का प्रदाता होगया है ॥७-१४॥

सर्वे षण्णधिमेष्यदश्च वेदविद्भूषदश्च ये तथा ।

दास्त्रार्थपारमेष्यदश्च गङ्गास्नायी विशिष्यते ॥१५॥

मनोभावशमज्जैदोपंहुंष्टो बहुविधैरपि ।

वीक्ष्य गङ्गां भवेत्पूजः पुण्यो मात्र संशयः ॥१६॥

शृते सर्वत्र तीर्थानि त्रेतायां पुष्करम्परम् ।

द्वारे तु कुरक्षेत्रं कल्पी गङ्गाय केवलम् ॥१७॥

पूर्वं जन्मालराभ्यामवामनावदातो हरे ! ।

गङ्गा तीरे निवासः स्यान्मदनुषह्नः परात् ॥१८॥

ध्यानं शृते मोक्षहेतुरत्रेतायां तपसुर्वं तपः ।

द्वारे तद्वदयं यज्ञा. कल्पी गङ्गाय केवलम् ॥१९॥

यो देहपतनाघातदुर्गमतीरं न मुञ्चति ।

न हि वेदान्त विद्योर्गी प्रत्यपयं ज्ञानो महा ॥२०॥

कल्पी कमुदवितानां वरद्वारगामनान् ।

विधिहीनैश्चित्तमात्प र्त्तान्ना विनानहि ॥२१॥

मदराज कल्पी तीर कल्पी आपसी से तथा देश के वेत्ताओं से और
 कल्पी के दूरी पारणती विद्याओं के भी मन से स्नान करने वाला पुण्य

विशिष्ट दृष्टा करता है ॥११॥ मन-वाणी और काया से समुत्पन्न दोषों से जो कि बहुत से प्रकार के होते हैं दुष्ट पुरुष भी गंगा-का दर्शन प्राप्त करके ही पवित्र हो जाया करना है—ऐसा केवल गंगा के दर्शन मात्र का प्रभाव होता है—इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है। कृतयुग में सर्वत्र तीर्थ है—त्रेता युग में पुष्कर ही परम तीर्थ है। द्वापर युग में क्रुक्षेत्र सर्व शिरोमणि तीर्थ माना गया था और कलियुग में केवल गंगा ही सर्वोपरि विराजमान प्रमुख तीर्थ है। हे हरे ! पूर्व जन्मों के श्रम्यास से जो वासना है उसी के बल में यदि गंगा के तट पर निवास प्राप्त हो जाये तो यह मेरा ही परम अनुग्रह है। कृतयुग (सत्ययुग) में ध्यान की ही मुख्यता थी। त्रेता में तपश्चर्या प्रधान मानी गई थी। द्वापर में ये दोनों ही तथा यज्ञों का ध्यान माने गये थे और अब इस घोर कलियुग में जब कि ध्यान तप और यज्ञों का होना ही नितान्त भावश्यक रा है केवल इस उद्धार के लिये गंगा ही सब कुछ है। जो मनुष्य देह के पतन होने के समय तक गंगा के तट का श्याम नहीं करता है वह वेदान्त का ज्ञाता योगी है और सदा ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करने वाला है। कलियुग में कलुषित चित्त वाले तथा पराये धन के पाने में रति रखने वाले—विधि तथा क्रिया से सर्वथा हीन पुरुषों की केवल एक गंगा ही उद्धार करने वाली होती है। यह न ही तो ऐसे पुरुषों का कल्याण ही नहीं हो सकता है ॥१६-२१॥

अलदनीः कालकर्गो च दुःस्वप्नो दुर्विवन्तितम् ।

गंगागंगेतिजपनात्तानि नोपविशन्ति हि ॥२२

गंगा हि सर्वभूतानामिहामुत्र फलप्रदा ।

भाषानुरूपतो विष्णो सदा सर्वजगद्धिता ॥२३

यज्ञदानतपोयोग जपाः सनियमायमाः ।

गंगासेवामहस्राशं न लभन्ते कलौ हरे ! ॥२४

क्रिमष्टागेन योगेन किं तपोभिः किमध्वरैः ।

वास एव हि गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम् ॥२५

अपि दूरस्थितस्यापि गंगामाहात्म्य वेदिनः ।
 अयोग्यस्यापि गोविन्द ! भक्त्या गंगा प्रसीदति ॥२६
 अद्वाधर्मः परः सूक्ष्मः अद्वाज्ञानम्परन्तपः ।
 अद्वास्वर्गश्च मोक्षश्च अद्दया सा प्रसीदति ॥२७
 अज्ञानरामलोभाद्यः पुंसां सम्मूढचेतसाम् ।
 अद्वा न जायते धर्मं गंगाया ष विशेषतः ॥२८

फलदमी—कालकली—दुस्वप्न—दुर्विचिन्तन अर्थात् घुरे विषाद
 “गङ्गा-गङ्गा” इसके नामों का इस प्रकार से जाप करने से ये सब समीप
 में ही नहीं उठ्ठा करते हैं। अर्थात् इनका कोई भी बुरा प्रभाव नहीं
 होता है। यह गङ्गा समस्त प्राणियों को इस लोक में और परलोक में
 दोनों ही जगह पर फल प्रदान करने वाली होती है। हे विष्णो ! भावों
 के अनुसार यह सदा ही सम्पूर्ण जगत् के हितों के करने वाली है। हे
 हरे ! दान—दान—तप—योग—जप—निवम और यम ये सब गंगा के
 सेवन के सहस्र अक्ष के बराबर भी इस कलिपुत्र में नहीं होते हैं। इस
 प्राणों के योग के साधन से क्या लाभ है? अत्युच्च तपश्चर्याओं
 के करने से भी क्या प्रयोजन है तथा यज्ञों के यजन से भी क्या सिद्धि
 होती है। इन सबके द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है जो कि
 प्रात्सोद्धार का हेतु है तो वह ब्रह्मज्ञान तो गङ्गा तट पर निवास करते
 ही हो जाया करता है क्योंकि यह निवास ही उसका कारण होता है।
 हे गोविन्द ! गंगा नदी से बहुत दूर में भी स्थित हो तथा गंगा के
 माहात्म्य का ज्ञाता हो और सभी प्रकार से योग्यता से होना भी हो
 तो भी गंगा अपनी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाया करती है और उस भक्त
 का कल्याण किया करती है। यह अद्वा का भाव ही सर्वोपरि धर्म होता
 है। यह धर्म सूक्ष्म है। अद्वा ही ज्ञान है और धर्म तप है। अद्वा का
 ब्रह्म महत्त्व है। यही स्वर्ग है और मोक्ष भी है। इसी अद्वा से वह धर्म
 प्रसन्न हो जाता है। अज्ञान (ज्ञान का सर्वथा न होना)—राग अर्थात्
 कार्सादिक अद्वा चेतन वस्तुओं में समत्वपूर्ण आसक्ति—लोभ आदि से

सम्मूढ़ चित्त वाले पुरुषों की धृष्टा कभी भा धर्म में नहीं हुमा करती है तथा गङ्गा में तो विशेष रूप से नहीं हुषा करती है ॥२२-२८॥

बहिः स्थितं जलं यद्व्यधारिकेलान्तरे स्थितम् ।

तया ब्रह्माण्डबाह्यस्थं परब्रह्माम्बु जाह्नवी ॥२९

गंगालाभात्परो लाभः क्वचिदन्योन विद्यते ।

तस्माद्गंगामुपासीत गंगं व परमः पुमान् ॥३०

शक्तस्य पण्डितस्यापि गुणिनो दानशीलिनः ।

गंगस्नानविहीनस्य हरे ! जन्म निरर्थकम् ॥३१

वृथा कुलं वृथा विद्या वृथा यज्ञा वृथा तपः ।

वृथा दानानि तस्येह कली गंगा न यो भजेत् ॥३२

गुणवत्पात्रपूजायांन स्याद्वेतादृशं फलम् ।

यथा गंगजलस्नान पूजने विधिना फलम् ॥३३

ममतेजोऽग्निगर्भे यं मम वीर्यति संवृता ।

दाहिका सर्वदोषाणां सर्वपापविनाशिनी ॥३४

स्मरणादेव गंगयाः पापसङ्घात पञ्जरम् ।

शतघा भेदमायाति गिरिवंश्रहतो यथा ॥३५

बाहिर में स्थित यह गंगा का जल उसी भाँति है जिन तरह मे नारियल के अन्दर जल रहा करता है । उसी प्रकार से इस ब्रह्माण्ड के बाहिर में स्थित यह परब्रह्मरूपी जल वाली गंगा है । गंगा को प्राप्ति के समान अन्य कोई भी परम लाभ सगर में नहीं है । इसीलिए गंगा की उपासना अवश्य ही करनी चाहिए । यह गंगा ही साक्षात् परम पुरुष है । समुच्चयदाधिरूढ इन्द्र ही क्यों न हो—चाहे महान पण्डित हो—अनेक सद्गुणों से युक्त भी हो और दान देने के स्वभाव वाला भी हो यदि ऐसा भी कोई गंगा के स्नान से होना है तो उसका जन्म ही निरर्थक हो जाता है । ज! इस कलियुग में गंगा का सेवन नहीं किया करता है उसको कुल-विद्या—यज्ञ - तप और दान सभी वृथा हैं । किसी भी गुण गण सम्पन्न पात्र की पूजा में भी उस प्रकार का फल नहीं होता है जैसा कि विधि के ग्रहित गंगा के रूप में स्नान और उसके पूजन में फल प्राप्त हुआ करता

है । यह गंगा मेरे तेज की अग्नि का समस्त्य है और यह मेरे ही वीर्य से प्रति संवृत है । यह सभी दोषों के दाह करने वाली और समस्त पापों को विनाश कर देने वाली है । केवल गंगा का स्मरण ही करने से पापों के संघात का पञ्जर सँकड़ों टुकड़े होकर भिन्न हो जाया करता है जिम तरह से वज्रात के होने से पर्वत टुकड़े-टुकड़े हो जाया करते हैं ॥३६-३७॥

गंगा गच्छति यस्त्वेको यस्तु भक्त्याऽनुमोदयेत् ।
 तयोस्तुत्यं फलं प्राहुर्भक्तिरेवान्न कारणम् ॥३६
 गच्छंस्तिष्ठञ्जजपन्ध्यापन् शुञ्जन्जाग्रत स्वप्नवदन् ।
 यः स्मरतेस्ततसं गंगां स हि मुच्येत वन्दनात् ॥३७
 पितृनुद्दिश्य यो भक्त्या पापसं मधुसंपुतम् ।
 शुद्धसर्पिस्तिलः साधुं गंगाभक्तिं विनिरूपेत् ॥३८
 तुप्ता भवन्ति पितरस्तस्य वर्षशतं हरे ।
 यच्छन्ति विविधान्कामान्परितुष्टाः पितामहाः ॥३९
 लिंगे सम्पूजिते सर्वमर्चितं स्यात्त्रयगत्या ।
 गंगास्नानेन लभते सर्वतीर्थफलं तथा ॥४०
 गंगायां तु नरः स्नान्वायोर्लिंगं नित्यमर्चति ।
 एकेन जन्मभक्तिं परां प्राप्नोति स ध्रुवम् ॥४१
 अग्निहोत्रं च यज्ञादच व्रतदानं तपांसि च ।
 गंगायां लिंगपूजायाः कोटयं शैनापिनोसमाः ॥४२
 गंगां गन्तुं विनिरिचत्य कृत्वा श्राद्धादिकं गृहे ।
 स्थितस्य सम्यक्सङ्कल्पात्तस्य नन्दन्ति पूर्वजाः ॥४३

एक तो गंगा नदी में स्नान करने को जाया करता है और एक भक्ति की भावना से उत्तम धनुगोदन करता है उन दोनों का समान ही पुण्य फल हुआ करता है क्योंकि यहाँ पर भक्ति ही एक मुख्य कारण होता है । गमन करते हुए—स्थित रहते हुए—नाम का जाप करते हुए—ध्यान करते हुए—भोजन करते हुए—आयते—सोते और वातचोत करते हुए जो निरन्तर गंगा का स्मरण किया करता है वह सांसारिक बन्धन के

मुक्त हो आया करता है ॥३६-३७॥ अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर जो कोई भी पुरख भक्तिपूर्वक मधु से समन्वित पायस गुड़-धृत घौर तिलो से युक्त करके गंगा के जल में निक्षिप्त किया करता है हे हरे ! उनके पितृगण ही वर्ष तक तृप्त हो जाया करते हैं । पितामह आदि जब पूर्णतया परिशुद्ध हो जाते हैं तो धनेक प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर दिया करते हैं । जिस लिंग का पूजन कर लेने पर कष्ट में सभी का समर्थन हो आया करता है जिस प्रकार से गया वेवल स्नान कर लेने से तमस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो आया करता है । जो मनुष्य नित्य ही गंगा में स्नान करके शिवलिंग का समर्थन किया करता है वह एक ही जन्म में परा मुक्ति का लाभ निश्चय ही प्राप्त कर लिया करता है । अग्निहोत्र-यज्ञ-व्रत-दान-तप ये सब गंगा में स्नान और शिव लिंग का अर्चन के करोड़ मद्य के बराबर भी नहीं हुआ करते हैं । गंगा पर जाने का निश्चय करके घर में श्राद्धादिक करके सम्यक रीति से मकल्प करके जो स्थित रहता है उसके पूर्व उसका बडा भारी अभिनन्दन किया करते हैं ॥३८-४३॥

पापानि च रुदन्त्याशुहा भवयास्यामइत्यलम् ।

लोभमोहादिभिः सार्द्धं मन्त्रयन्ति पुनः पुनः ॥४४

यथानगंगायास्वैप तथा विष्णुं प्रकुमंहे ।

गंगागतोयथाचंप न उच्छित्ति विधास्यति ॥४५

गूहाद्गंगावगाहार्यं गच्छतस्तु पदे पदे ।

निराशानिभ्रजन्त्येव पापान्यस्य शरीरतः ॥४६

पूर्वजन्मकृतं पुण्यैस्त्यक्त्वा लोभादिकं हरे ! ।

व्युदस्य सर्वविघ्नीषान् गंगां प्राप्नोति पुण्यवान् ॥४७

अनुपगेन मीत्येन घाणिज्येनापि सेवया ।

कामासक्तोऽपि वा भर्त्यो गंगास्नातो दिवं भजेत् ॥४८

अनिच्छयापि संपृष्टो दहनीहि यथा दहेत् ।

अनिच्छयापि सस्नाता गंगा पाप तथा दहेत् ॥४९

दिव्योपधैर्यथारोगालोभेन च यथागुणाः ।

यथाश्रीध्मोष्मसम्पत्तिरगाधहृदमञ्जनात् ॥६१

तूलशूलः स्फुलिगेन यथा नश्यति तत्क्षणात् ।

तथा दोषाः प्रणश्यन्ति गंगाम्भः स्पर्शनाद् ध्रुवम् ॥६२

क्रोधेन च तपोयद्वत्कामेन च यथा मतिः ।

अनयेन यथा लक्ष्मीविद्यमानेन वै यथा ॥६३

दम्भकौटिल्यमायाभिर्यथा धर्मो विनश्यति ।

तथा नश्यन्ति पापानि गंगाया दशनेन तु ॥६४

सिद्धियाँ-सिद्धियो के बिन्दु-अनेक स्पर्श लिंग प्रासाद जो रत्नों से रचित हैं एवं चिन्तामणि गण भी ये सभी कलियुग के कल्मषों से भीत होकर गंगा के ही जल के छन्दर स्थित रह जाते हैं । अतएव प्रभोष्टों की सिद्धियों के प्रदान करने वाली गंगा का इस कलियुग में भली भाँति सेवन करना ही चाहिये ॥१७-१८॥ सूर्योदय के होने पर अन्धकारों की भाँति-वज्रपात के भय से पर्वतों के समान-गहड़ के भय से सर्पों के सहस्र-बातों से भाहत मेघों के तुल्य-जैसे तत्व ज्ञान से मोह और सिंह को देखकर मृग दूर भाग जाता करते हैं ठीक उसी प्रकार से समस्त पाप भी गंगा के दशन मात्र करने से क्षण भर में ही क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं । जिस तरह से दिव्य औपधियों से रोग-लोभ से सदगुण और ध्रुव की ऊर्म सम्पत्ति किसी अगाध हृद के जल में मञ्जन करते से नष्ट हो जाया करती है । तूलका (रई का विशाल ढेर जो एक पक्ष के ही समान होता है अग्नि के एक ही स्फुलिग (पतिंग) से क्षण भर में नष्ट हो जाया करता है उसी तरह से गंगा के जल के स्पर्श मात्र करने ही से एक ही क्षण में निश्चय ही समस्त दोष नष्ट हो जाया करते हैं । क्रोध करने से जैसे तप और काम से मति-अनय के विद्यमान होने से लक्ष्मी-दम्भ और कौटिल्य की माया से धर्म नष्ट हो जाया करता है ठीक उसी भाँति गंगा के दर्शन से ही सब पाप विनष्ट हो जाते हैं ॥१६-६४॥

मानुष्य दुर्लभं प्राप्य विद्युत्सम्मातचञ्चलम् ।

गंगा यः सेवते सोऽत्र बुद्धेः पारंपरगतः ॥६५

विधूतपापा ये मर्त्याः परंज्योतिः स्वरूपिणीम् ।
 सहस्रसूर्यप्रतिमां गंगां पश्यन्ति ते भुवि ॥६६
 साधारणाम्भ सा पूर्णा साधारण नदीमिव ।
 पश्यन्ति नास्तिका गंगां पापोपहतलोचनाः ॥६७
 ससारमोचकश्वाहं जनानामनुकम्पया ।
 गंगातरंगरूपेण सोपानं निर्ममे दिवः ॥६८
 सर्वे एव शुभः कालः सर्वोदेशस्तथाशुभः ।
 सर्वो जनो दानपात्रं श्रीमती जाह्नवी तटे ॥६९
 यथाऽश्वमेधो यज्ञानां नगानां हिमवान्पया ।
 व्रतानः च यथा सत्य दानानाम भयं यथा ॥७०

इस परम दुर्लभ मनुष्य का जीवन प्राप्त करके जो कि बिजली के समान अतीव चञ्चल है जो गंगा का यहा सेवन किया करता है वह ही मनुष्य सचेत है और बुद्धि के पर पार को प्राप्त हुआ अर्थात् बहुत ही बुद्धिमान होता है । जो मनुष्य अपने पापों का विधूजन कर देते हैं वे ही मनुष्य इस भूलोक में परम ज्योति स्वरूपिणी और सहस्री सपों के प्रतिमा वाली इस गंगा का दर्शन प्राप्त किया करते हैं । पापों से उपहत नेत्रों वाले नास्तिक लोग ही इस गंगा को साधारण जल से परिपूर्ण एक मामूली नदी की ही भांति देखा या समझा करते हैं । जनो के ऊपर अनुकम्पा करके मैं समार से मोचन कराने वाला हूँ । और मैंने गंगा के तरंगों के स्वरूप में ही स्वर्गलोक में जाने के लिए नीदियों का निर्माण कर दिया है । श्री मती गंगा के तट पर सभी काल परम शुभ होता है तथा सभी देव शुभकारी हैं और वहाँ पर सभी जन दान के योग्य पात्र हुआ करते हैं । जिस तरह समस्त यज्ञों में अश्वमेध समस्त पर्वतों में हिमवान्—सब पर्वतों में सत्य का व्रत सम्पूर्ण दानों में धर्म का दान उत्तम माना जाता है ॥६१-७०॥

प्राणमश्च तपसां मन्त्राणां प्रणवो यथा ।

धर्मणामप्यहिमा च काम्याना श्रीर्यया वरा ॥६१

यथात्मविद्याविद्यानां स्त्रीणां गौरी यथोत्तमा ।
 सर्वदेवगणानाञ्च यथा त्व पुरुषोत्तम ॥७२
 सर्वेषामेव पात्राणां शिवभक्तो यथा वरा ।
 तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थं विशिष्यते ॥७३
 हरे ! यद्वाचयोर्भेदं न करोति महामतिः ।
 शिवभक्त सविज्ञेयो महापाशुपतश्च सः ॥७४
 पापपांसुमहावात्या पापद्रुम कुठारिका ।
 पापेन्धनदशग्निश्च गंगेय पुण्यवाहिनी ॥७५
 नानारूपाश्च पितेरा गाथा गायन्ति सर्वदा ।
 अपि कश्चित्कुलेऽस्माकं गंगास्नायी भविष्यति ॥७६
 देवर्षीन्परिसन्तर्प्य दीनानायाश्च दुःखितान् ।
 श्रद्धया विधिना स्नात्वा दास्यते सलिलाञ्जलिम् ॥७७
 अपि नः स कुले भूयान्छिवे त्रिष्णी च साम्प्रदृक् ।
 तदालयकरोभक्त्या तस्य सम्मार्जनादिकृत् ॥७८

जिस तरह से समस्त सप्तो मे प्राणायाम, सब मन्त्रो मे प्रणव, सब धर्मो मे ब्रह्मिणा, सब काम्य पदार्थो मे वरा श्री सर्वात्ममानी जाती है । जैसे सब विद्याओ मे आत्म विद्या, स्त्रियो मे गौरी उत्तम होती है । हे पुरुषोत्तम ! समस्त देवो मे जैसे आप सर्वश्रेष्ठ देव हैं समस्त पात्रो मे भगवान् शिव का भक्त श्रेष्ठ होता है । उसी प्रकार से सम्पूर्ण तीर्थो मे गङ्गा का तीर्थ विशिष्ट तीर्थ होता है । हे हरे ! जो महा मति पुरुष हम और आप इन दोनो मे भेद का भाव नहीं रखता है वही शिव का भक्त जानना चाहिए और वही महा पाशुपत होता है । पाप रूपी पांसु (धूलि कण) के लिये महा वात्या धर्षात् जोरदार आँसु, पापो के द्रुमो को काटने वाली कुठारी तथा पाप रूपी ईंधन के लिये दावाग्नि यह परम पुण्य वाहिनी गंगा है । अनेक रूपो वासे पितृगण सर्वदा गाथा वा गायन किया करते हैं कि हमारे भी कुल में कोई ऐसा गंगा का परम भक्त गंगा मे स्नान करने वाला जन्म लेगा जो देवो को और ऋषियो को सन्तुष्ट करे दीन, अनाथ और दुःखियो को श्रद्धा से विधि पूर्वक गंगा में स्नान

करके जलाञ्जलि देगा ? वे पितर लोग यह कहा करते हैं कि कभी कोई ऐसा भी उत्पन्न होगा जो शिव तथा विष्णु भगवान् मे समान भावना रखे तथा भक्ति से उनके मन्दिर का निर्माण करावे और उस देवालय मे सम्भाजेन आदि करे ॥७१-७८॥

अकामोवातकामोवातिर्यग्योनिगतोऽपिवा ।

गङ्गायां यो मृतो मर्त्यो नरकं स न पश्यति ॥७९

तीर्थमन्यत्प्रससन्ति गङ्गातीरेस्थिताश्च ये ।

गङ्गा न बहुमन्यन्ते ते स्युर्निरयगामिनः ॥८०

मा चत्वा चैवयोद्वेष्टि गङ्गा च पुरुषाधमः ।

स्वकीयं. पुरुषैः सार्धं स घोरं नरकं व्रजेत् ॥८१

पष्टिगणसहस्राणि गङ्गा रक्षन्ति सर्वदा ।

अभक्तानाञ्च पापाना वासेविघ्नम्प्रकुर्वते ॥८२

कामक्रोधमहामोह लोभादिनिशितै. शरै. ।

घ्नन्ति तेषा मनस्तत्र स्थितिचापनयन्ति च ॥८३

गङ्गा समाश्रयेद्यस्तु स मुनिः स च पण्डितः ।

कृतकृत्यः सविज्ञेय पुरुषाथ चनुष्टये ॥८४

किसी भी कामना से युक्त हो प्रयत्न कामना से रहित हो या किसी भी तीर्थक योनि मे रहने वाला हो जो प्राणी गङ्गा तट के समीप मे अपने प्राणी का परिस्मरण किया करता है वह फिर कभी भी नरक का मुल नहीं देखा करता है । जो मनुष्य गंगा के तीर पर स्थित होकर अन्य तीर्थों की प्रशंसा किया करते हैं और गंगा की विशेष महत्त्व वाली नहीं मानते हैं वे निश्चय ही नरक मे गामी हुआ करते हैं । जो कोई मुक्त को या आपकी द्वेष-भाव से देखता है वह पुरुषो मे महान् अधम ही हुआ करता है । ऐसा प्राणी अपने पितरों के सहित अतीव घोर नरक मे गमन किया करता है । साठ सहस्र गण सर्वदा गंगा की रक्षा किया करते हैं और जो भक्त मही होते हैं या पापी होते हैं उनके वहाँ पर निवास करने में महान विघ्नो को किया करते हैं । काम, क्रोध, महा मोह और लोभ आदि पाँचे शरो से उनके मन का हनन किया करते हैं और उनकी

स्वयंव्यापारयामास रक्षार्थं शशिशेखरः ।

अनुज्ञातप्रवेशानां विश्वेशेन कृपावता ॥२२

ते प्रवेशम्प्रयच्छन्ति नान्येषाहि कदाचन ।

इत्यर्थकथयिष्येऽहमितिहासम्पुरातनम् ।

आश्रयंकारिपरम काशीभक्तिप्रवर्धनम् ॥२३

एक महान् दृष्टको घाला भी मार के बहन करने वाला पुत्रप काशी में उत्तर बहा गंगा को प्राप्त करके हेला ही से अपने शरीर का त्याग करके धी विष्णु भगवान् के परमपद को प्राप्त हो गया था । यम, इन्द्र और अग्नि जिनमे प्रमुख थे ऐसे देवगण मुक्तिपथ के उन्मुखों को देख कर सभी सब का समालोकन करके पहिले इस पुरी की रक्षा किया करते थे । सन्मति का खण्डन करने वाली महाभिरूपा भसि को प्राप्त करके देवीं ने दुष्टों के प्रवेश को रोकने वाली पुत्री का निर्माण किया था । वहाँ पर क्षेत्र के समागत विघ्नों का निवारण करने वाली वरणा की रचना की थी । सुरों ने दुराचारियों की सुप्रवृत्ति को निवृत्ति करने वाली घरणा को भसि दक्षिणोत्तर दिग्भाग मे किया था । क्षेत्र की मोक्ष के निक्षेप की रक्षा करके ही वे निवृत्ति को प्राप्त हुए थे । क्षेत्र के पश्चात् दिग्भाग मे शशिशेखर भगवान् ने स्वयं रक्षा के लिये देहलिवि मायक को नियुक्त किया था । कृपालु विश्वनाथ के द्वारा जिनके प्रवेश की अनुज्ञा प्राप्त हो जाती थी उनके प्रवेश को ही वे होने देते हैं और दूसरों का नहीं होने दिया करते हैं । इस अर्थ मे मे एक पुरातन इतिहास कहूंगा जो परम आश्चर्य करने वाला और काशी की भक्ति के बढ़ाने वाला है ॥१६-२३॥

काश्या प्रवेशं प्राप्याऽपि तदस्थीनि घटोद्भव !।

विना वैश्वेश्वरामाज्ञाम्बहिर्यातानि तत्क्षणात् ॥२४

एवकाश्याप्रविश्यापिपापीधर्मानुपङ्गतः ।

नक्षेत्रफलमाप्नोनिबहिर्भवति तत्क्षणात् ॥२५

तस्माद्विश्वेश्वरार्जवकाशीवासेऽत्र कारणम् ।

असिञ्चवरणायत्र क्षेत्ररक्षाकृता कृते ॥२६

वाराणसीतिविख्याता तदारम्यमहामुने ॥

असेश्वरभायाश्च संगमं प्राप्याकाशिका ॥२७

वाराणसीह करुणामयदिव्यमूर्ति

रुमृज्य यत्र तु तनुं तनुभृत्सुखेन ।

विश्वेशदिङ् महसि यत्सहसा प्रविष्य

रूपेण ता वितनुताम्पदवीं दधाति ॥२८

जातो मृतो बहूपु तीर्थवरेपुवरेत्वं

जन्तो! न जातु तव शान्तिरभूनिमज्ज्य ।

वाराणसी निगदतोहं मृतोऽमृतत्वं

प्राप्याऽधुना मम वलात्स्मरशासनःस्याः ॥२९

अन्यत्र तीर्थं सलिले पतितो द्विजन्मा

देवादिभावमयते न तथा तु काश्याम् ।

त्रिभ्रं यवत्र पतितः पुनरुत्थिति न

प्राप्नोति पुत्कसजनोऽपिकिमग्रजन्मा ॥३०

किसी प्रकार से काशी में प्रवेश प्राप्त करके भी हे घटोड्ढव ! उसकी अस्थियाँ विश्वेश्वरी आज्ञा के बिना उमी क्षण में बाहिर चली जाया करती हैं । इस प्रकार से कोई प्राणी धर्म के धनुषद्ग से काशी में प्रवेश प्राप्त करके भी उस पुण्य क्षेत्र के फल को प्राप्त नहीं किया करता है और उसी क्षण में बाहिर हो जाता है । इसलिये इस काशीपुरी के निवाग करने में श्री विश्वनाथ भगवान् की आज्ञा ही मुख्य कारण है जहाँ पर अस्ति और वरणा ये दोनों क्षेत्र की रक्षा करने वाली कर दी गयी हैं ॥२४-२६॥ हे महामुने ! तभी से धारम्भ करके यह पुरी "वाराणसी"—इस नाम से विख्यात हो गई है । यह काशी अस्ति और वरणा इन दोनों का सङ्गम प्राप्त करने वाली हुई है । यहाँ पर यह वाराणसी करुणामय दिव्य मूर्ति है । जहाँ पर देहवारी सुखपूर्वक अपने देह का उत्सर्ग करके सहस्र विश्वनाथ की दिशा के तेज में प्रवेश करके रूप से उस वितनुता की पदवी को धारण किया करता है ॥२७-२८॥

हे जन्तो ! तू बहुत-से श्रेष्ठ तीर्थों में उत्पन्न हुआ और मृत्युगत भी हुआ है किन्तु कभी भी निभञ्जन करके तुझे शान्ति नहीं हुई है । वाराणसी कहती है यहाँ पर मृत हुआ अब भ्रमृतत्व की प्राप्ति करके मेरे बल से स्मरशासन अर्थात् शिव हो जावेगा । अन्य तीर्थ जलमें पतित होकर द्विजन्मा देवादि के भाव को प्राप्त होता है इस काशी पुरी में उस प्रकार की बात नहीं है । यह एक अत्यन्त विचित्र बात है कि यहाँ पर एक बार पतित हुआ फिर उत्थान को ही नहीं प्राप्त किया करता है चाहे कोई पुत्कसजन भी बयो-नही कि भ्रमजन्मा (ब्राह्मण) की तो बात ही क्या है ॥२६-३०॥

सैषा परो संसृतिरूपपारावारस्यपारम्परहापुरारिः ।

यस्यां परं पौरुपमर्थमिच्छन्सिद्धिभ्रयेत्पौरपरम्परां तः ॥३१

तीर्थन्तराणि मनुजःपरितोऽवगाह्य

हित्वा तनुं कलुषितां दिवि दैवतं स्यात् ।

वाराणसीपरिसरे तु विसृज्य देहं

सन्देहभाभति देहदशाप्तयेऽपि ॥३२

वाराणसीसमरसीकरणाहतेऽपि

योगादयोगिजनतां जनतापहन्त्री ।

तत्सारकं श्रवणगोचरतां नयन्ती

तद्ब्रह्म दर्शयति येन पुनर्भवो न ॥३३

वाराणसीपरिसरे तनुमिष्टधात्री

धर्मार्थकामनिलयामहहा विसृज्य ।

इष्टं पदं किमपि हृष्टतरोर्ऽभिलष्य

लाभोऽस्तु मूलमपि नो यदवाप शून्यम् ॥३४

अ॥ काशिवासिजनता ननु वञ्चिताऽभूद्

भालेविलोचनवता वनितार्थभाजा ।

आदाय यत्सुकृतभाजनमिष्टदेहं

निर्वाणमात्रमपवर्जयता पुनर्भू ॥३५

पुरहा पुरारी की यह ऐसी पुरी है जो संसार रथी सागर का परला पार या तटरूप है जिस पुरी में परम पीरुप ग्रथ की इच्छा करता हुआ वह पीरुपरम्परा सिद्धि को प्राप्त करा देता है ॥३१॥ मनुष्य दूसरे तीर्थों का समी ओर से प्रवगाहन करके इम कल्पित शरीर का त्याग करके दिवलोक में देव हो आया करता है । इम वाराणसी के परिसर में तो अपने देह का त्याग करके फिर देह दशा की प्राप्ति के लिये भी सन्देह भाक् हो जाया करना है । यह वाराणसी योग के बिना भी समर सीकरों से अयोगी जनों के तापों का हनन करने वाली है । यह उच तारक मन्त्र का श्रवणों का मोचर कराती हुई उस ब्रह्म का दर्शन करा दिया करती है जिससे । फिर दूसरा जन्म ही नहीं हुमा करता है । इस वाराणसी के परिसर मे समस्त अशोष्ठो का जगन करने वाले और धर्म—अर्थ—काम का निलय स्वरूप शरीर का त्याग करके, अठहा ! बड़े ही हृप को बात है कि परम हृष्ट होकर किसी भी अशोष्ठ पद की इच्छा करके उसका लाभ होता है और मून की भी प्राप्त कर लेता है जिसको कि शून्य नहीं प्राप्त हुआ है । परम सुकृत का भाजन इस इष्ट देह की लेकर पुनजन्म के अग्र वर्णन करने वाले प्रभु ने निर्वाण मात्र ही प्रदान किया है अनित्य का भजन करने वाले विलाचन धारों के द्वारा निश्चय ही काशो के निवाम करने वाली जनता बञ्चित हो गई है ॥३२-३५॥

वाराणसीस्फुरदसीमगुणंकभूमिः

यत्र स्थितास्तनुभृतःशशिभृत्प्रभावात् ।

सर्वे गले गरलिनोऽक्षिभुजो ललाटे

वामार्धवामतनवोऽतनवस्ततोऽन्ते ॥३६

वानन्दकाननमिदं सुखदं पुरव

तत्रापि चक्रसरसीमणिकणिकाऽथ ।

स्वःसिन्धुसंगतिरथोपरमास्पदञ्च

दिश्वेशिनुः किमिह तन्नविमुक्तये यत् ॥३७

वाराणसीह वरणासिसरिद्धरिष्ठा

सम्भेदखेदजननी धुनदी लसच्छ्रीः ।

विधामभूमिरचलामलमोललक्ष्म्या
 हैना विहाय किमु सीदति मूढजन्मः ॥३८
 किं विस्मृत त्वहह गर्भजमामनस्यं
 कार्तान्तिदूतकृतवन्वननाडनञ्च ।
 वाम्भोरनुग्रहपरिग्रहलभ्य काशी मूढो
 विहाय किमु याति करस्यमुक्तिम् ॥३९
 तीर्थान्तराणि क्लुपाणि हरन्ति सद्यः ।
 श्रेयो ददत्यपि बहु त्रिदिव नयन्ति ।
 पानावगाहनविधानतनुप्रहाणं
 वाराणसी तु कुरुते वत मूलनाशम् ॥४०
 काशीपुरीपरिसरे मणिकर्णिकाया
 त्यक्त्वा तनुन्तनुभृतस्तनुमाप्नुवन्ति ।
 भाले विलोचनवती गलनीललक्ष्मी
 वामार्धबन्धुरवधूं विधुरायरोघाः ॥४१
 ज्ञात्वा प्रभावमतुलं मणिकर्णिकाया
 यःपुद्गलन्त्यजति चाशुचि पूयगन्धि ।
 स्वात्मावबोधमहसा सहसा मिलित्वा
 कल्पान्तरेष्वपि स नैव पृथक्त्वमेति ॥४२

यह वाराणसी स्फुरित धमीम गुणो की एक ही भूमि है जहाँ पर
 वाशिष्ठ के प्रभाव से शरीरधारी स्थित रहा करते हैं । सब गरल धारण
 करने वाले गले में हैं—तलाट में अक्षि युज है और वामार्ध में सुन्दर
 शरीर वाले हैं किन्तु धन्त में फिर वे सब तनुरहित होते हैं । यह आनन्द
 कानन पहले ही सुख प्रदान करने वाला है उसमें भी चक्र सर मणि-
 कर्णिका है । स्वर्ग नदी की संगति से यह विश्वनाथ का परमास्पद हो
 गया है । यहाँ पर ऐसा क्या है जो विमुक्ति के लिए न हो, व्यर्था, सभी,
 विमुक्ति देने वाले हैं ॥३६-३७॥ यहाँ पर वाराणसी वरणाक्षि
 सरितामो से परम वरिष्ठ है और सम्भेद के सेद की जननी देव नदी शोभा
 से सुसम्पन्न है । अचल और धमल मोक्ष की लक्ष्मी से युक्त यह विधाम

को भूमि है। ऐसी इस पुरी का त्याग करके यह मूढ जन्तु क्यों दुःख पाया करता है। क्या तू हे जन्तो ! गर्भ में उत्पन्न कष्ट को भूल गया है ? और क्या तूने यमराज के दूतों के द्वारा बन्धन और ताड़ना को भुला दिया है ? तू महान् मूढ है कि भगवान् दम्भु के अनुग्रह से काशीपुरी को प्राप्त करके हाथ में स्वित्त मुक्ति का त्याग करके क्यों जा रहा है ? ॥३८-३९॥ अन्य समस्त लोथं कलुषी का हरण किया करते हैं और तुरन्त ही भ्रम प्रदान किया करते हैं और बहुतों को स्वर्ग में भी पहुँचा दिया करते हैं परन्तु यह वाराणसी जन्म पाप-अवगाहन-विग्राम पूर्वक देह त्याग के द्वारा मूल का ही नाश कर दिया करता है ॥४०॥ काशी पुरी के परिसर में मणिकर्णिका में देहधारी देह का त्याग करके दूसरा ही क्लेश प्राप्त किया करते हैं जो कि भाल में बिलोचन वासा होता है और जिसके कण्ठ में नीलिया की शोभा हुआ करती है तथा धामार्ध भाग में जिसके सुडोल दरौर वाली बभ्रु है और विधुरावरोध युक्त है। साक्ष्य यह है कि शिव का मा ही शरीर प्राप्त हो जाया करता है ॥४१॥ मणिकर्णिका में अतुल्य प्रभाव की जान जो अशुचि और पूरा गन्धीर पुद्गल का त्याग करता है वह अपने आत्मा के अवधोष के तैज से सहसा मिलकर कल्पान्तरी में भी पृथक्ता को प्राप्न नहीं होता है ॥४२॥

रामादिदोषपरिपूरमनोहृषीकाः

काशीपुरीमतुलदिव्यमहाप्रभावाम् ।

ये कल्पयन्त्यपरतीर्थ समा समन्ता

ते पापिनो न सहते परिभाषणीयम् ॥४३

वाराणसी स्मरहरप्रियराजधानी

त्यक्त्वा कुतो यत्रसि मूढ! दिगन्तरेषु ।

प्राप्याप्याजाद्यसुलभां स्थिरमोक्षलक्ष्मी

लक्ष्मी स्वभावचपलाकिमु कामयेथाः ॥४४

विद्याधनानि सदनानि गजाम्भृत्प्याः

स्रक्चन्दनानि वनिताश्च नितान्त रम्याः ।

स्वर्गोऽप्यगम्य इह नोद्यमभाजि पुंसि
वाराणसी त्वसुलभा शलभादिमुक्तिः ॥४५

धात्रा धृतानि तुलया तुलनामवेतुं
वैकुण्ठमुख्यभुवनानि च काशिका च ।

तान्युद्ययुलंघुतयान्यगियं गुरुत्वात्तस्थौ
पुरीह पुरुषार्थं चतुष्टयस्य ॥४६

काशीपुरीमधिवसन्निह नरो नरोऽपि
ह्यारोप्यमाण इस मान्य इवैकहृद् ।

नानोपसर्गंजनिसर्गंजदुःखभारैः
कर्मापनुद्य स विशेषरमेशधाम्नि ॥४७

स्थिरापायंकायञ्जननमरणक्लेशनिलय
विहायास्याकाश्यामहहपरिगृह्णीतनकुतः ।

वपुस्तेजोरूप स्थिरतरपरानन्दसदनं
विमूढोऽसौ जन्तुः स्फुटितमिव कास्य विनिमयन् ॥४८

शागादि दोषो से परिपूण मन और इन्द्रियो वाले जो लोग इस प्रतुल एवं दिव्य महान् प्रभाव वाली काशी को दूररे ही तीर्थों के समान परि कल्पित किया करते हैं वे महा पापी हुआ करते हैं उनके साथ भाषण भी नहीं करना चाहिए । हे मूढ ! यह वाराणसी कामदेव को भस्म कर देने वाले भगवान् शिव की परम प्रिय राजधानी है । इसका परित्याग करके दिगन्तरो मे कहाँ गमन कर रहा है ? इस प्रलाभाद्य वे सुलभ इम महालक्ष्मी को प्राप्त करके भी जो स्थिर मोक्ष के प्रदान करने वाली लक्ष्मी है फिर उस स्वभाव से चपन लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्या कामना किया करता है ? विद्या-धन-सदन-गज-भद्रव-मृत्य-स्रक्-चन्दन प्रत्यन्त सुरम्य यनितार्थ और स्वर्ग भी उत्तम शील पुरुष को अगम्य नहीं है किन्तु यह वाराणसी असुलभा है जहाँ पर शलभ आदि की भी मृषित हो जाया करती है । एक बार घाता ने तुलना का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए तुला मे (सराजू) वैकुण्ठ मुख्य जिनमे है ऐसे समस्त भुवनो को और काशीपुरी को रखता था तो वे सब भुवन जिनमे वैकुण्ठ भी था लघु हुए

ये और पुण्यार्थ चतुष्टय की यह काशीपुरी गुरुत्व से युक्त सिद्ध हुई थी । काशीपुरी में अधिवास करने वाला मनुष्य भी यहाँ पर आरोग्यमाण एक रुद्र के ही समान मान्य हुआ करता है । अनेक उपसर्गज और सर्गज दुःखों के भारों के कर्मों का भवलोकन करके यह परमेश के धाम में प्रवेश किया करता है और वहाँ पर ही निवास करता है । इस काशीपुरी में स्थिर अथावो वाले और जनन तथा मरण के बलेशों का निवास स्थान का त्याग करके उसे क्यों नहीं ग्रहण करते हो । बहुत तेज के स्वरूप वाले और स्थिर तर परानन्द के सदन को यह महामूढ जन्तु पूटे हुए काँती के पात्र से बदल सा रहा है ॥४३ ४६॥

अहो! लोक-लोक किमिह सहते हस्त हतधीः ।

विपद्भारैः सारैर्नियतनिधनेर्ध्वंसितधनैः ॥५०

क्षितौ सत्यां काश्यां कथयति शिवो यत्र निधने ।

श्रुतौ किञ्चिद् भूयः प्रविशति न येनोदरदरीम् ॥५१

काशिवासिनि जने वनेचरे द्वित्रिभुज्यपि समीरभोजने ।

स्वैरचारिणिजितेन्द्रिये-यहोकाशिवासिनिजनेविशिष्टता ॥५२

नाऽस्तीह दुष्कृतकृतां सुकृतात्मना वा ।

काचिद्विशेषगतिरन्तकृता हि काश्याम् ॥५३

बीजानि कर्मजनितानि यद्वपराया ।

नाङ्कूरयन्ति हरदृग्ज्वलितानि तेषाम् ॥५४

शाशका मशका वका-शुकाः कलविद्धाश्च वृकाः कजम्बुकाः ।

तुरगारगवानरा नरा गिरिजे! काशिमृताः परामृतम् ॥५५

अरुद्ररुद्राक्षफणोन्द्रनूपणास्त्रिपुण्ड्रचन्द्राघंधरा धरा गताः ।

निरन्तरकाशिनिवासिनोजनागिरोन्द्रजेपारिषदासतामम ॥५६

बहुत ही आश्चर्य और वेद की-बात है—यह लोक शोक का इस संसार में क्यों सहन कर रहा है ? अल्पन् ही दुःख है कि यह हत बुद्धि वाला मनुष्य विपदाओं के द्वार रूप-निश्चित मृत्यु से युक्त और ध्वंसित धन वाले सारों से यह रात दिन विपत्तिभों को सहता ही रहा करता है जबकि इस भूमि में काशीपुरी जैसा क्षेत्र विद्यमान है जहाँ साक्षात् शिव

विराजमान रहते हुए यह कहा करते हैं कि काशी में निधन हो जाने पर वे कान में कुछ अर्थात् तारक मन्त्र कह दिया करते हैं जिसके प्रभाव से वह पुनः माता की उदर दरी में प्रवेश ही नहीं किया करता है अर्थात् पुनः उसको गर्भ में निवास करने की यन्त्रणाएँ नहीं सहनी होती हैं ॥५०-५१॥ काशी में वाम करने वाले मनुष्य वन में चरण करने वाला हो—दूमरे तीसरे दिन में भोजन करने वाला हो या समीर (वायु) का ही भोजन करके जीवित रहने वाला हो—स्वतन्त्रता से विचरण करने वाला हो, जिनैन्द्रिय हो तो उन काशीपुरी के निवास करने वाले पुद्गल में विशिष्टता हुआ करती है। काशी में जिनका अन्न होता है वे चाहे दुष्ट करने वाले हों या सुवृत्तात्मा हो उनकी कोई भी विशेष गति यहाँ पर नहीं होनी है। जिस तरह से ऊपर भूमि में बोय हुए भी बीज अंकुरित नहीं होते हैं उगी तरह से उनके बर्षों से जनित बीजों का भगवान् शम्भु की दृष्टि से भस्म हो जाने पर कोई भी अंकुर नहीं रहा करता है ॥५२-५४॥ शशक-मशक-बक-सुह-कलविक-वृक=जम्बूक-तुरग—वरग—वानर और नर हे गिरिजे ! काशी में मृत्युगन होने पर ये सभी परा मृतत्व को प्राप्त हो जाया करते हैं। हे गिरिन्द्रजे ! अरुद्र रक्षा और क्लीन्दों के भूषण तथा त्रिगुण अन्व-उपारी इन भूमि में स्थित काशी के निवासी मेरे पादों ही माने गये हैं ॥५५-५६॥

यावन्न एव निवसन्ति च जन्तवोऽत्र

पाश्याजलस्थल चरा भयजम्बुवाद्या ।

तावन्न एवमदनुग्रहरुद्रदेहा

देहावता नमधिगम्य मयि प्रविष्टा ॥५७

ये तुवर्षेययो रक्षा दित्रि देवप्रतीतिनाः ।

यातेपवोन्तरिक्षे ये ये मुद्वन्नेपवः प्रिये! ॥५८

रक्षा दनदनप्राप्तावाचीप्रत्यगुदव स्थिताः ।

ऊर्षेदिवम्पात्र ये रक्षापठषन्ने वेदवादिभिः ॥५९

धनदृष्टातामहृग्यानि ये रक्षा अधिभूतसे ।

गगनैर्गोत्रीरक्षा वास्या जन्तवो रक्षपिणः ॥६०

रुद्रावासतस्ततः प्रोक्तमविमुक्तं घटोद्भव !

यस्मात्समर्च्यं काशिस्थान्वर्णान्विर्णंतराश्रमान् ॥६१

श्रद्धयेश्वरबुद्ध्या च रुद्रार्चाफलभाङ्गरा ॥६२

इस काशी में जितने भी जन्तु निवास किया करते हैं वे जलचारी हों या स्थल पर रहने वाले हों जो कि ऋष्य जम्बुक घादि हैं वे सब के सब जतने ही मेरे अनुग्रह से रुद्र देहा देहावमान को प्राप्त करके मुक्त में ही प्रनिष्ट हो जाया करते हैं। जो वर्षेपव रुद्र हैं जो दिवलोक में देव कीर्तित किये गये हैं—जो वातेपव अन्तरिक्ष में है और हे प्रिये ! जो इस भूमण्डल में अन्नेपव हैं। प्राचीनवाची (पूर्व-पश्चिम)—प्रत्यक् और उदक् (दक्षिण-उत्तर) दिशाओं में दश-दश रुद्र स्थित होते हैं। देव वादियों के द्वारा जो ऊर्ध्व दिशा में स्थित रुद्र पड़े जाया करते हैं और जो असह्यात सहस्रो इस भूतल के मध्य में रुद्र हैं उन सबसे अधिक रुद्र स्वरूप वाले जन्तु काशी में हैं। हे घटोद्भव ! यह काशी रुद्रों का आवास स्थल है इसीलिए इसको सविमुक्त कहा गया है। इन्हीं कारण से काशी में स्थित वर्णों का और वर्णंतर आश्रमों का भली भाँति प्रचन करके चाहें वह श्रद्धा से किया जावे अथवा ईश्वर की बुद्धि से किया जावे मनुष्य रुद्र की अर्चा का पुण्य फल प्राप्त करने का अधिकारी होजाया करता है ॥५७-६२॥

इमशब्देनशत्रुः प्रोक्तःशान् शयनमुच्यते ।

निर्वचन्ति श्मशानार्थं मुने! शब्दार्थं कोविदाः ॥६३

महान्त्यपि च भूतानि प्रलयेसमुपस्थिते ।

शेरतेऽथ शवा भूत्वा श्मशानंतुततोमहत् ॥६४

अप्सु भूरिह लये लयं व्रजेदाप और्ववदनोग्रकन्दरे ।

मार्तारश्चनि महातनूनपाद्घोम्नि सक्षयति वै सदागतिः ॥६५

व्योम चापि लयमेत्यहकृतौ साऽपि पोडशविकारसयुता ।

लीयते महति बुद्धितञ्जके हा! महान्प्रकृतिमध्यगो भवेत् ॥६६

सा गुणत्रयमयी च निर्गुणन्त पुमासमवगुह्य तिष्ठति ।

पञ्चविंशतिः तमः पर. पुमान्देहमेहपतिरेपजीवकः ॥६७

थावयित्वा द्विजान्सम्यक् शिवलोकेमहीयते ।

अतःपरं कलशज ! किशुश्रूषतिद्वद ॥७४

काशीकथा कथ्यमाना ममाऽपि परितोषकृत् ॥७५

ग्रह्या—हरि श्रीर रुद्र से वरजित यह प्राकृत प्रलय कहा जाता है । उस पुरुष को यह काल मूर्ति पर ईश्वर हेला हो से कलन कियाकरता है । वह ही बुधों के द्वारा महा विष्णु—इस शुभ नाम से पुकारे जाया करते हैं श्रीर उनको महादेव कहा करते है । वह मन्त्र-मादि और मध्य से रहित —श्री के स्वामी शिव है और वह ही पार्वती के पति हैं । ये हर इम दैनन्दिन प्रलय मे अर्थात् दिनों दिन मे हाने वाली प्रलय में अपनी पुरी को विशूल की कोटि मे समुत्थित करके संवत्स महास्थि भूषण प्रभु धारण किया करते हैं । तभी से यह काशी काल के काल से वरजित है । भगवान् स्कन्द ने कहा—हे द्विज ! इस पुरी के कई शुभ नाम हैं—वाराणसी—काशी—छद्मावास—महादमयान और भगवन्द कानन कहे गये हैं । यही देवों के देव भगवान् शम्भु ने देवी के आगे कहा था । पहिले जिस प्रकार से विष्णु के सामने बहा गया था श्रीर मैंने जो उसी भाँति भवण किया था वही मैंने काशी में उत्पन्न होन वाला महान् रहस्य आपके सामने कह दिया था । इम परम पुण्यमय अध्याय का पाठ करके महापातकों का नाश हुा जाना है । द्विजों को इम अध्याय का भली भाँति धवण कराकर शिवनोंक मे प्रतिष्ठित हुआ करना है । हे कलशज ! इससे आगे आप क्या सुनना चाहते है—यह मुझे बतलाइए । यह कथ्यमान काशी की कथा मुझको भी महान् परिताप के करन वाली होती है ॥६८-७५॥

५२—ज्ञानवापीमाहात्म्यवर्णन

स्कन्द ! ज्ञानोदतोर्थस्य माहात्म्यं वद साम्प्रतम् ।

ज्ञानवापी प्रशसन्ति यतः स्वर्गीकमोष्यलम् ॥१

पटोद्भव महाप्राज्ञ ! शृणु पापप्रणोदिनीम् ।

ज्ञानवत्प्याः सप्रत्यति कथ्यमानां मयाधुना ॥२

अनादिसिद्धे संसारे पुरा देवयुगे मुने ! ।
 प्राप्तः कुर्ताश्रदीशानश्चरन्स्वैरमितस्ततः ॥३
 न यपन्ति यदा भ्राणि न प्रावर्तन्त निम्नगाः ।
 जलाभिलाषो न यदास्नानपानादिकर्मणि ॥४।
 क्षारस्वाददयोरेव यदासीञ्जल दर्शनम् ।
 पृथिव्या नरसचारे वतमाने क्वचित्क्वचित् ॥५
 निर्वाणकमलाक्षेत्रं श्रीमदानन्दकाननम् ।
 महाश्मशानं सर्वेषां बीजानां परमूपरम् ॥६
 महाशयनसुप्तानां जन्तूनां प्रतिबोधकम् ।
 संसारसागरावर्तपतञ्जन्तुतरण्डकम् ॥७

महा महर्षि श्री भगवन् श्री ने कहा—हे श्री स्कन्दजी ! भय आप
 कृपया जानोद तीर्थ का माहात्म्य कहिए । इसको ज्ञानवापी कहकर प्रशंसा
 किया करते हैं जो कि स्वर्ग लोक में निवास करने वाले देवों को भी दुर्लभ
 है । श्री स्कन्द भगवान् ने कहा—हे घटोद्भव ! आपकी प्रज्ञा तो बहुत
 ही अधिक है । भव मेरे द्वारा वर्णित इस पापों को हटाने वाली ज्ञानवापी
 के माहात्म्य का ध्यान कीजिए । हे मुने ! इस अनादि सिद्ध संसार में
 पहिले देवयुग में इधर-उधर सचरण करते हुए भगवान् चम्भु कहीं से
 यहाँ पर प्राप्त होगये थे । जिस समय में मेघ नहीं बरसते थे, नदियाँ
 नहीं बहन् किया करते थीं और जिस काल में स्नान पानादि कर्मों में
 कहीं पर भी जल का अभिलाष ही नहीं था । जिस समय में खारी स्वाद
 वाले जल का ही दर्शन था । पृथिवी में कहीं कहीं पर मनुष्यों के सचार
 में ऐसी ही दशा विद्यमान थी । निर्वाण कमला का क्षेत्र, शोभान आनन्द
 कानन, महा श्मशान समस्त बीजों का परम ऊपर क्षेत्र ही रहा था । महा
 शयन में सुप्त हुए जन्तुओं का प्रति बोध कराने वाला इस संसार सागर
 के आवर्त में पड़े हुए जन्तुओं का तरण्डक यह क्षेत्र था ॥१-७॥

मातायातातिसखिन्त जन्तुविश्राममंडपम् ।
 अनेकजन्मगुणितकर्मसूत्रच्छिदाक्षुरम् ॥

सच्चिदानन्दनिलयम्परब्रह्म रसायनम् ।
 सुखसन्तानजनकम्मोक्षसाधनसिद्धिदम् ॥९
 प्रविश्य क्षेत्रमेतत्स ईशानो जटिलस्तदा ।
 लसत्त्रिशूल विमल रश्मिजालसमाकुलः ॥१०
 बालुलोके महार्त्विगं वैकुण्ठपरमेष्ठिनो ।
 महाहमहमिकायां प्रादुरास यदादितः ॥११
 ज्योतिर्मयीभिर्मालाभिः परितः परिवेष्टितम् ।
 वृन्दैर्वृन्दारकर्षीणां गर्णनाञ्च निरन्तरम् ॥१२
 सिद्धानां योगिनास्तोमैरच्यमानं निरन्तरम् ।
 शीयमानं चगन्धर्वैः स्तूपपानं च चारुणैः ॥१३
 अंगहारैरप्सरसोभिः सेव्यमानमणेकधा ।
 नीराज्यमानं सततन्नागीभिर्मणिदीपकैः । १४

इम सत्तार मे गमनागमन से अच्छो तरह खिन्न हुए जन्तुओ का विधान करने वा मण्डप, अनेक जन्मो मे संबित विये हुए कर्मो के क्षेपन करने वाले घुस के समान, सत्, चित् और आनन्द का मिलन, परब्रह्म का रमायन स्वरूप, सुख और मनाति वा जनक और मोक्ष के साधन को सिद्धि को प्रदान करने वाला यह क्षेत्र है जिन समय में भगवान् राम्भु मे जो भाषे पर जटाएं धारण कर रहे थे, हाथ में शोभिन त्रिशूल की विमल चिरणो के जाल से समाकुल उन भगवान् शिव वा स्वरूप था । जिस समय में आदि मे वैकुण्ठ परमेष्ठियो वा यह महा तिम्र दिखलाई दिया वा और महो ब्रह्महमिका से अर्थात् मेरा ही मन्त्रे धागे ही, इम भाषना से प्रादुर्भूत हो रहा था । उस समय में यह मन्मो घोर ज्योतिर्मयो मालाओ से परिवेष्टित था । शिवी और ऋषियो के समूहो तथा गणो के द्वारा निरन्तर भर्षित था । मित्र, योगी आदि के समुदायो मे निरन्तर पूज्यमान हो रहा था । गन्धर्वो के द्वारा शीयमान और चरणो के द्वारा स्तूपमान हा रहा था । यह महानिग अनेक प्रकारो मे अर्थात् अंगो के द्वारा सेव्यमान था और नागिनियो को फणु मे रहने वा से

मणियो के दीपों के द्वारा नीराज्यमान हो रहा था अर्थात् नागिनियाँ अपनी मणियों के दीपों से आरतो कर रही थी ॥८-१४॥

विद्याधरीकिन्नरीभिस्त्रिकालं कृतमंडनम् ।

अमरीचमरीराजिवीज्यमानमितस्ततः ॥१५

अस्येशानस्य तल्लिंगं दृष्टेच्छेत्य भवत्तदा ।

स्नपयामि महल्लिंगं कलशैःशीतलजलैः ॥१६

चखान चत्रिशूलेन दक्षिणाशोपककंठतः ।

कुण्डं प्रचण्डं वेगेन रुद्रोरुद्रवपुर्धरः ॥१७

पृथिव्यावरणाम्भोसि निष्क्रान्तानि तदा मुने ॥

भूप्रमाणाद्दशगुणैर्यैरियं वमुधावृता ॥१८

तैर्जलैः स्नापयाञ्चके त्वस्पृष्टं रन्यदेहिभिः ।

तुपारंर्जाडघ विधुरैर्जञ्जपूकीघहारिभिः ॥१९

सन्मनोभिरिवात्यच्छैरनच्छैर्धर्मवत्सवत् ।

उयोस्नावदुज्ज्वलच्छायैः पावनैः शम्भुनामवत् ॥२०

विद्याधरी और किन्नरियो के द्वारा तीनों कालों में उस महालिंग का अलङ्कारण और मण्डन किया जा रहा था । देवाङ्गनाओं की चमरियों के समूह से इधर-उधर बीज्यमान था अर्थात् दोनों ओर चमर-दुराये जा रहे थे । इस ईशान के उस निर्ग को देख कर इनकी भी इच्छा ऐसी उस समय में समुत्पन्न होगई थी कि इस महालिंग का शीतल जल से परिपूर्ण कलशों से स्नपन कराऊँ । उसी समय में दक्षिण दिशा के समीप में भगवान् धम्भु ने अपने त्रिशूल के द्वारा स्नान किया था । रुद्र धपु के धारण करने वाले रुद्र देव ने बड़े वेग से एक परम प्रचण्ड कुण्ड तयार करदिया था । हे मुने ! उस समय मे पृथिवी के आवरण जल निकले थे । यह वमुधा भूप्रमाण से दशगुने जलों से समावृता होगई थी । पापों के समूहों का हरण करने वाले, घन्य देह धारियों के स्पर्श से रहित, तुपार और आर्य विधुर उन जनों से स्नान कर-या था । ये जल सत्पुरुषों के मन की भाँति स्वच्छ थे तथा व्योम मार्ग के तुन्य धनच्छ थे, चाँदनी के

समान अत्यन्त उज्ज्वल कान्ति वाले थे एवं भगवान् शम्भु के नाम के सट्टश परम पावन थे ॥१५-२०॥

पीयूषवत्स्वादुतरैः सुखस्पर्शं वागवत् ।
 निष्पापधीवद्गम्भीरंस्तरलं पापिशर्मवत् ॥२१
 विजिताब्जमहागन्धं पाटलामोदनोदिभि ।
 अदृष्टपूर्वलोकानां मनोनयनहारिभिः ॥२२
 अज्ञानतापसं तप्तप्राणिप्राणंकरक्षिभिः ।
 पञ्चामृताना कलशैः स्नपनाति फलप्रदं ॥२३
 श्रद्धोपस्पर्शि हृदयलिगन्त्रियहेतुभिः ।
 अज्ञानतिमिरार्कभैर्ज्ञानदाननिदायकैः ॥२४
 विश्वभक्तुं रुमास्पर्शसुखाति सुखकारिभिः ।
 महावभृथमुस्नान महाशुद्धि विधायिभिः ॥२५
 सहस्रचारैः कलशैः स ईशानोघटोद्भव ।
 सहस्रकृत्वः स्नपयामास सहस्रमानसः ॥२६
 ततः प्रसन्नो भगवान्बिश्वात्माविश्वलोचनः ।
 तमुवाच तदेशान रुद्र रुद्रवपुधंरम् ॥२७
 तव प्रसन्नोऽस्मीशान कर्मणाऽनेन सुव्रत ।
 गुरुणानन्य पूर्वेण ममाति प्रीतिकारिणा ॥२८
 ततस्त्वं जटिलेशान । वर द्रूहि तपोधन ॥
 अद्वयं न तवास्त्यद्य महोद्यमपरायण ॥१-९

यह जल अमृत के समान स्वाद वाला, गी के अङ्ग के सट्टश सुख स्पर्श से युक्त, निष्पाप बुद्धि के समान गम्भीर और पापी के शर्म की भाँति तरल था । विजित अब्ज के समान महान् गन्ध वाला, पाटल के आमोद से आमोदित जो पहिले कभी भी नहीं देखे गये ऐसे लोको के मन और नेत्रो के हरण करने वाले थे जल थे । अज्ञान तापस को सतप्त प्राणियो के प्राणो की रक्षा करने वाले, पञ्चप्रद पंचामृत के कलशो क द्वारा स्नपन से प्रति पुण्य-फल को देने वाले थे । अद्धा के उपस्पर्श करने वाले हृदय के लिगन्त्रिय के हेतु, अज्ञान रूपी अन्धकार का निवारण करने के लिये

सूर्य के समान, ज्ञान के दान को देने वाले, विश्व के भरण करने वाले स्वामी और उमा देवी के स्पर्श से सुखातिमुखकारो, महान् अवभृथ के सुन्दर स्नान से होने वाली शुद्धि के विधायक, सहस्र धाराओं वाले कलशों के द्वारा हे घटोद्भव ! भगवान् शम्भु ने सहस्रवार संप्रहृष्ट मन वाले होते हुए स्नान कराया था । इसके अनन्तर विश्वलोचन, विश्वात्मा भगवान् परम प्रसन्न हुए थे । फिर रुद्र के षण्णु को धारण करने वाले ईशान उन रुद्र से बोले—हे ईशान ! मैं आपके प्रसन्न हूँ । हे सुव्रत ! आपके इस कर्म से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है । यह आपका कर्म महान् शुद्ध है और ऐसे पहिले अन्य किसी ने भी नहीं किया है । यह मेरी अत्यन्त प्रीति का करने वाला है । हे अटिलेशान् ! हे महान् तपोधन ! आप कोई भी वरदान माँगलो । आज इस समय मे मुझे आप से इतनी प्रसन्नता हुई कि कुछ भी अर्देय नहीं है अर्थात् चाहे जो कुछ भी माँगो सो दे दूँगा क्योंकि आप इस महान् उद्यम में परायण हो रहे हैं ॥२१-२६॥

यदि प्रसन्नो देवेश ! वरयोग्योऽस्म्यहं यदि ।

तदेतदनुलं तीर्थं तव नाम्नास्तु शङ्कर ! ॥३०

त्रिलोक्यां यानि तीर्थानि भूर्भुवःस्यः स्थितान्यपि ।

तेभ्यो खिलेभ्यस्तीर्थेभ्यः शिवतीर्थमिदं परम् ॥३१

शिवं ज्ञानमिति ब्रयुः शिवशब्दार्थचिन्तकाः ।

तच्च ज्ञानन्द्वीभूतमिहमे महिमोदयात् ॥३२

अतो ज्ञानोदनामंततीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ।

अस्य स्पर्शमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३३

ज्ञानोदतीर्थं संस्पर्शादिश्वमेघफलं लभेत् ।

स्पर्शानाचमनाभ्याञ्च राजसूयाश्वमेधयोः ॥३४

फलगुतीर्थे नरः स्नात्वा सन्तर्प्य च पितामहान् ।

यत्फलं समवाप्नोति तदत्रश्राद्धकर्मणा ॥३५

ईशान ने कहा—हे देवेश ! यदि आप मुझ पर परम प्रसन्न हैं और मैं यदि यह दान देने के योग्य आप का पात्र बन गया हूँ तो हे शङ्कर ! यह आपके ही शुभ नाम से एक अतुल, अनुपम तीर्थ हो जावे । भगवान्

विश्वेश्वर ने कहा—इस त्रिलोकी में जो भी भू भुवः स्वः में स्थित भी तीर्थ हैं उन समस्त तीर्थों से यह शिव तीर्थ परम शिरोमणि तीर्थ होगा ॥३०-३१॥ 'शिव'— इस शब्द के अर्थ के चिन्तन करने वाले लोग शिव को जान ही कहा करते हैं । वही ज्ञान द्रवीभूत हो गया है और यहाँ पर मेरी महिमा के उदय होने से ही हुआ है । अतएव यह तीर्थ ज्ञानोद नाम से ही श्रीलोक्य में विप्रुत होगा । इसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य समस्त प्रकार के धार पापों से भी मुक्त होजाया करता है । इस ज्ञानोद तीर्थ के सस्पर्श मात्र से ही मानव अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है । स्पर्शन और आचमन से राजसूय यज्ञ और अश्वमेध दोनों का फल प्राप्त कर लिया करता है । गया में फल्गुतीर्थ में स्नान करके तथा अपने पितरों का भली भाँति तर्पण करके जो पुण्य फल प्राप्त किया करता है । वह ही फल यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने से प्राप्त हो जाया करता है ॥३२-३५॥

गुरुदुःप्यासिताष्टम्यां ह्यतीपातो यदा भवेत् ।

तदात्र श्राद्धकराद्गयाकोटिगुणं भवेत् ॥३६

यत्फलं समवाप्नोति पितृन्सन्तर्प्य पुष्करे ।

तत्फलं कोटिगुणितं ज्ञानतीर्थे तिलोदकैः ॥३७

सन्निहत्यां कुरुक्षेत्रे तमोग्रस्ते विवस्वति ।

यत्फलं पिण्डदानेन तज्ज्ञानोदे दिने दिने ॥३८

पिडनिर्वपणं येषां ज्ञानतीर्थे सुतैः कृतम् ।

मोदन्ते शिवलोके ते यावदाभूतसंप्लवम् ॥३९

अष्टम्याञ्चतुर्दश्यामुपवासी नरोत्तमः ।

प्रातः स्नात्वाऽथ पीताम्भस्त्वन्तर्लिंगमयो भवेत् ॥४०

एकादश्यामुपोष्यात्रप्रादनातिच्लुकत्रयम् ।

हृदयेतस्य जायन्ते श्रीणिलिगान्यसशयम् ॥४१

ईशानतीर्थे यः स्नात्वा विशेषात्सोमवासरे ।

सन्तर्प्य देवपि नितृन्दत्त्वादानं स्वशक्तितः ॥४२

ततः समर्थ्य श्रीलिंगं महासंभारविस्तरैः ।

अत्रापि दत्त्वा नानार्थान्कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥४३

गुरुवार से युवत शुक्ल पक्ष को पुष्य समाहित अष्टमी तिथि में जब व्योपात हो उस समय में यहाँ पर श्राद्ध करने से गया में किये गये श्राद्ध से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। उसी फल को पुष्कर में पितृगण का सन्तर्पण करके प्राप्त किया करता है। वही फल ज्ञान तीर्थ में तिलोदक के द्वारा करने पर करोड़ गुना हो जाया करता है ॥३६-३७॥ सन्निहति में कुरुक्षेत्र में विष्वान् के समोद्यस्त होने पर अर्थात् उपराग के भवसर में पिण्डों के दान से जो फल प्राप्त हुआ करता है वही फल ज्ञानोद में दिन-दिन में होता है। जिनके पुत्रों ने इस ज्ञान तीर्थ में पिण्डों का निर्वपण किया है वे सब सिव लोक में जब तक भूत सत्त्व होता है तब तक आनन्द का लाभ प्राप्त किया करते हैं। अष्टमी तिथि में और चतुर्दशी तिथि में उपवास करने वाला श्रेष्ठ पुरुष प्रातःकाल में स्नान करके इसके जल का पान करता है वह अन्निङ्गमय ही हो जाया करता है ॥३८-४०॥ एकादशी तिथि में उपवास करके यहाँ पर जो तीन शुद्ध जल का ग्रहण किया करता है उसके हृदय में बिना किसी सशय के तीन लिङ्ग उत्पन्न हो जाया करते हैं। इस ईशान तीर्थ में विशेष रूप से सोमवार के दिन में स्नान करके अपने पितृगणों को और देव तथा ऋषियों का भती भक्ति तर्पण करके अपनी शक्ति के अनुसार दान दिया करता है और इसके अनन्तर महान् सम्भार से युक्त विस्तार वाले उपचारों के द्वारा जो लिङ्ग का अर्चन किया करता है और यहाँ पर भी नाना अर्थों को देकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥४१-४॥

उपास्य सन्ध्या ज्ञानोदे यत्पाप काललोपजम् ।

क्षणेनतदपाकृत्य ज्ञानवान् जायते द्विजः ॥ ४४

शिवतीर्थं मिदं प्रोक्तं ज्ञानतीर्थं मिदं शुभम् ।

तारकाहरमिदं तीर्थं मोक्षतीर्थं इदं ध्रुवम् ॥ ४५

स्मरणादपि पापीषो ज्ञानोदस्य क्षयेद् ध्रुवम् ।

दर्शनात्स्पर्शानात्स्नानात्पानाद्दर्मादि सम्भारः ॥ ४६

डाकिनोदाकिनीभूतप्रेतवेतालराक्षसाः ।

ग्रहाः ब्रह्माण्डमूर्तिगाः कालकर्णी शिशुग्रहाः ॥ ४७

ज्वरापस्मारविस्फोट द्वितीयकचतुर्यकाः ।

सर्व प्रशममायान्ति शिवतीर्थजलेक्षणात् ॥४८

ज्ञानोदतीर्थपानीयैर्लिङ्गं यः स्नापयेत्सुधीः ।

सर्वतीर्थोदकैस्तेन ध्रुवं संस्नापितम्भवेत् ॥४९

इस ज्ञानोदक तीर्थ में रांग्या की उपासना करते मनुष्य काल के लोप से समुत्पन्न पाप को एक ही लक्षणमात्र में दूर करके द्विज ज्ञानवान् हो जाया करता है। यह शिव तीर्थ कहा जाता है और इस शुभ तीर्थ को ज्ञान तीर्थ भी कहा गया है। इस तीर्थ का नाम तारक तीर्थ भी है और यह तीर्थ निश्चिन् रूप से मोक्ष के देने वाला मोक्ष तीर्थ है। पापों का समुदाय इस ज्ञानोद तीर्थ के स्मरण करने ही से निश्चय क्षय को प्राप्त हो जाया करता है। इसके दर्शन से, स्पर्शन से, स्नान से और पान से धर्म आदि की समुत्पत्ति हुआ करती है ॥४४-४६॥ डाकिनो, धाकिनो, भूत, प्रेत, वेताल, राक्षस, ब्रह्म, कूपमाण्ड, भोटिङ्ग, काल कर्णो, शिशुग्रह, ज्वर, अपस्मार, विस्फोट, द्वितीयक और चतुर्यक अर्थात् शौर्यया-ज्वर-ये सभी शिव तीर्थ के जन के ईक्षण (दर्शन) से प्रशम को प्राप्त हो जाया करते हैं ॥४७-४८॥ जो सुधी पुरुष इन ज्ञानोद तीर्थ के जल से लिंग स्नपन कराया करता है उसने मानो समस्त तीर्थों के जल से ही निश्चिन् रूप से स्नयन करा दिया है अर्थात् धर्म सभी तीर्थों के जल से स्नयन का पुण्य फल प्राप्त उसे ही जाया करता है ॥४९॥

ज्ञानरूपोऽहमेवात्र द्रवमूर्ति विधाय च ।

जाडघविध्वंससर्नकुर्या कुर्या ज्ञानोपदेशनम् ॥५०

इति दत्त्वावराञ्छम्भुस्तत्रवान्तरधीयत ।

कृतकृत्यमिवात्मान सोप्यमंस्तान्मूलभृत् ॥५१

ईशानो जटिलो रुद्रस्तत्राश्व परमोदकम् ।

अवाप्तवान् पर ज्ञानं येन निर्वृतिमाप्सवान् ॥५२

अलया मोक्षलक्ष्मीर्या वेदान्ते परिपठघने ।

विमुक्तये सतां संपा श्रीमनी मणिकणिका ॥५३

मरणं मङ्गलं यत्र सफलं यत्र जीवितम् ।
 स्वर्गस्तृणायते यत्र संपा श्रीमणिकर्णिका ॥५४
 यत्र सम्पत्तिसम्भारान्विश्राण्य निवनेच्छया ।
 यतिव्रतं समालम्ब्य तिष्ठते मूलकन्दमुक् ॥ ५५
 यत्र त्रिभार्गवां गङ्गां मार्गमाणो मृतान्हरः ।
 स्वमौलि बालचन्द्रेण मुक्तिमार्गं प्रदर्शयन् ॥५६

यहाँ पर इस तीर्थ में ज्ञान रूप बाला में ही है और प्रथम मूर्ति धारण करके मैं जड़ता का विध्वंस किया करता हूँ तथा ज्ञान का उपदेश भी दिया करता हूँ ॥५०॥ ये इस प्रकार से भगवान् शम्भु धरदान प्रदान करके वहीं पर अन्तर्धान हो गये थे । वह त्रिशूल धारण करने वाले भी अपने आपको परम कृत कृत्य मानने लगे थे ॥५१॥ ईशान जटाधारी रुद्रदेव ने उस परम पुण्यमय जलका पान करके परमोत्कृष्ट ज्ञान की प्राप्ति की थी जिससे वह निर्वृति को प्राप्त हो गये थे ॥५२॥ भलक्ष्मी के साथ जो मोक्ष लक्ष्मी वेदान्त में पढी जाया करती है । वह यह श्रीमती मणिकर्णिका सत्पुरुष को विदुषि के लिये होती है । जहाँ पर मरना भी परम मंगल होता है और जहाँ पर जीवित भी सफल होता है । जहाँ का ऐसा प्रबल पुण्य का प्रभाव होता है कि स्वर्ग भी उसके सामने एक तुच्छ तिनके समान होना है ऐसी यह भी मणिकर्णिका है । जहाँ पर सम्पत्ति के सम्भारों को विश्राण्टिन करके निवन की इच्छा से यति के व्रत का समालम्बन करके मूल और कन्दो को उपभोग करके स्थित रहा करता है । यहाँ पर त्रिभार्गवों ने शमन करने वाली गंगा का घन्वेपण करते हुए भगवान् हर मृतो को अपने मस्तक में स्थित बाल चन्द्र के द्वारा मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शन कराया करते हैं ॥५३-५६॥

ससारं यत्र दुर्वारं प्रतारयति शङ्करः ।
 मृता अप्यमृतायन्ते कर्णधाराद्यतो नराः ॥५७
 सतारसारपदवी यत्र स्याददवीयसी ।
 कर्णे जपान्महेशानात्करुणावरुणालयात् ॥५८

अनेकभवसम्भूत प्रभूत सुकृतैर्नरा ।
 कर्णो जपं-भव यत्र लभन्ते ते भवापहम् ॥५१
 स्वीकृत्य क्षेपसंन्यासं यद्बलेन महाधियः ।
 तृण कृतान्तं मन्यन्ते सेयं मणिकर्णिका ॥६०
 तृणीकृत्य निजं देहं यत्न राजपित्तमः ।
 हरिश्चन्द्रः सपत्नीको व्यक्रीणाद् भूरियं हिंसा ॥६१
 अभिलष्यन्ति यत्रत्यमपिवैकुण्ठवासिनः ।
 सैकतं मृदुलं तल्पं संपा श्रीमणिकर्णिका ॥६२
 अनेकजन्मजनितकर्मसूत्रनियन्त्र-म् ।
 उन्मुच्य यत्रमुक्ताः स्युः संपा श्रीमणिकर्णिका ॥६३

यह संसार अतीव दुर्बार है और भगवान् शङ्कर इससे तार दिया करते हैं । इन मणिकर्णिका धार का ऐसा महान प्रभाव है कि मरे हुए भी नरा प्रभूत हो जाया करते हैं । वे स्वस्वरूप बन जाते हैं और मोक्ष के अधिकारी हो जाया करते हैं । जहाँ पर संसार के सार की पदवी प्रदवी-पसा होती है । कार्य में जप के प्रभाव से कल्याण के सागर महेशान से संसार से मुक्त हो जाया करते हैं किन्तु मनुष्य जहाँ पर भव के अपहर । करने वाले कर्ण में जप करने वाले भव अनेक जन्मों में समुत्पन्न बहुत से सुकृतों से ही प्राप्त किया करते हैं । महान बुद्धिवाली लोग जिसके बल से क्षेप संन्यास को स्वीकार करके यम राज को एक सुकृत तिनके के समान ही माना करते हैं यह ऐसी श्रीमणिकर्णिका है । जहाँ पर राजपियों में परम श्रेष्ठ हरिश्चन्द्र ने अपने देह को तृण के तुल्य समझ कर पत्नी के सहित वैश दाला था, यह वह ही परम पावन भूमि है ॥५७-६१॥ जहाँ के परम मृदु बालुका की धर्या को वैकुण्ठ में निवास करने वाले भी चाहते हैं वही यह मणिकर्णिका है ॥६२॥ अनेक जन्मों में समुत्पन्न कर्मों के सूत्र के निमन्त्रण का उन्मोचन कर जहाँ पर मनुष्य मुक्त होजाया करते हैं वही यह मणिकर्णिका है ॥६३॥

सत्यलोकेऽपि ये लोकास्तेऽर्थयन्ति निरन्तरम् ।

या महोदीर्घनिद्रायं सेय श्रीमणिकर्णिका ॥६४

अथ हि स कुलस्तम्भो यत्र श्रीकालभैरवः ।
 क्षेत्रपापकृतः शास्ति दर्शयस्तीव्रयातनाम् ॥६५
 अन्यत्र विहितम्पार्पं नश्येत्काशीनिरीक्षणात् ।
 काश्या कृताना पापाना दारुणे यन्तु यातना ॥६६
 कपालमोचन तीर्थं भेतत्तदपि पावनम् ।
 कपालं पतितं यत्र विधे भैरवपाणितः ॥६७
 ऋणप्रयाद्विमुच्यन्ते यत्र स्नाता नरोत्तमाः ।
 तीर्थं त्रिशुद्धिजनकं तदेतदृणमोचनम् ॥६८
 प्रणवाख्यं परं ब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते ।
 स पञ्चायतनोपेतं अङ्कुरेशोऽयमद्भुतः ॥६९
 ध्वज उश्चमकारश्च नादो विन्दुश्च पञ्चमः ।
 पञ्चात्मकं परं ब्रह्म यत्र नित्यं प्रकाशते ॥७०

जो लोग सत्य लोक में भी रहा करते हैं वे भी निरन्तर इसकी याचना किया करते हैं । जिसकी वीर्यं निद्रा के लिये चाहते है वही यह भी मणिकिन्ना है ॥६५॥ यह सकुल स्तम्भ भी कालभैरव जहाँ पर क्षेत्र में पाप करने वालों पर शासन किया करते हैं और तीव्र यातना को दिखाया करते हैं, अन्यत्र किया हुआ पाप काशी के निरीक्षण ही से नष्ट होजाते हैं । किन्तु काशी में रहकर जो पाप किये जाते हैं उनकी यातना अत्यन्त दारुण होती है । एक वहाँ पर कपाल मोचन नाम वाला तीर्थ है और वह भी परम पावन होगा है, जहाँ पर भैरव के हाथ से विद्याता का कपाल गिर गया था । जिस तीर्थ में म्लान किये हुए नरात्म तीमो प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाया करते हैं । इसी लिये त्रिशुद्धि वा उत्पन्न करने वाला यह ऋण मोचन तीर्थ है । प्रणव नाम व वा परम ब्रह्म जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है । वह पञ्चायतन में युक्त अद्भुत अङ्कुरेश होता है । ध्वजार, उकार, मकार, नाद और पाँचवा विन्दु इस तरह से यह पञ्चात्मक अर्थात् पाँच के स्वरूप वाला परम ब्रह्म जहाँ पर नित्य ही प्रकाश किया करता है ॥६५-७०॥

एषा मत्स्योदरी रम्या यत्स्नातो मानवोत्तमः ।
 मातुर्जतिदरदरीं न विशेदेप निश्चयः ॥७१
 त्रिलोचनो यं भगवान्कुपदिव त्रिलोचनम् ।
 निजभक्तं कृपायुक्तस्त्वपि देशान्तरस्थितम् ॥७२
 असी कामेश्वरो देवो यः कामान्पूरयेत्सताम् ।
 दुवासात्रपियत्रापनिजकाममहोदयम् ॥७३
 स्वयंलीनो महेशोत्रत्रभक्तकामसमृद्धये ।
 तस्मात्स्थलानिसञ्ज्ञास्य देवदेवस्य शूलिनः ॥७४
 वाराणस्यां महादेवो यः पुराणेषु पठयते ।
 क्षेत्राभिमानी भगवांस्तप्रासादोऽथमद्भुतः ॥७५
 असी स्कन्देश्वरोदेवः श्रद्धयायद्विलोकनात् ।
 आजन्मब्रह्मचर्यस्य फलमाप्नोति मानवः ॥७६
 विनायकेश्वरश्चाय सर्वसिद्धिप्रदायकः ।
 यत्सेवया प्रणस्यन्ति नृणाः सर्वे विनायकाः ॥७७

यह मत्स्योदरी है जो बहुत ही रम्य है और जिसमें स्नान किया
 हुआ परम श्रेष्ठ मानव फिर अपनी माता के उदर रूपिणी गुफा में व भी
 प्रवेश ही नहीं किया करता है यह परम निश्चित बात है अर्थात् निश्चय
 पूर्वक फिर उसका मोक्ष हो जाने के दूसरा जन्म ही इस संसार में नहीं
 हुआ करता है ॥७१॥ परमकृपा से युक्त भगवान् त्रिलोचन फिर अपने
 भक्त को चाहे वह किसी भी सुदूर देश में ही स्थित क्यों न हो उसे
 त्रिलोचन ही बना दिया करते हैं ॥७२॥ यह कामेश्वर देव है जो
 सत्पुरुषों के कामों का परिपूर्ण कर दिया करते हैं जहाँ पर दुर्वासा ऋषि
 भी अपनी कामनाओं के महान् उदय को प्राप्त हो गया था ॥७३॥ यहाँ
 पर अपने भक्त की कामनाओं की समृद्धि के लिये भगवान् महेश्वर स्वयं
 ही लीन रहा करते हैं । इसी कारण से इन देवों के देव भगवान् शूली
 की 'स्वलीन'—यह सजा होती है ॥७४॥ वाराणसी में महादेव हैं जो
 पुराणों में पढ़े जाया करते हैं वह क्षेत्र के पूर्ण अभिमान रखने वाले
 भगवान् है उनका प्रसाद यह अत्यन्त अद्भुत होता है ॥७५॥ यह

स्कन्देश्वरदेव है । श्रद्धा से जिनका दर्शन करने से मानव ४१जन्म घट्ट-
चर्यं धारण करने के फल को प्राप्त कर लिया करना है ॥७६॥ यह
विनायकेश्वर हैं जो समस्त प्रकार की सिद्धियों के प्रदान करने वाले हैं
जिनकी सेवा करने से मनुष्यों के सभी विनायक नष्ट हो जाया करते हैं
अर्थात् फिर उनको कोई भी विघ्न नहीं हुआ करते हैं ॥७७॥

इयं वाराणसी देवी साक्षान्मूर्तिमयी शुभा ।

यस्या विलोकनात्पुंसां भूयो नो गर्भसम्भवः ॥७८॥

पार्वतीश्वरलिङ्गस्थ महदायतन त्विदम् ।

यत्र नित्यं महेशानो गौर्यासह विमुक्तिदः । ७९

एष भृङ्गीश्वरः श्रीमान्महापातकनाशनः ।

जीवन्मुक्तोऽभवद् भृङ्गी यस्य लिङ्गस्य सेवया ॥८०॥

चतुर्वेश्वरश्चैष चतुर्वेदधरो विधिः ।

लभेद्यद्वीक्षणाद्विप्रो वेदाध्ययनज फलं । ८१

यज्ञैः सस्थापितञ्चैतल्लिङ्गं यज्ञेश्वराभिदम् ।

यदर्चनात्लभेन्मर्त्यैः सर्वयागफलं महत् ॥८२॥

पुराणेश्वरनामंतल्लिङ्गमष्टादशागुलम् ।

अष्टादशानां विद्यानास्यादाधारोयदीक्षः । ८३

धर्मशास्त्रेश्वरश्चाथ स्मृतिभिश्च प्रतिष्ठितः ।

स्मृत्यध्ययनजम्पुण्यं यद्विलोकनो भवेत् ॥८४॥

यह वाराणसी देवी हैं जो परम शुभ मूर्तिमयी मातात् देवी हैं जिनके
दर्शन का एक बार ही झोका ले लेने पर पुनः यमशास मे रहने की कोई
भी सम्भावना ही नहीं रहा करती है ॥ ८॥ पार्वतीश्वर लिंग का यह
महान आयतन है । जहाँ पर नित्य ही महेशान प्रभु गौरी देवी के साथ
विमुक्ति को प्रदान करने वाला विराजमान रहा करते हैं ॥७६॥ यह इस
क्षेत्र में श्रीमान् भृङ्गीश्वर भगवान हैं जो महान महापातको के नाश करने
वाले हैं जिस लिंग की सेवा से भूयो जीवन्मुक्त हो गये थे ॥८०॥ रहीं
पर यह चतुर्वेश्वर भगवान हैं जो चारों वेदों के धारण करने वाले
विघाता स्थित रहा करने हैं जिनके दर्शन करने से ही विप्र वेदों के

अध्ययन से समुत्पन्न फल को प्राप्त कर लिया करता है ॥८१॥ यह लिंग यज्ञी के द्वारा सस्थापित किया गया है जो यज्ञेश्वर नाम वाले हैं जिनके वर्चन से मनुष्य सम्पूर्ण भागों के महान फलों को प्राप्त कर लिया करता है ॥८२॥ यहाँ पर यह एक पुराणेश्वर नाम वाला अठारह अंगुल के प्रमाण वाला लिंग है जिनके केवल दर्शन ही करने से अष्टादश विधाओं का पूर्ण आघार मनुष्य हो जाता करता है । यहाँ पर यह एक धर्मशास्त्रेश्वर प्रभु भी है जो स्मृतियों के द्वारा प्रतिष्ठित किये गये हैं । स्मृतियों के अध्ययन से उत्पन्न होने वाला पुण्य उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता करता है ॥८३-८४॥

५३—योगाख्यान वर्णन

वेदानुवचन ज्ञात्वा ब्रह्मचर्यं तपो दमः ।

श्रद्धोपवासः स्वातन्त्र्यमात्मनो ज्ञानहेतवः ॥१॥

स हि सर्वो विजिज्ञास्य आत्मवाश्रम वर्तिभिः ।

श्रोतव्यस्तवथमन्तव्योऽष्टव्यश्च प्रयत्नतः ॥२॥

आत्मज्ञानेन मुक्तिः स्यात्तच्च योगादृतेन हि ।

स च योगश्चिरं कालमभ्यासादेव सिध्यति ॥३॥

नारण्यसश्रयाद्योगो न नाना ग्रन्थ चिन्तनाम् ।

न दानैर्न प्रतैर्वापि न तपोभिर्न वा मलैः ॥४॥

न च पश्चासनाद्यागो न वा घ्राणाग्रवीक्षणात् ।

न शौचेन न भीनेन न मन्त्राराधनैरपि ॥५॥

अभियोगात्सदाभ्यासात्तत्रैव च विनिश्चयात् ।

पुनः पुनरनिर्वेदात्सिद्ध्येद्योगो न चान्यथा ॥६॥

वेदों के अनुवचन को जानकर ब्रह्मचर्य—तप—दम—श्रद्धा—उपवास और स्वातन्त्र्य आत्मा के ज्ञान के हेतु हैं ॥१॥ समस्त आश्रमों में रहने वाले लोगों के द्वारा आत्मा ही जानने के योग्य है अर्थात् आत्मज्ञान प्राप्त करना ही सर्वोपरि होता है । अतएव प्रयत्नपूर्वक आत्मा को ध्वण

करना चाहिए—उसका ही मनन करना चाहिए और उस आत्मा का दर्शन प्राप्त करना चाहिए ॥२॥ इसी आत्मा के ज्ञान से मुक्ति हुआ करती है और वह भी योग के बिना नहीं होती है तथा वह योग विर काल तक अभ्यास करने से ही सिद्ध हुआ करता है ॥३॥ केवल धरम्य में अपना ध्यान बना लेने मात्र से योग की सिद्धि नहीं हुआ करती है और अनेक ग्रन्थों के चिन्तन करने से भी योग सिद्ध नहीं हुआ करता है । दानों से—धर्मों से—तपश्चर्याओं से और मर्गों से भी योग की सिद्धि नहीं है ॥४॥ यह योग पद्मासन बाँधकर बैठने से भी सिद्ध नहीं होता और नासिका के अग्र भाग के देखने से भी योग की सिद्धि नहीं होती है । शौच, मोन व्रत, और मन्त्रों के समाराध आदि से यह योग सिद्ध नहीं होता है ॥५॥ अभियोग में अर्थात् सभी धोर मन को हटाकर एक निष्ठ उसकी वृत्ति के करने से—निरंतर उसका ही अभ्यास करने से पूर्ण रूप से निश्चय करने से तथा आरम्भार निर्वेद से ही इस योग की सिद्धि हुआ करती है अन्य किसी भी प्रकार से यह कभी भी सिद्ध नहीं होता है ॥६॥

आत्मक्रीडस्यसतत सदात्म मिथुनस्य च ।
 आत्मन्येव सुतृप्तस्य योगसिद्धिर्नदूरत ॥७
 अत्रात्मव्यतिरेकेण द्वितीयो न पश्यति ।
 आत्मारामः स योगीन्द्रो ब्रह्मीभूतो भवेदिह ॥८
 सयोगस्त्वात्ममनसोर्योग इत्युच्यते दुर्ध्व ।
 प्राणापानसमायोगो योग इत्यपि केशवन् ॥९
 विषयेन्द्रियसयोगो योग इत्यप्य पण्डितैः ।
 विषयासक्तचित्ताना ज्ञान मोक्षश्च दूरतः ॥१०
 दुर्निवारा मनोवृत्तिर्यावत्सा न निवर्तते ।
 किञ्चदन्त्यपि योगस्य तावन्नेदीयसी कुतः ॥११
 वृत्तिहीन मन कृत्वा क्षेत्रज्ञे परमात्मनि ।
 एकीकृत्य विमुच्येन योगयुक्त स उच्यते ॥१२

बहिर्मुखानि सर्वाणि कृत्वाख्यान्यन्तराणि वै ।

मनस्येवेन्द्रियग्राम मनश्चात्म नियोजयेत् ॥१३

सर्वभावविनिर्मुक्तं क्षेत्रज्ञ ब्रह्मणि न्यसेत् ।

एतद्ध्यानचयोगश्च शेषोज्यो ग्रन्थविस्तर. ॥१४

निरन्तर अपनी आत्मा के ही साथ क्रीडा करने वाले का प्रीर सदा आत्मा के ही साथ जोडा बनाये रखने वाले का तथा अपनी आत्मा में ही सृष्ट रहने वाले को योग की सिद्धि दूर नहीं रहा करती है ॥७॥ जो अपनी आत्मा के अतिरिक्त दूसरे अन्य किसी को कही पर भी नहीं देखा करता है वही आत्मा राम अर्थात् आत्मा में रमण करने वाला योगीन्द्र प्रीर ब्रह्मीभूत है । आत्मा प्रीर मन के साथ में सयोग होने का ही नाम बुध पुरुषो के द्वारा योग कहा जाता है । कुछ विद्वानों के द्वारा प्राण वायु और अपान वायु के संयोग को भी योग कहा जाया करता है ॥८-९॥ जो अपण्डित हैं उनके द्वारा विषयेन्द्रिय सयोग भी योग कहा गया है । सिद्धान्त यह है कि जो विषयों में समासक्त चित्त वाले पुरुष हैं उनकी ज्ञान प्रीर योग तथा मोक्ष बहुत दूर की वस्तु है तात्पर्य यह है कि उनको यह हो ही नहीं सकता है । यह मन की वृत्ति बहुत ही दुर्निवारण किये जाने वाली है और जब तक वह निवृत्त नहीं होती है तब तक इस योग की किम्बदन्ती भी सन्निकट नहीं होती है । इस मन को वृत्तियों से हीन करके उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा में एकीकरण करके जो विमुक्त होता है वही योग युक्त कहा जाता है ॥१०-१२॥ प्राकाश के मन्तर सब को बहिर्मुख करके और इन्द्रियों के समुदाय को मनमें ही निहित करे और फिर उस मन को आत्मा में योजित कर देना चाहिए ॥१३॥ सब भावों से विनिर्मुक्त उस क्षेत्र को ब्रह्म में न्यस्त कर देवे । बस, इतना ही ध्यान और योगशास्त्र है । शेष अन्य जो इस विषय में लिखा या कहा गया है वह सभी ग्रन्थों का विस्तार मात्र है । सार एवं तत्र की वस्तु तो केवल इतना ही होता है ॥१४॥

यन्नास्ति सर्वलोकेषु तदस्तीति विरुध्यते ।

कथ्यमानं तदन्यस्य हृदयेनावतिष्ठते ॥१५

स्वसवेद्यं हि तद्ब्रह्म कुमारी स्त्रीसुखं यथा ।

अयोगीनेतद्वेत्ति जात्यन्व इव वर्तिकाम् ॥१६

नित्याभ्यसनशीलस्य स्वसंवेद्यं हि तद्भवेत् ।

तत्सूक्ष्मत्वादिनिर्देश्य परं ब्रह्म सनातनम् ॥१७

क्षणमप्येकमुदकं मथानस्थिरतामियात् ।

वाताहतं यथाचित्तं तस्मात्तस्य न विश्वसेत् ॥१८

अतोऽनिलं निरुन्धोत चित्तस्यस्यैर्यं हेतवे ।

मरुन्निरोधनार्थाय पङ्क्तं योगमम्प्रसेत् ॥१९

आसनं प्राणसरोधः प्रत्याहारश्च धारणा ।

ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षट् ॥२०

आसनानीह तावन्ति यावन्त्यो जीवयोनयः ।

सिद्धासममिदं प्रोक्तं योगिनो योगसिद्धिरम् ॥२१

जो समस्त लोको मे नहीं है यह है ऐसा जो कथन है वही विषुद्ध होता है । यह अन्ध का कथ्यमान हृदय मे कभी भी अवस्थित नहीं हुआ करता है ॥१५॥ जिस प्रकार से कुमारी स्त्री का सुख होता है उसी प्रकार से वह ब्रह्म स्वसंवेद्य ही होता है अर्थात् उसके आनन्द का अनुभव अपने ही द्वारा करने के योग्य हुआ करता है । जो योगी नहीं वह उस ब्रह्मानन्द को कभी भी नहीं जानता है जिस तरह त्रिजगत्मानव पुरुष घटिका का ज्ञान नहीं रखता है । जो नित्य ही अभ्यास करने के स्वभाव वाला होता है उसी को स्वयं वह जानने के योग्य होता है । वह परब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि उस सनातन का निर्देश नहीं किया जा सकता है । जिस प्रकार से वायु से धाहत जल एक क्षण भी यथा स्थान पर स्थिर नहीं रहा करता है उसी भाँति ठीक इस मानव के चित्त की दशा हुआ करती है । अतएव इस महा चंचल चित्त का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए । इसीलिए इस चित्त की स्थिरता के लिए प्राण वायु का विरोध करे अर्थात् प्राणायाम करना चाहिए । इस वायु के विरोध करने के लिए पङ्क्त (छे भ मो वाले) योग का अभ्यास करे ॥१६-१९॥

छे भङ्ग ये हैं—आसन—प्राणायाम—प्रत्याहार—धारणा—ध्यान और

रामाधि—ये ही योग के छै अग हुमा करते हैं ॥२०॥ यहाँ पर उतने ही आसन होते हैं जितनो ये जीव योनियाँ हुमा करती हैं । योगी के याग की सिद्धि को प्रदान करने वाला यह मिद्वामन कहा गया है ॥२१॥

एतदभ्यसनान्नित्यं षष्ठमंदाढ्यं भवाप्नुयात् ॥२२

दक्षिणं चरणं न्यस्य वामोरुपरि योगवित् ।

याम्योरुपरि वामं च पद्मासनमिदं विदुः ॥२३

कराभ्यां धारयेत्पद्मादगुष्ठौ दृढबन्धवित् ।

भवेत्पद्मासनादस्मादभ्यासाद् दृढविग्रहः ॥२४

अथ बाह्यासने यस्मिन्सुखमस्योपजायते ।

स्वस्तिकादौ तदध्यास्य योगं युञ्जीत योगवित् ॥२५

न तोय वह्नि सामीप्ये न जीर्गारिष्य गोष्ठयोः ।

नदं शमशकाकीर्णं न चैत्येन च चत्वरे ॥२६

केशभस्म तुपाङ्गारकीकसादि प्रदूषिते ।

नाभ्यसेत्पूतिगन्धादौ न स्थाने जन संकुले ॥२७

सर्ववाधाविरहिते सर्वेन्द्रियसुखावहे ।

मनः प्रसादजनने स्रग्धूपामोदमोदिते ॥२८

इसके नित्य अभ्यास करने से कर्म को दृढता को प्राप्त हुमा करता है ॥२२॥ योग के वेत्ता पुरुष को चाहिए कि धपने दाहिने चरण को बाँये ऊरु के ऊपर रखे और याम्य ऊरु के ऊपर बाँये चरण को रखे —इसी प्रकार से स्थिति बनाकर बैठने के आसन को पद्मासन कहा करते हैं । दृढ बन्ध के वेत्ता को पीछे शोनो अगूठो को हाथों से पकड़ना चाहिये । इन प्रकार के बाँये हुए पद्मासन के अभ्यास से दृढ विग्रह वाला हो जामा करता है । इसके अनन्तर जिस बाह्यासन में इस अभ्यासो को सुख उत्पन्न हो जाता है । फिर स्वस्तिकादि में उगदा अभ्यास करके योग के जानने वाले पुरुषों को योग का युञ्जन करना चाहिए ॥२३-२५॥ अब योगाभ्यास करने में निषिद्ध स्थलों को बताने हैं—जल के और अग्नि के समीप में कभी योगाभ्यास न करे । किन्तु जोगुं (टूटे-पूटे पुराने) मकान में—जंबल में और गोष्ठ में भी योगाभ्यास नहीं करना

चाहिये । जो स्थान दश घोर मशको से घिरा हुआ हो उसमें—चैत्य (श्मशान) में—चत्वर (खुले आँगन) में तथा केश, भस्म, तुपाङ्गार तथा कीकस आदि से दूषित स्थान में और दुर्गन्ध दोष वाले स्थल में एव जनों से समाकीर्ण जगह में कभी योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए । सभी प्रकार की विध्वन्-बाधाओं से रहित—सभी इन्द्रियों को सुख देने वाले तथा मन को प्रसन्नना देने वाले घोर माला, धूप आदि से परम सुगन्धित स्थान में योग का अभ्यास करे ॥२६-२८॥

नातितृप्तः क्षुधार्तो न नविष्णुत्र प्रवाधिनः ।

नाध्वस्त्रिन्नो न चिन्तार्तो योगं युञ्जीत योगवित् ॥२९

ऊरस्थोत्तानचरणः सव्ये न्यस्योत्तरं करम् ।

उत्तान किञ्चदुन्नम्य वक्त्र विष्टम्य चोरसा ॥३०

निमोलताक्षः सत्त्वस्थो दन्तर्दनान्न सस्पृशेत् ।

तालुस्याचलजिह्वश्च सम्वृतास्यः मुनिश्चल ॥३१

सन्नियम्येन्द्रियग्राम नाति नीचोच्छ्रितासनः ।

मध्यमचोत्तमचाथ प्राणायाममुपक्रमेत् ॥३२

चलैर्जनिलेचल सर्ष निश्चले तत्र निश्चलम् ।

स्थाणुत्वमाप्नुयाद्योगी ततोऽनिल निरुन्धनात् ॥३३

यावद्देहे स्थितः प्राणोजीवित तावदुच्यते ।

निर्गते तत्र मरणं ततः प्राण निरुन्धयेत् ॥३४

यावद्ब्रह्मो मरुद्देहे यावच्चेतो निराश्रयम् ।

यावद्दृष्टिभ्रुवोर्मध्ये तावत्काल भय कुतः ॥३५

अब अभ्यासी को स्वयं कैसा होना चाहिये जब कि वह अभ्यास का प्रारम्भ करे—यह बतलाया जाता है—योग के ज्ञाना को योग का युञ्जन करने के समय अत्यन्त तृप्त नहीं होना चाहिये—धुचा से वह घात न हो तथा मल-मूत्र के उत्सर्ग करने की बाधा से युक्त न हो—मार्ग गमन के खेद से वह युक्त न हो अर्थात् शान्त न हो और किसी भी चिन्ता से ग्रस्त न होवे । ऐसी परम नितान्त शान्त अवस्था में अवस्थित होकर ही योगाभ्यास करना चाहिए । ऊरु में स्थित उत्तान चरण वाला तब्य में

उत्तर करते रखकर कुछ ऊँचा उन्नमित होकर उरःस्थल से मुख को निस्तब्ध करे और आँखें मूँदकर सत्व में समवस्थित होकर दाँती को दाँती से स्पर्श नहीं करना चाहिए । तालु में स्थित अचल जिह्वा वाला होकर मुख बन्द करके एक दम सुश्चल हो जावे । अपनी समस्त इन्द्रियो पर पूर्ण संयम रखकर रहे । आसन जो बँठने का हो वह न तो अधिक ऊँचा हो और न ज्यादा नीचा हावे । फिर मध्यम और उत्तम प्राणायाम करने का उपक्रम करना चाहिये । इन वायु से बचन होने पर सभी चलायमान होते हैं और जब यह निश्चल हो जाता है तो सब कुछ निश्चल हो जाता करते हैं । अनिल के अर्थात् प्राण वायु के निरोध करने पर सबका निरोध हो जाने से योगी स्थाणुता को प्राप्त हो जाता है । सूखे हुए पेड़ के मूल भाग को जो जमीन में कटे या उखाड़े वृक्ष का होता है वही स्थाणु है । जब तक इस शरीर में प्राण स्थित रहता है सभी तक इस देह को जोवित कहा जाता है । इस प्राण वायु के शरीर से निकल जाने पर ही मरण होता है अतएव प्राणों का निरोध करना चाहिये । जब तक यह वायु इस देह में बद्ध है और जिस समय तक चित्त निराश्रय होता है तथा जब तक भौहो के मध्य में दृष्टि है सभी तक काल का भय कैसे हो सकता है अर्थात् ऐसी अभ्यास की दशा में कोई भी काल का भय होता ही नहीं है ॥२६-३५॥

कालसाध्वसतो ब्रह्मा प्राणायामं सदाचरेत् ।

योगिनः सिद्धिमापन्नाः सम्यक् प्राणनियन्त्रणात् ॥३३

मन्दोद्वाद्दशमात्रस्तु मात्रालघ्वक्षरामता ।

मध्यमो द्विगुणः पूर्वदुत्तमस्त्रिगुणस्ततः ॥३७

स्वेदं कर्म्म त्रिपादं च जनयेत्क्रमशस्त्वसौ ।

प्रथमे न जयेत्स्वेदं द्वितीयेन तु वेपथुम् ॥३८

विपादं हि तृतीयेन सिद्धः प्राणोऽथ योगिनः ।

भवेत्क्रमात्सन्निरुद्धः सिद्धः प्राणोऽथ योगिना ।

क्रमेण सेध्यमानोऽसौ नयते यत्र चेच्छति ॥३९

हृष्टान्निरुद्धप्राणोऽयं रोमकूपेषु निःसरेत् ।

देहं विदारयत्येष कुष्ठादिजनयत्यपि ॥४०

इस दारुण काल के मयसे भीत होकर ही ब्रह्माभी प्राणायाम का सदा-
 धरण करते हैं। योगीजन भली भाँति प्राण वायु का नियन्त्रण करके
 ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं ॥३६॥ मन्द प्राणायाम उसे कहा जाता है
 जो द्वादश मात्रा वाला होता है और मात्रा सप्तु अक्षर वाली मानी गयी
 है। मध्यम प्राणायाम इस मन्द से दुगुना अर्थात् चौबीस मात्रा वाला
 होता है तथा उत्तम प्राणायाम त्रिगुना हुआ करता है। इसमें छत्तीस
 मात्राएँ होती हैं। यह प्राणायाम क्रम से स्वेद—कम्प और विपाद
 को उत्पन्न किया करता है। प्रथम में स्वेद पर जय प्राप्त करे। द्वितीय
 से वेपथु (कम्पन) को जीते और तीसरे से विपाद पर जय प्राप्त
 करे तभी योगी का प्राण सिद्ध होता है। योगी के द्वारा क्रम से सन्नि-
 रुद्ध प्राण सिद्ध हुआ करता है। क्रम से इनका सेवन किया जावे तो
 यह सेव्य भाव होकर वहाँ पर योगी को पहुँचा दिया करता है वहाँ भी
 यह जाना चाहता है। दूर से निरुद्ध किया हुआ यह प्राणवायु रोगों के
 छिद्रों से निकलने लगता है। यह फिर देह को विदीर्ण करा दिया
 करता है और कुछ प्रादि रोगी को भी उत्पन्न करा दिया करता
 है ॥३७-४०॥

दृढासनो यथाशक्ति प्राणं चन्द्रेण पूरयेत् ।
 रेचयेदथ सूर्येण प्राणायामोऽप्रमुच्यते ॥४५॥
 स्वत्वपीयूषधारौघं ध्यायंश्चन्द्रमन्वितम् ।
 प्राणायामेन योगीन्द्रः सुखमाप्नोति तत्क्षणात् ॥४६॥
 रविणा प्राणमाकृष्य पूरयेदौदरी दरीम् ।
 कुम्भयित्वाशनैः पश्चाद्योगीचन्द्रेण रेचयेत् ॥४७॥
 ज्वलज्ज्वलनपुञ्जामं शीलयन्नुष्मगुं हृदि ।
 अनेन याम्यायामेन योगीन्द्रः शर्मभागभवेत् ॥४८॥
 हृत्थं मासत्रयाम्यामादुभयायामिसेवनात् ।
 सिद्धनाडीगणो योगी सिद्धप्राणोऽभिधीयते ॥४९॥

क्रम से ही इसका प्रत्यायन करना चाहिए जैसे जंगली हाथी को क्रम पूर्वक ही प्रस्थापित किया जाता करता है । वन में रहने वाला हाथी भयवा गज का शत्रु क्रम से ही गृधुना को प्राप्त हुआ करते हैं ॥४१॥ वह फिर अपने ऊपर घासन करने वाले के निर्देश किया करता है और फिर उसके आदेश का उल्लंघन नहीं किया करता है, ठीक उसी भाँति यह हृदय स्थल में स्थित रहने वाला प्राण वायु है जो योगी के द्वारा योग के अभ्यास से क्रम पूर्वक गृहीत होता है और जब शनैः यह सेव्यमान हो जाया करता है तो फिर पूर्ण विश्वास को प्राप्त कर लिया करता है । यह छत्तीस अंगुल के परिमाण वाला हृत्त बाहिर प्रयाण किया करता है । सव्यापसव्य मास से प्रयाण करने से ही यह प्राण कहा जाया करता है । जिस समय में सम्पूर्ण नाड़ी चक्र घनाकुल होना हुआ शुद्धि को प्राप्त होना है तभी उस समय में प्राण के निरोध करने में योग समर्थ हुआ करता है । घासन पर दृढता से बैठकर यथा-शक्ति चन्द्र के द्वारा प्राण को पूरित करना चाहिए । सूर्यस्वर से प्राण वायु का रेचन करें—यही प्राणायाम कहा जाता है । योगीन्द्र को प्राणायाम के द्वारा स्तव करने वाले अमृत की धारा का समूह चन्द्र से समन्वित का ध्यान करते हुए वह उषी क्षण में सुख की प्राप्ति किया करता है । सूर्य के द्वारा प्राणों का समाकषिण करके उदर ही दरी को

पूरित करना चाहिए फिर कुम्भन करके अर्थात् प्राणवायु को रोककर के बहुत ही धीरे-धीरे गंगी को चन्द्र के द्वारा अर्थात् त्रिं स्वर के द्वारा रचन करना चाहिए। देदीप्यमान धग्नि के पुञ्ज की भाभा के समान घ्राभा वाले उष्णु को हृदय में शीतन करते हुए इस याम्यायाम से योगोन्द्र कल्याण का अधिकारी होता है। इस प्रकार से तीन मास के अभ्यास से उष्य याम (प्रहर) तक सेष्ण करने से जिसके नाड़ियों का गण सिद्ध हो जाता है वह योगी सिद्ध प्राण वाला कहा है ॥४२-४६॥

यथेष्टं धारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम् ।

नादाभिध्यक्तिदारोग्यं भवेन्नाडी विशोषनात् ॥५०

प्राणोदेहगतौवायुरायामग्नितन्निबन्धनम् ।

एकध्यासमयीमात्रा प्राणायामो निरुच्यते ॥५१

प्राणायामेष्वमेधर्मः कम्पो भवति मध्यमे ।

उत्तिष्ठेदुत्तमे देहो वद्धपश्चासनो मुहुः ॥५२

प्राणायामैर्दंहेहोपान्प्रत्याहारेण पातकम् ।

सनोर्ध्वं धारणया ध्यानेनेश्वरदर्शनम् ॥५३

समाधिना लभेन्मोक्षं त्यक्त्वा धर्मं शुभानुभम् ।

आसनेन वपुर्दाढ्यं षडङ्गमिति कीर्तितम् ॥५४

प्राणायामद्विपट्केन प्रत्याहार उदाहृतः ।

प्रत्याहारं द्विदशभिर्धारणा परिकीर्तिता ॥५५

भवेदीश्वरमङ्गल्यं ध्यान द्वादशधारणम् ।

ध्यानद्वादशकेनैव समाधिरभिधीयते ॥५६

नाड़ियों के विसोपन से जिस तरह वायु के द्रष्ट का धारण होता है और धनस का दीपन होता है, बाद की अभिव्यक्ति—धारोग्य होते हैं। प्राणवायु देह में गत होता है उसका निबन्धन ही प्रायम होता है और एक दशासमयो मात्रा प्राणायाम कहा जाता है। अथम प्राणायाम में धर्म होता है—मध्यम प्राणायाम मे कम्प होता है और उत्तम प्राणायाम मे षड पचासन वाला यह देह बार २ ऊपर को उठता है। प्राणायामों के द्वारा दोषों को दग्ध करना चाहिए। प्रत्याहार के द्वारा

पातकों का दाह करें । धारणा के द्वारा मन को धर्म देवे और ध्यान के द्वारा ईश्वर का दर्शन करना चाहिए । समाधि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करें और शुभ तथा अशुभ धर्म का त्याग कर देवे । आसन के द्वारा शरीर की दृढ़ता होती है । इस प्रकार से यह पड़ङ्ग योग का वर्णन कर दिया गया है । बाहर प्राणायामों से प्रत्याहार उदाहृत किया गया है । बारह प्रत्याहारों से धारणा कही गई है । ईश्वर की संगति के लिये द्वादश धारणाओं का ध्यान होता है अर्थात् ध्यान में बारह धारणाएँ हुआ करती हैं । बारह ध्यानों के द्वारा समाधि होती है । इसी को समाधि कहा जाता है ॥१० १६॥

समाधेः परतो ज्योतिरनन्तं स्वप्रकाशकम् ।

सस्मिन्दृष्टे क्रियाकाण्डं यातायातं निवर्तते ॥५७

पवने व्योमसम्प्राप्ते ध्वनिरुत्पद्यते महान् ।

घण्टादीनाम्प्रवाधानां ततः सिद्धिरद्वारतः ॥५८

प्राणायामेन युक्तेन सर्वव्याधिक्षयो भवेत् ।

अयुक्ताभ्यासयोगेन सर्वव्याधिसमुद्भवः ॥५९

हिक्काश्वासश्च कासश्च शिरः कर्णोक्षवेदना ।

भवन्ति विविधा शोषाः पवनस्य व्यतीक्रमात् ॥६०

युक्तं युक्तं त्यजेद्वायुं युक्तं युक्तञ्च पूरयेत् ।

युक्तं युक्तञ्च बध्नीयादित्य सिध्यति योगवित् ॥६१

इन्द्रियाणां हि चरितां विषयेषु यदृच्छया ।

यत्प्रत्याहरणं युक्त्या प्रत्याहारः स उच्यते ॥६२

प्रत्याहरति यः स्वानिकूर्मोद्भ्रानीवसर्वतः ।

प्रत्याहति विज्ञानेन सस्याद्विगतकश्मपः ॥६३

समाधि से परे स्व प्रकाशक अनन्त ज्योति होती है और उस ज्योति के दर्शन प्राप्त कर लेने पर सम्पूर्ण क्रिया काण्ड और यातायात निवृत्त हो जाता करता है ॥५७॥ पवन के व्योम में सम्प्राप्त हो जाने पर महान् ध्वनि उत्पन्न हुआ करती है । यह ध्वनि घण्टा आदि प्रवाचों की होती है फिर उससे निवृत्त ही में निवृत्ति होती है ॥५८॥ युक्त प्राणायाम से समस्त

व्याधियों का क्षय होजाता है किन्तु प्रयुक्त योग के अग्याग धाग मे गव
 व्याधियों की समुत्पत्ति हो जाया करती है ॥५६॥ वायु के व्यभिचन के
 होने से हिषधी, भ्राग, नागो, गिर ददं, वानों में पीटा घोर अगिों का
 ददं ऐसे अनेक दोष हो जाया करते हैं ॥६०॥ युक्त युक्त वायु का र्याग
 करे घोर युक्त-युक्त ही इनको पूरित करना चाहिए तथा युक्त-युक्त ही
 हसपा अन्पन करे, इसी प्रकार से योग के वेसा की मिट्टि हुपा करती
 है ॥६१॥ यहृष्ट्या से विषयो मे इन्द्रियो वं मञ्चरण करने पर जो उनका
 युक्ति से प्रत्याहरण किया जाना है वही प्रत्याहार कहा जाता है ॥६२॥
 जो अपनी समस्त इन्द्रियों को गभी घोर से वधु के द्वारा अपने अङ्गों के
 समान प्रत्याहरण किया करना है और प्रत्याहरण के विधान से जो वह
 प्रत्याहरण होता है । ऐसा प्रत्याहरण करने वाला पुरुष विगन कल्प है
 जाया करता है अर्थात् उसका सभी पाप क्षीण होजाते हैं ॥६३॥

नाभिदेशेवसेद्भ्रानुस्तालुदेशे च चन्द्रमाः ।

वर्षत्यधोमुखश्चन्द्रोश्चेदूर्ध्वं मुखो रविः ॥६४

करगन्तच्चकतंर्व्यं येन सा प्राप्यते सुधा ।

ऊर्ध्वं नाभिरधस्तालुरुर्ध्वं भानुरधः शशी ॥६५

करणां विपरीताख्यमध्यासादेव जायते ॥६६

काकचञ्चुवदास्मेन शीतलं शीतलं पिवेत् ।

प्राणं प्राणविधानज्ञो योगी भवति निर्जरः ॥६७

रसनां तालुविवरे निधायोर्ध्वंमुखोऽमृतम् ।

धयन्निर्जरताङ्गच्छेदापण्मासाघ्न संशयः ॥६८

ऊर्ध्वं जिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः ।

मासार्धेन न सन्देहो, सृत्युञ्जयति योगवित् ॥६९

सम्पीड्य रसनाग्रेण राजदन्तबिलं महत् ।

ध्यात्वासुधामयी देवी पण्मासेन कविर्भवेत् ॥७०

नाभि देश मे भानु का निवास होता है और तालु देश में चन्द्रमा
 रहा करता है । चन्द्रमा अधोमुख होकर वर्षा किया करता है और सूर्य
 ऊर्ध्वं मुख वाला होकर प्रसजा है । उस करण को करना चाहिए जिससे

सुधा की प्राप्ति की जाया करे । ऊर्ध्व में नाभि है और अधो भाग में चन्द्रमा, है । विपरीतास्य करण अम्यास से ही हुआ करता है ॥६४-६६॥ काक (कोआ)की पक्षु के समान मुख से क्षीतल-शीतल प्राण का पान करे । प्राण के विधान का ज्ञाता योगी निर्जर (देवता) अर्थात् वृद्धता से रहित हो जाया करता है ॥६७॥ तालु के छिद्र में रसना को रखकर ऊर्ध्वमुख बाला होकर अमृत का चयन करते हुए निर्जरता को छै मास में ही प्राप्त हो जाता है, इसमें कुष्ठ भी राख्य नहीं है । जो ऊपर की ओर जिह्वा करके स्थिर होकर सोम का पान निर्या करता है वह योग का वेत्ता अर्द्ध मास में ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया करता है, इस में लेश मात्र भी सन्देह नहीं है । महान् शोभित अग्नि को रमना के अग्र भाग से सम्पीडित करके सुभामयो देवी का ध्यान करके छैमास में ही कवि होजाया करता है ॥६८-७०॥

अमृतापूर्णदेहस्य योगिनोद्विध्रुवत्परात् ।
ऊर्ध्वं प्रवर्ततेरेतोह्यग्निमादिगुणोदयम् ॥७१
नित्यं सोमकलापूर्णं शरीरं यस्य योगिनः ।
तक्षकेणापिदृष्टस्यविय तस्य न सर्पति ॥७२
आसनैः समायुक्तः प्राणायामेन सयुतः ।
प्रत्याहारेण सम्पन्नो धारणाभयवाच्यसेत् ॥७३
हृदये पञ्चभूतानां धारणं यत् पृथक् पृथक् ।
मनसा निश्चलत्वेन धारणासाभिधीयते ॥७४
हरितालनिभा भूमिः श्लकारा मवेद्यसम् ।
चतुष्कोणां हृदि ध्यायेदेपास्वात् क्षितिधारणा ॥७५
कण्ठेऽम्बुतत्रमर्घेन्दु निभ विष्णुसमन्वितम् ।
वकारबीजं कुन्दाभ ध्यात्तम्बुजयेदिति ॥७६
तालुस्थमिन्द्रगोपाम त्रिकोणरेफसयुतम् ।
रुद्रेणाधिष्ठितं तेजोऽद्यात्वावह्निजयेदिति ॥७७
वायुस्तत्त्वं भ्रुवोर्मध्ये वृत्तमञ्जनसन्निभम् ।
यम्बीजमोसदेवत्यं ध्यायन्वायुं जयेदिति ॥७८

योगभ्यास करने वाले योगी के इम घृत से परिपूर्ण देह का रेत ऊर्ध्व भाग को प्रवृत्त हो जाया करना है और फिर अग्निमा आदि ऋषि सिद्धियों के गुणों का उदय हो जाता है ॥७१॥ जिस योगी का नित्य ही सोम की कल्प से परिपूर्ण शरीर होता है उसको यदि साक्षात् स्वयं तक्षक सर्प भी दंशन करे तो भी उस में विष का सर्पण नहीं होता है । आसन से समायुक्त, प्राणायाम से संयुक्त, प्रत्याहार से सुताम्पन्न होता हुआ धारणाका अभ्यास करना चाहिए । हृदय में पाँचों भूतों का पृथक्-पृथक् जो धारण करना है और वह भी मन के परम निश्चलता के भाव से किया जाता है । इसीलिये इसको धारणा कहा जाता है ॥७२-७४॥ हरि ताल के तुल्य सलकार और सवेवस चतुष्कोण भूमि का हृदय में ध्यान करे, यही धिति की धारणा कही जाती है । कण्ठ में अर्ध चन्द्र के समान विष्णु से समन्वित अम्बु (जल) का तत्त्व है । वकार उसका बीज है और वह कुन्द के पुष्प की आभा के सदृश आभा वाला है, इस भाँति अम्बु का ध्यान करना चाहिए । इसी से वह अम्बु के ऊपर जय प्राप्त करे ॥७५-७६॥ तालु में स्थित इन्द्र गोप के समान आभा वाला, त्रिकोण और रेफ किसी आभा से युक्त, चन्द्र देव के द्वारा अधिष्ठित तेज का ध्यान करके बह्नि का जीतना चाहिए ॥७७॥ वायु तत्त्व को दोनो भौहो के मध्य भाग में अञ्जन के सदृश वृत्ताकार ध्यान करे जिसका सबीज है और ईश देव से वह अधिष्ठित है —इसी रीति से ध्यान करते हुए वायु पर जय प्राप्त करे ॥७८॥

आकाशञ्चमरीचिवारिसदृश यद्ब्रह्मरन्ध्रस्थित
यत्राद्येन सदाशिवेन सहितं शान्तं हकाराक्षरम् ।

प्राण तत्र विनीय पञ्चघटिकं चिन्तान्वितं धारये
देवा मोक्षकपाटनपटुः प्रोक्ता नभोधारणा ॥७९

स्तम्भनीप्लावनी चैव दहिनी भ्रामणीतथा
समनीचभवन्येताभूनानापञ्चधारणाः ।

धैचिन्ताया स्मृतो घातुश्चिन्तातत्त्वे सुनिश्चला
एतद्ध्यानमिह प्रोक्तं सगुणं निर्गुणद्विधा ॥८०

सगुणवर्णभेदेन निगुणंकेवलम्मतम् ।
 ममन्त्रं सगुणं विद्धि निगुणं मन्त्रवर्जितम् ॥८१
 अन्तश्चेतो बहिश्चक्षुरवस्थाप्य सुखासनम् ।
 समस्त्वञ्चक्षरीरस्यध्यानमुद्रातिमिद्धिदा ॥८२
 नाश्वमेधेन तत्पुण्यं नच वै राजसूयतः ।
 यत्पुण्यमेकध्यानेन लभेद्योगी स्थिरासनः ॥८३
 एवदादीनाञ्च तन्मात्रा यावत्कर्णादिषु स्थिता ।
 तावदेव स्मृतं ध्यानं स्यात्प्रमादिरतमरम् ॥८४
 धारणा पञ्चनाडीका ध्यानं स्यात्पट्टिनाडिकम् ।
 दिनद्वादशकेन स्यात्प्रमादिरिह भण्यते ॥८५

आकाश तत्त्व शरीर के बाह्य का सुख है जो ब्रह्म रज्जु में स्थित है जिसपर नाम भगवान् सदाशिव है उन्ही के सहित वह रहता है । परम दाम्प्य उसका स्वरूप है तथा हकाराक्षर उसका वाच्य है जिससे वह सगुण है । वही पर पाँच घड़ी तक प्राण को लेजाकर ध्यान से युक्त होता हुआ धारणा करे । यह मोक्ष के कपाटों के पाटन करने में परम कुशल नम को धारणा कही गई है ॥७९॥ इन रीति से इन्द्रभनी, प्लावनी, दहिनी, भ्रामणी और रामनी नामी बाली भूतों की पाँच धारणाएँ हुआ करती हैं । धर्म चिन्ता के अर्थ में धातु कहा गया है अतएव यह चिन्तन करने में सुनिश्चर होती है । इनीतिये यह ध्यान कहा गया है । यह सगुण का ध्यान और निगुण का ध्यान दो प्रकार का होता है ॥८०॥ सगुण वर्ण भेद से कहा गया है और निगुण का ध्यान सबल माना गया है । सगुण ध्यान मन्त्र के सहित होता है और निगुण का ध्यान मन्त्र से वर्जित होता है । चित्त का अन्तर्मुख और चक्षु को बहिर्मुख अवस्थापित करके सुखासन और शरीर का समत्त्व आ होता है यही ध्यान को मुद्रा अत्यन्त सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है ॥८१-८२॥ उस पुण्य को अश्वमेध यज्ञ से तथा राजसूय यज्ञ से भी अनुप्य प्राप्त नहीं कर सकता है त्रिम पुण्य को स्थिर आसन बाला होकर एक ध्यान से ही प्राप्त कर लिया करता है

॥८३॥ शब्दादि की तन्माया जब तक वरुणदि मे स्थित है तभी तक उसको ध्यान कहा गया है । इसके पश्चात् तो फिर समाधि की प्रवस्था प्राप्त हो जाया करती है ॥८४॥ धारणा पञ्च नाडी वाली होती है और ध्वान साठ नाडियो वाला होता है । समाधि बारह दिन की होती है— यहाँ पर ऐमा ही कहा जाता है ॥८५॥

जलसंन्धवयोः साम्यं यथा भवति योगतः ।

तथात्ममनमोरं वयंसमाधिरिह भ्रम्यते ॥८६॥

यदासक्षीयते प्राणो मानसञ्च प्रलीयते ।

तदा समरसत्त्वं यत्स समाधिरिहोच्यते ॥८७॥

यत्सनत्वं द्वयोरथ जीवात्मपरमात्मनोः ।

स नष्टमर्षसङ्कल्पः समाधिरभिधीयते ॥८८॥

नात्माननपरं वेत्ति न शीतं नोष्णमेव च ।

समाधियुक्तो योगीन्द्रो न सुखं न सुखेतरत् ॥८९॥

काल्यते नैव कालेन लिप्यते नैव कर्मणा ।

मिथ्यते न च शस्त्रास्त्रै र्योगीयुक्तः समाधिना ॥९०॥

युक्ताहारविहारश्च युक्तचेष्टीहि कमसु ।

युक्तनिद्रावबोधश्च योगीतत्त्वं प्रपश्यति ॥९१॥

जिस प्रकार से जल और सन्धव का साम्य योग से होता है उसी रीति से आत्मा और मन का योग अर्थात् एकता, का हो जाना ही यहाँ पर समाधि कही जाती है ॥८६॥ जिस समय मे प्राण संकीर्ण हो जाता है और मानस प्रलीन होजाया करता है उसी समय मे समरसता होती है जिसको यहाँ पर समाधि कहा जाया करता है ॥८७॥ जो जीवात्मा और परमात्मा दोनो का यहाँ पर समत्त्व होजाता है और जिस मे सभी संस्त्व नष्ट होजाया करते हैं उसी प्रवस्था का नाम यहाँ पर समाधि कहा जाता है ॥८८॥ समाधि मे निरत हुआ योगी न तो आत्मा का ज्ञान उसे रहता है और न परमे ही, यह अज्ञान है—शरीर और उष्ण का जो उसे ज्ञान नहीं होता है । समाधि मे युक्त योगी को सुख तथा दुःख का भी कुछ ज्ञान नहीं रहा करता है । वह समाधिस्थ योगी काल से कालायमान

नही होता है और कर्म से भी तित्त नहीं करता है । छात्रात्मी से भी उपाका भेदन नहीं किया जा सकता है । समाधि से युक्त रहने वाले योगी का ऐसा ही अद्भुत प्रभाव होता है ॥८६-६०॥ जो योगी युक्त आहार और विहार वाला होता है तथा कर्मों में भी युक्त चेष्टाओं वाला रहा करता है एव युक्त निद्रा तथा उच्च बोध से युत है १ही योगी तत्त्व का साक्षात्कार किया करता है ॥६१॥

तत्त्वविज्ञानम नन्दम्रह्मद्रह्यविदोविदुः ।

हेतुदृष्टान्तरहित वाङ्मनोम्यामगोचरम् ॥९२

तत्र योगी निरालम्बे निरातङ्गे निरामये ।

पडङ्गयोगविधिना परब्रह्मणि लीयते ॥९३

यथा घृते घृत क्षिप्त घृतमिव हि तद्भवेत् ।

क्षीरेक्षीर तथा योगी तत्रतन्मयता व्रजेत् ॥६४

अनसं जातपानीर्यंविदध्यादङ्गमदनम् ।

त्यजेत्कदुष्म लवणं क्षीरभोजी सवा भवेत् ॥६५

ब्रह्मचारी जितक्रोधो जितलोभो विमत्सरः ।

अब्दमित्थं तदाभ्यासात्प योगीति निगद्यते ॥९६

महामुद्रा नभोमुद्रामुड्डीयानञ्जलन्धरम् ।

मूलबन्धन्तुयोवेतिसयोगीयोगसिद्धिभाक् ॥९७

शोधननाडीजालस्य घटनञ्चन्द्रसूर्ययोः ।

रसाना शोषणसम्यङ्महामुद्राभिधीयते ॥९८

ब्रह्म के वेत्ता लोग हेतु और दृष्टान्त से रहित, मन वाणी के अगोचर, विज्ञान और आनन्द स्वरूप ब्रह्म तत्त्व को जानते हैं वहीं पर योगी निरालम्ब, निरातङ्ग, निरामय परब्रह्म में पडङ्ग योग की विधि से लीन हो जाया करता है । जिस प्रकार से घृत में लिप्त हुआ घृत वह घृत ही हो जाया करता है कोई भी दोनों में भेद नहीं रहा करता है और इसी तरह से क्षीर में क्षिप्त क्षीर हो हुआ करता है और तन्मयता को प्राप्त हो जाया करता है । बिना आलस्य के जान जलो से धङ्गो का योगी को मर्दन करना चाहिए । योगी को उष्ण, लवण का त्याग कर देना चाहिए और

सब क्षीर का भोजन करने वाला रहना चाहिए । जो सदा ब्रह्मचारी, क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाला, लोभ को जीत लेने वाला, मत्सरता से रहित होकर एक वर्ष पर्यन्त सदा अभ्यास करने से वह व्यक्ति योगी कहा जाया करता है । जो महामुद्रा, नमो मुद्रा, उड्डीयान, जलन्धर और मूलबन्ध को भली-भाँति जानता है वही योगी योग की सिद्धि का पूर्ण अधिकारी हुआ करता है । नाड़ियों के जाल का शोधन और चन्द्र-सूर्य दोनो का घटन, रसों का क्षोषण जिसमे हुआ करता है वही महामुद्रा कही जामा करती है ॥६२-६८॥

योनिं वामाङ्घ्रिणाऽऽपीडय कृत्वा वक्षस्यले हनुम् ।

हस्ताभ्यां प्रसृतम्पादं धारयेद्दक्षिण चिरम् ॥९९

प्राणेन कुक्षिमापूय चिरं संरेचयेच्छनैः ॥

एष प्रोक्ता महामुद्रा महाघोषविनाशिनी ॥१००

चन्द्रांगे तु समभ्यस्व सूर्यांगे पुनरभ्यसेत् ।

धावत्तुल्या भवेत्सख्या ततो मुद्रां विसर्जयेत् ॥१०१

नहि पथ्यमपथ्यं वा रसाःसर्वेऽपिनोरसाः ।

अपिघोर विषम्पीतर्म्पीयूपमिवजीर्यति ॥१०२

क्षयकुष्ठगुदावर्तगुल्माजीर्णपुरोगमाः ।

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्राञ्चयो भासेत् ॥१०३

कपालकुहरेजिह्वाप्रविशाविपरीतगा ।

भ्रुवोरन्तगताट्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥१०४

न पीडयते दारौघेण न च लिप्येत कर्मणा ।

वाध्यते न स कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरोम् ॥१०५

वाम घरण से योनि का सम्पीडन करके और वक्षःस्थल में टोड़ी लगा कर दोनो हाथो से प्रसृत दक्षिणा घेर को चिरकाल तक धारण करना चाहिए ॥६९॥ प्राण से कुक्षि को घापूरित करके चिरकाल पर्यन्त घर्नः घर्नः भली-भाँति रेचन करे । इसी को महामुद्रा कहा गया है जो कि महान् अघो के क्षोष का विनाश करने वाली होती है । इसी प्रकार से नाभि में भली-भाँति अभ्यास करके फिर सूर्याङ्ग में अभ्यास करना

चाहिए । जब तक तुल्य संख्या हो तब तक करे फिर मुद्रा का विसर्जन कर देना चाहिए । १००-१०१॥ न तो कोई पत्थर (हितकर भोजन) है और न कुछ अपथ्य ही है । सभी रस भी नीरस हो जाते हैं । घोर विष भी पिया जाये और उसे पीयूष की ही भाँति पीयाँ कर जाता है । दाम्, कुष्ठ, उदावत, गुल्म और अजीर्ण जिनमे प्रमुख हैं इन समस्त व्याधियों के दोष उम योगाम्यासो के क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं जो महामुद्रा का अभ्यास किया करता है । कपाल के कुहर मे जिह्वा प्रविष्ट हुई हो और अविपरीत गमन करने वाली हो तथा दृष्टि बोनो भीहो के अन्तर्गत हो ऐसी इस मुद्रा को खेचरी मुद्रा करते हैं । जो इस खेचरी मुद्रा को जानता है वह शरी के समुदाय से पीडित नहीं होता है और न कर्म से ही लिप्त हुआ करता है, उसको काल के द्वारा भी बाधा नहीं दी जाया करती है ॥१०२-१०५॥

चित्त चरति खे यस्माञ्जिह्वा चरति खेगता ।

तैर्नया खेचरीनाम मुद्रासिद्धं निषेविता ॥ ०६

यावद्बिन्दु स्थितो देहे तावन्मृत्युभय कुत ।

यावद् बद्धा नभोमुद्रा तावद् बिन्दुर्नगच्छति ॥१०७

उड्डीनकुरुतेयस्वोदहीरात्र महास्वग ।

उड्डीयानन्ततः प्रोक्त तत्र बन्धो विधीयते ॥१०८

जठरेपश्चिम तानगाभेरुध्वञ्चधारयेत् ।

उड्डीयानो ह्ययम्बन्धो मृत्योरपिभय त्यजेत् ॥१०९

बध्नाति हि शिराजालमधोगामिनभोजलम् ।

एषजालन्धरोबन्धकण्ठेदु खीघनाशनः ॥११०

जालन्धरे कृतेबन्धे कण्ठसङ्कोचलक्षणै ।

न पीयूषपतत्यग्नी न च वायुः प्रधावति ॥१११

पाणिभागेन मम्पोड्ययोनिमाकुञ्चयेद्गुदम् ।

अपानमूर्ध्वमाकृष्यमूलबन्धोविधयते ॥११२

अपानप्राणयोरैक्ये क्षयो भूत्रपुरोपयो ।

युवाभवतिवृद्धोऽपि सततमूलबन्धनात् ॥११३

खेचरी मुद्रा के अभ्यास करने वाले पुरुष का चित्त तो आकाश में संचरण किया करता है और आकाश में गई हुई जिह्वा भी संचरण किया करती है इसी कारण से इस मुद्रा का नाम खेचरी पढ़ गया है और यह मुद्रा सिद्धों के द्वारा निषेवित हुआ करती है ॥१०६॥ जब तक इस देह में विन्दु स्थित रहा करता है तब तक मृत्यु का भय कहीं है धर्मात् मीत का भय होना ही नहीं है । जब तक नभोमुद्रा बद्ध होती है तब तक विन्दु नहीं जाया करता है ॥१०७॥ जा महान् खग महोरात्र उड्डीयन को किया किया करता है इसी कारण से इस मुद्रा को उड्डीयान नाम से कहा गया है । वहाँ पर बन्ध किया जाता है ॥१०८॥ ऋठर में पश्चिम नाम को नाभि के ऊर्ध्व भाग में धारण करना चाहिए । यही उड्डीयान बन्ध होता है जिसे मृत्यु के भी भय को त्याग देना चाहिए ॥१०९॥ प्रधोगामो नभो जल शिरासो के जाल को बाध लिया करता है । यही जालन्धर बन्ध होता है जो कण्ठ में दुःखों के भोध का नाश करने वाला है ॥११०॥ कण्ठ के सकोच लक्षण वाले जालन्धर बन्ध के करने पर न तो पीयूष अग्नि में गिरा करता है और न वायु ही प्रवाहन करता है ॥१११॥ पार्थिव भाग से योनि को सम्नोदित करके गुद को आकुञ्चित करना चाहिए । अपान बाल को ऊर्ध्व भाग की ओर आकर्षित करना चाहिए । यही मूल बन्ध निहित किया जाता है ॥११२॥ अपान वायु और प्राण वायु इन दोनों की एवता ही जान पर मूत्र तथा मल का क्षय हो जाया करता है । जो कोई भी वृद्ध भी होता है तो वह युवा होजाया करता है यदि निरन्तर इस मूल बन्ध के करने का ऐसा महान् प्रभाव होता है ॥११३॥

इतियोगः समाख्यातो मयातेद्विविधो मुने ॥

सपड गः समुद्रश्च मुक्तये शम्भुभाषितः ॥११४

यावन्नेन्द्रियवैबल्यं यावद्व्याधिर्न बाधते ।

यावत्कालविलम्बोऽस्ति तावद्योगरतो भवेत् ॥११५

उभयोर्योगयोर्मध्येकाशीयोगोऽयमुत्तमः ।

काशीयोगंसमभ्यस्यप्राप्नुयाद्योग मूर्त्तमम् ॥११६

आधिव्याधिसहायिन्या जरया मृत्युलिगया ।

काल निकटतो ज्ञात्वा काशीनाथ समाश्रयेत् ॥१११॥

हे मुने ! इस प्रकार से मैंने यह योग का प्रकार का मापको बतला दिया है । यही योग छै अज्ञो वाला होता है और उपयुक्त मुद्राओं से भी समन्वित हुआ करता है । भगवान् शम्भु ने इसी योग को मुक्ति की प्राप्ति करने के लिये कहा है ॥११४॥ जिन समय तक इन इन्द्रियों में विकृतता की प्राप्ति नहीं होती है अर्थात् वे विषयो के ग्रहण करने में अतनर्ध नहीं होती है और जब तक इस शरीर को व्याधियों के द्वारा धारा नहीं होती है तथा जब तक कराल काल का विलम्ब है अर्थात् मृत्यु का समय प्राप्त नहीं होना है तभी तक मनुष्य को योग के अभ्यास करने में रत हो जाना चाहिए ॥११५॥ इन दोनों प्रकार के योगों के मध्य में यह काशी का याग अत्युत्तम होता है । इस काशी के योग का अभ्यास करके उत्तम योग को प्राप्त करना चाहिए । आग्नि (मानसिक व्यथा) और व्याधि (दारीरिक रोग) जिस की सहायता करने वाली हैं ऐसी वृद्धता (युद्ध पा) में जो वि मृत्यु के सम प में होने का एक संकेत है अपने अन्न काल को प्रति निष्ठ में ही जानकर भगवान् काशी के स्वामी श्री विदेवनाथ का समा-
ध्य ग्रहण करना चाहिए ॥११६-११७॥

५४— दशाश्वमेधमाहात्म्यवर्णन

गभस्विमालिनि गने काशी त्रै लोश्यमोहिलीम् ।

पुनश्चिन्तामवापोर्त्तमन्दरस्योमुनेहर ॥१॥

नाद्याप्यायान्ति योगिन्यो नाद्याप्यायाति निग्मगु ।

प्रयुत्तिरपि मे कादयाश्चित्रमप्यन्नदुलंमा ॥२॥

रिमत्रनित्र यत्वाज्ञो मदीयमपि मानसम् ।

निदाल पञ्चलपति गणना केन्द्रेगुणे ॥३॥

धधाक्षिपमहंषाम त्रिजगज्जिस्वर दृशा ।

यतो पाशाभिलाषोऽत्रमामेवदुनु रात्तराम् ॥४॥

काशीप्रवृत्तिमन्वेष्टुं कम्वा प्रहिणुयामितः ।

ज्ञातुंकण्वनिपुणो यतः स चतुराननः ॥५

इत्याहूय विधानारं बहुमानपुर.सरम् ।

तत्रोपवेश्य श्रीकण्ठः प्रोवाच चतुराननम् ॥६

योगिन्यः प्रं पिता.पूर्वंप्रेपितोऽथपहस्रगु ।

नाद्यापितेनिवर्तन्तेकाश्याः कमलसम्भव ॥७ .

भगवान् श्री स्कन्द ने कहा—हे मुनिवर ! श्रीलोक्य को मोहित करने वाली काशी पुरी में गभस्ति मानी भगवान् भास्कर के जाने पर मन्दरगिरि पर समवस्थित भगवान् हर पुनः बड़ी भारी चिन्ता को प्राप्त हो गये थे कि धाज तक भी योगिनियां नहीं आनी हैं और अभी तक तिग्मगु भी नहीं घाता है । बड़ी विचित्र बात है कि मेरी काशीपुरी की प्रवृत्ति भी अत्यन्त दुर्लभ है ॥१-२॥ यहाँ पर यह क्या विचित्रिना है कि यह काशीपुरी मेरे निदचल मन को भी चञ्चल बना रही है तो फिर दूसरे देवों की तो विचारों की गिनती ही क्या है ? मैंने तीनों जगतों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले कामदेव को भी बहुत ही शीघ्र तीसरे नेत्र के द्वारा दग्ध कर दिया था । अहो ! बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर यह काशी की अभिनाया मुझको ही अधिक सता रही है । इस बासी की प्रवृत्ति की खोज करने के लिये यहाँ से मैं किस के पाठ जाऊँ । इसके भानने के लिये कौन ऐसा निपुण हो सकता है । हाँ, वह एक चतुरानन (ब्रह्म) ही हो सकने हैं । इस लिये उन्होंने विधाता का समाह्वान किया था । बहुमान पूर्वक ब्रह्माजी को वहाँ पर बिठलाकूप भगवान् श्री कण्ठ ने चतुरान ब्रह्मा जी से पूछा था—हे भगवान् ! मैंने पहिले तो योगिनियों को भेजा था और इनके भेजने के पश्चात् सहस्रांशु को प्रेषित वहाँ पर किया था । हे कमल से समुत्पत्ति वाले ब्रह्माजी ! काशीपुरी से वे सब धभी तक भी वापिस लौटकर नहीं प्राये हैं ॥३-७॥

साममुत्सुक्येत्काशी लोकेश मममानसम् ।

प्रावृत्तस्यजनस्येन चञ्चलाक्षीवकाचन ॥८

मन्दरेऽथ रतिर्मे न भृशं सुन्दरकन्दरे ।
 अनच्छतुच्छपानीये नक्तस्येवाल्पपल्वले ॥९
 नावाधिष्टतथामां स तापोहालाहलोद्भवः ।
 काशीविरहजन्माऽत्र यथामामतिवाधते ॥१०
 शीतरश्मिः शिरस्थोऽपिवर्षन्पीयूषसीकरैः ।
 काशीविश्लेषजंतापं नाहोगमयितुं प्रभुः ॥११
 विधेविधेहि मे कार्यं मायंघुर्यं महामते ।
 याहिकाशीमितस्तूर्णं यतस्व च ममेहि ते ॥१२
 ब्रह्मं स्वमेवतवेत्सिकाशीत्यजनकारणम् ।
 मन्दोपिनरज्जेत्काशीकिमुयोवेत्तिकिञ्चन ॥१३
 अद्यैवकिनगच्छेयं काशीब्रह्मन्स्वमायया ।
 दिवोदास स्वधर्मस्थं नतूल्लंघितुमुत्सहे ॥१४

हे लोकेश ! वह काशी पुरी मेरे भी मन में बड़ी उत्सुकता समुत्पन्न किया करती है जैसे कोई चञ्चल नेत्रों वाली स्त्री प्रकृति (साधारण) मनुष्य के हृदय को चञ्चल कर दिया करती है । इस सुन्दर कन्दराओं से समन्वित इस मन्दराचल पर भी मेरे मन में अधिक रति नहीं होती है । जैसे मटमैले तुच्छ जल वाले छोटे पोखरों में नक्त के मन को पूर्ण आनन्द की प्राप्ति नहीं करती है । मैंने जो सागर मन्थन में निकले हुए हलाहल का पान किया था उसका ताप भी मुझे उतनी बाधा नहीं पहुँचाता है जैसा कि यह काशीपुरी के वियोग से समुत्पन्न ताप मुझे अर्थात् मेरे मन को अत्यन्त मन्ताप दे रहा है । मेरे भस्तक पर शीतल किरणों वाला चन्द्र भी साक्षात् विराजमान रहता है जो कि सदा पीयूष के सीकरों के द्वारा वृद्धि मेरे ऊपर करता रहता है किन्तु वह भी काशीपुरी के विरह से उत्पन्न होने वाले सन्ताप का शमन करने में समर्थ नहीं हो रहा है ॥८-११॥ हे विधाता ! हे आर्यों मे परम श्रेष्ठ ! आप तो महान् भक्ति से सुसम्पन्न हैं । इस समय मे मेरे इस कार्य को कर दीजिए । यहाँ से आप काशीपुरी को चले जाइये और अत्यन्त ही शीघ्र मेरे हित के सम्पादन करने के लिये यत्न कीजिएगा । हे ब्रह्मन् !

काशी के त्याग का कारण आप ही भनी भाँति जानते हैं । कोई मन्द से भी मन्द पुरुष काशी पुरी का त्याग नहीं किया करता है और जो कुछ भी उसकी महिमा का ज्ञाता है उसको तो बात ही क्या है अर्थात् वह तो कभी उसे त्याग ही नहीं सकता है । आज ही अभी भी हे ब्रह्मन् ! अपनी माया से काशी को क्यों न गमन कर लूँ ? किन्तु अपने धर्म में स्थिर विश्वास का उत्सर्जन करने का मैं उरसाह नहीं कर पाता हूँ ॥१२-१४॥

विधेसर्वविधेयानित्वमेवविदधोसियत् ।

इनिचेतिचवक्तव्यंस्वय्यपार्थमतोऽखिलम् ॥१५

अरिष्टं गच्छपन्यास्ते शुभोदको भवत्वलम् ।

आदायाऽऽज्ञां विधिमुं धिन ययी वाराणसी मुदा ॥१६

सितहंपरथस्तूर्णं प्राप्यवाराणसी पुरीम् ।

कृतकृत्यमिवात्मानममन्यत तदात्मभूः ॥१७

हसयानफलं मेऽद्य जातं काशीसमागमे ।

काशीप्राप्तौयतः प्रोक्ता अन्तरायः पदे पदे ॥१८

द्विषिधातुरभूदद्यमदृशोप्राप्यमान्वयः ।

स्वष्टं दृष्टियथं प्राप्ता यदेपाऽऽनन्दवाटिका ॥१९

स्वयमिञ्चतियामादिभःस्वाभिःस्वर्गतरङ्गिणी ।

यत्रानन्दमयावृक्षायत्रानन्दमयाजनाः ॥२०

निर्विशन्ति सदा काश्यां फलान्यानन्दवन्त्यपि ।

सर्ववानन्दभूः काशी सर्ववानन्ददःशिवः ॥२१

हे विधे ! आप ही समस्त कर्तव्य कर्मों को किया करते हैं इसी हेतु से आपको शेष मे यह कहा जा रहा है, क्योंकि आपके विषय मे सभी कुछ अरिष्ट अपार्थ हा होता है । आप गमन कोजिए । आपका मार्ग शुभ फलदायक होवे । उस समय में ब्रह्माजी ने भगवान् शम्भु की आज्ञा को नसक्त करके स्वयं ही प्रसन्नता के साथ वे वाराणसी पुरी को चले गये थे ॥१५-१६॥ इत्रेन ह्य का रय बहुत ही शीघ्र वाराणसी पुरी मे प्राप्त हो गया था । उम समय मे वाराणसी मे पहुँच कर

ब्रह्माजी ने अपने आपको परम कृत कृत्य की ही भाँति माना था । ब्रह्माजी ने मन में विचार किया था कि मुझे इस हस्तों के यान का वास्तविक फल आज ही प्राप्त हुआ है कि मेरा इस काशी पुरी में सुन्दर समागम हो गया है क्योंकि इस काशी पुरी की प्राप्ति करने में कदम-कदम में बहुत से विघ्न रहे गये हैं । यह दृशि घातु मेरे दृष्टि की सार्थकता प्राप्त करके ही ठीक सफल हुई है क्योंकि यह आनन्द की वाटिका आज स्पष्ट रूप से मेरी दृष्टि के मार्ग में प्राप्त हो गई है, अर्थात् मैंने अपने नेत्रों से काशी पुरी का दर्शन प्राप्त करके नेत्रों के पाने का फल एवं सार्थक्य पालिया है । यह वाराणसी ऐसी पुरी है जिसका स्वर्ग तरङ्गिणी स्वर्ग अपने परम पावन जल से सिञ्चन किया करती है । यह ऐसी नगरी है जहाँ पर सभी वृक्ष भी आनन्द से परिपूर्ण होते हैं और जहाँ पर याजन करने वाले भी आनन्दमय जीवन व्यतीत किया करते हैं । काशीपुरी में सदा आनन्द वाले भी फल विशेष रूप से प्रवेश किया करते हैं । काशी सदा ही आनन्द की भूमि है और सदा ही आनन्द के प्रदान करने वाले प्रभु शिव है ॥१७-२१॥

आनन्दरूपाजायन्ते तेनकाश्याहिजन्तवः ।

चरणी चरितु वितस्तावेव कृतिनामिह ॥२२

चरणोविचरेतायो विश्वभर्तृपुरीभुवि ।

तावेव श्रवणी श्रोतुं सम्बिदाते बहुश्रुती ॥२३

इहश्रुतिमता पुंसायाम्या काशीश्रुतासकृत् ।

तदेवमनुतेसर्वमनस्त्विहमनस्विनाम् ॥२४

येनानुमन्यतेचंपा काशीसर्वप्रमाणभूः ।

वृद्धिर्वृध्यति सा सर्वमिहवृद्धिमतां सताम् ।

ययंतद्गुह्यंतेषाम् द्रुवं स्वन्नपयोकृतम् ॥२५

वरं तृणानि धान्यानि तानि वात्याहतान्यपि ।

काश्या यान्यापतन्तीह न जनाः काश्यदर्शनाः ॥२६

अथमेसफलञ्चायुः परार्धद्वयसम्मितम् ।

यस्मिन्सतिमयाप्रापिदुःप्रापाकाशिकापुरी ॥२७

अहोमेधर्मसम्पत्तिरहोमेभाग्यगीरवम् ।

यदद्राक्षिपमद्याह काशी सुचिरचिन्तिताम् ॥२८

इसी कारण से जो आनन्द के स्वरूप वाले जन्तु होते हैं वे ही काशी पुरी में जन्म ग्रहण किया करते हैं । यहाँ पर परम कृती पुरुषों के ही चरण संचरण करने के अधिकारी होते हैं । इस विश्व के भर्ता को पुरी की भूमि में जो चरण विचरण करते हैं वे ही चरण सार्थक हैं वे ही यथाशंता में ध्वरण हैं और बहुश्रुत हैं जो काशी पुरी की महिमा का ध्वरण किया करते हैं । जिन कानों से एक बार भी काशी का श्रवण किया है वे ही वास्तव में पुरुषों के सफल कान हैं । यहाँ पर मनस्वियों का वह ही मन सब कुछ माना जाता है जिसके द्वारा यह सबका प्रमाण रूपी काशी मान्य समझी जाया करती है । बुद्धिमान सत्पुरुषों की वही बुद्धि सब कुछ समझती या ज्ञान रखती है जिसके द्वारा भगवान् धूर्जटि के इस धाम को अपने ज्ञान का विषय बनाया गया है । वे तृण और घास भी परम धन्य हैं जो वायु से समाहृत होकर यहाँ काशी में समागतन किया करते हैं और वे कुछ भी नहीं हैं जिन्होंने इस काशी पुरी का कभी दर्शन तक भी नहीं किया है ॥२२-२६॥ आज ही मेरी यह पराङ्ग दृष्टि से समित आयु सफल हुई है जिसके होते हुए मैंने अपनी इस लम्बी अवस्था में आज इस दुष्प्राप्य काशीपुरी को प्राप्त कर लिया है । ब्रह्माजी ने अपने दिल में अपने सौभाग्य को सचहना करते हुए कहा कि ये धर्म का कितना विशाल वंश है और मेरे इस भाग्य का कौन महान गौरव है कि मैंने आज इस समय में विरकात से चिन्तित काशी पुरी का दर्शन प्राप्त कर लिया है ॥२७-२८॥

अथ मेस्वतपोवृक्षो मनोरथफलरत्नम्

शिवभक्त्यम्बुनासिक्तः फलितोऽतिवृहत्तारः ॥२९

मयाष्पयायिवह्वया सृष्टि सृष्टिवितन्वता ।

परमन्मादृशीकाशीस्वयविश्वेशनिर्मिता ॥३०

इहि हृष्टमनावेवा दूष्ठा वाराणसी पुरीम् ।

युद्धप्राप्त्यणरूपेण राजानञ्चददर्शह ॥३१

जलाद्राक्षतपाणिश्चस्वस्त्युक्त्वापृथिवीभुजे ।

कृतप्रणामोराशाय भेजेतद्दत्तमासनम् ॥३२

कृतमानोनृपतिना सोम्युत्थानासनादिभिः ।

विप्रोव्यजिज्ञपद्भूपं पृश्नागमनकारणम् ॥३३

भूपालबहुकालीनोऽस्म्यहमत्रचिरन्तनः ।

एवन्तुमानेवजानासिजानेर्घाहिरिपुञ्चतम् ॥३४

परःशतामयादृष्टाराजानोभूरिदक्षिणा ।

विजितानेकसंश्रामा यायजूकाजितेन्द्रियाः ॥३५

विनिष्कृतारिपङ्क्वर्गाः सुशीलाः सत्त्वशालिनः ।

श्रुतस्य पारदृश्वानो राजनीतिविचक्षणाः ॥३६

आज मेरे तप रूपी वृक्ष के मनोरथ रूपी फल पर्याप्त रूप से प्राप्त हो गये हैं । यह तपोवृक्ष शिव की भक्ति रूपी जल से सिक्त होकर अति विशाल फलों से फलित हुआ है ! मैंने सृष्टि का विस्तार करते हुए अनेक प्रकारों से समन्वित सृष्टि की रचना की थी कि तु यह घन्याहणी काशीपुरी का निर्माण स्वयं भगवान् विद्वनाथ के ही द्वारा किया गया है । इस प्रकार से परम हृषित मन वाले ब्रह्माजी ने उस वाराणसी पुरी का दर्शन करके एक अत्यन्त बृहद् ब्राह्मण के रूप से राजा को जाकर देखा था ॥ ६-३१ ॥ जल से आर्द्र प्रसन्न हाथों से ग्रहण करने वाले उनसे राजा को 'स्वस्ति'—यह कह कर आशीर्वाद दिया था और राजा के द्वारा किया हुआ प्रणाम प्राप्त करके हमके अन्तर राजा के द्वारा दिये हुए आसन पर बैठ गए थे नृपति के द्वारा उनका 'यदृत अधिक सम्मान किया गया था और राजा ने स्वयं उत्थान करके आसन आदि इनको समर्पित किया था । जब विप्र से राजा ने प्रीणमन कारण पूछा तो उन्होंने राजा को विज्ञापित किया था ॥३२-३३॥' ब्राह्मण ने कहा—हे भूपाल ! मैं बहुत काल का हूँ और यहाँ पर ! मैं चिरबाल से निवाग करने वाला हूँ । आप तो मुझसे नहीं जानते हैं किन्तु मैं आपको भली भाँति जानता हूँ और उग रिपु को भी जानता हूँ ! मैंने रीढ़ों से भी अधिक रात्रियों को देगा है जो बहुत अधिक दक्षिणा देने वाले हुए

हैं और जिन्होंने अनेक संग्रामों में विजय प्राप्त की है तथा जो याज्ञक और जितेन्द्रिय हुए हैं। ऐसे नृपों को मैंने देखा है जिन्होंने अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य—इन ६ शत्रुओं को विनिष्ट कर दिया है। जो परम सुशील—सत्वशाली—श्रुत के पारद्वय और राजनीति के ज्ञान से परम विचक्षण थे ॥३४-३६॥

दयादाक्षिण्यनिपुणाः सत्यव्रतपरायणाः ।

क्षमयाक्षमयातुल्यागाम्भीर्यजितसागराः ॥३७

जितरोषरमाशूरा सौम्यसौन्दर्यभूमयः ।

इत्यादिगुणसम्पन्नाः सुसञ्चितयशोधनाः ॥३८

पर द्विजापवित्रायेराजर्षे तव सद्गुणाः ।

तेष्वप्यु राजसु मम प्रायशो न दृशंगताः ॥३९

प्रजानिजकुटुम्बस्त्वं त्वन्तु भूदेवदेवतः ।

महातपःसहायस्त्वं यथानान्ये तथानृपाः ॥४०

धन्योमान्योऽसि च सतां पूत्रनीयोऽसि सद्गुणः ।

देवाभपिदिवोदास! स्वत्यासाम्नि विमार्गगाः ॥४१

किं नः स्तुत्या तव नृप! द्विजा नामस्पृहावताम् ।

किं कुर्मस्त्वद् गुणग्रामाः स्तावकास्तः प्रकुर्वते ॥४२

हे राजन् ! मैंने ऐसे भी बहुत से राजाओं को देखा है जो दया और दाक्षिण्य से निपुण थे—सत्य व्रत के पालन में परायण थे—पृथ्वी के समान क्षमा से युक्त थे और सम्मोहता तो उनमें ऐसी थी कि जिन्होंने अपने गाम्भीर्य गुण से सागर की भी जीत लिया था ॥३७॥ मैंने ऐसे नृपों को भी देखा है जिन्होंने रोष के वेग को भी जीत लिया था—परम पूरक्षीर थे—सौम्यता और सौन्दर्य की भूमि थे। इत्यादि गुणों से गुणसम्पन्न और असी भक्ति सज्जित मन रूपी धन वाले थे। हे राजर्षे ! किन्तु आपने जो सद्गुण हैं वैसे दो-तीन ही पवित्र सद्गुण थे। उन राजाओं में मेरी प्रायः दृष्टि नहीं गई थी। आप तो अपनी प्रजा की अपनी बुद्धि ही मानने वाले हैं और आप तो इस भूमण्डल के देवता हैं। आप महान् वप की सहायता माने हैं और नृप उक्त प्रकार के नहीं हैं जैसे

आप हैं। आप परम धन्य और सत्पुरुषों के मान्य एवं सद्गुणी से पूजनीय हैं। हे दिव्योदास ! देवगण भी आपके पास से विमार्ग में गमन करने वाले नहीं होते हैं ॥३८-४१॥ हे चतु ! आपकी स्पृहा रखने वाले हमारे द्विज सदा स्तुति करने के योग्य हैं। बड़ा कर ! आपके गुणों के समुदाय हमको आपका स्तवन करने वाले बना रहे हैं ॥४२॥

गोष्ठोतिष्ठत्विद्य तावत्प्रस्तुतं स्तोमि साम्प्रतम् ।

यष्टुकामोऽस्म्यह राजस्त्वां सहायमतो वृणे ॥४३

त्वया राजन्वती चंपाज्वनिः सर्वधिभाजनम् ।

अह चास्तिधनो राजन् ! न्यायोपात्तमहाधनः ॥४४

इयञ्च राजधानी ते कर्मभूमावनुत्तमा ।

यस्या कृतानांकार्ष्या सम्वर्तेऽपि न संक्षयः ॥४५

सञ्चित यद्धनं पुम्भिर्नयसन्मार्गंगामिभिः ।

तत्काश्यां विनियुज्येत क्लेशायेतरथा भवेत् ॥४६

महिमानं परं काश्या. कोऽपिवेदन भूपते ! ।

ऋतेत्रिनयनाच्छम्भो ! सर्वज्ञानप्रदायिनः । ४७

मन्ये धन्यतरोऽसि त्वं बहुजन्मशतार्जितः ।

मुरुतः पासि यत्काशी विश्वभर्तुः परां तनुम् ॥४८

यहाँ पर यह गोष्ठी उस समय तक रहे मैं इस समय में जब तक आपका स्तवन करता हूँ। हे राजन् ! मैं यजन करने की इच्छा वाला हूँ अतएव मैं आप की सहायता का धरण करता हूँ। यह भूमि जो समस्त श्रेष्ठियों का भाजन (आधार) है वह आपही के द्वारा राजन्वती है। हे राजन् ! आप न्याय से उपात्त महान् धन वाले हैं और मोन ही आपका बड़ा धन है। आपकी यह राजधानी इस कर्मभूमि भूमण्डल में परम श्रेष्ठ है जिस में किये हुए कार्यों का सम्बर्त में भी कभी क्षय नहीं हुआ करता है। न्याय के मार्ग के गमन करने वाले पुरुषों के द्वारा जो धन संचित किया गया है उस धन का काशीपुरी में ही विनियोग करना चाहिए अन्यथा वह बर्बाद के लिए हुमा करता है ॥४३-४६॥ हे भूपते ! इस काशीपुरी की बहुत बड़ी महिमा है जिसकी कोई भी नहीं जानता

है । यदि कोई इसकी महिमा को जानते हैं तो केवल सम्पूर्ण ज्ञान के प्रदान करने वाले तीन नेत्रों के धारी शम्भु ही जानते हैं । मैं तो यही मानता हूँ कि आप अधिक धन्य हैं और आपके बहुत से सँकड़ों जन्मों के अर्जित पुण्यों से ही यह सीमाय्य आपको प्राप्त हुआ है कि आप भगवान् विश्वनाथ के दूमरे षण्णु के समान इस काशी को मुक्तियों से परिपालित किया करते हैं ॥४७-४८॥

काशीत्रिजगतीसारस्त्रिवेदोसार एव वै ।

त्रिवर्गोत्तरसारश्च निर्णीतेति महर्षिभिः ॥४९

विश्वेशानुग्रहेणैव त्वयंपापाल्यतेपुरी ।

एकस्याप्यवनात्काश्यांत्रैलोक्यमवितम्भवेत् ॥५०

अन्यच्च ते हितं वक्षिष्ये यदि ते रोचतेऽनघ !

प्रीणनीयः सदैवको विश्वेश सर्वकर्मभिः ॥५१

अन्यदेव धिया राजन् विश्वेशं पश्य माक्वचित् ।

अह्यविष्विष्वन्द्रचन्द्रार्काः कीडेयन्तस्य धूर्जटेः ॥५२

विप्रं रुद्रकर्मिच्छद्भिः शिक्षणीया यतो नृपाः ।

अतस्तव हितं वृथातं किम्वा मे चिन्तयाऽनया ॥५३

इति जोष स्थितविप्रं प्रेत्युवाचनृपोत्तमः ।

सर्वं मयाहृदिघृतंयत्त्वयोक्तं द्विजोत्तम ! ॥५४

अहं यियक्षमाणस्य तव साहाय्यकर्मणि ।

दासोऽस्मि यज्ञसम्भाराश्रय मे कोशतोऽखिलान् ॥५५

यदस्ति मेऽखिलन्तत्र सप्ताङ्गोऽपि भवान्प्रभुः ।

यजस्वैकमनावहान् ! सिद्धं मन्यस्व वाञ्छितम् ॥५६

यह काशीपुरी तीनो भुवनो का सार है, और तीनो वेदों का भी सार स्वरूप है और महर्षियों ने यह निर्णय किया है कि यह तीनो बर्गों का उत्तर सार है । यह भगवान् विश्वनाथ प्रभु का ही परम अनुग्रह है कि जिससे आपके द्वारा इस परम पावन पुरी का परिपालन किया जाता है । इस काशीपुरी में एक के भी अवन से सम्पूर्ण त्रैलोक्य ही भविष्य हो जाया करता है । हे अनघ ! मैं एक और भी आपके हित

को मात कहना हूँ यदि वह आपकी पसन्द हो जावे । सदा ही समस्त कर्मों के द्वारा एक ही भगवान् विश्वनाथ को प्रसन्न करना चाहिए ॥४६-५१॥ हे राजन् ! दूसरे देवता की बुद्धि से कभी भी कहीं पर विद्वेश प्रभु की भत देखना । उस भगवान् घूर्जटि के ही अन्दर ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, चन्द्र और सूर्य फीडा किया करते हैं ॥५२॥ जो विप्र अपना अम्बुदय चाहने वाले हैं उननी चाहिए कि नृपी को शिक्षा देवें । इससे आपका हित स्यात् होगा । मेरी इस चिन्ता से आपकी क्या प्रयोजन है । यह कहकर फिर मौन धारण करने वाले स्थित विप्र से वह श्लेष नृप बोला—हे द्विजोत्तम ! जो भी आप ने कहा है वह सब मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया है । राजा ने कहा—यजन करने की इच्छा वाले आपकी सहायता के कर्म में मैं आपका दास हूँ । आप मेरे काश से समस्त यज्ञ के सम्भारों को ग्रहण कोशिए । जो भी है वह सभी वहाँ पर है । सप्ताङ्ग में भी आप प्रभु हैं । हे ब्रह्मन् ! आप एकपित्त होकर यजन करिए । आपका वाञ्छित सिद्ध ही मानिए ॥५३-५६॥

राज्य करोमि यद् ब्रह्मन् ! स्वार्थं तत्समनागपि ।

पुत्रैः कलत्रदेहेन परोपकृतये यते ॥५७

राशाकृतुक्रियाभ्योऽपितीर्थेभ्योऽपिसमन्ततः ।

प्रजापालनमेवैकोधर्मः प्रोक्तोमनीषिभिः ॥५८

प्रजासन्तापजोवह्निर्वज्राग्नेरपिदारुणः ।

द्विप्रान्दहतिवज्राग्निः पूर्वो राज्यं कुलंतनुम् ॥५९

यदाऽवभृथसिस्नासुर्भवेयद्विजसत्तम ! ।

तदा विप्रदाम्भोभिराभपेककरोम्यहम् ॥६०

हवनं ब्राह्मणमुखे यत् करोमि द्विजोत्तम ! ।

मन्येऽकृतुक्रियाभ्योऽपितद्विशिष्टं महामते ॥६१

अभिलापेषु सर्वेषु जागर्त्यकोहृदीह मे ॥६२

अद्यापिमाणः कोऽपि द्रष्टव्यः स्वतनोरपि ॥६३

हे ब्रह्मन् ! जो मैं यह राज्य करता हूँ उसमें मेरा थोडा सा भी स्वार्थ नहीं है । हे यते ! पुत्रों के, कलत्रों के और देह के द्वारा सभी

बुद्ध दूसरो के उपकार करने के लिए किया जाना है ॥५७॥ राजाओ को ऋतु की क्रियाओ से और समस्त तीर्थों से भी अधिक अपनी प्रजा का पालन करना ही मनोषियो ने एक ही घम बनलाया है ॥५८॥ प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न होने वाला वह्नि वज्र की अग्नि से भी अधिक वास्तु होता है । वज्र की अग्नि तो दो या तीन का दाह कर दिया करता है । और पहिली जो प्रजा के सन्ताप से उत्पन्न अग्नि पूरे राज्य कुल और तनु को दग्ध कर दिया करता है ॥५९॥ हे द्विज श्रेष्ठ ! जिस समय मे भवभृथ में स्नपन करने की इच्छा वाला मैं होता हूँ उस समय मे, मैं विप्रो के पद कमलो के जल से मैं अपना अभिषेक किया करता हूँ । हे द्विजोत्तम ! ब्राह्मण के मुख मे जो हवन किया करता हूँ उसको ऋतु की क्रियाओ से भी विशिष्ट मैं हे महामते ! माना करता हूँ । सम्पूर्ण अभिलाषाओ मे मेरे हृदय मे यहाँ पर एक ही जागृक रहा करतो है कि आज भी कोई अपने तनु का मार्गण देखना चाहिए । मही ! बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि बहुत से पुण्यो से मेरा यह मनोरथ फलित हो गया है कि हे द्विज । आज घाप कुञ्ज प्रार्थना करने के लिये मेरे घर पर प्राप्त हो गये हैं ॥५९-६३॥

इति राज्ञा महानुद्धर्षमंशीलस्य भाषितम् ॥६४

श्रुत्वा तुष्टमना स्रष्टाक्रनुसम्भारमाहरत् ॥६५

साहाय्यप्राप्य राजपदिवोदामस्यपथभूः ।

इयाजदशभिः काश्यामश्वमेधमंहामते. ॥६६

अद्यापि होमधूमोर्ध्वद्वघाप्तगगनान्तरम् ।

नदाप्रभृति न व्योमनीलिमानजट्टात्यदः ॥६७

तांर्षं दशाश्वमेधास्य प्रथितजगतीतले ।

तदाप्रभृति तत्रासीद्वाराणस्या शुभप्रदम् ॥६८

पुरासुदमरोनाम तत्तीर्थं बलशोद्भवं ॥

दशाश्वमेधिकं ब्रह्माज्ञात विधिर्नार्यहात् ॥६९

स्यर्धुं न्यथ ततः प्राप्तामगीरयसमागमात् ।

यत्तीवृष्यवज्रातमनस्तशीर्षं मूषमम् ॥७०

धर्म के शील स्वभाव वाले महान् बुद्धि से सम्पन्न राजा का इस प्रकार से यह भाषित सुनकर अथा बहुत ही सन्तुष्ट मन वाले हो गये थे और उन्होंने क्रतु के सम्पूर्ण सम्भारों का समाहरण किया था । उम राजपि दिवोदास भी पूर्ण सहायता प्राप्त करके पद्मभू ब्रह्माजी ने काशी पुरो मे दश महामत्स्य अश्वमेधों के द्वारा यजन किया था । उन यज्ञों की हीम की धूमो से आज तक भी वहाँ के आकाश का अन्तर व्याप्त होरहा है । तभी से लेकर यह गगनान्तर नीलिमा का त्याग नहीं किया करता है । उसी समय से इस जगती तल मे यह दशाश्वमेध नामक तीर्थ विख्यात होगया था और तभी से यह शुभों का प्रदाता तीर्थ वाराणसी मे स्थित है । हे कललीदम्भ ! पहिले वह तीर्थ रुद्रसर इस नाम से प्रसिद्ध था । फर पीछे विधाता के परिग्रह से दशाश्वमेधिक हो गया था । फिर राजपि प्रवर भगीरथ के समागम वही पर स्वर्धुनी गंगा भी प्राप्त होगई थी । इसीलिये यह महा तीर्थ अतीव पुण्यशाली एव उत्तम होगया था ।।६४-७०।।

विधिर्दशाश्वमेधेशं लिङ्गं संस्थाप्य तत्र वै ।

स्थितवान्गतोऽद्यपि क्वापि काशी विहाय तु ॥७१

राज्ञो धर्मरतेस्तस्यच्छिद्रनावापकिञ्चन ।

अतःपुरारे पुरतो ब्रजित्वा किं वदेद्विधिः ॥७२

क्षेत्रप्रभाव विज्ञाय ध्यायन्विश्वेश्वर शिवम् ।

ब्रह्मेश्वर च संस्थाप्य विधिस्तत्रैव संस्थितः ॥७३

परा तनुरियं काशी विश्वेशस्थेति निश्चितम् ।

अस्याः संसेवनाच्छम्भुर्न कुप्यति पुरो भयि ॥७४

का प्राप्य काशी दुर्मवाः पुनस्त्यक्तुमिहेहते ।

अनेकजन्मजनितकर्मनिर्भूलनक्षमाम् ॥७५

विश्वसन्तापसंहर्तुः स्थाने विश्वपतेस्तनुः ।

सन्ताप्यतेतरां काश्या विश्लेषजमहाग्निना ॥७६

प्राप्य काशी त्यजेद्यस्तु समस्ताघौघनाशिनीम् ।

नृपशुः स परिज्ञेयो महासीस्यपराङ्मुखः ॥७७

निर्वाणलक्ष्मी यः काङ्क्षेत्स्यत्वा संसारदुर्गतिम् ।
तेन काशी न सन्त्याज्या यद्यात्तंशादनुग्रहात् ॥७८

वही पर श्री ब्रह्माजी ने दशास्वमेघेश नामक एक शिवलिङ्ग की संस्थापना की थी और स्वयं आप भी उस काशीपुरी का त्याग करके वहीं भी न जाकर वही पर स्थित हो गये थे जोकि आज तक भी वही पर विराजमान रहते हैं ॥७१॥ धर्म में रति रखने वाला राजा का कुछ भी छिद्र प्राप्त नहीं किया था कि भगवान् पुरारि के समक्ष में उपस्थित होकर उसके सम्बन्ध में क्या कहते । उस जैन के महान् प्रभाव को जानकर विश्वेश्वर प्रभु शिव का ध्यान करते हुए ब्रह्मेश्वर की संस्थापना करके ब्रह्माजी वही पर संस्थित हो गये थे ॥७२-७३॥ यह निश्चित है कि यह काशीपुरी भगवान् विश्वनाथ का दूसरा एक परमोत्तम वपु ही है । इसके भली भाँति सेवन करने से मुझ पर कभी भी कोप नहीं करेंगे ॥७४॥ कौन-सा ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला है जो इत महापावन काशीपुरी को प्राप्त करके फिर त्याग करने की इच्छा किया करता हो जो कि प्राक्तन अनेक जन्मों में समुत्पन्न कर्मों के निर्मूलक करने में समर्थ हो । इस विद्वक के सम्पूर्ण सन्तापी का सहार करने वाले प्रभु के स्थान में विश्वपति का तनु काशीपुरी के विद्वलेप से समुत्पन्न महान् अग्नि से अस्थन्त ही सन्तापित होता है ॥७५-७६॥ इस समस्त प्रकार के पापों के समुदाय का विनाश करने वाली काशीपुरी को प्राप्त करके कौन इसका त्याग करेगा ? अर्थात् फिर वहा पहुँच कर कोई भी इस पुरी को नहीं छोड़ना चाहता है । यदि कोई इस पुरी का त्याग करता भी है तो वह महान् सौख्य से पराङ्मुख होने वाला मनुष्यों में शास्त्रात् पशु के ही समान होता है ॥७७॥ जो निर्वाण लक्ष्मी की इच्छा करता है और संसार की दुर्गति को त्याग देता है उस पुरुष को इस काशीपुरी का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए यदि वह भगवान् ईश के परमानुग्रह से प्राप्त होजाय ॥७८॥

५५—त्रिलोचनाविभववर्णन

श्रुत्वोद्धारकथामेतां महापातकनाशिनीम् ।
 न तृप्तोस्ति विशाखाथ ब्रूहि त्रिविष्टपी कथाम् ॥१॥
 कथं च कथिता देव्यं देवदेवेन पण्मुख ॥
 धाविभूतिमंहाबुद्धे ! पुण्यात्रलोचनीपरा ॥२॥
 आकरणीयं मुने ! वक्षि कथा श्रमनिवारिणीम् ।
 यथा देवेन कथितां त्रिविष्टपसमुद्भूवाम् ॥३॥
 विरजाख्यं हि तत्पीठं तत्रलिङ्गं त्रिविष्टपम् ।
 तत्पीठदर्शनादेव विरजा जायते नरः ॥४॥
 तिस्रस्तु सङ्गतास्तत्र स्रोतस्विन्यो घटोद्भव ! ।
 तिस्रः कल्मषहारिण्यो दक्षिणे हि त्रिलोचनात् ॥५॥
 स्रोतोमूर्तिधराः साक्षाल्लिङ्गस्नपनहेतवे ।
 सरस्वत्यथ कालिन्दोनर्मदाचातिशर्मदा ॥६॥
 तिस्रोऽपि हि त्रिसन्ध्यन्ताः सरितः कुम्भपाणयः ।
 स्नपयन्ति महाधामं लिङ्गं त्रिविष्टपम् ॥७॥

महा महर्षि प्रवर घगस्थ जी ने कहा—मैंने आपके द्वारा घण्टित
 ॐकार की कथा का श्रवण कर लिया है जो कि बड़े २ महाद् पातकी
 का विनाश करने वाली है किन्तु मरी पूणतया तृप्ति नहीं हुई है अब आप
 कृपा करके त्रिविष्टपी कथा का श्रवण कराइये । हे पण्मुख ! देवों के
 देव ने देवी जगदम्बा को यह कथा कैसे कही थी । आप तो महती बुद्धि
 वाले हैं । यह धाविभूत परम पुण्यगमो त्रिलोचनी है ॥१-२॥ भगवाद्
 स्कन्द ने कहा—हे मुने ! मैं उम श्रम के निवारण करने वाली कथा को
 कहता हूँ । अब आप सुनिये । जिन रीति से त्रिविष्टप के समुद्भव वाली
 कथा देव ने कही थी ॥३॥ एक विरजा नाम वाला उनकी पीठ स्थल
 है । वहाँ पर त्रिविष्टप नामधारी लिङ्ग है । उस पुण्यमय पीठ के केवल
 दर्शन कर लेने ही से मनुष्य विरजा हो जाया करता है । हे धरोद्भव !
 वहाँ पर तीन स्रोत स्वनी संगत हुई हैं । त्रिलोचन प्रभु से दक्षिण भाग
 में ये तीनों ही कल्मषों के हरण करने वाली हैं । लिङ्ग के स्नपन कराने

के कारण से ये गाशाम् गोन की मूर्तियों की धारण करने वाली हैं । ये तीनों में गरुडगो बालिन्दो और बस्याण प्रदान करने वाली मर्मदा हैं । ये तीनों ही गरिठायें तीनों बालों में हाथों में बगल दृहणु करके महापाम उस त्रिविष्टप महर् निग का स्नान किया करती हैं ॥४-७॥

लिंगानि परिभस्ताभिः स्यनाम्ना स्थापितान्यपि ।

तेषां सन्दर्शनात्पुंसां तासां स्नानफलं भवेत् ॥८॥

सारस्वतीश्वरं लिंग दक्षिणेन त्रिविष्टपात् ।

सारस्वतं पदं दद्याद्दृष्टं स्पृष्टञ्च जाड्यदृष्टम् ॥९॥

यमुनेश्वरप्रतीक्याञ्च नरंभक्त्या समचितम् ।

अपि कित्त्वपवदिमञ्च यमलोक निवारणम् ॥१०॥

दृष्टं त्रिलोचनात्प्राच्या नर्मदेश मुद्रमदम् ।

तस्मिन्गार्चनतो नृणां गर्भरासो निपिष्यते ॥११॥

स्नात्वा पिलपिलातीर्थे त्रिविष्टपसमापना ।

दृष्ट्वा त्रिलोचन लिंग किं भूयः परिजोचति ॥१२॥

त्रिविष्टपस्य लिंगस्य स्मरणार्दाप मानवः ।

त्रिविष्टपपतिर्भूयान्नाशकार्या विचारणा ॥१३॥

त्रिविष्टपस्य द्वष्टारः स्रष्टारः स्युर्नसंशयः ।

कृतकृत्वाएत एवात्र त एवात्र महापियः ॥१४॥

उन तीनों के द्वारा सब ओर अपने २ नामों से लिंगों की स्थापना की गई है । उन लिंगों के दर्शन करने से ही मनुष्यों को उन सरितायों के स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता करता है ॥८॥ सारस्वती-श्वर नाम वाला लिंग त्रिविष्टप से दक्षिण दिग्भाग में है । यह लिंग ऐसा प्रभाव वाला है कि इसका दर्शन और स्पर्शन करने पर जड़ता का हरण कर सारस्वत पद प्रदान किया करता है । यमुनेश्वर नामक लिंग पश्चिम दिशा में है जो मनुष्यों के द्वारा भक्ति भाव से समचित होता है । इस लिंग की अर्चना से जो कित्त्वप वाले हैं उनके भी यम लोक का निवारण हो जाता करता है । भगवान् त्रिलोचन से पूर्व दिशा में ध्येय प्रदाता मर्मदेश प्रभु हैं । इनकी अर्चना करने से मनुष्यों का मोक्ष

होता है और फिर जननी के उदार में गर्भवास कभी नहीं हुआ करता है । त्रिविष्टप के समीप में जो पिलपिला तीर्थ है उसमें स्नान करके और भगवान त्रिलोचन लिंग के दर्शन करके फिर क्या चिंता का विषय रह जाता है अर्थात् कुछ भी नहीं रहा करता है ॥६-१२॥ त्रिविष्टप लिंग के केवल स्मरण कर लेने से भी त्रिविष्टप का स्वामी हो जाया करता है—इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । त्रिविष्टप के दर्शन करने वाले लड़ा हो जाया करते हैं—इसमें संशय नहीं है । ये ही लोग कृतकृत्य हैं और ये ही लोग महा बुद्धमान हैं ॥१३-१४॥

आनन्दकानने लिंगं प्रणतयैस्त्रिविष्टपम् ।

त्रिलोचनस्य नामापियः श्रुत्तं शुद्धबुद्धिभिः ॥१५

सप्तजन्मार्जितात्पापात्ते पूता नात्र संशयः ।

पृथिव्यां याति लिंगानि तेषु दृष्टेषु यत्फलम् ॥१६

तरस्यस्त्रिविष्टपेदृष्टे काश्यां मन्येततोधिकम् ।

काश्यां त्रिविष्टपे दृष्टे दृष्टं सर्वं त्रिविष्टपम् ॥१७

क्षणान्निर्धूतपापोसौ न पुनर्गर्भभागभवेत् ।

सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वावभृथवान्स च ॥१८

यो वै पिलपिलातीर्थे स्नात्सोत्तरवहाम्भसि ।

सरित्प्रयं महापुण्यं यत्रसाक्षाद्दसेत्सदा ॥१९

तत्र श्राद्धादिकं कृत्वा गयायां किं करिष्यति ।

स्नात्वा पिलपिलातीर्थे कृत्वा वै पिडपातनम् ॥२०

दृष्ट्वा त्रिविष्टप लिंगं कोटितीर्थफलं लभेत् ।

यदन्यत्रार्जितं पापं तत्काशीदर्शनात्त्रजेत् ॥२१

आनन्द कानन में जो लिंग है उसको जिन्होंने प्रणाम किया है और त्रिलोचन प्रभु का त्रिविष्टप नाम वाले लिंग को जिन शुद्ध बुद्धि वाले ने सुना है वे अपने किये हुए सप्त जन्मों के पापों से भी पवित्र हो जाया करते हैं—इसमें लेखमाण भी संशय नहीं है । इस पृथिवी में जितने भी संस्थापित लिंग हैं उन सबके दर्शन का जो पुण्य फल होता है वही त्रिविष्टप के दर्शन से हो जाया करता है और मैं ऐसा मानता हूँ कि काशी

पुरो में स्थापित विश्वनाथ त्रिग के दर्शन से इगते भी अधिक पुण्य फल होता है । काशी में त्रिविष्टप के दर्शन करने पर सभी त्रिविष्टप दर्शन का पुण्य होता है । धाण भर में ही वह निर्धूत पापों वाला हो जाता है और वह पुनः गर्भ का वाम प्राप्त नहीं करता है । उसको ऐसा पुण्य होता है कि मानों उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है और सभी प्रवभृयों वाला हो गया है । जो पुरुष उत्तराम्यम में अर्थात् उत्तर की ओर बहने वाले जल में पितृपिता तीर्थ में स्नान कर लेता है उसको तीनों सरिताओं के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है क्योंकि इन तीनों सरिताओं का पुण्य वही पर सदा साक्षात् निवाम किया करता है । वहाँ पर धाड आदि जितने कर लिया है उसको गया आदि में धाड करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहा करती है । क्योंकि गया में इससे अधिक क्या इसके बराबर भी पुण्य नहीं होता है । पितृपिता तीर्थ में स्नान करके वही पिण्ड पाउन करे और फिर भगवान त्रिविष्टप त्रिग के दर्शन करे तो एक करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त होता है । जो कही दूसरी जगह पर पापों का अर्जन किया है वह सब काशीपुरी के दर्शन से मिट जाया करते हैं ॥१५-२ ॥

काश्यां तु यत्कृतं पापं तत्पेशावपदप्रदम् ।

प्रमादात्पातकं कृत्वा शम्भोरानन्दकानने ॥२२

दृष्ट्वा त्रिविष्टपं लिङ्गं तत्पापमपि हास्यति ।

सर्वस्मिन्नपि भूपृष्ठे श्रेष्ठमानन्दकाननम् ॥२३

तत्रापि सर्वतीर्थानि ततोऽप्योङ्कारभूतिका ।

अकारादपि सर्ल्लिगान्मोक्षवर्त्म प्रकाशकात् ॥२४

अतिश्रेष्ठतरं लिङ्गं श्रेयोरूपं त्रिलोचनम् ।

तेजस्विपुयथा भानुर्दृश्येषु च यथा शशी ॥२५

तथा लिङ्गेषु सर्वेषु परं लिङ्गं त्रिलोचनम् ॥२६

त्रिलोचनावकानां सा पदवी न दवीयसी ।

परं निर्वाणपथाया महासौख्यं कशेवधो ॥२७

स कृत्स्त्रिलोचनार्चातो यच्छ्रेयः समुपाज्यते ।

न तदाजन्म सम्पूज्य लिगान्यन्यानि लभ्यते ॥२८

काशीपुरी में जो भी कुछ पाप किया जाता है वह पैसाच पर का देने वाला होता है । मगवान् शम्भु के इस आनन्द कानन में प्रमाद से पातक करके त्रिविष्टप निग के दर्शन करने से उस पाप का क्षय किया करता है । इस समस्त भूमण्डल के पृथ पर यह आनन्द कानन परमातिपरम श्रेष्ठ है । यहाँ पर भी सम्पूर्ण तीर्थ हैं और उससे भी अधिक शंकार भूमिका हैं । इस मोक्ष के मार्ग के प्रकाश करने वाले सर्लिंग शंकार से भी प्रतिश्रेष्ठ नालिंग शंयःस्वरूप वाला त्रिलोचन है । जिम तरह से तेजस्वियों में भानु हैं और देखने के योग्यों में चन्द्रमा है उसी तरह से सभी लिंगों में परमाधिक श्रेष्ठ लिंग त्रिलोचन है ॥२२-२६॥ इन त्रिलोचन निग के समर्पण करने वालों को यह पदवी कुछ दूर या कम नहीं है वो महा सीएर की एकशेषि निर्वाण पद्म का परम पद होता है । एकशर में ही त्रिलोचन प्रभु को अर्पना से जिस परम श्रेष्ठ श्रेय का समुपाजन किया जाता है वह प्राजन्म अन्य लिंगों के पूजन से भी प्राप्न नहीं हुमा करता है ॥२७-२८॥

काश्या त्रिलोचनं लिंगं येऽर्चयन्ति महाधिपः ।
 तेऽर्च्यास्त्रिभुवनोक्तोभिर्ममप्रीतिमभीप्सुभिः ॥२९
 कृत्वाऽपि सर्वसंन्यासं कृत्वा वाशुपतव्रतम् ।
 नियमेभ्यः रगलित्वाऽपि कुतो विम्पति मानवाः ॥३०
 विद्यमाने महालिगे महापात्रीघहारिणि ।
 त्रिविष्टपे पुण्यराशौ मोक्षनिक्षेपमसनि ॥३१
 समग्यर्च्य महालिंगं मरुदेवत्रिलाचनम् ।
 मुच्यते कन्वुषैः सर्वैरपि जन्मगतजितैः ॥३२
 महाहापिगुरापोवास्तेषो वा गुरुतल्पगा ।
 तत्संगोभ्यपि वा यपे महापापो प्रकीर्तितः ॥३३
 परदाररगभापि परहिगारतोपि वा ।
 परागमाङ्गोऽपि तया त्रिशम्भपातकः ॥३४
 शून्योऽपि भूणहाऽपि गुणलोपतिरेव वा ।
 मातापितृगुरुद्वारागो यद्विनेपरदोऽपि वा ॥३५

जो महान् बुद्धिमान् लोण काशी पुरी में त्रिलोचन लिङ्ग का प्रर्चन किया करते हैं वे त्रिभुवन में रहने वाले और मेरी प्रीति के चाहने वाले लोगों के द्वारा पूजन के योग्य हुआ करते हैं ॥२६॥ सबका भलो भाँति त्याग करके भी और पाशुपत व्रत को करके भी तथा नियमों से स्वमित होकर भी मानव क्यों डरा करते हैं ? ॥३०॥ महालिङ्ग के विद्यमान होने पर तथा महान् पापों के समूह के हरण करने वाले परम पुण्य के राशि घोर मोक्ष रूपी निकोप का आलय भगवान् त्रिविष्टप के रहते हुए मानवों को कोई भी भय नहीं होना चाहिए । इस महालिङ्ग की भली भाँति प्रचना करने और केवल एक ही बार भगवान् त्रिलोचन का यजन करके लो जन्मों में अर्चन किये हुए समस्त कर्तुषों से मनुष्य मुक्त हो जाया करता है । ब्रह्महा (ब्राह्मण की हत्या करने वाला) सुरा का पान करने वाला—स्त्री (चोरों करने वाला)—गुरु पत्नी के साथ सहवास करने वाला तथा उन सबके साथ एक वर्ष पर्यन्त सयोग एवं सम्पर्क रखने वाला गुरुव भी महापापी कहा जाता है । दूधरे की स्त्री में रति रखने वाला—दूसरों की हिंसा (घरीर घोर मनको ठेन या हानि पहुँचाने का ही हिंसा कहा जाना है बल वर को ही मही कहा जाना) में रति रखने वाला—दूसरों के अपवाद (बुराई या निन्दा) करने के स्वभाव वाला—विश्वाम देकर फिर उसका घात करने वाला—कृतघ्न प्रधात् अपने साथ किये हुए उपकार को न मानने वाला—भ्रूण की हत्या करने वाला (गर्भ में स्थित बच्चे को भ्रूण कहते हैं) वृषनी (बदया या दूध जाति की स्त्री) का पति—भाता—पिता और गुरु का त्याग कर देने वाला—प्रतिन सगाने वाला और विप देने वाला गुरुव भी घोर पापी होते हैं किन्तु ये भी मम भगवान् त्रिलोचन के लिङ्ग को नमस्कार करके ही पापों से निष्कृति को प्राप्त हो जाया करते हैं ॥३२-३५॥

गोघ्नः स्त्रीघ्नोऽपि शूद्रघ्नः कन्यादूषयिञ्चापि च ।

कूरो वा पिशुनो वापि निजधर्मवराङ्गमुखः ॥३६

निन्दको नास्तिको वाऽपि कूटसाद्यप्रवादकः ।

अमक्ष्यमशको वाऽपि यथाऽऽकरोयत्किञ्चि ॥३७

इत्यादिपापशोलोऽपि मुक्त्वैकं शिवनिन्दकम् ।

पापान्निष्कृतिमाप्नोति नस्त्वालिगं त्रिलोचनम् ॥३८

शिवनिन्दारतो मूढः दिवशास्त्रविनिन्दकः ।

तस्य नो निष्कृतिर्ह्यष्टा न्वापि शास्त्रेऽपि केनचित् ॥३९

आत्मघाती सर्विज्ञेयः सदा त्रिलोकघातकः ।

शिवनिन्दां विधत्ते यः सोऽनाभाव्योऽधमाधमः ॥४०

शिवनिन्दारता ये च शिवभक्तजनेष्वपि ।

ते यान्ति नरके घोरे यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥४१

दौवाः पूजयाः प्रयत्नेन काश्यां भौजमभोष्पुभिः ।

तेष्वर्चितेऽपि शिवः प्रीतो भवत्यसशयः ॥४२

गाय के हनन करने वाला—स्त्री का बन्ध करने वाला—धूर्त वाति वाले पुरुष को मार .ने वाला—किसी कन्या को दूषित कर देने वाला—महात् कूर (निदयो)—पिशुन (पीछे से बुराई या चुगली करने वाला)—अग्ने धर्म से पराङ्मुख अर्थात् धर्म विरुद्ध आचरण वाला—निन्दा करने वाला—नास्तिक अर्थात् ईश्वरीय सत्ता को न मानने वाला—कूट साक्ष्य अर्थात् भूठी गव ही का प्रवादक (अनगल बोलने वाला—जो भक्षण करने योग्य नहीं है या वास्तव और सवाचार जिसके भक्षण करने का निषेध करना है उसको खाने वाला—जो वस्तु विक्री करने के योग्य नहीं हैं उनको बेचने वाला इत्यादि बहुत से पापों के करने के स्वभाव वाला भी पुरुष इन किये हुए पापों से त्रिलोचन तिङ्ग को नमन करने छुटकारा पा जाता करता है । कबल भगवान् शिव की निन्दा करने वाला पाप मुक्त नहीं होता है । जो शिव की निन्दा में रति रखता है ऐसा मूढ और जो शिव के शास्त्र की विशेष निन्दा करने वाला है उसकी तो कही पर भी निष्कृति देखी ही नहीं गयी है । किसी से भी किसी भी शास्त्र में शिव निन्दक के पाप से छुटकारा पाना नहीं देखा है । ऐसे पुरुष को तो आत्मा का ही हनन करने वाला और सदा त्रैलोक्य का घातक ही समझना चाहिए जो भगवान् शिवकी निन्दा किया करता है उससे भाषण कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह तो अग्नि से भी

महान् अग्रम होता है । जो मनुष्य भगवान् शिव की निन्दा में रति रखने वाले हैं और शिव के भक्तों को भी निन्दा करते हैं वे महान् घोर नरक में गिरा करते हैं और जब तक चन्द्र-सूर्य स्थित रहते हैं तब तक नारकीय यातनाएं भोगते हैं । जो मनुष्य मोक्ष को प्राप्ति के इच्छुक है उन्हें काशी में दशों की पूजा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिये । उनके समवित्त होने पर भगवान् शिव परम प्रसन्न हुषा करते हैं—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥३६-४२॥

५६—व्यासभुजस्तम्भवर्णन

शृणु सूत ! महाबुद्धे ! यथा स्कन्देन भाषितम् ।

भविष्यं मम तस्याग्रे कुम्भयोनेर्महात्मतेः ॥१

निशामय महाभाग ! त्वं मंत्रावरुणे ! मुने ॥

पाराशर्यो मुनिवरो यथा मोहमुपैष्यति ॥२

व्यस्य वेदान्महाबुद्धिनानाशास्त्राप्रभेदतः ।

अष्टादशपुराणानि सूतादीन्परिपाठ्य च ॥३

श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यंयस्स्वचीकरत् ।

महाभारतसङ्गञ्च सर्वलोकमनोहरम् ॥४

सर्वपापप्रशमनं सर्वशान्तिकरम्परम् ।

यस्य श्रवणमात्रेण ब्रह्माहृत्याविनश्यति ॥५

एकदा स मुनिः श्रीमान्पर्यटन्पृथिवीतले ।

सम्प्राप्तो नैमिषारण्यं यत्र सन्ति मुनीश्वराः ॥६

अष्टाशीतिसहस्राणि शौनकाद्यास्तपोधनाः ।

त्रिपृण्डितमहाभालालसद्रुद्राक्षमालिनः ॥७

विभूतिधारणो भक्त्या रुद्रसूक्तजपप्रियान् ।

लिङ्गाराधनसंस्तकादिशिवसामकृतादरात् ॥८

महा महिम ऋषि धेष्ठ धीव्यास देवजी ने कहा—हे सूत ! प्राय तो अत्यन्त अधिक बुद्धि वाले हैं जिस प्रकार से मेरा भविष्य महा मति वाले

कुम्भ योनि से भगवान् स्कन्द ने कहा था उसी को प्राण अब श्रवण कीजिए । भगवान् स्कन्दत्री ने कहा था—हे महाभाग ! हे मंत्रा वक्ष्ये ! हे मुनिवर । अब पराक्षर के पुत्र मुनिवर जिम तरह से मोह को प्राप्त होये उसे मुनिए । अनेक शाखा प्रशाखाओ के भेद से वेदों का विस्तार करके महान् बुद्धि वाले व्यास देव से सूत आदि शिष्यों को घठारह पुराणों को पढा दिया था । श्रुति-स्मृति और पुराणों का रहस्य जिन्होंने स्पष्ट कर दिया था और महाभारत नामक महान् विशाल ग्रन्थ की रचना की थी जो कि रामस्त लोको में एक परम मनोहर ग्रन्थ है और सभी तरह के पापों का प्रशमन करने वाला सभी तरह की परम शान्ति का करने वाला है जिसके केवल श्रवण करने ही से ब्रह्म हत्या विनष्ट हो जाया करती है । एक समय की बात है कि धीमान् वह मुनिवर इस पृथ्वी पर पर्व्यटन कर रहे थे और घूमते-घामते वे नर्मिपारण्य में सम्प्राप्त हो गये थे जहाँ पर कि बहुत-से मुनीश्वर निवास किया करते हैं । जिनका केवल एक तप ही धन है ऐते अट्टासी हजार शीतकावि मुनि वहाँ पर रहते थे जो अपने विशाल भाल पर त्रिपुण्ड्र धारण किये हुए थे और उन के कण्ठ में रुद्राक्ष को मालाएँ घोमित थी । वे सभी लोग विभूति धारी थे और भक्ति भाव से रुद्र सूक्त के जाप में प्रेम करते थे । ये सब लिङ्ग की आराधना करने में सन्नत मन वाले थे और सभी भगवान् शिव के नाम में परम समादर करने वाले थे ॥१-८॥

एकएवहि विश्वेशो मुक्तिदो नान्य एत्र हि ।

इति ब्रुवाणान्सततं परिनिश्चित मानसान् ॥६

विलोक्य सन्मुनिर्व्यामस्तान्सर्वान् गिरिशात्मनः ।

उत्थिष्य तर्जनीमुच्चैः प्रोवाचेदं वचः पुनः ॥१०

परिनिमय्य चारजालं मुनिश्चित्यासकृद्वह ।

इदमेकं परिशातं सेव्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥११

वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते ।

आदिमध्यावमानेषु हरिकोऽयं नापरः ॥१२

सत्यं सत्यं पुनः सत्यं त्रिसत्यं न मृषा पुनः ।
 न वेदादपर शास्त्रं न देवोऽच्युततः परः ॥१३
 लक्ष्मीश. सर्वदोनान्यो लक्ष्मीशोऽप्यपवर्गदः ।
 एकएवहिलक्ष्मीशस्ततोध्येयोनचापरः ॥१४

उन सबको ऐसी परम श्रुत धारण। थो कि एक ही भगवान् विश्वेश
 मुक्ति देने वाले हैं और दूसरा कोई भी देव ऐसा नहीं है। वे सभी यही
 निरन्तर बोला करते थे और उनके मन में इसका ठीक निश्चय होगया
 था। भगवान् ध्यास देव ने गिरीश के स्वरूप में स्थित उन सबको देखकर
 अपनी तर्जनी को ऊंचा उठाकर यह वचन बोले—१६-१०। सम्पूर्ण वाग्जाल
 का अर्द्धो तरह से मग्न्यन करके अनेक बार बहुत कुछ भली भाँति निश्चय
 करके मैंने यही एक बात को समझ लिया है कि एक सर्वेश्वर श्री हरि
 का ही सेवन करना चाहिए। धेदों में—रामायण में—पुराणों में और
 भारत में आदि—मध्य और अवसान में एक श्रीहरि ही है दूसरा कोई भी
 अन्य नहीं है। यह सत्य पुनः सत्य है और तीसरी बार भी सत्य है।
 हममें तनिक भी मिथ्या नहीं है। वेदों से परे कोई भी शास्त्र नहीं है
 और भगवान् अच्युत से बड़ा अन्य कोई देव नहीं है। भगवान् लक्ष्मी के
 स्वामी सभी कुत्र प्रधान करने वाले हैं अन्य कोई नहीं है। लक्ष्मीश
 भगवान् अपरा के भी प्रदाता हैं। अतएव केवल एक लक्ष्मीश प्रभु का
 सदा ध्यान करना चाहिए दूसरे किसी भी देवता का नहीं। ११-१४॥

शुक्ते मुक्ते रिहान्यत्र नान्योदाता जनादेनात् ।
 तस्माच्चतुर्भुजे नित्य सेवनाया सुखेप्सुभिः ॥१५
 विहाय केशवादन्य ये सेवन्तेऽल्पमेव सः ।
 सभारचक्रे गहने ते विशन्ति पुनः पुनः ॥१६
 एक एवहि सर्वेशो ह्यपोकेशाः परात्परः ।
 न सेवमानः सतत सेव्यस्त्रि जगतां भवेत् ॥१७
 एको धर्मप्रदो विष्णुस्त्वेको बह्वर्थं दोहरिः ।
 एकः कामप्रदरचक्रोत्वेको मोक्षप्रदोऽच्युतः ॥१८

पारंगिरांघे परिध्यज्य देवमन्यमुपामते ।
 तेसद्भिश्चवह्निष्कार्या वेदहीना यथा द्विजाः ॥१६
 श्रुत्वेतिद्याक्ष्यं व्यामस्य नमिपारण्यवासिनः ।
 प्रवेपमानहृदयाः परिप्रोचुरिदं वचः ॥२०

भगवान् जनार्दन से अतिरिक्त अन्य कोई भी देव इस लोक में भुक्ति और मुक्ति दोनों का प्रदान करने वाला नहीं है । इसी लिये 'सुप्त की इच्छा रखने वाले पुरुषों के द्वारा चतुर्भुज भगवान् की नित्य सेवा करनी चाहिए । जो मत्स्य बुद्धि वाले लोग भगवान् वैश्व की छोड़ कर अन्य देव का सेवन क्रिया करते हैं वे इस गहन समार चक्र में पुनः पुनः प्रवेश क्रिया करते हैं । सर्वेश हृषीकेश एक ही पर से भी पर देव हैं । निरन्तर उनका सेवन करते हुए पुरुष तीनों जगतों का सेव्य हो जाया करता है । भगवान् विष्णु एक ही धर्म के प्रदान करने वाले हैं और यह हरि एक ही महान से भयों के दाता हैं । भगवान् चक्र धारी प्रभु काममात्रो के दाता है और मधुत प्रभु एक ही मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं । जो शाङ्ग धनुष के धारण करने वाले प्रभु को छोड़कर अन्य देव की उपासना किया करते हैं उनका संपुरुषों के द्वारा बहिष्कार कर देना चाहिए जिस तरह वेदों से हीन द्विजों का बहिष्कार किया जाता है । नमिपारण्य के निषासी मुनि ने श्रीव्यास देव के इस वाक्य का धारण करके वे सब प्रकाम्पित हृदय वाले हो गये थे और उन्होंने यह वचन कहा था ॥१५-२०॥

पाराशयमुने ! मान्यस्त्वमस्माकं महामते ! ।
 यतो वेदास्त्वया व्यस्ताः पुराणान्यपि वेत्सि यन् ॥२१
 यतश्च कर्ता त्वमसि महतो भारतस्य वै ।
 धमार्य काममोक्षाणां विनिश्चयकृतोऽष्टुवम् ॥२२
 तत्त्वज्ञःकोपरश्चात्रत्वत्तः सत्यवती सुत ।
 भवतायत्प्रतिज्ञार्त्तं निश्चित्योत्क्षिप्य तर्जनीम् ॥२३
 अस्मिन्माणवकास्तत्र परिश्रद्घते नहि ।
 प्रतिज्ञातस्यवचसस्तावत्प्रदा भवेत्तदा ॥२४

यदाऽऽनन्दवने शम्भोः प्रतिजानासि वै वचः ॥२५
 गच्छ वाराणसी व्यास ! यत्र विश्वेश्वरः स्वयम् ।
 न तत्र युगधर्मोऽस्ति न च लग्ना वमुन्धरा ॥२६
 इति श्रुत्वा मुनिर्व्यासः किञ्चित्कुपितवद्वृदि ।
 जगाम तूयां सह हितः स्वशिष्यैरयुतोऽग्निर्त्त ॥२७

ऋषियो ने कहा—हे पाराशर्य मुनिवर ! आप तो महती मति वाले हैं और हम सबके परम मान्य हैं क्यों कि आपने वेदों का विस्तार किया था और आप सभी पुराणों को भी जानते हैं । आप महा भारत जैसे महा विशाल ग्रन्थ की रचना करने वाले भी हैं । आपने तो धर्म-धर्म-काम और मोक्ष का विशेष निश्चय भा प्रवश्य ही कर लिया है । हे सत्यवती के पुत्र ! पूनरा कौन है जो आप से भी अधिक तपसों का शार्ता हो । आपने जो अपनी तर्जनों अंगुलि ऊँचा उठाकर और पूर्ण निश्चय करके प्रतिज्ञा करके कहा है इसमें जो माणवक (बालक) हैं वे अच्छी तरह से अट्टा नहीं करते हैं । आपके इस प्रतिज्ञा किये हुए वचन की श्रद्धा तो तभी हो सकती है जब कि भगवान् शम्भु के वचन की आनन्द वन में प्रतिज्ञा की आप जान लें । हे श्री व्यास देवजी ! आप स्वयं वाराणसी पुरी में गमन कीजिए जहाँ पर भगवान् विश्वेश्वर स्वयं विराजमान रहते हैं । वहाँ पर उस विश्वनाथ भगवान् की पुरी की ऐसी अद्भुत महिमा है कि वहाँ पर युग के धर्म का भी कोई प्रभाव नहीं है और न वहाँ पर वमुन्धरा ही लग्न है । यह श्रवण करके महापुत्रि व्यास कुछ अपने हृदय में कुपित से हुए थे और बहुत ही शीघ्र अपने दशों सहस्र शिष्यों के सहित वहाँ पर गये थे ॥२१-२७॥

प्राप्य वाराणसी व्यासः स्नात्वा पञ्चनदेह्यदे ।
 श्रीमन्माधवमभ्यर्च्य ययौ पादोदकं ततः ॥२८
 यत्र स्नानादिकं कृत्वा दृष्ट्वा चैवादि केअवम् ।
 पञ्चरात्रं ततः कृत्वा वेष्णवरभिनन्दितः ॥२९
 अग्रतः पृष्ठतः सङ्ख्यैर्वर्चिमानः प्रमोदितः ।
 जयविष्णो हृषीकेश गोविन्दमधुमदनः ॥३०

अच्युतानन्तवकुण्ठमाधवोपेन्द्र ! केशव ॥
 त्रिविक्रम गदापाणे शाङ्गपाणे जनार्दन ॥३१
 श्रीवत्सवक्षः श्रीकान्त पीताम्बरमुरान्तक ।
 कंटभारेवलिध्वंसिन्कंसारेकेशिसूदन ॥३२
 नारायणाऽमुररिपो कृष्ण शीरे ! चतुर्भुज ॥
 देवकोहृदयानन्द ! यशोदानन्दवर्धन ॥३३
 पुण्डरीकाक्ष ! दंत्यारे वामोदरवलप्रिय ।
 बलारातिस्तुत हरे ! वासुदेव ! वसुप्रद ॥३४
 विष्वक्चक्रमूस्ताक्षर्यन वमालिन्नरोत्तम ।
 अधोक्षज क्षमाधार पद्मनाभजलेशय ॥३५

मुनिवर व्यास देवजी ने धाराशयो पुरी में पहुँच कर वहाँ पर पञ्च
 नद हृद में स्नान किया था और श्रीमान् माधव देव का सम्पर्कन करके
 फिर वे पादोक्षक पर चले गये थे । जहाँ पर स्नान आदि सब करके आदि
 वेशव भगवान् का दर्शन किया था । वहाँ पर पाँच रात्रि तक निवास
 किया था जिसको वहाँ पर स्थित धृष्णवा ने बहुत ही अभिनन्दित किया
 था । वहाँ पर आगे और पीछे सभी ओर वाद्यमान (बजाये गये) श्रवणों
 की ध्वनि के साथ श्रीव्यास देव अत्यन्त प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान्
 के अनेक गुण नामों का समुच्चारण किया था—यथा—हे विष्णो ! आवर्षो
 जय हो, हे हृषीकेश—हे गोविन्द ! हे मधुसूदन ! हे अच्युत ! अनन्त !
 धृष्टुष्ठ ! माधव, उपेन्द्र, हे वेशव ! त्रिविक्रम ! गदा हाथ में धारण करने
 वाले ! हे शार्ङ्गपाणे ! जनार्दन, श्री वत्सवक्ष, श्रीकान्त, पीताम्बर,
 मुरमुरक भक्त करने वाले ! हे कंटभारे ! बलि विध्वंसिन् ! कंसारे !
 हे पंशी दंत्य व वध करने वाले । नारायण, अमुरों के रिपु—हे श्रीकृष्ण
 शीरे, चतुर्भुज, हे देवकी देवों के हृदय का आनन्द प्रदान करने वाले
 यशोदा माता का आनन्द को बढ़ाने वाले ! हे पुण्डरी के समान नेत्रों
 वाले ! हे दंत्यो के अरि—वामोदर—वलप्रिय—बनारातिस्तुत—हे हरे
 वासुदेव, हे वसुप्रद ! विष्वक्चक्र—ताक्षर्य—वममालिन्—दू नरों में

सर्वोत्तम ! हे श्रयोक्षज ! हे क्षमाधार-पद्मनाभ-जल-मे क्षयन करने वाले । ॥२८-२९॥

नृसिंह यज्ञवाराह ! गोपगोपालवल्लभ !

गोपीपते गुणातीत गरुडध्वज गोत्रभृत् ॥३६

जय चाणूरमथन ! जयत्रलोवधरक्षण !

जयानाद्य जयानन्द जयनीलोत्पलद्युते ॥३७

कौस्तुभोद्भूपितोरस्कपूतनाघातुशोषण ।

रक्ष रक्षजगद्रक्षामणे ! नरकहारक ॥३८ ।

सहस्रशीर्षंभुरूप पुरुहूतसुखप्रद ।

यद्भूतं यच्च भाव्य वृत्तत्रंकपुरुषोभवान् ॥३९

इत्यादिनाममालाभिः संस्तुवन्वनमालिनम् ।

इच्छन्दस्त्रीलयागायन्त्यंश्रपरयामुदा ॥४०

व्यासो विश्वेशभवनं समायात, सहृष्टवत् ।

ज्ञानवापीपुरोभागे महाभागवतैः सह ॥४१

विराजमानमत्कण्ठस्तुलसीवरदामभिः ।

स्वयं तालधरो जात स्वयं जातः सुनर्तक ॥४२-

हे नृसिंह ! हे यज्ञ वाराह ! हे गोपी और गोपानों के परम प्रिय ! गोपीपते ! हे गुणों से भरीत, गरुडध्वज गोत्रभृत्—हे चाणूर-के मन्थन करने वाले ! आपका जय होवे ! हे इस सम्पूर्ण त्रिलोकी की रक्षा करने वाले ! आपका जय हो ! हे ज्ञानाद्य, हे आनन्द ! हे नील कमल के ममान द्युति वाले ! आपका सदा जय हो ! हे कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षःस्मल वाले ! हे पूतना की घातुओं के शोषण करने वाले ! हे रक्षा मण्णे ! इस समस्त जगत् की रक्षा कीजिए, इस का परित्राण करिये ! आप तो नरकों के हारक हैं ! आप ऐसे महा पुरुष हैं जो सहस्र शीर्षों वाले हैं ! हे इन्द्र को सुख प्रदान करने वाले ! जो मों हो चुका है और जो कुछ भी होने वाला है वहाँ सभी स्थितियों में आप एक ही पुरुष हैं ! इत्यादि अनेक प्रभु के दुभ नामों की मालाओं के द्वारा वनमाली प्रभु

का संस्तवन करते हुए—स्वच्छन्द लीला से गान करते हुए और परमानन्द पूर्वक नृत्य करते हुए श्री व्यास देवजी परम हर्षित होते हुए भगवान् विश्वनाथ के भवन में समायात् हो गये थे । वहाँ पर ज्ञानवापी के आगे के भाग में महा भागवतों के साथ व्यास देवजी विराजमान हो गये थे । तुलसी की सुन्दर मालाओं से जिनका सुन्दर कण्ठ शोभित था । वे स्वयं वहाँ पर भी तालधर होकर स्वयं ही भगवान् विष्णु की भक्ति के भावावेश में मग्न होकर नृत्य करने वाले हो गये थे ॥३६-४२॥

वेणुवादनतत्त्वज्ञः स्वयं श्रुतिधरोऽभवत् ।

नृत्यंपरिसमाप्येत्थं व्यासः सत्यवतीसुतः ॥४३

पुनरुर्ध्वं भुजं कृत्वा दक्षिणं शिष्यमध्यगः ।

पुनः पपाठ तानेव श्लोकान् गायन्निबोधकैः ॥४४

परिनिर्मध्य वाग्जालं सुनिश्चित्याऽमकृद्बहु ।

इदमेकंपरिज्ञातं सेव्यः सर्वेश्वरो हरिः ॥४५

इत्यादिऽऽलोकसङ्घातं स्वप्रतिज्ञाप्रबोधकम् ।

यावत्पठति स व्यासः सद्यमुत्क्षिप्य वै भुजम् ॥४६

तस्तम्भ तावत्तद्बाहुं सशलादिः स्वलीलया ।

वाक्स्तम्भश्चाऽपि यस्यासीन्मुनेर्व्यासस्य सन्मुने ॥४७

यतो गुप्तं समागम्य त्रिष्णुर्व्यासमभाषत ।

अपराद्धं महच्चाऽत्र भवता व्यासनिश्चितम् ॥४८

तवं तदपराधिन भीतिमोऽपि महत्तरा ।

एक एव हि विश्वेशो द्वितीयो नास्ति कश्चन ॥४९

श्री व्यास देव वेणु वादन के तत्त्वों के परम ज्ञाता थे, वे स्वयं ही श्रुतिधर हो गये थे । इस प्रकार से सत्यवती के पुत्र व्यास देव ने अपने भगवत्प्रेममय नृत्य को समाप्त करके फिर अपने शिष्यों के मध्य में स्थित होकर अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर उन्होंने फिर भी बहुत ही ऊँचे स्वर से गायन करते हुए उन्हीं श्लोकों को पढ़ा था कि मैंने समय वाग्जाल का मयन करके और बहुत ही अनेक बार अच्छी तरह से निश्चय करके यही एक सार ही बात का ज्ञान प्राप्त किया है कि सर्वेश्वर श्रीहरि

का ही सेवन करना चाहिए । इत्यादि अनेक श्लोको के समुदाय को जो कि अपनी प्रतिज्ञा का प्रबोधक थे ज्यो ही श्री व्यास देव अपनी दाहिनी भुजा को ऊपर उठाकर पढ़ रहे थे वैसे ही उनकी उम्र भुजा को अपनी ही लोला से सँगीलादि ने स्तम्भित कर दिया था । उनकी महामुनि व्यास देव की वाणी का भी हे मुने ! उसी समय मे स्तम्भन होगया था । उसी समय मे वहाँ पर भगवान् विष्णु गुप्त रूप से समागत हो गये थे और वे व्यास देवजी से बोले थे कि हे व्यास ! आपने निश्चित रूप से यहाँ पर यह एक अत्यन्त महान् अपराध किया है । आपके इस अपराध से मुझे भी बहुत बड़ा भय सम्मुख हो गया है । हे व्यास ! विश्वेश ही एक सर्वोपरि विराजमान देव हैं । अन्य इनसे ऊपर दूसरा कोई भी नहीं है ॥४१-४६॥

तत्प्रसादादहञ्छ्री लक्ष्मीशस्तत्प्रभावतः ।

त्रैलोक्यरक्षासामर्थ्यं दत्तननेव शम्भुना ॥५०

तद्भवत्यापरमैश्वर्यं मया लब्धं वरात्ततः ।

इदानींस्तुहि तंशम्भुं यदिमेशुभमिच्छसि ॥५१

अन्यदापि नवं कार्याभवतापेमुपीदृशी ।

पाराशर्यं इति श्रुत्वा सञ्ज्ञयाव्याजहारह ॥५२

भुजस्तम्भः कृतस्तेन नन्दिना दृष्टिमावृतः ।

वाक्स्तम्भस्तद्भवयाञ्जातः स्पृश मे कण्ठकन्दलीम् ॥५३

यथास्तौनुम्भवानीश प्रभवामिभवान्तकम् ।

सस्पृश्यविष्णुस्तत्कण्ठगुप्तमेवजगामह ॥५४

तत सत्यवतीसूनुस्तथा स्तम्भितदोर्लत ।

प्रारब्धवान्महेशान परिष्टोतु मुदारधीः ॥५५

मैं भी उन्ही विश्वेश की महिमा के प्रभाव से चक्रवारी बना हुआ हूँ

तथा लक्ष्मीन का पद प्राप्त करने वाला हो गया हूँ । उन्ही भगवान् शम्भु

ने मुझे यह त्रैलोक्य की रक्षा एवं परिपालन की शक्ति प्रदान की है । उनकी

भक्ति से ही मैंने वर्दान के द्वारा यह परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है । जो

कुछ किया सो किया अब आप उन्ही शम्भु भगवान् का सस्तवन करो यदि

मेरा दुःख चाहते हो । मैं यह भी बतलाये देता हूँ कि फिर भी कभी

अन्य समय तथा स्थान मे आपको ऐसी अपनी बुद्धि नही करनी चाहिए । पराशर के पुत्र व्यास देव ने होश मे प्राकर यह श्रवण करके कहा—उन नन्दी ने अपनी दृष्टि मात्र से ही मेरी इस भुजा का स्तम्भन कर दिया है और मेरी बाणी का स्तम्भन उस भय से ही हो गया है । परत एव हे प्रभो ! आप मेरे कण्ठ की कन्दली का स्पर्श करिय ॥५०-५३॥ जभी मैं भवानी के प्रति का संस्तवन करने क लिये समर्थ हो सकता हूँ जो कि इस समस्त ससार के अन्त करने वाले हूँ । भगवान् विष्णु ने व्यास देव के कण्ठ का स्पर्श किया था और गुप्त रूप से ही ऐसा करने मे चले गये थे । इस के अनन्तर सत्यवती के पुत्र श्रीव्यास देव ने स्तम्भित भुजा वाला ही रहते हुए आप की उदार बुद्धि से मरेशान प्रभु का संस्तवन करने का आरम्भ कर दिया था ॥५४-५५॥

एको ह्यो न द्वितीयो यतस्तद्
 ब्रह्मैवंक नेह नानास्ति किञ्चित् ।
 यद्यप्यन्यः कोऽपि वा कुत्रचिद्वा
 व्याचष्टान्तद्यस्य शक्तिर्मदग्र ॥५६
 यः क्षीराब्धेमन्दराघातजातो
 ज्वालामाला कालकूटोऽतिभीम ।
 त गोबुधो वा कोऽपरोऽभून्महेशा
 द्यस्कोलाभिः कृष्णतामापविष्णु ॥५७
 यद्वाणोऽभूत्कृत्वापतिर्यस्य यन्ना
 लोकेशो यत्स्यन्दनम्भूः समस्ता ।
 बाहा वेदा यस्य येनेषुपात
 दग्धा ग्रामास्त्रपुरास्तत्समः कः ॥५८
 मं कन्दर्पो वीक्षमाणः ममानं
 देवंरन्ध्रं भस्मजातः स्वयं हि ।
 पीष्पैर्वाणैः सर्वैर्विद्वैरुजेता
 नो वा स्तुत्यः कामजेतुस्ततोऽन्यः ॥५९

यं वं वेशो वेद नो नैव विष्णु
 नोवा वेधा नो मनो नैव वाणी ।
 तं देवेशं मादृशः कोऽल्पमेधा
 याथात्म्याद्देवं वेत्स्यहो विश्वनाथम् ॥६०

श्रीव्यास देव ने कहा—इस विशाल विश्व ब्रह्माण्ड में एक ही उद्ग
 देव सब के समुच्च देव हैं वयो कि ब्रह्म एक ही है और वह अनेक न हो
 कर ही एक विभिन्न रूपों में रहता है । यद्यपि वही पर भी अन्य कोई
 बतलाया भी गया है और जिसको शक्ति मेरे आगे हैं वह वही महेश हैं ।
 ॥५६॥ जो मन्दराचल के घाघात से क्षीर सागर में ज्वालाओं की माला
 वाला—अत्यन्त भयानक काल कूट उत्पन्न हुआ था उसको सहन करने के
 लिये अन्य कौन समर्थ हुआ था । यो महेश ही वैसी सामर्थ्य वाले थे
 जिन्होंने उसे कण्ठ में धारण कर लिया था जिसकी लीलाओं से भगवान्
 विष्णु भी कृपणता को प्राप्त हो गये थे ॥५७॥ श्रीमति जिसका बाण हुआ
 था—जिसका यन्त्रा लोकेश थे—जिसका स्पन्दन अर्थात् रथ यह सम्पूर्ण
 भूमि थी—जिस के बहन करने वाले वेद थे ऐसे जिन भगवान् महेश्वर ने
 श्रैपुर ग्रामों को प्राणों के पात्र से दग्ध कर दिया था उन देवेश्वर के
 समान अन्य कौन देव हो सकता है ॥५८॥ जिस देवेश्वर को यह कन्दर्प
 (कामदेव) अन्य देवों के ही समान देखता हुआ स्वयं ही भस्म हो गया
 था । यह कामदेव अपने पुष्पो क ही बाणों के द्वारा समस्त विश्व पर
 विजय प्राप्त करने वाला था उस कामदेव को जीत लेने वाले से अन्य
 कौन देव स्तुति करने के योग्य हो सकता है अर्थात् उनसे अन्य ऐमा
 कोई भी देव है ही नहीं । जिन महेश्वर देव को वेद भी नहीं जान पाये
 हैं—न विष्णु भगवान् ने उनको समझ पाया है—ब्रह्मा भी उनके स्वरूप को
 नहीं पहिचान सके हैं तथा मन और वाणी उनको नहीं जान सकी हैं उन
 देवेश्वर विश्वनाथ को मुझ जैसा अल्प बुद्धि वाला कैसे जान सकता है
 उनकी मधारमता मेरी बुद्धि के बाहिर की वस्तु है ॥५९-६०॥

यस्मिन्सर्वं यस्तु सर्वत्र सर्वो
 यो वं कर्ता योऽविता योऽहर्ता ।

नोऽस्यादिर्यः समस्तादिरेको
 नोऽस्याऽन्तो योऽन्तकृत् नतोऽस्मि ॥६१
 यस्यैकाख्या वाजिमेत्रेन तुल्या
 यस्या नत्या चैक्याल्पेद्रलक्ष्मीः ।
 यस्य स्तुत्या लभ्यते सत्यलोक
 १। यस्यार्चातो मोक्षलक्ष्मीरदूरा ॥६२
 नान्यं देवं वेदम्यहं श्रीमहेशा
 न्नान्यं देवं स्तौमि शम्भोऽर्हतेऽहम् ।
 १। नान्यं देवं वा नमामि त्रिनेत्रा
 रसत्यं सत्यं सत्यमेतन्मृपा न ॥६३
 'इत्थं यावत्स्तौति शम्भुं महर्षि
 स्तावन्नन्दी शम्भवाद्दृक्प्रसादात् ।
 तद्दोःस्तम्भं त्यक्त्वांश्चाऽऽवभाषे
 रमार्यं रमार्यं ब्राह्मणेभ्यो नमो यः ॥६४
 इदं स्तवम्महापुण्यं व्यासते परिकीर्तितम् ।
 यः पठिष्यति मेधावी तस्य तुष्यति शङ्करः ॥६५
 ऋषासाष्टकमिदम्प्रातः पठितव्यं प्रयत्नतः ।
 दुःस्वप्नपापशमनं शिवसान्निध्यकारकम् ॥६६

जिसमें यह समस्त चराचर विश्व ब्रह्माण्ड रहता है जो सर्वत्र
 विराजमान है—जो इसके सृजन का करने वाला है—जो इस जड—
 जङ्गम जगत् का परिपालन संरक्षण करने वाला है तथा अन्त में जो स्वयं
 ही इसका संहार करी है । जिसका कोई भादि नहीं है, जो समस्त का
 एक ही स्वयं भादि है, जिसका भ्रन्त भी नहीं है और जो इस जगत् का
 भ्रन्त करने वाला है उन्ही प्रभु विश्वेश्वर को मैं नमन करता हूँ ॥६१॥
 जिसके एक ही शुभ एवं पावन नाम के उच्चारण का पुण्य—फल एक
 वाजिमेय यज्ञ के तुल्य होना है, जिसके लिये एक ही बार प्रणाम करने
 के पुण्य फल के प्रागे इन्द्र की ऐश्वर्य लक्ष्मी भी भ्रतन्त स्वल्प होती है,
 जिसकी स्तुति करने का पुण्य फल ऐसा होता है कि सत्य लोक की प्राप्ति

को जाया करती है और जिम विश्वनाथ भगवान् की समर्चना से मोक्ष लक्ष्मी भी समीप में रहा करता है ॥६२॥ मैं तो थी महेश देव से अन्य किसी भी देव को नहीं जानता हूँ । मैं भगवान् शम्भु के बिना अन्य किसी भी देव का स्तवन नहीं करता हूँ । मैं त्रिनयन को छोड़कर अन्य देव को नमन भी नहीं करता हूँ—यह मेरा कथन सर्वथा सत्य है—शत प्रतिशत सत्य है और पूर्णतया सत्य है—इसमें लेश मात्र भी मिथ्या नहीं है ॥६३॥ इस प्रकार से जब तक व्यास देव शम्भु की स्तुति कर रहे थे तब तक शम्भु की दृष्टि के प्रसाद से नन्दी ने उन महर्षि की वाहु के स्तम्भन का त्याग कर दिया था और बारम्बार मुस्कराहट करते हुए कहा था माप ब्राह्मणों के लिये नमस्कार है ॥६४॥ नन्दिकेदवर ने कहा—हे व्यास ! यह स्तव महान् पुण्यमय है जो धारण करने वाला है । जो भी कोई मेधावी इस स्तोत्र को पढ़ेगा उससे भगवान् शङ्कर बहुत प्रसन्न होंगे । यह व्यास के द्वारा रचित श्रेष्ठक है । इसको प्रयत्न पूर्वक अवश्य पढ़ना चाहिए । यह दुःस्वप्नों और पापों के प्रशमन का करने वाला तथा भगवान् शिव की सन्निधि में पहुँचा देने वाला है ॥६५-६६॥

काशीखण्ड समाप्त

स्कन्द पुराण

अवन्ती खण्ड

५७—महाकालवन प्रशसा वर्णन

स्रष्टारोपि प्रजाना प्रबलभवभयाद्य नमस्यन्ति देवा-
यश्चित्ते सम्प्रविष्टोऽप्यवहितमनसा ध्यानयुक्तात्मना च ।
लोक नामादिदेव स जयतु भगवाञ्छ्रीमहाकालनामा,
विभ्राण सोमलेखामहिबलययुत व्यक्तलिंग कपालम् ॥१
पृथिव्या यानि तीर्थानि पुण्याश्च सरितस्तथा ।
कथ्यता तानि यत्नेन श्राद्ध येषु प्रदीयते ॥२
स्त्रिलोकेषु विख्याता ग गान्निपथगानदी ।
सेवितादेवगन्धर्वेषु निभिश्चनिषेविता ॥३
तपनस्यसुतादेवी यमुनालोकपावनी ।
पितृणावल्लभादेवि । महापातकनाशिनी ॥४
चन्द्रभागावितस्ताद्य नर्मदाऽमरकण्टकम् ।
शुरूक्षेत्र गया देवि । प्रभास नैमिषन्तया ॥५
केदार पुष्पकरञ्चैव तथा कायावरोहणम् ।
तथा पुण्यतमन्देवि महाकालवन शुभम् ॥६
यत्रास्ते श्रीमहाकाल पापेन्धन हुताशन ।
क्षेत्र योजनपर्यन्त ब्रह्माहत्यादिनाशनम् ॥७
भुक्तिद मुक्तिद क्षेत्र कलिकल्मषनाशनम् ।
प्रलयेऽप्यक्षय देवि दुष्प्राप त्रिदशैरपि ॥८

आरम्भिक मंगलाचरण वा श्लोक है—प्रजाओं के सृजन करने वाले भी देव जिन्को महान प्रवरा भय से नमस्कार किया करते हैं जो परम अवहित मन वाले और ध्यान में युक्त आत्माओं वाले लोगों के चित्त में भली भाँति प्रविष्ट हुआ रहा करता है। समस्त लोको का आदि देव चन्द्रमा के लेख और व्यक्त लिंग वाले कपाल को तथा सर्पों के वलय को धारण करने वाले भगवान् श्री महाकाल नाम वाले वह प्रभु हैं उनकी सदा जय होवे। जगज्जननी श्री उमादेवी ने कहा—हे देवेश्वर। इस भू मण्डल में जो भी तीर्थ रूप हैं तथा परम पुण्यमयी सरितायें हैं उनको प्राप्त प्रयत्नपूर्वक कहिए त्रिमूर्ति धात्यों का प्रदान किया जाया करता है। श्री ईश्वर ने कहा—समस्त लोको में परम विख्यात त्रिपद्मा गङ्गा नदी है जो देवी-गन्धर्वों और मुनियों के द्वारा सेविता और उपामिता होती है। हे देवि। सवितादेव की पुत्री लोको को पावन करने वाली यमुना है जो पितृगणों की बहुत ही अधिक प्यारी है और बड़े से बड़े पातकों को विनाश कर देने वाली है ॥१-४॥ हे देवि ! चन्द्रभागा, वितस्ता और नर्मदा सरिताएँ भी हैं तथा अमरकण्ठक—कुशनेत्र—गया—प्रभास क्षेत्र—नैमिषारण्य—केदार—मुक्कुर—कायावरोहण—महान् पुण्यतम एवं शुभ महाकाल वन है जहाँ पर पापों के ईंधन के लिए भस्म करने वाले अग्नि के तुल्य श्री महाकाल विराजमान रहते हैं। यह एक योजन पर्यन्त क्षेत्र है जो ब्रह्म हृद्या आदि महान् पातकों का भी विनाश कर देने वाला है। यह सम्पूर्ण सुखों के उपभोगों के प्रदान करने वाला तथा सर्पार के जन्म मरण के आवागमन से छुटकारा देने वाला क्षेत्र है और सभी कल्पियुग के कल्मषों का विनाशक है। हे देवि। यह प्रलय काल में भी जबकि सभी का विनाश हो जाया करता है अक्षय ही रहा करता है और देवों के द्वारा भी दुप्राय होता है ॥२-५॥

प्रभावः कथ्यता देव । क्षेत्रस्याजस्य महेश्वर ।।

यानि तीर्थानि विद्यन्ते यानि लिंगानि सन्ति वै ॥९

तान्यह श्रोतुमिच्छामि परं कीतूहल हि मे ॥१०

शृणु देवि प्रयत्नेन प्रभावं पापनाशनम् ।

क्षेत्रमाद्यं महादेवि ! सर्वपापप्रणाशनम् ॥११

श्रीमेरोस्सन्निधाने यच्छिखरं रत्नचित्रितम् ।

बैराजभवन नाम ब्रह्मणः परमात्मनः ॥१२

तत्र दिव्यागनागीतमधुरस्वरनादिता ।

पारिजाततरुच्छ्रमञ्जरीदामशोभिता ॥१३

बहुवाद्यममुत्पन्नसुमहास्वरनादिता ।

लयतानयुतानेक गीतवादित्रनादिता ।

विन्द्यस्ता कोटिभिः स्तम्भैर्निर्मलःदर्शशोभिता ॥१४

अप्नरोन्त्यविन्यास विलासोल्लासशोभिता ।

सभाकान्तिमतीनाम्नी देवानां हृषदायिका ॥१५

जगदम्बा उमा देवी ने कहा—हे देव ! आप तो परम महाम् ईश्वर हैं । कृपया इस क्षेत्र का प्रभाव मुझे भ्रवण कराइये । जो भी तीर्थ विद्यमान रहते हैं और जो भी लिंग हैं उन सभी को मैं सुनना चाहती हूँ । मेरे चित्त में इसके भ्रवण करने का बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है ॥६-१०॥ श्री महादेवजी ने कहा—हे देवि ! यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो पापों के नाश करने वाले प्रभाव को सुनिए । हे महादेवि ! यह सबसे प्रादि में होने वाला क्षेत्र है और सभी प्रकार के पापों का नाश कर देने वाला है ॥११॥ श्री मेरु पर्वत के सन्निधान में जो रत्नों से चित्रित शिखर है वह परमात्मा ब्रह्मा का बैराज भवन नाम वाला है । वहाँ पर एक कान्ति से समुत्पन्न और कान्तिमती ही नाम वाली सभा है जो दिव्याङ्गनाम्नों के गीतों के परम मधुर स्वर से शब्दायमान रहा करती है । जो पारिजात वृक्ष की छत्र मञ्जरियों के मानाओं से शोभा वाली है । जहाँ पर बहुत प्रकार के उत्तमोत्तम वाद्यों के उत्पन्न सुन्दर समुत्पन्न ध्वनियों से निनादिन रहा करती है । जो लय और तालों से युक्त बहुत से प्रकार के गीत और वादियों की ध्वनियों वाली है । जिसमें परम स्वच्छ प्रादशों (दर्पणों) से शोभित करोड़ों ही स्तम्भ बने हुए हैं और जो अप्नराओं के नृत्यों से एवं विन्यामों के उल्लासों एवं विलासों से

शोभा वाली है। यह देवों को ब्रह्म ही हर्ष के प्रदान करने वाली है
॥१२-१५॥

तस्या निविष्टं वागीश शङ्कराराधने रतम् ।
सनत्कुमारं ब्रह्मर्षिं ब्रह्मणो मानसं सुतम् ॥१६
मुनिमध्यात्समुत्थाय कृष्णद्वैपायनो मुनिः ।
पराशरसुतो व्यासः प्रणिपत्य यथाविधि ॥१७
कृताञ्जलिपुटोभूत्वा भवभवत्पानुभावितः ।
पप्रच्छपरयातुष्टया हृषिता गह्वाननः ॥१८
महाकालस्य माहात्म्यं प्राणिनां मोहनाशनम् ।
भगवन् ! क्षेत्रमाहात्म्यं महाकालस्य कथ्यताम् ॥१९
महाकालवर्नकस्मात् प्रोच्यते सर्वतोवरम् ।
कथं गुह्यवनं प्रोक्तं पीठं सऊपरन्तथा ॥२०
फलं यथास्यक्षेत्रस्य मृतानाञ्च गतिर्यथा ।
स्नानेन यद्भवेत्पुण्यं दानेनापि च यत्फलम् ॥२१
कथमेतच्छ्रमज्ञानञ्च क्षेत्रं प्रोक्तं यथातथा ।
पृष्टोमेशङ्करेभक्तिं ब्रूहि त्वं शास्त्रकोविद ॥२२

इस सभा में निविष्ट—वागीश श्री शंकर भगवान् के समाराधना में रति रखने वाले—ब्रह्माजी के मानस पुत्र—ब्रह्मर्षि सनत्कुमार मुनि को समस्त मुनि मण्डली के मध्य से उठकर पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने यथा विधि प्रणाम किया था ॥१६-१७॥ भगवान् भव की भक्ति से अनुभावित होकर दोनों अपने हाथों को जोड़कर परम तृप्ति से हृषित गह्वानन ने पूछा था कि इस महाकाल का क्या प्रभाव है जो प्राणियों के मोह के नाश कर देने वाला होता है। व्यास देव ने कहा था—हे भगवन् ! आप इस महाकाल के क्षेत्र में प्रभाव एवं माहात्म्य को बहिये। यह सबसे परम श्रेष्ठ महाकालवन कैसे कहा जाता है? यह सऊपर पीठ गुह्यवन क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से इस क्षेत्र का फल होता है और जैसे यहाँ पर मृत मानवी की गति दृष्टा करती है सदा जो यहाँ दान देने से पुण्य होता है एवं यहाँ स्नान करने से जो फल

प्राप्त होता है वह सभी बतलाइये । इस दोष को दमघान कैसे और क्यों कहा गया है ? मेरे द्वारा पूछे गये आप भगवान् शङ्कर में भक्ति को भी बतलाइये क्योंकि आप तो सभी शास्त्रों के महान् मनीषी हैं ॥१८-२२॥

क्षीयते पातकं यस्मात् तेनेदं क्षेत्रमुच्यते ।

यस्मात्स्थानञ्च मातृणां पीठन्ते नैवकथ्यते ॥२३

मृताः पुनर्नजायन्ते तेनेदमूपरं स्मृतम् ।

गुह्यमेतत्प्रियन्नित्यं क्षेत्रं शम्भोमंहात्मनः ॥२४

यस्मादिष्टं हि भूतानां दमघानमतिवल्लभम् ।

महाकालवनं यच्च तच्चैवापि विमुक्तिकम् ॥२५

एकाग्रकं भद्रकाल करवीरवनन्तथा ।

कोलागिरिस्तथा काशीप्रयागममरेश्वरम् ॥२६

भरतञ्चैव केदारं दिव्यं रुद्रमहालयम् ।

दिव्यदमघानान्येतानि रुद्रस्यैतानि नित्यशः ॥२७

रमते भगवानेषु सिद्धिक्षेत्रेषु सर्वदा ।

पृथिव्यान्मैमिपंतीर्थमुत्तम तीर्थपुष्करम् ॥२८

भगवान् सनत्कुमार जो ने कहा—जिससे पातकों का क्षय हो जाता करता है ? इसी कारण से इसका नाम क्षेत्र यह पठ गया है और क्षेत्र कहा जाता करता है । क्योंकि यह मातृगण का स्थान है इसी कारण से इसको पीठ कहा जाता है । इसमें अपने प्राणों का परित्याग करने वाले फिर दूसरी बार जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैं इसी से इसको ऊपर कहा गया है । यह महान् आत्मा वाले प्रभु शम्भु का परम गोपनीय और निरय ही अतिशय प्रिय क्षेत्र है । इस कारण से समस्त भूतों का यह इष्ट है और अत्यन्त बल्लभ दमघान है और जो महाकाल वन है वह भी विमुक्ति के प्रदान करने वाला है । एकाग्रक—भद्रक—करवीर वन—कोलागिरि—काशी—प्रयाग—अमरेश्वर—भरत—केदार यह दिव्य रुद्र महालय है । ये भगवान् रुद्र को अत्यन्त ही नित्य इष्ट दिव्य दमघान हैं । भगवान् शम्भु इन सिद्धि के क्षेत्रों में सर्वदा रमण किया करते हैं । इस पृथ्वी में परमोत्तम नैमिष तीर्थ और पुष्कर तीर्थ हैं ॥२३-२८॥

अयाणामपिलोकानां कुरुक्षेत्रं च शस्यते ।
 कुरुक्षेत्राद्दशगुणा पुण्यवाराणसीमता ॥२९
 तस्माद्दशगुणं व्यास ! महाकालवनोत्तमम् ।
 प्रभासाद्यानि तीर्थानि पृथिव्यामिहयानितुः ॥३०
 प्रभासमुत्तमं तीर्थं क्षेत्रमाद्यं पिनाकिनः ।
 श्रीशैलमुत्तमं तीर्थं देवदारुवनं तथा ॥३१
 तस्मादप्युत्तमा व्यास ! पुण्या वाराणसी मता ।
 तस्माद्दशगुणं प्रोक्तं सर्वतीर्थोत्तम यतः ॥३२
 महाकालवनं गुह्यं सिद्धिक्षेत्रं तथोपरम् ।
 किञ्चिद् गुह्याभयान्यानि श्मशानान्यूपराणि च ॥३३
 सर्वतस्तु समाख्यातं महाकालवनं मुने !
 श्मशानमूपरं क्षेत्रं पीठन्तु वनमेव च ॥३४
 पठन्नेकत्र न लभ्यन्ते महाकालपुरादृते ॥३५

इन तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र परम प्रशस्त माना जाता है । कुरुक्षेत्र
 से दश गुणा तथा परम पुण्य स्वरूपा वाराणसी मानी गई है । हे व्यास !
 यह महाकाले उत्तम वन उससे भी दश गुना महत्व वाला है । यहाँ पृथ्वी
 में जो भी प्रभास आदि तीर्थ हैं उन सबसे यह प्रभास सबसे उत्तम तीर्थ
 है और प्रभु पिनाकी का यह आद्य क्षेत्र है । श्री शैल भी परमोत्तम तीर्थ
 है तथा देवदारु वन भी श्रेष्ठ तीर्थ है । हे व्यास ! इससे भी उत्तम एवं
 पुण्यमयी वाराणसी को माना गया है । उससे भी दशगुना सब तीर्थों में
 उत्तम महाकाल वन को कहा गया है । परम गुह्य एवं सिद्धि का क्षेत्र
 है तथा ऊपर भी इसी प्रकार का महिमा वाला है । इसी प्रकार से कुछ
 गुह्य अन्य भी श्मशान तथा ऊपर है । हे मुने ! इन सबसे महाकाल वन
 समाख्यात है । श्मशान—ऊपर क्षेत्र— पीठ और वन में पाँचों एक ही
 स्थान में महाकाल पुर से अतिरिक्त कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करते हैं
 ॥२९-३५॥

५८—अग्नि आविर्भाव वर्णन

कथमग्निः समुत्पन्नो योनिःशर्वेणधारितः ।
 विस्तरेणसमाचक्ष्व भगवन्मुनिवन्दितः ॥१
 अव्यक्तादीन्ससर्जदावण्डंहिउदजायत ।
 जज्ञेसौवर्णवर्णाभो ब्रह्मालोकपितामहः ॥२
 स्वयम्भूः स तपस्तप्त्वा दिव्यं वर्षशतं महत् ।
 सन्तस्थोव्याजहाराऽथ भूभुवः स्वरितिश्रुतिः ॥३
 श्रुतियोगात्सु मनसः पश्चादग्निजायत ।
 अधोमुखः पपाताऽग्निः पृथिवीनिदंहुन् यदा ॥४
 पाणिभ्यां ब्रह्मणा सोऽग्निभूर्मेरुर्ध्वं निवेशितः ।
 ततो दक्षिणहस्तेन वेद्यामग्निः प्रणीयते ॥५
 पुरापतन्नधोज्वालऊर्ध्वज्वालोयतोधृतः ।
 उत्तानश्चकृतोयस्माद्ब्रह्मणानिर्मितस्त्रिधा ॥६
 ज्वालाभिः प्रज्वलन्नुर्ध्वं सर्वशब्दः स्फुलिङ्गवान् ।
 हिरण्यवर्णं ब्रह्माणं स उवाचाऽग्निस्तकटम् ॥७

महामहर्षि व्यासदेव जी ने कहा—हे मुनियो के द्वारा महावन्दित भगवान् ! यह सबका पानि भगवान् शम्भु के द्वारा धारण किया हुआ अग्नि कैसे समुत्पन्न हुए थे ? आप इनको विस्तार से बतलाइये । भगवान् सनत्कुमारजी ने कहा—सबसे प्राक् काल मे अव्यक्तादि का सृजन किया और वह अण्ड समुदाग्न हुआ था । गुणों के समान आभावाला लोको के पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए थे ॥१-२॥ उन भगवान् स्वयम्भू ने दिव्य सौ वर्ष तक महान तप का सन्तपन किया था । इसके अनन्तर 'भूभुवः स्व'—इस श्रुति का कथन हुआ । इसके पीछे श्रुति के योग से मन से अग्नि की समुत्पत्ति हुई थी । वह अग्नि नीचे और मुख वाला होकर गिर गया था । जब वह पृथिवी का दाह कर रहा था तब ब्रह्माजी ने दोनो हाथों से उस अग्नि की भूमि के ऊपर निर्देशित कर दिया था । इसके दाहिने हाथ से वेदो मे वह अग्नि प्रणीत किया जाता है ॥३-५॥

पहिले यह नीचे की ओर ज्वाला वाला होकर गिरा था फिर ऊर्ध्व ज्वाला वाला इसे धारण किया गया था । इस प्रकार से ब्रह्माजी के द्वारा यह तीन प्रकार से निमित्त किया गया था । ज्वालाओं से ऊर्ध्व भाग की ओर प्रज्वलित होता हुआ—सर्वशब्द वाला—रफुलिङ्गों से युक्त यह अग्नि हिरण्य के समान बरण वाले ब्रह्माजी से उत्कट बोला—॥१६-७॥

किमर्थं तु मया देव भूमिभक्ष्यं निवारितम् ।

बुभुक्षयाहमाविष्टआहारोमेप्रदीयताम् ॥६

एवमुक्तोऽग्नयेब्रह्मा स्वरोमाणिजुहावसः ।

कृशश्चखादन्नग्निस्तु सर्वरोमाणिब्रह्मणः ॥९

अब्रवीच्चनमेतृप्तिर्नचमेदेहनिवृत्तिः ।

त्वचंजुहावब्रह्मा स चखादाऽग्निस्तमेव च ॥१०

अब्रवीत्तं ततो वह्निस्तृप्तिर्नास्ति ममैव हि ।

जुहाय स्वानि मांसानि त्वचोत्कृत्य प्रजापतिः ॥११

अब्रवीच्चनमेतृप्तिर्नचमेदेहनिवृत्तिः ।

जुहाव ब्रह्माचास्थीनि तान्यदन्नस बुभुक्षितः ॥१२

ततोब्रह्माहुताशेन कृतोदेहोविधातुकः ।

तमदेहमथोवह्निर्ब्रह्मणमवदच्च सः ॥१३

अहोब्रह्मन्नमेतृप्तिर्नचमेदेहनिवृत्तिः ।

कूटं नब्रह्मणासोऽग्निर्हृद्द्वारेणद्विधाकृतः ॥१४

अग्नि ने कहा—हे देव ! मेरे द्वारा भूमि का भक्षण थापने किस कारण से निवारित कर दिया है । मैं तो बुभुक्षा (भूल) से आविष्ट हूँ । मुझे धाप आहार प्रदान कीजिए ॥६॥ इस तरह से अग्नि के द्वारा कहे गये ब्रह्माजी ने उस अग्नि के लिए अपने रोमों का हवन किया था । उस वृश अग्नि ने ब्रह्माजी के समस्त रोमों को खा लिया था और फिर यह अग्नि बोला—मेरी तृप्ति नहीं हुई है और मेरे देह की निवृत्ति भी नहीं हुई है । फिर ब्रह्माजी ने अपनी त्वचा का हवन किया था । अग्नि ने उसे भी खा लिया था । और फिर उस अग्नि ने कहा था—मेरी तृप्ति तो अभी भी नहीं हुई है । तब उस प्रजापति ने त्वचा से उखाटकर अपने

मांस की पेशियों का हवन किया था । फिर भी उस अग्नि ने यही कहा था—मेरी अब भी तृप्ति नहीं हुई है और न मेरे इस देह की ही निर्वृत्ति हुई है । इसके घनन्तर ब्रह्माजी ने अपनी अस्थियों की आहुतिर्पा उसे दे दी थी । उनको भी खाते हुए वह भूखा ही रहा था । इसके पश्चात् उस अग्नि ने ब्रह्मा जी को विधानुक देह वाला कर दिया था । फिर वह अग्नि बिना देह वाले ब्रह्माजी से बोला—अहो ! हे ब्रह्मा ! मेरी तृप्ति नहीं होती है और मेरे देह की निर्वृत्ति भी नहीं हो रही है तब तो ब्रह्मा अत्यन्त क्रुद्ध हो गये थे और उन्होंने अपनी दृष्टार के द्वारा उस अग्नि के दो भाग बर दिये थे ॥९-१४॥

आहूतूफुदतावग्नी आहारार्थं प्रजापतिम् ।

हुङ्कारेणपुनर्ब्रह्मा द्विर्घकैकचकार यं ॥१५

अयस्तेपा रुदन्तिस्म रुद्रमेकोहि सश्रितः ।

क्रुद्धेनब्रह्मणाव्यास हुङ्कारेणवताडितः ॥१६

रोरुयमाणे चामनौ तु पुनर्ब्रह्मा कृपान्वितः ।

आह कामाभिभूताना भुङ्क्व त्व देहघातयः ॥१७

ते काले लब्धकामस्य सावृत्तिः सम्प्रकल्पिता ।

अकाराग्निं सन्निविष्टं दृष्ट्वा मनसि मानसम् ॥१८

अकाराग्निः प्रजज्वाल क्रिमेतदितिचाब्रवीत् ।

ब्रह्मातमाहत्वमपि यथेष्टावृत्तिमाश्रय ॥१९

देवमध्येबहिर्वापि मुनीनामाश्रयेषु च ।

इत्येवमुक्तस्तेनाऽऽशु वृत्तिमेतामरीचयत् ॥२०

अहमेव प्रदास्यामि पुनःपुनरुवाच ह ।

यस्मादेपद्वितीयोऽग्निर्हुङ्कारात्समजायत ॥२१

ये दो भागों में हो जाने वाले अग्नियों ने रुदन करते हुए प्रजापति से अपने आहार के लिये कहा था । फिर ब्रह्माजी ने उन दोनों भागों को एक—एक करके तीन भागों में बर दिया था । ये तीनों भाग रुदन करते थे । उनमें से एक भाग ने रुद्र देव का गन्ध ग्रहण कर लिया था । हे व्यास ! क्रुद्ध हुए ब्रह्माजी ने फिर हुङ्कार के द्वारा उस अग्नि को ताड़ित

किया था । वे दोनों अग्नियाँ रो रहे थे तब पुनः ब्रह्माजी को उन पर दया आ गई थी और कृपा से समन्वित होकर ब्रह्माजी ने अग्नि से कहा—जो पुरुष काम से अग्निभूत हो उनके देहों की घातुओं का तू भक्षण किया कर ॥१५-१८॥ उन्होंने काल में लब्ध काम की वह वृत्ति संप्रकल्पित करली थी । मन में मानस अकाराग्नि को सन्निविष्ट देखकर अकाराग्नि प्रवर्धित हुआ और यह क्या है—ऐसा बोला—ब्रह्माजी ने उस से कहा—तू भी यथेष्ट वृत्ति का समाश्रय ग्रहण करले । देह के मध्य में— बाहिर भी और मुनियों के आश्रमों में अपनी वृत्ति ग्रहण करो । इस प्रकार से कहे हुए उस अग्नि ने इस वृत्ति को बहुत प्रसन्न कर लिया था । क्यों कि यह दूसरा अग्नि हुद्दार से समुत्पन्न हुआ है मैं इस प्रकार से दूँगा— यह पुन पुनः कहा था ॥१९-२१॥

साभिमानोऽपमानो वा हुंकारो यत्र कथ्यते ।

साचं धृतिर्ममादेशाद् बुभुक्षा धान्तये तव ॥२२

इकाराग्निं समाहूय ब्रह्मावचनमब्रवीत् ।

भवतोऽग्नेरियं वृत्तिरन्नभुक्तं दहेरिति ॥२३

उकाराग्निं समाहूय ब्रह्मावचनमब्रवीत् ।

यत्पृथिव्या मरुस्थान भगवस्तत्पमाश्रय ॥२४

अहं तव विधास्यामि स्थानमाहारमेव च ।

इत्युक्तः सुततेनाग्निर्यः पृथिव्याशिलाचयः ॥२५

यतोऽग्निर्व्यासतेनोक्तो गिरीदुर्गमहामुने ।

उकाराग्निः सचाप्येष सगुद्रेवडवापुसः ॥२६

सोऽपि भिन्नः समाहूतो ब्रह्माणा स्थानलिप्तया ।

स्वच्छद्युः सर्वलोकस्य ब्रह्मा वचनमब्रवीत् ॥२७

तस्मात्त्व संस्कृतां वाणीं द्विजातीनां प्रकाशय ।

देवीं पुष्याससृतां च आयुष्यहन्त्यससृता ॥२८

अभिमान के या अपमान के साथ जहाँ पर भी हुद्दार को कहा जाता है, वह वृत्ति भेरे घादेत से तुम्हारी भूख घान्त के लिये है ॥२२॥ अकाराग्नि को बुलाकर ब्रह्माजी ने यह वचन बोला था—अग्नि आपकी

यह वृत्ति होवे कि जो भी अन्न खाया गया हो उसे आप दब कर दो ॥२३॥ फिर उकाराग्नि को बुलाकर ब्रह्माजी ने कहा—जो भी इस पृथिवी में मरुस्थल हो, हे भगवन् ! वहाँ पर आप अपना आश्रम बनाइये मैं आपके लिये स्थान और आहार को करूँगा ! इस तरह से ब्रह्माजी के द्वारा कहे हुए उस अग्नि ने पृथिवी में जो भी शिलाओं का समुदाय था, हे महामुने ! व्यास ! उनके द्वारा कहे हुए अग्नि ने गिरि में—दुर्ग में स्थिति की और वहाँ पर वह उकाराग्नि हो स्थित होगया है । समुद्र में बड़वा मुख अग्नि है । वह भी ब्रह्माजी के द्वारा स्थान की लिप्सा से भिन्न ब्रह्माजी के द्वारा समाहूत किया गया था । ब्रह्माजी ने उससे कहा—आप समस्त लोक की चक्षु है । इस लिये आप द्विजातियों को परम संस्कृत वाणी को प्रकाशित करिये । वाणी देवी—पुण्या और संस्कृत ही होनी चाहिए । जो वाणी बिना संस्कारों वाली होती है वह भायुष्य का हनन किया करती है ॥२४-२८॥

तस्माद्द्विजानेर्विज्ञेया वाणी पुण्याप्रकाशिता ।
 वाक्चमाताद्विजातीना मुखे सा सम्प्रतिष्ठिता ॥२९॥
 अनूताक्षरविन्यासादमङ्गल्याह्यसंस्कृता ।
 वक्ता रंहन्त्यतो ह्यग्निः सदासंस्कृतवाग्बिजः ॥३०॥
 आहूयभूयोऽकाराग्नि प्रजापतिरचक्षुषम् ।
 ता देववाणीमवदत्सोऽपिसंमीलितेक्षणः ॥३१॥
 ब्रह्माणमाहवह्निस्तु वाचोऽहमुखमास्महे ।
 स्थानं ममप्रयच्छस्व सर्वंतेजोवरं परम् ॥३२॥
 ब्रह्मातमाहयस्मात्स्वतेजःस्थानंसमीहसे ।
 तस्मात्तेजोमयंयत्ते रविस्थानं भविष्यात् ॥३३॥
 यस्मात्प्रपद्यतेतेजश्चक्षुर्भवतिदुर्बलम् ।
 तस्मात्स्वांतेजसायुक्तं पश्येदनिमिषञ्चकः ॥३४॥
 इकारमथसभिन्नमग्निमाहृषितामहः ।
 सौम्यदृष्ट्यातुब्रह्माण समुद्वीक्ष्यत्युपागतः ॥३५॥

इस कारण से द्विजाति की बाणी पुण्या और प्रकाशिता जाननी चाहिए । द्विजातियों की वाक् माता है और वह मुख में सम्प्रतिष्ठिता होती है ॥२६॥ मिथ्या से युक्त असुरों के विन्यास से—प्रमाङ्गल्य से असंस्कृत बाणी बोलने वाले का अग्नि हनन किया करती है । अतएव द्विज को सदा ही सुमंस्कृत बाणी बाला होना चाहिए ॥३०॥ फिर अकाराग्नि को बुला कर जो कि अक्षुण्ण था, प्रजापति ने उस देव बाणी को कहा था कि वह भी समीक्षित ईक्षण बाला हो गया था । वहि ने ब्रह्मा जी से कहा था—हम मुख की बाणी हैं—आप समस्त तेज से परम श्रेष्ठ स्थान मुझे प्रदान कीजिए । ब्रह्माजी ने उससे कहा—वर्षों कि आप तेज का स्थान चाहते हैं इसीलिये परम तेजोमय तेरा रवि का स्थान होगा । जिसे तेज मला जाता है वह क्षु दुर्बल हो जाता करता है । इसी लिये तेज से युक्त आपको अग्निमिष कौन देखता है । इस के पश्चात् संभिन्न इकार अग्नि को ब्रह्माजी ने कहा था । वह अग्नि भी परम सौम्य दृष्टि से ब्रह्माजी को देखकर समुपस्थित हुआ था ॥३१—३५॥

यस्माच्छीघ्रं महान्स्व ! सौम्यदृष्टिरहागतः । .

तस्माद्दास्याम्यहं स्थानं सर्वभूतमनोरमम् ॥३६

त्वं सित्तात्मा श्वेतरश्मिश्चन्द्रमास्त्वं भविष्यसि ।

मवं तेजोऽधिको दिव्यः सौम्यः परमभामुरा ॥३७

तत्रस्यः सर्वं तेजांसि तेजसाऽभिभविष्यति ।

दत्तयुक्त्वा तं विसर्ज्याऽथ उकाराग्निमयाऽऽहूयत् ॥३८

इहैह्येहीतिशिरग्नि ममादायन्यवेशयत् ।

तत्रस्यः पञ्चमं वक्त्रमूर्ध्वं मेतदजायत ॥३९

एष एव रूपवह्निरुकाराग्निः प्रतिष्ठितः ।

तस्मादग्निश्चमूर्यश्च रुद्रावेतीविनिदिशेत् ॥४०

भवाग्निरूपः परमो ब्रह्माणमिदमब्रवीत् ।

ममाऽपि रश्चिरं स्थानं श्रयच्छस्वययातयम् ॥४१

ब्रह्मात्तमाहवन्तमत् स्थानं तेरोचतेतले ।

अग्निन्तुप्रस्थुवापेदंस्थानं कपयमेपरम् ॥४२

किंकुर्वाणैर्नरैः कर्म रुद्रभक्तिं ब्रवीहि नः ।
 त्रिविधाकथिताह्यत्र मनोवाकवायसम्भवा ॥४
 श्लोकिकी वैदिकी चान्या भवेदाध्यात्मिकी तथा ।
 ध्यानधारणया बुद्ध्या रुद्राणां स्मरणं हि यत् ॥५
 रुद्रभक्तिकरीचंपा मानसीभक्तिरुच्यते ।
 प्रतोपवामनिदृर्मैर्जितेन्द्रियनिरोधिनाम् ॥६
 रुद्रस्य कायिकीभक्तिर्ज्ञानध्यानस्थर्षामिणाम् ।
 गोघृतक्षीरदधिभिर्गन्धरक्तकुशोदकैः ॥७

महाभृषि प्रथम व्यास देवजी ने कहा—हे भगवान् ! किस विधि से
 रुद्र लोक की इच्छा करने वाले लोग वानी भ्रमरो के द्वारा महा काल धन
 में वास करना चाहिए ? क्या मनुष्यों—स्त्रियों तथा सिद्धि—प्राप्तियों से
 समन्वितों के द्वारा निवास करते हुए क्या करना चाहिए यह सब आप
 कृपा करके हमको बतलाइये । पुष्टियों और स्त्रियों के द्वारा वास करना
 चाहिए । समस्त वणों वाले—सब आधमों में रहने वाले—अपने धर्म
 और आचार में निरत रहने वाले—दम्भ, मोह से वजित रहने वाले
 मनुष्यों को क्या कर्म करते हुए भगवान् रुद्र की भक्ति होवे—वह हमको
 आप बतलाइये । सनत्कुमारजी ने कहा—तीन प्रकार की भक्ति कही गयी
 है जो मन—वाणी और शरीर में उत्पन्न होने वाली है ॥१-४॥ दूसरे भी
 इसके तीन प्रकार होते हैं वे श्लोकिकी—वैदिकी और अध्यात्मिकी हैं ।
 ध्यान और धारणा की बुद्धि से जो रुद्रों का स्मरण है या रुद्र की भक्ति
 करने वाली मानसी भक्ति कही जाया करती है । अपनी इन्द्रियों को
 जीतकर निरोध करने वालों की व्रत—उपवास और नियमों के द्वारा
 जो भगवान् रुद्र की जो भक्ति की जाती है वह कायिकी भक्ति कही
 जाती है । ज्ञान और ध्यान में स्थित धर्म वालों की गो घा घृत—क्षीर—
 दधि से तथा गन्ध रत्न—कुशोदकों से ॥५-७॥

गन्धमात्यैश्चविविधैर्घातुभिश्चोपपादिता ।

घृतगुग्गुलुघूपैश्च कृष्णागुरुसुगन्धिभिः ॥८

भूषणैर्हेमरत्नानां चित्राभिः सग्भिरेव च ।
 वासःप्रतिसरस्तोत्रैः पताकाव्यजनादिभि ॥६
 नृत्यवादित्रगीतेश्च सर्वप्रत्युपहारकैः ।
 भक्ष्यभोज्यानुगानैश्च यापूजाचाक्षर्तनैरे ॥१०
 महेश्वरं पुरस्कृत्य भक्तिः सालीकिंकी मता ।
 देवमन्त्रैर्हविर्योगैर्या क्रिया वैदिकी मता ॥११
 दशैवपीर्णमास्यांवा कर्तव्यं चाग्निहोत्रकम् ।
 प्राशनं दक्षिणादानं पुरोडाशश्चरुक्रिया ॥१२
 इष्टिवृत्तिः सोमपानं याज्ञिकंसर्वं कर्म च ।
 ऋग्यजुस्सामजाप्यानि संहिताध्ययमानि च ॥१३
 क्रियन्ते रुद्रमुद्दिश्य सा भक्तिर्वैदिकी स्मृता ।
 अग्निभूम्यनिलाकाशनिशाकरदिवाकरान् ॥१४
 समुद्दिश्य कृतं कर्म तत्सर्वं दैवतं भवेत् ।
 आध्यात्मिकी तु त्रिविधा रुद्रभक्तिः स्थिता मुने ॥१५

गन्ध माल्य और अनेक धातुओं से उपपादित घृत—गुग्गुलु—धूपों से
 —कृष्ण गुह सुगन्धियों से—हेम और रत्नों के भूषणों से—विचित्र
 प्रकार की मालाओं से—निवास कर प्रतिनुर तथा स्तोत्रों से—पताका और
 व्यजन आदि से—नृत्य वादित्र और गीतों के द्वारा—सर्व प्रत्युपहारों से
 —भक्ष्य भोज्यों के अनुष्ठानों से अक्षतों से जो मनुष्यों के द्वारा महेश्वर
 भगवान् को प्राण करके पूजा की जाती है वह लौकिकी शिव भक्ति कही
 गयी है । वेद मन्त्रों के द्वारा और योगों के द्वारा जो हवि की क्रिया है वही
 वैदिक पूजा मानी गयी है ॥६-११॥ दशमे—पीर्णमासी में अग्नि होत्र
 करना चाहिए—प्राशन—दक्षिणादान—चरु क्रिया—इष्टिवृत्ति—सोमपान
 सम्पूर्ण याज्ञिक कर्म, ऋक्, यजु और सामवेद के जाप तथा संहिताओं
 का अध्ययन जो भगवान् रुद्र का उद्देश्य लेकर किये जाते हैं वही वैदिकी
 भक्ति कही गयी है । अग्नि, भूमि, अनिल, आकाश, निशाकर, दिवाकर,
 इनका उद्देश्य ग्रहण करके किया हुआ कर्म दैवत कर्म कहा जाता है ।

श्रीर वह यह तत्त्व कहा गया है । तत्त्वान्तर से कार्य कारण होते है
॥१८-२२॥

प्रयोजके च वै जात्यं त्रात्वातत्वस्य सङ्ख्याया ।
संख्याऽस्तीत्युच्यतेप्राज्ञं रुद्रतत्त्वार्थचिन्तकः ॥२३
इति तस्यतत्त्वभावं तत्त्वसङ्ख्या च तत्त्वतः ।
रुद्रतत्त्वाधिकञ्चापि ज्ञानतत्त्वं विदुर्बुधाः ॥२४
सांख्ये ततो भक्तिरेषा सद्भिराध्यात्मिकी मता ।
योगिकीमपिमे भक्त्या शृणु भक्ति महासुराः ॥२५
प्राणायामपरोनित्यं ध्यायेत नियतेन्द्रियः ।
धारणां हृदयेषुत्वा ध्यायते यो महेश्वरम् ॥२६
हृत्कञ्जकर्णिकासीनं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ।
शशांकद्योतितजटं बालावृतकटीतटम् ॥२७
द्वेषतं दशभुजं भद्रं वरदाभयहस्तकम् ।
योगजामानसीव्यास रुद्रभक्तिः परास्मृता ॥२८

तत्त्व की संख्या से प्रयोजक में जात्य का ज्ञान प्राप्त करके संलग्न है,
मह रुद्र के तत्त्वार्थ के चिन्तक प्राज्ञो के द्वारा कहा जाता है ॥२३॥ इस
प्रकार से उसके तत्त्व भाव को श्रीर तात्त्विक रूप से तत्त्वों की संख्या
श्रीर जिस में रुद्र तत्त्व अधिक है ऐसे ज्ञान तत्त्व को बुधजन जानते हैं ।
सांख्य में यह भक्ति सत्पुरुषों के द्वारा आध्यात्मिकी भक्ति मानी गयी
है । योगिकी भी भक्ति को अब मुक्त से प्राप्त ध्वज कीजिए । जो यह
भक्ति महान् स्वर वाली होती है । जो कोई पुरुष निवृत्त इन्द्रियों वाला
होकर हृदय में धारणा करके नित्य ही प्राणायाम परायण होता हुआ
ध्यान करे श्रीर महेश्वर प्रभु का ध्यान किया करता है । ध्यान में महेश्वर
प्रभु के स्वरूप का ऐसा चिन्तन करता है कि वे भेरे हृदय रूप कमल की
कानिका में समासोन हैं, उनके पाँच मुख हैं तथा तीन नेत्र हैं, चन्द्रमा की
प्रभा से उनकी जटाएँ द्योतित हैं श्रीर कटि-तट ध्यालों से समावृत्त हैं, उनका
एक दम दवेतवर्ण है, दश भुजाएँ हैं, परम भद्र और वरद तथा अभय
हाथों से प्रदान करने वाले हैं । इस प्रकार से जिस में रुद्र की भक्ति की

जाया करती है वही योगजा मानसी रुद्र भक्ति होती है । हे व्यास देव । यह भक्ति परा भक्ति नहीं गयी है ॥२४-२८॥

यएवं भक्तिमान् रुद्रे रुद्रभक्तः स उच्यते ।

विधिन्तु शृणु मे व्यासयः स्मृता क्षेत्रवासिनाम् ॥२६

स्वयं रुद्रेण विहितो ब्रह्मादीना समागमे ।

कथितो विस्तारात्पूर्वं पूर्वापांतत्र सन्निधौ ॥३०

निर्ममा निरहङ्कारा निस्सङ्गानिष्परिग्रहाः ।

बन्धुवग च नि स्नेहाः समलोष्टाश्मकाञ्चनाः ॥३१

भूतानाकर्मभिनित्य त्रिविधैरभयप्रदाः ।

साह्वययोगविधिज्ञाश्च घर्मज्ञाश्छिन्नसंशयाः ॥३२

यजन्ते विविधैर्यज्ञैर्ये विप्राः क्षेत्रवासिनः ।

महाकालवनेतेषां मृतानायत्फलं शृणु ॥३३

ब्रह्मन्त्येव मुदुष्प्राप ब्रह्मासामुज्यमक्षयम् ।

सम्प्राप्य न पुनर्जन्म लभन्ते मोक्षमक्षयम् ॥३४

पुनरावर्तनं हित्वा विधिं माहेश्वरं स्थिताः ।

पनरावृत्तिरन्येषां प्रपञ्चाश्रमवासिनाम् ॥३५

गाहस्थ्यविधिमासाद्य पट्कर्मनिरतास्सदा ।

वेदोक्तविधिना सम्प्यग्मन्त्रस्तोत्रनियन्त्रिता ॥३६

जा इस प्रकार से रुद्र में भक्तिमान् होता है वह रुद्र का परम भक्त कहा जाया करता है । हे व्यास । उसकी विधि भी आप मुझ से सुनिये जो क्षेत्र वासियों के लिये कही गयी है । ब्रह्मादि देशों के समागम में स्वयं ही रुद्र प्रभु ने किया है । वहाँ पर पूर्व पुरुषों को सन्निधि में पहिले विस्तार से कही गयी है । ममता से रहित, अहङ्कार से दूर, सङ्ग से हीन, बिना परिग्रह वाले, अपने बन्धुवर्ग में भी स्नेह से रहित, मिट्टी के डेले और मुखुं दोनों को समान भाव से समझने वाले, अपने अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले, साह्य योग की विधि के ज्ञान, घर्म के तत्त्व को जानने वाले और ऐसे जिनके सभी कर्म हीन हो गये हैं ऐसे विविध प्रकार के यज्ञों के द्वारा क्षेत्र वासी विप्र

यजन किया करते हैं । महाकाल वन में उनके मृत होने पर जो उन्हें फल प्राप्त होता है उसका श्रवण करो । वे लोग परम दुष्प्राप और अक्षय ब्रह्म सायुज्य को ही सीधे गमन किया करते हैं वहाँ सम्प्राप्त होकर अक्षय मोक्ष उनका हो जाता है कि वे पुनर्जन्म नहीं प्राप्त किया करते हैं । माहेश्वर विधि में स्थित होते हुए वे पुनरावर्त्तन का एक दम त्याग कर दिया करते हैं । जो प्रपञ्चाश्रम के वासी लोग हुआ करते हैं ऐसे अन्य जनों का ही पुनरावर्त्तन हुआ करता है । गार्हस्थ्य आश्रम की विधि को प्राप्त करके मदा जो पट्ट कर्मों में निरत रहा करते हैं वे पुरुष वेदोक्त विधि के द्वारा भली भौति मन्त्रों और स्तोत्रों में नियन्त्रित रहते हैं ॥२६-३६॥

६०—विद्याधरतीर्थमाहात्म्यवर्णन

कथं तीर्थमिदं क्षेत्रं जातमत्र महामुने ।

प्रसादाद् भूहि मे ब्रह्मच्छीतुमिच्छामि साम्प्रतम् ॥१

विद्याधरपतिः कश्चिदासीद्रूपधरः पुरा ।

ग्रथिता पारिजातस्य माला तेन मनोरमा ॥२

गृहीत्वा स च ता मालां गतोवासव वेदमनि ।

नृत्यन्तीवासवस्याग्रे दृष्टा तेन च मेनका ॥३

दत्ता तस्यैदातेन सा माला नृत्य ससदि ।

सा मेनका तु तत्स्याने मालया मोहिता सती ॥४

कोपाविष्टेन शक्रेण शप्तो विद्याधरस्तदा ।

पृथिव्या गच्छ पापिष्ठ ! नृत्यभङ्गस्त्वया कृतः ॥५

विद्याधरपदं त्यक्त्वा मम शापाच्च साम्प्रतम् ।

एवमुक्तस्तु शक्रेण वाक्य विद्याधरोऽब्रवीत् ॥६

महर्षिवरिष्ठ श्री व्यासजी ने कहा—हे महामुने ! यहाँ पर यह क्षेत्र तीर्थ कैसे हो गया है ? हे ब्रह्मन् ! आपकी महती दया होगी आप इसको मुझे बतला दीजिए । मैं इस समय में यही श्रवण करने की उत्कट अभिलाषा रखता हूँ । श्री सनत्कुमारजी ने कहा—पहिले परम पुराणन काल में

कोई रूपधारी विद्याधर पति था । उसने पारिजात के पुष्पों को एक परम सुन्दर माला का प्रयत्न किया था । वह उम माला का ग्रहण करके इन्द्र देव के गृह में गया था । उसने वहाँ पर इन्द्र देव के समक्ष में मेनका नाम वाली अप्सरा को नृत्य करती हुई देखा था । उस नृत्य मभा में वह परम मनोरम माला उसने उस अप्सरा को देदी थी । वह मेनका अप्सरा उसी स्थान में उस माला से परम पोहित हो गई थी । उस समय में इन्द्र को बहुत अधिक क्रोध हो गया और उसने क्रोध विष्ट होकर उस विद्याधर को शाप दे दिया था—हे पापिष्ठ ! तुम पृथ्वी पर चले जाओ क्यों कि तुमने आज हमारी इस सभा में अनौच सुन्दर नृत्य का भङ्ग कर दिया है । तुम धनी इस विद्याधर के पद का त्याग करके मेरे शाप से भूमि वासी बन जाओ । इस तरह से इन्द्र के वाक्य को श्रवण करके वह विद्याधर बोला—॥१-६॥

अजानतामयानस्य अपराधः कृतोऽपुना ।

अनुग्रहमतो देव कुरु मे त्वं प्रमादतः ॥७

एवमुक्तस्सशक्रो वं विद्याधरमुवाच ह ।

गच्छावन्ती त्वमद्यैव यत्रास्तेगाङ्गटोगुहा ॥८

तस्याश्चोत्तरभागे तु विद्यते तीर्थमुत्तमम् ।

ख्यातं तत्रिपुल्लोकेषु नाम्ना विद्याधरं शुभम् ॥९

भक्त्या तत्र कृते स्नाने विद्याधरपतिर्भवेत् ।

अतस्त्वमपि तत्रैव कुरु स्नानं प्रयत्नतः ॥१०

एवमुक्तः स शक्रेण आगतोऽवन्ति मण्डले ।

स्नानं कृतञ्च तेनैव तीर्थं तस्मिन्मनोरमे ॥११

प्रभावात्तस्य तीर्थस्य स विद्याधरयोऽभवत् ।

एवं व्यास ! समाख्यातं तीर्थं विद्याधरं शुभम् ॥१२

तत्र पुष्पाणि यो दद्याच्चन्दनञ्च विलेपनम् ।

लभेत्समस्तभोगान्स इहलोके परत्र च ॥१३

हे देव ! प्रज्ञान के वश में धाकर धाज इस समय में मैंने यह अपराध

कर दिया है । अतएव मेरे ऊपर प्रसन्नता करके धाष अनुग्रह करिये ॥७॥

जब इस तरह से प्रार्थना की गई तो इन्द्र देव उस विद्याधर से बोले—
 आप आज ही अवनतो पुरी में चले जाओ जहाँ पर गाङ्गटी गुहा विद्यमान
 है। उसके उत्तर दिशा के भाग में यह उत्तम तीर्थ विद्यमान है। यह तीर्थ
 त्रिलोकी में नाम से परम शुभ विद्याधर प्रसिद्ध है। भविन भाव से वहाँ
 पर स्नान करने से मनुष्य विद्याधरो का स्वामी बन जाया करता है।
 इस लिये तुम भी वहाँ पर प्रयत्न पूर्वक स्नान करना। इस रीति से इन्द्र
 देव के द्वारा कहे गये उस विद्याधर ने अवनती मण्डल में समागमन किया
 था। उसने उस परम तीर्थ में स्नान भी किया था। उस तीर्थ के महान्
 प्रभाव से वह विद्याधरो का पति हो गया था। हे व्यास ! इस प्रकार से
 यह परम शुभ विद्याधर तीर्थ समाप्त हो हुआ था। वहाँ पर जो भी कोई
 पुष्पों का समर्पण किया करता है तथा चन्दन और बिलेपन अर्पण करता
 है वह इस लोक में समस्त प्रकार के सुखों का उपभोग प्राप्त किया करता
 है और परलोक में सद्गति पाता है ॥८-१२॥

अत परं प्रवक्ष्यामि मर्कटेश्वरमुत्तमम् ।

तत्र तीर्थं च विख्यातं भवंकामप्रदायकम् ॥१४

तस्मिंस्तीर्थं नराः स्नात्वा गाशतस्य फल लभेत् ।

विस्फोटाना प्रशान्त्यर्थं बालानाञ्चैव कारणे ॥१५

मांषण मिश्रितान्कृत्वा ममूरास्तत्र कुट्टयेत् ।

शीतलायाः प्रभावेण बालाः सन्तु निरामयाः ॥१६

ये पश्यन्ति नराः भवत्या शीतलान्दुरितापहाम् ।

न तेषां दुष्कृत किञ्चिन्न दारिद्र्यं द्विजोत्तम ॥१७

न च रोगभय तेषां ग्रहपीडा तर्थाव च ॥१८

भगवान् शीतलनरुमारजा ने कहा—अब मैं उत्तम मर्कटेश्वर के विषय
 में वर्णन करूँगा। वहाँ पर विख्यात तीर्थ है जो सभी कामनाओं के प्रदान
 करने वाला है। उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके एक सौ गीणों के दान
 करने वा पुष्प—फल प्राप्त किया करता है। विस्फोटों की प्रशान्ति के
 लिये और बालों के कारण में उन्हीं के मांष मिश्रित करके वहाँ पर ममूरो
 को कुट्टना चाहिए। इसका यह प्रभाव होता है कि बालरु शीतला देवी के

प्रभाव से नो रोग एवं स्वस्थ हो जाया करते हैं । हे द्विजोत्तम ! जो मनुष्य भक्तिभाव से दुरितों के अपहरण करने वाली शीतला देवी का दर्शन किया करते हैं उनको कुछ भी दुष्कृत नहीं हुआ करता है और कभी भी उन्हें दरिद्रता नहीं सताया करती है । उनको कभी किसी भी रोग का भी भय नहीं होता है तथा ग्रहों को पीड़ा नहीं हुआ करती है । सभी ग्रह शान्त हो जाया करते हैं ॥१४-१८॥

६१—दशाश्वमेधमाहात्म्यवर्णन

दशाश्वमेधिकेस्नात्वा दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् ।
 दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्नोति मानव ॥१
 मनुनामानवेन्द्रेण राज्ञा चैव ययातिना ।
 रघुणोशनसाचैव लोमशेन महर्षिणा ॥२
 अत्रिणा भृगुणा चैव दत्तात्रेयेण धीमता ।
 पुरुब्रह्मसापुष्येन नहुषेण नलेन च ॥३
 अत्र स्नाने संप्राप्तं दशाश्वमेधिकं फलम् ।
 संप्राप्ते द्वापरस्यान्ते राज्ञा वाष्कलिना तथा ॥४
 दशानामश्वमेधानां फलं प्राप्तं द्विजोत्तम ॥
 कृष्णवर्णं तथा लिङ्गं पूजितं भक्तितः सदा ॥५
 दृष्ट्वास्पृष्ट्वा चतं देवं प्रागुक्तं लभते फलम् ।
 चैत्रेमासिसिताष्टम्यां देवं संपूज्य भक्तितः ॥६
 अश्वं दद्याच्च विप्राय सुरूपं चगुणान्वितम् ।
 यावन्ति तस्य रोमाणि गणयन्ते सङ्ख्यया द्विज ॥७
 तावद्वर्षं सहस्राणि शिवलोके महीयते ।
 पितृ लोकात्परिभ्रष्टः सार्वभौमो भवेद् भुवि ॥८

श्री सनत्कुमार जी ने कहा—अधिक मास में दशाश्वमेध, घाट पर गंगा भागीरथी में स्नान करके महेश्वर देव के अर्घान् याराणसी में भगवन् श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करके मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञों के

करने का फल प्राप्त कर लिया करता है । इस प्रकार के फल प्राप्त करने के अनेक उदाहरण दिये जाते हैं—मानवों में परम शिरोमणि मनु राजा ने—पयाति ने—रघु—उशना और महर्षि लोमस ने—घनि ने—भृगु ने—श्रीमान् दत्तात्रेय ने—परम पवित्र पुरुरवा ने—गह्वर ने—तथा राजा मल ने यहाँ दशाश्वमेध पर स्नान करने के द्वारा दश अश्व मेघ यज्ञों के करने का फल प्राप्त किया था । हे द्विजोत्तम ! द्वापर के धर्म के प्राप्त होने पर राजा कलि ने दश अश्वमेध यज्ञों का पुण्य-फल प्राप्त किया था । तथा वृष्ण वरुण के लिये सदा भक्ति भाव से पूजित किया था । उस देव का दर्शन और स्पर्शन करने पहिले बताया हुआ फल प्राप्त करता है । चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में भक्तिभाव से देव की भली भाँति पूजा करके विप्र के लिये सुन्दर रूप वाले गुण गण से युक्त अश्व का दान करे । हे द्विज ! उसके जितने भी गम्या में रोम हों हैं उतने ही सहस्र वर्ष पर्यन्त यह दिवलोक में प्रतिष्ठित होता है । दिव्य ताक से परिभ्रष्ट होकर हम भू मण्डन में छावें भीम (सम्पाट) हुआ करता है ॥१०८॥

६२—महाकालयात्रामाहात्म्यवर्णन

अथ यात्रां प्रवक्ष्यामि महाकालस्य यत्नतः ।
 दिवश्रेयस्कर्त्री पुण्या पुण्यलोकप्रदायिनीम् ॥१॥
 स्नात्वा सरग्नि रुद्रस्य दृष्ट्वा कोटीम्बरं दिवम् ।
 नमस्तुर्य ततो गच्छेन्महाकालं सनातनम् ॥२॥
 गन्धः पुष्पैर्नमस्कारः मध्पूज्य त्रिदशेश्वरन् ।
 प्रणिपर्य ततो गच्छेद्देयं कपालमोचनम् ॥३॥
 तत्र यं देवदेवेनः कपालं न्यस्तवाञ्छती ।
 पयाने तत्क्षान्द्यस्ते तत्राभूच्चिन्तनमुत्तमम् ॥४॥
 पपालमोचनं नाम मयसाप्रनाशनम् ।
 तत्र यं स्नपनं सुर्यादाज्यदत्ताननु यं ॥५॥

तदर्धाधिनेपादेन वित्तशाठ्य विवर्जितः ।

फाले पूर्णो स विप्रेन्द्र ! शिवलोके महीयते ॥६

नमस्कृत्य ततो गच्छेत्कपिलेश्वरमुत्तमम् ।

दर्शनात्तस्यदेवस्य मुच्यते ब्रह्मघातकः ॥७

महर्षि सनत्कुमार जी ने कहा—इसके अनन्तर यत्न पूर्वक महाकाल की यात्रा को कर्हूंगा जो शिव और श्रेय के करने वाली—पुण्यपूर्ण और पुण्य लोक के प्रदान करने वाली है ॥१॥ भगवान् रुद्र के सरोवर में स्नान करके तथा कोटीश्वर शिव का दर्शन करके और नमस्कार करके इसके पश्चात् सनातन महाकाल को गमन करना चाहिए ॥२॥ गन्ध और पुष्पों से तथा नमस्कारों से त्रिदशेश्वर का समभजन करके तत्पश्चात् प्रणिपात करके फिर कपाल मोचन देव की ओर यात्रा करे ॥३॥ वहाँ पर देव देवेश ने भूमि पर कपाल को न्यस्त किया था । कपाल के वित्यस्त करने पर उसी क्षण में वहाँ पर उत्तम लिंग हुआ गया था ॥४॥ वही कपाल मोचन नाम वाला तीर्थ मभी पापी का नाश करने वाला है । वहाँ पर स्नान करावे और सो पल घृत से करावे ॥५॥ उससे पावा पाव से करावे किन्तु वित्त की शटता से रहित होकर करावे । हे विप्रेन्द्र ! काल के पूर्ण होने पर यह शिवलोक में महिमान्वित होता है ॥६॥ फिर उत्तम कपिलेश्वर को प्रणाम करके वहाँ से गमन करे । उनके दर्शन से ब्रह्म घातक भी पापी से मुक्त हो जाया करता है ॥७॥

हनुमत्केश्वरं देव ततो गच्छेत्समाहितः ।

ऐश्वर्यमनुलं व्यास ! दर्शनादस्य जायते ॥८

ततो गच्छेन्महादेव पिप्पलाद सनातनम् ।

यस्य दर्शनमात्रेण मुक्तिः स्याद् द्विजसत्तम ! ॥९

स्वप्नेश्वरं ततो गच्छेद्भुक्तिश्रद्धा समन्वितः ।

दर्शनादस्यदेवस्य दुःस्वप्नञ्च विनश्यति ॥१०

ततो गच्छेन्महादेवमीशानं विश्वतोमुखम् ।

यस्य दर्शन मात्रेण विश्वस्यैव पतिर्भवेत् ॥११

सोमेश्वरन्ततो गच्छेज्जितक्रोवो जितेन्द्रियः ।

कुष्ठरोगादि दोषेभ्यो दक्षनादस्यमुच्यते ॥१२

वंश्वानरेश्वर व्यास ततो गच्छेत्समाहितः ।

तस्य वृद्धिस्सदा लोके जायते तस्य दक्षनात् ॥१३

बीजापूरकहस्तन्तु लकुलीशन्ततो व्रजेत् ।

रुद्रस्व दर्शनात्तस्य जायते नानसशयः ॥१४

वहाँ से परम सावधान होकर हनुमरेश्वर देव का जाना चाहिए । हे श्यास ! इनके दर्शन से अतुल ऐश्वर्य हो जाता है ॥१२॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! फिर सनातन पिप्पलाद महादेव को जाये जिसके दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाया करती है ॥१३॥ भक्ति और श्रद्धा के भाव से युक्त होकर फिर स्वप्नेश्वर को गमन करे । उस देव के दर्शन से दुःस्वप्न विनष्ट हो जाता है ॥१०॥ फिर विश्वतोमुख ईशान महादेव को गमन करे जिसके केवल दर्शन ही से पूर्ण विश्व का स्वामी हो जाता है ॥११॥ क्रोध को जीतकर धीरे इन्द्रियो को वश में करके सोमेश्वर को गमन करना चाहिए । इनके दर्शन से कुष्ठ रोगादि के दोषों से मुक्त हो जाता है ॥१२॥ हे श्यास ! वहाँ से फिर समाहित होकर वंश्वानरेश्वर को जावे । उनके दर्शन से लोक में उसकी वृद्धि सदा होती है ॥१३॥ वहाँ से बीजा पूरक हस्त और लकुलीश को जाये । उनके दर्शन से रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लिया है— इसमें बिल्कुल सशय नहीं है ॥१४॥

ततो गच्छेन्महादेवं गणपेश्वरमुत्तमम् ।

यस्य दक्षनात्प्रण जायन्ते सर्वसिद्धयः ॥१५

अभ्यर्चितस्सदा देवैः पूजितस्सिद्धिकारणात् ।

तेनाभ्यर्चितपूरोऽयं विख्यातो विघ्ननायकः ॥१६

वयोवृद्धं ततो गच्छेन्महाकालं मनातनम् ।

न रोगो न जराव्याधिदर्शनान्नात्र सशया ॥१७

विघ्ननाश ततो गच्छेत्प्राणीश देवमुत्तमम् ।

स्नान शतघटंस्तस्य नुर्याद्भक्त्या समाहितः ॥१८

तस्य चैव कृते स्नाने लग्न्यन्ते सर्वनिद्रयः ।
 स्वर्गंश्चापि तदा ध्यात ! दर्शनादस्य जायते ॥१९॥
 मार्गगतमनुल्लङ्घ्य दण्डपाणिं ततो यजेत् ।
 यस्य दर्शनमात्रेण यमलोको न दृश्यते ॥२०॥
 पुण्यदन्तं ततो गच्छेद्भक्तिश्रद्धा गमन्वितः ।
 यस्य दर्शनमात्रेण मुच्यते सर्वपातकं ॥२१॥

इनके पदमान् उत्तम गल्पेद्वर महादेव की ओर गमन करे जिसके
 नेत्रन दर्शन से ही समस्त निद्रियाँ हो जाया करती हैं ॥१९॥ सदा देवों
 के द्वारा धर्म्ययना की गई है और सिद्धि प्राप्त करने के कारण से उनकी
 धर्म्ययना भी की गई है । इसी से यह विष्णो के स्वामी धर्म्ययना को
 पूर्य करने वाले विष्णुवात हो गये हैं ॥१९॥ वहीं से सनातन महाशक्त
 वयोवृद्ध को गमन करे । इनके दर्शन से रोग नहीं होगा है और बुढ़ापे
 की व्याधि भी नहीं होती है इसमें सशय नहीं है ॥१७॥ इसके अनन्तर
 विष्णु नाश उत्तम देव प्राणीस की ओर गमन करे । भक्ति से समाहित
 होकर सो घटों से उसे स्नान करावे ॥१८॥ उसके स्नान करने पर
 सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है । हे ध्यात ! इनके दर्शन से सदा
 स्वर्ग का वास भी हो जाया करता है ॥१९॥ मार्ग में रहने वाले का
 उल्लंघन न करके वहाँ से दण्डपाणि को जावे जिसके केवल दर्शन से ही
 यमलोक नहीं दिखाई देता है ॥२०॥ फिर वहाँ से भक्ति श्रद्धा से युक्त
 होकर पुण्य दन्त को जावे जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पातकों से
 छुटकारा पा जाया करता है ॥२१॥

गुह्यञ्चैव महाकालं ततो गच्छेत्समाहितः ।
 यस्य दर्शनमात्रेण गुह्यपापैः प्रमुच्यते ॥२२॥
 ततो गच्छेत्समाधिस्थो दुर्वासिश्चरमुत्तमम् ।
 यस्य दर्शनमात्रेण कृतकृत्यो नरो भवेत् ॥२३॥
 श्वासावरोधनं कृत्वा दुर्वासिस्तस्य समीपतः ।
 गौरी गत्वा महादुर्गा त्यजेच्छ्वा समनन्तर ॥२४॥

तत्रोच्छ्वासोधिमोक्तव्यस्तामर्चेत्सु समाहितः ।
 कालेश्वरं ततो गच्छेद्देवदेवं महेश्वरम् ॥२५॥
 यस्य दर्शनमात्रेण यमलोकं न पश्यति ।
 वधिरेशं ततो गच्छेद्देवदेवं महेश्वरम् ॥२६॥
 यस्य दर्शनमात्रेण वधिरत्वं न जायते ।
 यात्रेश्वरन्ततो गच्छेद्यात्रा पूर्णफलप्रदम् ॥२७॥
 कीर्त्तयेदात्मनोनाम स्थानं गोत्रञ्च तत्र वै ।
 न कीर्त्तयेद्यदानाम सा यात्रा विफली भवेत् ॥२८॥

इसके पश्चात् सावधान होकर गुह्य महा काल की ओर जावे जिसके केवल दर्शन से ही गुह्य पातकों से प्रमुक्त हो जाता है ॥२२॥ फिर समाधि में स्थित होकर उत्तम दुर्वासिस्वर को गमन करे जिनके दर्शन से मनुष्य कृतकृत्य (सफल) हो जाया करता है ॥२३॥ दुर्वासि के समीप में इवास का अवरोध करे और महा दुर्वासि गौरी के समीप जाकर बाद में इवास का त्याग करे ॥२४॥ वहाँ पर उच्छ्वास का विमोचन करना चाहिए और उस देवी का सावधान होकर अर्चन करे । इसके उपरान्त वहाँ से देवी के देव महेश्वर कालेश्वर को गमन करे ॥२५॥ जिसके केवल दर्शन से ही यमलोक को नहीं देखता है । फिर देवदेव महेश्वर वधिरेश को जावे ॥२६॥ जिसके दर्शन मात्र से ही वधिरत्वं नहीं होता है । फिर यात्रा के पूर्ण फल को प्रदान करने वाले यात्रेश्वर को जावे ॥२७॥ वहाँ पर अपने नाम-स्थान और गोत्र का वीर्तन करे । यदि नाम प्रादि का कीर्त्तन नहीं करता है तो वह यात्रा विफल हो जाया करती है ॥२८॥

देवस्पाश्र्वे ततो व्यास ! उपविश्य समाहितः ।
 भक्तियुक्तः स्तुतिं ब्रूयान्ममस्कृत्वा पुनः पुनः ॥२९॥
 मया समर्पिता यात्रा त्वत्प्रसादान्महेश्वर !
 समारसागराद् धीरान्मामुद्धर जगत्पते ॥३०॥
 अलेन विधिना यस्तु महाकालं प्रदक्षयेत् ।
 प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तदोषा वमुन्धरा ॥३१॥

गोलक्षं द्विजवर्ष्याय दत्त्वात्लभते य फलम् ।
 तत्फलदेवदेवस्य सकृत्कृत्वा प्रदक्षिणम् ॥२२
 भक्त्या परमयायुक्तो महाकालं प्रदक्षयेत् ।
 पदे पदे यशफलमिति मे शङ्करोऽब्रवीत् ॥२३
 पष्टिकोटिसहस्राणि पष्टिकोटिशतानि च ।
 पूजितानि भवन्त्यत्र यात्रेश्वर समर्चनात् ॥२४
 य एव कुरुते यात्रा शिवध्यानपरायणः ।
 स वस्त्रन्दक्षिणा दद्यात्तस्य पुण्यफल शृणु ॥२५

हे व्यास ! फिर देवता के सामने समाहित होकर बैठ जावे और
 भक्ति से युक्त होकर बारम्बार नमस्कार करके स्तुति बोले ॥२२॥ हे
 महेश्वर ! मैंने अपनी यात्रा समर्पित करदी है । आपके प्रसाद से हे
 जगत्पते ! इस घोर संसार सागर से मेरा उद्धार करो ॥२०॥ जो इस
 विधि से महाकाल की प्रदक्षिणा करता है उसने सात द्वीप से युक्त वसुन्धरा
 की परिक्रमा करती है ॥२१॥ द्विज को एक लाख गौमो का दान करने
 से जो फल प्राप्त होता है वही देवों के देव की एक बार प्रदक्षिणा करने
 से प्राप्त होता है ॥२२॥ परम भक्ति से युक्त होकर महाकाल की प्रदक्षिणा
 करे । भगवान् शङ्कर ने कहा है कि मेरी परिक्रमा में पद पद में यज्ञ
 का फल होता है ॥२३॥ यहाँ पद यात्रेश्वर के समर्पण से साठ हजार
 करोड़ और साठ सौ करोड़ पूजित होते हैं ॥२४॥ जो शिव के ध्यान में
 परायण होकर इस प्रकार से यात्रा करता है और वस्त्र के सहित दक्षिणा
 दता है उसका पुण्य फल श्रवण करो ॥२५॥

सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यतेनात्र सशयः ।
 एव यात्रा समाप्याऽथ गत्वा च स्वगृहं नरः ॥२६
 यात्रादेवत सख्यान्वं पङ्क्तिशति द्विजोत्तमान् ।
 भोज्योच्छ्रवभक्ताश्च शिवध्यानपरायणान् ॥२७
 सवरत्रा दक्षिणा दत्त्वा प्राप्यानुज्ञा विसर्जयेत् ।
 यात्राक्रमेण चैकेक तीर्थान्तरमनुव्रजेत् ॥३८

धर्मोपदेशकेपश्चात् सर्वोपस्करसयुताम् ।

धेनुम्पयस्विनी दद्याद्वित्तशाठ्य विवर्जित ॥३९

भुञ्जीत य स्वय व्यास । सर्वभृत्यसमन्वितः ।

दीनानाथ दरिद्रान्ध विकलाश्चापि भोजयेत् ॥४०

यदन्नफलमुद्दिष्ट तद्वदाम शृणुष्व मे ।

कुलानां शतमुद्घृत्य मातापित्रोस्समाहित ॥४१

कल्पकोटिसहस्राणि शिवलोके स मोदते ॥४२

सात जन्मो मे किए हुए पाप से मनुष्य छुटकारा पा जाता है— इसमें कुछ भी सहाय नहीं है । इस प्रकार से यात्रा को समाप्त करके इसके अनन्तर मनुष्य अपने घर जावे ॥३९॥ यात्रा के देवों की सहाय के अनुसार छब्बीस परम श्रेष्ठ—शिव के भक्त और शिव के ध्यान में परायण द्विजों को भोजन करावे ॥३७॥ धरुओं के सहित दक्षिण देकर उनसे भाजा प्राप्त करके उनकी विदा करना चाहिये । यात्रा के क्रम से एक चक्र अग्य तीर्थ में जावे ॥३८॥ उन्हीं पीछे किमी धर्म के उपदेश करने वाले द्विजों की सभी उपकरणों से युक्त दूध देने वाली धेनु को वित्त (धन) की शठता से रहित होकर दान करना चाहिए ॥३९॥ हे व्यास ! फिर सभी भृत्यों से युक्त स्वयं भोजन करे और जो दीन—धन्धे—अनाथ—दरिद्री और इन्द्रियों से विफल मनुष्य हो उनकी भी भोजन कराना चाहिए ॥४०॥ जो भी इस में पुण्य-फल उद्दिष्ट है उसे हम बतलाते हैं । उसको मुक्तसे प्राप श्रवण करो । वह यत्री अपने सौ कुलों का उद्धार करके माता पिता का भी उद्धार समाहित होकर कर देना है और सहस्रों करोड़ कल्पों तक शिवलोक में निवास करता हुआ आनन्द प्राप्त किया करना है । ४१-४२॥

६३—वाल्मीकेश्वरमहिमावर्णन

वाल्मीकेरीश्वर व्यास ! भक्त्या देव प्रपूजयेत् ।

मौनी ध्यानपरी भूत्वा सुवित्त्वमवाप्नुयात् ॥१

जाता है । वह पातक किमथा है—यद् बहो । क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि व्ययं प्राणियो वा यद् मत करो ॥१५॥

नकादाचिन्मयात्रेतु मंपृष्टार्दृष्टं वचः ।

युष्मार्कं वचसामेऽद्य प्रतिबोधः प्रवर्तते ॥१५॥

गत्वा पृच्छामि तान्वर्यान् कस्य भावश्च कीदृशः ।

यूपमत्रैव तिष्ठत्वं यात्रदागमनं मम ॥१६॥

इत्युक्त्वा ताञ्जगामाशुपितरं स्वमुवाच ह ।

धर्मस्य प्रतिघातेन प्राणिनापीडनेन च ॥१७॥

सुमहददृश्यते पापं कस्मैतत्कथ्यतामम ।

पिताप्राहाथतन्माता नापुण्यमावयोरिह ॥१८॥

एवं जानामि बुद्धो यत्कृत भोग्यं पुनस्त्वया ।

तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा भार्या वचनमब्रवीत् ॥१९॥

तयाप्युक्तं न मे पापं पापमेतत्तव वभु ।

तद्वाक्यमब्रवीत्पुत्रं बालोऽहमिति क्षोऽब्रवीत् ॥२०॥

तज्जात्वाभाषितं तेषां चेष्टितञ्चैव तस्वतः ।

नष्टोऽहमिति मन्वानः शरणमेतपस्विनः ॥२१॥

अग्नि धर्मा ने कहा—मैने तो इन प्रकार से उनसे कभी नहीं पूछा है । आज आपके वचन से ही मुझे यह प्रतिबोध ही रहा है ॥१५॥ मैं जाकर उन सभी से पूछता हूँ और देखना हूँ कि इस विषय में किसका क्या भाव है । आप लोग यही पर ठहरिये जब तक मैं वापिस लौट कर यहाँ पर आता हूँ ॥१६॥ यह कह कर वह उनके पास गया और अपने पिता से बोला कि यह घन ओ मैं लाता हूँ वह धर्म का प्रतिघात करके और प्राणियों की पीडा देकर ही लाता हूँ ॥१७॥ यह एक महान् पाप दिखाई देना है सो यह मुझे बतनाओ कि यह पाप किसको होता है । तब उसके माता और पिता ने कहा कि इनमे हम दोनों का यह कुछ भी पाप नहीं है ॥१८॥ तू ही इसे जानता है क्या करता है । जो तू करता है वह तुझे ही भोगना भी है । उन दोनों के वचन को सुनकर उसकी भार्या ने यह वचन कहा था ॥१९॥ उसने भी यही कहा कि मुझे इसका

कुछ भी पाप नहीं है । यह तो तुम्हारा ही पाप है । यही वचन पुत्र से कहा तो वह बोला—मैं तो बच्चा हूँ ॥२०॥ उन सबके कथन को जान-कर और उनके चेष्टित को तात्त्विक रूप से समझ कर वह यह मानता हुआ कि मैं तो विनष्ट ही हो गया अब तो मेरे रक्षक वे तपस्विगण ही हैं ॥-१॥

क्षिप्रवायलकुटं कृष्णयेन व्रजन्तवोहताः ।

प्रकीर्यं केशांस्त्वरितोऽश्रुं पीत्रामप्रतः स्थितः ॥२२

प्रणम्य दण्डपातेन ततो वचनमब्रवीत् ।

न मे माता न च पितः न भार्या न च मे सुतः ॥२३

सर्वस्तः परित्यक्ताऽहं भवनांशरणगतः ।

सुष्ठु पदेशदानान्मानं रकारत्प्रातुमर्हस्य ॥२४

एव तं वादिनं दृष्ट्वा ऋपयोऽग्निमथाब्रुवन् ।

भवतो वचनादस्य प्रतिशोषस्समागतः ॥२५

भवताऽप्रमनुग्राह्यः शिष्यो भवतु ते मुने ।

तथैत्पुवत्वाय तम्प्राह इमं ध्यानं समाचर ॥२६

अनेन ध्यानयोगेन पापपुञ्जं प्रणाशय ।

सस्थितो वृक्षमूले त्वं परांतिर्द्धिगतिष्यसि ॥२७

इत्युक्त्वा ते यमुस्सर्वो सकामः सोऽपि तत्र वं ।

तद्ध्यानस्योऽभवद्योगी वत्सराणि त्रयोदश ॥२८

हे कृष्ण ! इसके अनन्तर उन लाठी को फेंक कर जिससे बहुत-से जन्तुओं को मारा था, केशों को फेंका कर शीघ्र ही वह ऋषियों के सामने स्थित हो गया था । दण्ड के समान गिर कर प्रणाम किया और इसके पश्चात् यह वचन बोला—मेरी माता नहीं है और न पिता—भार्या और कोई सुत ही है । मैं उन सबके द्वारा परित्यक्त हूँ और आपको शरणार्थी में हूँ । बहुत भ्रष्टा उपदेश का दान करके मेरी नरको से रक्षा करो ॥२२-२४॥ इस प्रकार से इसको बहते हुए देख कर ऋषि गण मन्त्रि से बोले—आपके ही वचन से इसको प्रतिवाच्य प्रागया है । हे मुने ! आपके द्वारा इस पर अनुष्ठान करना ही चाहिए यह आपका शिष्य हो जावे ।

ऐसा ही होगा—यह कह कर इसके अनन्तर उससे कहा कि इस ध्यान का समाचरण करो ॥२५-२६॥ इस ध्यान के योग से पपों के समूह का विनाश कर । इस वृक्ष के मूल में स्थित होकर ही तू पर सिद्धि को प्राप्त हो जायगा ॥२७॥ यह कर वे सब चले गये थे । रामनाम से युक्त वह भी उसी ध्यान में स्थित त्रयोदश वर्ष में योगी होगया था ॥२८॥

निवृत्तास्तुयथातेन मुनयस्तत्प्रशुश्रुवुः ।
 उदीरितध्वनिन्तेनवल्मीकेविस्मयान्विताः ॥२९
 ततस्तु दृष्ट्वा वल्मीकं काष्ठीभूतोरुशंकुभिः ।
 तं दृष्ट्वात्थापयामामुमुनयो नयसयुतम् ॥३०
 नमश्चक्रेऽयतान्सर्वाश्च समुनिमुनिपुङ्गवान् ।
 तान्प्राहप्रणतोभूत्वातपसादीप्ततेजसः ॥३१
 प्रसादाद्भूवतामद्य ज्ञानं लब्धमयाशुभम् ।
 दीनोऽहमुद्घृतस्वैर्भग्नोऽहंपापकर्ममे ॥३२
 श्रुत्वा तस्येति तद्वाक्यमूचुः परमवार्मिकाः ।
 वल्मीकेऽस्मिन् स्थितः पुत्र ! यतस्त्वमेकचित्ततः ॥३३
 वाल्मीकिरिति ते नाम भुवि ख्यातं भविष्यति ।
 इत्युक्त्वा मुनयोजग्मुः स्वां दिशं तपसान्विताः ॥३४
 गतेषुमुनिमुख्येषु वाल्मीकिस्तपताम्बरः ।
 कुशस्थल्यामथागम्य समाराध्यमहेश्वरम् ॥३५
 तस्मात्कवित्वमासाद्य चक्रे काव्यं मनोरमम् ।
 रामायणञ्च यत्प्राहुः कथासु प्रथमं स्थितम् ॥३६
 ततः प्रभृति देवेशो वाल्मीकेश्वरसञ्ज्ञकः ।
 ख्यातोऽवन्त्यां ततो व्यास ! कवित्वदायको नृणाम् ॥३७

जिस प्रकार से उनके द्वारा निवृत्त हुए थे उन मुनियो ने उन श्रु-
 षण किया था । उसने 'वल्मीक मे ध्वनि कहो थी । मुनिगण विस्मय से
 युक्त हो गये थे । इसके अनन्तर ऊह शकुओ से काष्ठ के सदृश हुआ
 वल्मीक को देखा था ॥२८॥ उनकी देख कर जो तप से पूर्ण सद्युत था

मुनिगण ने उगको उठाया था ॥३०॥ उसने उन सब धुनित्रोटों को नमस्कार किया था और परम प्रण रत होकर तप से दोस तेज होने वाले उन से बोला—॥३१॥ आपके प्रसाद से मैंने आज सुभ ज्ञान प्राप्त किया है । मैं बड़ा दोन हूँ, मैं पापों के बोध में मग्न(फँसा) हुआ था आप सब ने मेरा उद्धार कर दिया है ॥३२॥ उसके इग यचन को सुगकर परम धर्म के ज्ञाना उन ऋषियों ने कहा—हे पुन ! इत वाल्मीक मे एक पित्त होकर प्राप स्थित रहे थे । इसलिए भूमण्डल मे तेरा नाम 'वाल्मीकि' यह प्रसिद्ध होया । यह कह कर मुनिगण तरत्र्या से मुक्त हुए अपनी अभीष्ट दिशा को ओर चले गये। ३३-३४॥ उन प्रमुख मुनियों के चले जाने पर तपस्त्रियों मे श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुन स्थली में समणान होकर महेश्वर की समाराधना की थी । उस से कवित्व प्राप्त करके उनने एक परम सुन्दर काव्य की रचना की थी जिमको रामायण कहते हैं और जो क्यारों मे प्रथम स्थित है ॥३५-३६॥ तभी से लेकर वाल्मीकेश्वर नाम के देवेश भवन्ती पुषी मे विश्वात होगये थे । हे व्यास ! यह मनुष्यो को कवित्व प्रदान करने वाले हैं ॥३७॥

६४— गणेशमाहात्म्यवर्णन

लड्डुर्कश्चततोदेर्विघ्ननाथस्सर्चितः ।
 तदाप्रभृतिविख्यातो विघ्नेशोलड्डुर्कप्रियः ॥१॥
 यस्तमर्चयतेभक्त्या तस्यविघ्न नजायते ।
 तस्मैददातिसन्तुष्टस्सर्वकामान्विनायकः ॥२॥
 नक्ताहारश्चतुर्थ्याच स्नात्वाशिप्राविशेषतः ।
 रक्ताम्बरधरोभूत्वा रक्तपूर्णविनायकम् ॥३॥
 रक्तचन्दनतोयेन मन्त्रस्नपनपूर्वकम् ।
 चन्दनेनापिरक्तेन तंविशेष्य प्रपूजयेत् ॥४॥
 धूपदद्यात्तथादिव्यं सुगन्धलड्डुर्कप्रियम् ।
 नैवेद्ये लड्डुर्कादंयाज्याज्यखण्डपरिप्लुताः ॥५॥

नतस्यजायतेव्यास भयंविघ्नं कदाचन ।
 लभतेचतथाभीष्टं मृतश्शिवपुरं व्रजेत् ॥६॥
 अक्षतीर्णः पुनर्लोके जायते वसुधाधिपः ।
 मतिमान् पुत्रवाञ्छूरो नात्रकार्याविचारणा ॥७॥

महर्षि सनत्कुमारजी ने कहा—इसके अनन्तर लड्डुहूक देवों के द्वारा विघ्नों के नाश को अर्चना की गयी थी तभी से लेकर विघ्नेश लड्डुहूक प्रिय विलयात हो गये थे ॥१॥ जो भक्तिभाव से इसकी पूजा करता है उसको विघ्न कभी नहीं हुआ करता है । उस अर्चन को परम सन्तुष्ट होकर विनायक सभी कामों को दे दिया करते हैं ॥२॥ चतुर्थी तिथि में रात्रि को एक बार साहार करे विशेष रूप से शिवा में स्नान करे । स्वयं रक्त वस्त्र धारी होकर रक्त ही पुष्पों से और लाल चन्दन जल से मन्त्रों के द्वारा स्तनपन करावे फिर रक्त चन्दन से गणेश के शरीर पर विलेपन करे और विनायक को पूजा करे ॥३-४॥ इसके उपरान्त लड्डुहूक प्रिय को परम सुगन्ध-सम्पन्न धूप का साधारण कराना चाहिए । नैवेद्य में घृत और छाँड से खूब परिप्लुत लड्डुहूक देने चाहिए ॥५॥ हे व्यास ! उस अर्चना करने वाले मनुष्य को भय और विघ्न कभी भी नहीं होते हैं और वह अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति किया करता है मृत्यु होने पर वह सीधा शिवपुर गमन करता है ॥६॥ फिर लोक में जन्म लेकर राजा होता है, बुद्धिमान्, पुत्रवान् और शूर होता है, इस विषय में कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ॥७॥

६५—सोमवतीतीर्थमाहात्म्यवर्णन

तीर्थसोमवतीनाम लिङ्गसोमेश्वरं तथा ।
 अभूदेतत्कथं नाम श्रोतुमिच्छामितस्त्वतः ॥१॥
 शृणुव्यासयथोत्पन्नं सोमतीर्थं सुशोभनम् ।
 सोमेश्वरं तथालिगमेतत्सत्यं वदामि ते ॥२॥
 यो देवो भगवान्सोमो लोकस्याप्ययनं परम् ।
 आसीत्तस्य पुरा व्यास ! पिता विप्रो महातपा ॥३॥

अवन्त्याञ्च महाभागो योज्जिनामातपोनिधिः ।
 वर्षाणां श्रेणि दिव्यानि सहस्राणि तपो महत् ॥४
 ऊर्ध्वंवाहुस्सर्वतेपे ब्रह्मध्यानपरायणः ।
 ऊर्ध्वंगतं ततोव्यास ब्राह्मं तेजोमहात्मनः ॥५
 नेत्राभ्यांतस्यसुस्त्राव काशयंश्चदिशोदश ।
 तेजस्तत्सहस्रादृष्ट्वा ततोवेशोद्भवं स्वतः ॥६
 दिशश्च तद्यदा व्यास ! सर्वान्धतुं मशवनुवन् ।
 सुस्त्राव च तदा दिग्भ्यस्तद्वितेजोऽतिदुस्सहम् ॥७

महर्षि व्यासजी ने कहा—तीर्थ का नाम सोमवती तथा लिङ्ग का नाम सोमेश्वर हुआ था—यह कैसे हुआ—यह मैं तार्त्त्विक रूप से सुनना चाहता हूँ ॥१॥ सनत्कुमारजी ने कहा—हे व्यास ! जिस तरह से सुशोभन सोमतीर्थ सगुणेश्वर हुआ तथा सोमेश्वर लिङ्ग हुए—यह सभी आपकी राय बननाता हूँ ॥२॥ जो भगवान् भोमदेव हैं जो कि लोक की परम सृष्टि करने वाले हैं । हे व्यास ! वहिने उगका महान् तपस्वी विप्र पिता था ॥३॥ मन्ती पुरी में जो महान् तपस्वी महाभाग अग्नि नाम वाला था । उसने दिव्य तीन हजार वर्ष तक महान् तप किया था ॥४॥ ब्रह्म के ध्यान में तत्पर होने हुए उगने ऊर्ध्वंवाहू होकर तप किया था । हे व्यास ! तब उग महारामा का ब्रह्म तेज ऊर्ध्वं को धना गया था ॥५॥ दश दिशाओं में प्रकाश करता हुआ उगका तेज नेत्रों से शक्ति हुआ था । मन्तुर्णं देव में स्वतः उत्पन्न हुए उग तेज की महमा देखकर हे व्यास ! जब दिनाएं गवने पारण करने में अगम्य हो गई थीं तो यह अत्यन्त दुःसह तेज दिशाओं में सवित हुआ था ॥६-७॥

सांकांश्चभानगन्सर्षान् धरण्यांवेपपातह ।
 सोमोजानस्ततस्तेनशीतांशुश्चजनप्रिया ॥८
 सरित्शोनागम्पन्ना व्यासतेनेवतेजसा ।
 प्रविष्टासा नदीशिप्राममृतेनाति पूरिता ॥९
 ततस्सोमवती नित्रा विश्रयता ह्यतिदुष्पदा ।
 नाममुक्ता नदी नित्रा दृष्ट्वा पापं दशोहति ॥१०

ख्याताचत्रिपुलोकेषु पापिनापुण्यदायिनी ।
 ब्रह्महावासुरापोवास्तेयोगानुस्तल्पग ॥११
 चत्वारोऽप्यत्रपापेन मृच्यन्तेदर्शनादध्रुवम् ।
 अमासोमोयदायुक्तौ सोमवत्या तदामुने ॥१२
 स्नान दान चयोधीमाञ्जपहोम समाचरेत् ।
 अक्षयतस्यतत्पर्व यावच्चन्द्रदिवाकरो ॥१३
 तिलोदकप्रदानेनपिण्डदानेनकालिज । ।
 अकालेकालिकीर्त्ति पितृणाञ्चययोदिता ॥१४

समस्त लोको मे प्रकाश करता हुआ वह तेज फिर भूमि मे गिरा था ।
 उससे सोम समुत्पन्न हुआ उससे वह शीतल किरणों वाला और जनों का
 परम प्रिय था ॥१॥ हे व्यास । उसी तेज से एक सोमा नदी समुत्पन्न हुई
 थी वह अमृत से अतिपूरित नदी शिप्रा नदी में प्रविष्ट हो गई थी ॥६॥
 तभी से फिर अत्यन्त पुण्य देने वाला शिप्रा सोमवती विख्यात हो गई
 थी । सोम से युक्त शिप्रा के दर्शन करके मनुष्य पापों से छुटकारा पा
 जाता है ॥१०॥ तभी से वह नदी तीनों लोकों मे पापियों को पुण्य प्रदान
 करने वाली विख्यात हो गई थी । चाहे कोई ब्राह्मण की हत्या करने
 वाला हो अथवा सुरा पीने वाला हो—घोर हो या गुण शय्या पर गमन
 करने, वाला हो ॥११॥ ये चारो ही महा पातकी यहाँ पर केवल दर्शन से
 ही निश्चय ही पाप से मुक्त हो प्राया करते हैं । हे मुने । अमावस्या और
 सोम जब दोनों युक्त ही तो वह सोमवती होती है उसमे ॥१२॥ जो
 भीगान् स्नान—दान—जप—होम का समाचरण करता है उसका वह सभी
 अक्षय हो जाता है और वह जब तक चन्द्र और सूर्य स्थित है रहा करता
 है ॥१३॥ हे कालिज । तिलोदक दान से—पिण्ड दान से अकाल मे
 कालिकी तृप्ति और पितृगणों की जैसी कही गयी है ॥१४॥

सर्वत्रदुर्लभाशिप्रा सोमस्सोमप्रहस्तथा ।

सोमेश्वरस्सोमवारस्सकारा पञ्चदुर्लभा ॥१५

शिप्रासोमजलव्यास कोटितोथंपलप्रदम् ।

अमासोमसमायोगेपितृतीर्थसमस्मृतम् ॥१६

अमायांसोमवारश्चेद्व्यतीपातोयदाभवेत् ।
 दातगुणंगयायास्तुसोमवत्याप्रकीर्तितः ॥१७
 एवसोमवतीतीर्थं जातमत्रमहामुने ! ।
 सोमं दृष्ट्वायपतितं क्षितीं ब्रह्माजगद्गुरुः ॥१८
 रथे तं स्थापयामास लोकानां हितकाम्यया ।
 स तु वेदमयो व्यास ! धर्मशस्तत्यसङ्ग्रहः ॥१९
 युक्तो वाजिसहस्रेण ब्रह्मणा प्रेरितस्तदा ।
 दृष्ट्वासोमं नतो देवा रथे तं ब्रह्मणा युतम् ॥२०
 तुष्टुयुस्तर्बभावेन हृष्टाः सर्वे समाहिताः ।
 तस्य सस्तूयमानस्य तेजस्तसोमस्य भास्वरम् ॥२१

सर्वत्र शिवा दुर्लभ है । सोम—सोमब्रह्म—सोमेश्वर और सोमवार
 ये पाँच प्रकार दुर्लभ होते हैं ॥१५॥ हे व्यास ! शिवा का सोमजल
 करोड़ तीर्थों का पुष्प-फल प्रदान करने वाला है । अमा का और सोम
 का योग होने पर—पितृ तीर्थ के सदृश कहा गया है ॥१६॥ अमा से
 सोमवार और जब यदि व्यतीपात होवे, गया से सौ गुना सोमवती में कहा
 गया है ॥१७॥ हे महामुने ! इस प्रकार से यहाँ पर सोमवती तीर्थ हुआ
 था । जगत् के गुरु ब्रह्माजी ने भूमि पर पड़े हुए सोम को देखा था ।
 ॥१८॥ लोको के हित की कामना से उसको रथ में स्थापित कर दिया ।
 हे व्यास ! यह तो वेदों से परिपूर्ण—सत्य सग्रह वाले और धर्म के ज्ञाता
 थे ॥१९॥ उस समय में एक सहस्र अश्वों से युक्त और ब्रह्माजी के द्वारा
 प्रेरित था । रथ में ब्रह्मा से युक्त सोम का देवों ने देखा था ॥२०॥ उनमें
 सर्व भाव से परम प्रसन्न और सावधान होकर मग्ने स्तब्ध किया था ।
 सस्तूयमान उस सोम का तेज परम भास्वर होगया था ॥२१॥

आप्यायमानं श्रीलोकान् पापतघरणीतले ।
 ब्रह्मातेन रथेनाथ मागरान्तावमुन्धाराम् ॥२२
 त्रिः सप्तदृत्वोत्तिष्ठमाच्चवारसंप्रदक्षिणम् ।
 तस्यमर्त्यानसनेजो द्यामनोमस्यनीतनम् ॥२३

तदेवोपधयोदिव्याजाताभुविसुनिर्मलाः ।
 याभिर्घायोह्ययंलोकः प्रजाश्चैवचतुर्विधाः ॥२४
 तुष्टोऽथभगवान्तोमो जगतस्सर्वदोमुने ! ।
 दशवर्षसहस्राणि तेपेऽतिदृस्सहंतपः ॥२५
 ततस्तस्मिं ददौस्वाम्यंत्रह्यलोकपितामहः ।
 बीजोपधीना विप्राणा सोमोराजाबभूवह ॥२६
 सप्तविंशतिसोमाय दाक्षायण्योमहाव्रताः ।
 परत्यःप्राचेतसोदक्षोददौनक्षत्रसञ्ज्ञकाः ॥२७
 सतत्प्राप्यमहद्द्राक्ष्यं सोमोभार्यायुतस्तदा ।
 समारेभेराजसूयं सहस्रशतदर्शक्षणम् ॥२८

तीनों लोकों की वृत्ति करने वाला वह धरणी तल पर गिर गया था । ब्रह्माजी ने उस रथ से सागरो के सहित वसुन्धरा की इक्कीस बार प्रतिशय से प्रदक्षिणा की थी । उसका जो तेज है व्यास । सोम का शीतल गिरा था वे ही परम दिव्य सुनिर्मल ओपधियाँ भूमि में उत्पन्न हो गईं थी जिनसे यह लोक चार प्रकार की प्रजा धारण करने के योग्य हो गया था ॥२२-२४॥ हे मुने ! जगत् की सब कुछ देने वाला भगवान् सोम परम तुष्ट हो गये थे और दस हजार वर्ष पर्यन्त अतीव दुस्तह तप किया था ॥२५॥ इसके अनन्तर ब्रह्म लोक के पितामह ब्रह्माजी ने उसकी स्वामि पद प्रदान किया था । सोम बीजोपधियों का विप्रों का राजा हो गया था ॥२६॥ प्राचेतस दक्ष ने उस सोम के लिये दाक्षायणी—महार्णव्रत वाली सत्ताईस नक्षत्र संज्ञा से सम्पन्न पत्नियों प्रदान की थी ॥२७॥ उस समय में भार्याओं से युक्त सोम ने उस महान् राज्य को प्राप्त करके सहस्र और शत दक्षिणा वाला राजसूय यज्ञ का आरम्भ कर दिया था ॥२८॥

होताचभगवानत्रिरध्वर्युं भगवान्भृगुः ।
 हिरण्यगर्भश्चोद्गाता ब्रह्माब्रह्मत्वमेयिवान् ॥२९
 सदस्यो भगवान् विष्णुस्सनकादिमुखैर्वृतः ।
 ददौ स दक्षिणां सोमस्त्रील्लोकान्सुसमाहितः ॥३०

सिनीवालीकुहूश्च घृतिः पुष्टिः प्रभावसुः ।
 कीर्तिर्धृतिश्च लक्ष्मीस्तं देव्यो दिव्यास्तिष्येवरे ॥३१॥
 प्राप्यावभृथमव्यग्रस्सर्वदेवपिपूजितः ।
 अतीवराजतेचन्द्रो दक्ष प्रोद्भासयन्दिशः ॥३२॥
 तस्य तत्प्राप्य दुष्प्राप्यमश्वर्यमृषिसंकृतम् ।
 विबभ्राम मतिर्व्यसि ! तदामृतमयस्य च ॥३३॥
 बृहस्पतेस्यदा भार्या तारानाम्नी यशस्विनीम् ।
 जहार तमसा साध्वीभवमान्याङ्गिरससुतम् ॥३४॥
 वाच्यमानस्तदा सोमो देवर्देवपिभिस्तथा ।
 नैव व्यसर्जयत्तारां तस्मा आङ्गिरसाय च ॥३५॥

उन यज्ञ में भगवान् अग्नि होता हुए थे—भगवान् भृगु अश्वर्यु थे—
 हिरण्य गर्भ उद्गाता थे और ब्रह्मरव का पद स्वयं ब्रह्माजी ने प्राप्त किया
 था ॥२६॥ सनकादि प्रमुखों से समापृत भगवान् विष्णु सदस्य थे ।
 उनसे सुसमाहित होते हुए तीन लोक सोम को दक्षिणा दी थी ॥३०॥
 सिनीवाली—कुहू—घृति—पुष्टि—प्रभावसु—कीर्ति—धृति और लक्ष्मी
 इन दिव्य देवियों ने उसकी सेवा की थी ॥३१॥ भवभृथ को प्राप्त कर
 रामस्त देवपियों के द्वारा चन्दित हुआ अव्यग्र वह चन्द्रमा दशो दिशाओं को
 प्रोद्भासित करता हुआ अत्यन्त अधिक शोभा सम्पन्न हो गया था ॥३२॥
 हे व्यास ! ऋषियों के द्वारा सस्कार किया हुआ वह दुष्प्राप्य ऐश्वर्य
 प्राप्त करके उसकी बुद्धि जो कि अमृत मय या विभ्रान्त हो गयी थी
 ॥३३॥ उस समय में अङ्गिरा के पुत्र का अपमान करके बृहस्पति की
 भार्या परम यशस्विनी तारा नाम वाली का जो कि अत्यन्त ही साध्वी
 थी अन्वकार से इसने हरण कर लिया था ॥३४॥ उस समय में देवों
 और देवपियों के द्वारा कहा गया भी था किन्तु सोम ने उस आङ्गिरस के
 लिये उस तारा को नहीं विसर्जित किया था ॥३५॥

बृहस्पतेस्ततः पक्षं शकोजग्राहकोपतः ।

महिशिष्योमहातेजाः हितुः पूर्वं बृहस्पतेः ॥३६॥

ततोयुद्धमभूत्तत्र सुघोरंशक्रसोमयोः ।

देवानां दानवानाञ्च व्यासत्रासङ्कुरंमहत् ॥३७

सर्वेभीतास्ततोदेवा ब्रह्माणंशरणं गताः ।

अग्रतोब्रह्मणोयुद्धं कथितं सोमशक्रयोः ॥३८

देवानां वचनं श्रुत्वा साद्धं देवैः पितामहः ।

भागत्य युद्धसमयेऽवारयद्ददानवान् ॥३९

वारितास्ते स्थितास्तत्र युद्धं त्यक्त्वा सुरासुराः ।

तारामादाय स तदा ददावाङ्गिरसे द्विजः ॥४०

ताञ्चसप्रसवां दृष्ट्वा आहभार्या बृहस्पतिः ।

अन्यदीयोनतेयो न्या गर्भो धायः कथञ्चन ॥४१

उत्ससर्जतस्तारां कुमारं देवरूपिणम् ।

ऐपिकास्त्रं समादाय उवलन्तमिव पावकम् ॥४२

इसके उपरान्त कोप से इन्द्र ने बृहस्पति के पक्ष को ग्रहण किया । वह पहिले बृहस्पति के पिता का शिष्य था । ३६। इसके पश्चात् इन्द्र और चन्द्र का अतीव भयानक युद्ध हुआ था । हे व्यास ! वह युद्ध देवों को और दानवों को भी महान् भय समुत्पन्न करने वाला अत्यन्त भीषण था । ३७॥ उस उग्र युद्ध से सभी देवता डर गये थे और फिर वे भी ब्रह्माजी की शरण में प्राप्त हुए थे । ब्रह्माजी के समाने सोम और शक्र के युद्ध को कहा था । ३८॥ देवों के इस वचन का श्रवण कर पितामह देवों के साथ ही युद्ध के समय में आकर उन्होंने देवों और दानवों को रोक दिया था । ३९॥ रोके हुए सुर-असुर युद्ध का त्याग करके वहाँ पर स्थित हो गये थे । उनसे उस समय में तारा को लेकर आङ्गिरस (बृहस्पति) को द्विज (सोम) ने दे दिया था । ४०॥ उस तारा को प्रसव से युक्त देख कर बृहस्पति भार्या से बोले— दूसरे वागम तैरी योनि में कभी भी धारण नहीं होगा चाहिए । ४१॥ इस कथन के पश्चात् तारा ने ऐपिकाञ्ज लेकर जलती हुई अग्नि के समान देव रूपी कुमार को उत्सर्जित कर दिया था । ४२॥

स तैजो जातमात्रोऽपि देवानामाक्षिपद्यशः ।
 ततस्सशयमापन्ना ऊचुस्तारां दिवोकसः ॥४३
 कास्यायं ब्रूहि सुभगे! सोमस्याय बृहस्पतेः ।
 नाचक्षक्षेदेवताना वेधाः पप्रच्छताम्पुनः ॥४४
 यदयसत्यं तद्वन्न हि तारे! कस्यसुनो ह्ययम् ।
 सा प्राञ्जलि रूवाचेदं ब्रह्माणं वरदं विभुम् ॥४५
 सोमस्येति महामौम्यः कुमारो देवसन्निभः ।
 सोमस्य तं सुत ज्ञात्वा परिष्वज्य पितामहः ॥४६
 बुधइत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य वंतदा ।
 परदारापहाराच्च यत्पापं तनुदुस्महम् ॥४७
 तेन सोमोऽभवत्कुण्ठीक्षयरोगयुतस्तदा ।
 ततो राज्ञेस्वकं पुत्रं स्थापयित्वा यथाविधि ॥४८
 भवन्तीमाजगामाशु सोमो देवदिदृजया ।
 सोमाहे सोमयत्याञ्च अमायोगेजितेन्द्रिय ॥४९

जात मात्र ही उस तेज ने देवों के यश को आक्षिप्त कर दिया था ।
 तब तो सशय को प्राप्त हुए देवों ने तारा से कहा ॥४३॥ हे सुभगे ! यह
 तो यतामो कि यह गर्भ विभु का है सोम का है या बृहस्पति का है ?
 देवों से उतने कुछ नहीं कहा था तब फिर ब्रह्माजी ने उगने पूछा था
 ॥४४॥ हे तारे ! इसमें जो भी मर्य है वही बनला दो कि यह मुत किम
 का है । उम तारा ने हाथ जोड़ कर वरद विभु ब्रह्माजी में यह कहा—
 ॥४५॥ यह महान् मौम्य देश दे महान् कुमार सोम का है । पितामह ने
 उम पुत्र को सोम का जानकर समान्तिगन किया था ॥४६॥ उमो समय
 उम पुत्र का 'सुप' यह नामकरण कर दिया था । पराई स्त्री का अपहरण
 करने से जो पाप है वह पथीर में दुस्सह हुआ करता है ॥४७॥ उम
 समय में उम पाप से सोम बँडू थापा और शय से मुक्त हो गया था ।
 इससे अनन्तर राज्य पर अपने पुत्र को विधि पूर्वक स्थापित करके वह
 पीछ ही सोम देव को देखने को दृष्टा से अश्विनी पुरी में आगया था ।

सोमधार और सोमवती अमावस्या के योग में उस इन्द्रियों को बीतने वाले ने स्नान किया था ॥४८-४९॥

स्नात्वा सम्पूजयामास सोमस्तोमेश्वरं ततः ।
 तस्य भवत्या च सन्नुष्टः प्राह सोमं महेश्वरः ॥५०॥
 मत्प्रसादाद्दुः कान्तं तव सोम! भविष्यति ।
 सोमेश्वरमिति ख्यातं भुक्तिमूक्तिप्रदायकम् ॥५१॥
 एवं तु व्यास! तत्तीर्थं लिङ्गं च वाति दुर्लभम् ।
 कथितं तद्यभावेन मया तुष्टे तसाम्प्रतम् ॥५२॥
 श्रावणं प्राप्य यो मासं सोमनाथं जितेन्द्रियः ।
 नित्यं पश्येन्नरो व्यास! तस्य पुण्यफलं शृणु ॥५३॥
 सीराष्ट्रे सोमनाथस्य पूजायाः प्रत्यहं फलम् ।
 लभते स नरो व्यास! नात्र कार्या विचारणा ॥५४॥

स्नान करके फिर सोम ने सोमेश्वर प्रभु का भली भाँति पूजन किया था । उसकी भक्ति से परम तुष्ट हुए महेश्वर ने सोम से कहा था ॥५०॥ हे सोम ! मेरे प्रसाद से तेरा दारोद कान्त हो जायगा । फिर वह सोमेश्वर इस नाम से विख्यात हो गया था जो भुक्ति और मुक्ति दोनों को देने वाला था ॥५१॥ हे व्यास ! इस प्रकार से वह तीर्थ और लिङ्ग अत्यन्त दुर्लभ हैं । मेने सत्य भाव से परम तुष्ट होते हुए सब तुम्हको बतला दिया है ॥५२॥ जो कोई जितेन्द्रिय होकर श्रावण के महीना में वहाँ पहुँच कर नित्य ही सोमनाथ का दर्शन करता है उस मनुष्य का पुण्य—फल सुनी ॥५३॥ सीराष्ट्र में सोमनाथ की पूजा का प्रतिदिन फल होता है वह नर हे व्यास ! प्राप्त किया करता है—इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए ॥५४॥

६६—सौभाग्यतीर्थमाहात्म्यवर्णन

तीर्थं सौभाग्यके स्नात्वा दृष्ट्वा सौभाग्यकेश्वरम् ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तः सौभाग्यं परमं लभेत् ॥१॥

धृततीर्थेनरः स्नात्वा धृतेनस्नापयेच्छिवम् ।

धृनमग्नायथोहृत्वा रुद्रलोकेमहीयते ॥२

देवीयोगेश्वरीप्रार्च्यं सुरामुरनमस्कृताम् ।

सर्वपापविनिमुक्तः परंयोगमवाप्नुयात् ॥३

दाह्वावर्तेनरः स्नात्वा सर्वपापविवर्जितः ।

धनधान्यसमायुक्तो जायतेनिर्मलेकुले ॥४

शुद्धोदकेचतुर्दश्या मुक्त्यर्थंस्नानवान्तरः ।

शिवं सुरेश्वरं दृष्ट्वा ततोमोक्षगतिर्भवेत् ॥५

तयान्यतरसंप्रवक्ष्यामि तीर्थं श्र्लोत्र्यविश्रुतम् ।

ऋषुनरिति विद्यातं ब्रह्महत्याविमोचनम् ॥६

पूर्वगतायुषेभ्याम! सुनेत्रोनामर्षद्विजः ।

तस्यपुत्रः समुत्पन्नोविश्वाश्वरितस्मृतः ॥७

महा गहपि श्री सनत्कुमार जी ने कहा—सोभाय तीर्थ में स्नान करने की ओर गीभाग्येश्वर का दर्शन करने मनुष्य ममस्त पापों में मुक्त होकर परम सोभाय को प्राप्त होता है ॥१॥ धृत तीर्थ में स्नान करने मनुष्य पुन से ही शिव का स्नपन करावे । इसके धनभर धनि में पुन का स्नान करे तो वह रुद्रलोक में प्रविष्टित होता है ॥२॥ गुर कीर अगुरो के द्वारा मन्दित योगेश्वरी देवी की अर्चना करके मनुष्य ममो पापों से छुटकारा पाकर परम योग को प्राप्त किया करता है ॥३॥ मत्तापरी में मनुष्य स्नान करके सब पापों में रहित हो जाता है और धन-धान्य में समृद्ध होकर निर्मल कुल में समुत्पन्न होता है ॥४॥ चतुर्दशी तिथि में शुद्धोदक में मनुष्य मुक्त के लिए ही स्नान करना होता है । फिर सुरेश्वर शिव का दर्शन करने भोजन की मति करना ही श्रेयस करना है ॥५॥ एक समय विनारी ॥ अग्निष्ठ तीर्थ को ब्रह्मराजना कीर विजुा इन नाम में विद्यात है जो कि ब्रह्म हत्या का विमोचन करने वाला है ॥६॥ दे भगव । पहिले नेत्र सुन में एक गुरोय नामक द्विज वा । उगता विद्या-भगु नामक पुत्र समुत्पन्न हुआ था ॥७॥

यवक्रीतस्य शापेन स पिता तेन घातितः ।
 ब्रह्महत्यान्वितो व्यास! तीर्थात्तीर्थं परिभ्रमन् ॥८
 तीर्थं किं पुनके स्नात्वा घारातीर्थं गतो द्विजः ।
 ततः कपिलघारायां चिन्तयित्वाऽऽत्मना स्वयम् ॥९
 कथं मे ब्रह्महत्याया यायात्पापं प्रशान्तिताम् ।
 एवं हि चिन्तयन् सोऽथ पुनरायादवन्तिकाम् ॥१०
 अत्र तीर्थं पुनः स्नाति यावद्द्वारिणीं ततोऽभृणोत् ।
 किंपुनर्ध्यायसे ब्रह्मन् येन स्नातो द्विजोत्तमः ॥११
 नतंस्ति ब्रह्महत्यायां तीर्थं स्नानेननाशिता ।
 गच्छशीघ्रं गृहं विप्र! पापहीनोययासुखम् ॥१२
 पुनरन्यं प्रवक्ष्यामि पत्तनेश्वरमुत्तमम् ।
 तत्रस्थित्वा महेशेन पुनःपत्तनमीक्षितम् ॥१३
 पत्तनेश्वरहत्याख्यो देवदेवोमहेश्वरः ।
 यस्तुगन्धश्चपुष्पंश्च घूर्पदीपमंनोरमैः ॥१४

१ यव क्रीत के शाप से उरुने उस पिता को मार डाला था । हे व्यास !
 वह फिर ब्रह्म हत्या से मुक्त होकर तीर्थ से तीर्थ में परिभ्रमण करता था
 ॥८॥ उस द्विज ने किंपुनक तीर्थ में स्नान किया था, फिर धरा तीर्थ में
 चला गया था, फिर कपिलवारा में उसने स्वयं ही अपने पाप, चिन्तन
 किया था ॥९॥ मेरी ब्रह्म हत्या का पाप कैसे शान्ति को प्राप्त होवे । इस
 तरह से चिन्तन करता हुआ वह पुनः, अबन्ती पुरी में आ गया था ॥१०॥
 इस तीर्थ में जब वह पुनः स्नान करता है तो उसने धारिणी का अभण
 किया था । हे ब्रह्मन् ! किंपुनः का ध्यान करो । द्विजोत्तम जिसके द्वारा
 स्नान किये हुए हो ॥११॥ तुम्हें अब ब्रह्म हत्या नहीं रहो है क्योंकि वह
 उस तीर्थ के स्नान से नष्ट होगई है । हे विप्र ! अब सुखपूर्वक घर जाओ
 क्योंकि तुम शाप से हीन हो गये हो, ॥१२॥ जाये फिर, उत्तम, एक अन्य
 पत्तनेश्वर को बतलाता है । - वहाँ पर स्थित हाकर महेश ने पुनः पत्तन
 को देखा था ॥१३॥ वह महेश्वर देवों के भी देव पत्तनेश्वर, इस नाम

बाले थे जिसको मन्ध-पुष्प और सुन्दर धूप तथा दीपों से पूजना चाहिए

॥१४॥

भावयुक्तो नरो व्यास! पूजयेद्विधिवत्सदा ।

यथावसिष्ठतेलिङ्गं वंशच्छेदीनजायते ॥१५

हंसयुक्तं नयानेन शिवलोकं संगच्छति ।

तथान्पत्संप्रवक्ष्यामि तीर्थं त्रैलोक्यविश्रुतम् ॥१६

दुर्धं पंमिति विख्यातं ब्रह्माहृत्याविमोचनम् ।

पुरा दिवाकरो व्यास! चक्रुः दुर्धं पंनामतः ॥१७

तीर्थं मस्मिन्नदीतीरे विख्यातं सूर्यसंस्कृतम् ।

तैजःपुञ्जोऽभवत्सिलिङ्गं गणगन्धर्वं पूजितम् ॥१८

सप्तम्यामथवाष्टम्यासंक्रान्तौ रविवासरे ।

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा सुप्ररात्रमुपोषितः ॥१९

दृष्ट्वा महेश्वरं तत्र शिप्राकूले व्यवस्थितम् ।

पूजयित्वा तु भावेन यत्फलं तच्छुण्वमे ॥२०

पितृमातृकुलसर्वं समुद्धृत्य शिवं व्रजेत् ।

तत्र यच्छ्रुतिमोक्षानं गाहेमादिविशेषतः ॥२१

हे व्यास ! भक्तिभाव से युक्त सदा मनुष्य विधिपूर्वक पूजन करे ।

सिगं पथावत् स्थित है और भ्रवंक का वंशच्छेद नहीं होता है ॥१५॥

फिर यह हंस से युक्त धान के द्वारा शिवलोक को चला जाता करता है ।

अथ एक और तीर्थ को कहूँगा जो कि त्रैलोक्य में प्रसिद्ध है ॥१६॥ यह

तीर्थ दुर्धपं नाम से विख्यात है और यह भी ब्रह्मा हृत्या के पाप से छुड़ाने

वाला है । हे व्यास ! पहिले दिवाकर ने इसका दुर्धप नाम किया था

॥१७॥ इस नदी में यह तीर्थ सूर्य के द्वारा संस्कृत होता हुआ विख्यात

है । गन्धर्वों के गणों द्वारा पूजित यह तैज तैज का पुञ्ज हो गया था

॥१८॥ सप्तमी या अष्टमी तिथि में संक्रान्ति थे—रविवार में वहाँ स्नान

करके शुद्ध होकर तीन रात्रि तक उपोषित रहे ॥१९॥ वहाँ पर शिप्रा

के तट पर व्यवस्थित महेश्वर का दर्शन करे और भावपूर्वक पूजा करे ।

इसका जो फल होता है यह मुझसे पचण करो ॥२०॥ मात्रा और पिता

के सम्पूर्ण कुनों का उद्धार करके वह अन्त में दिवलोक में गमन किया करता है । वहाँ पर जो भी श्रीर सुवर्ण आदि का विशेष रूप से ज्ञान दिया करता है ॥२१॥

तावत्तददयंलोके यावच्चन्द्रदिव्याकरो ।

तयान्यत्संप्रवक्ष्यामि गोपीन्द्र तीर्थं मुत्तमम् ॥२२

गौतमेनपुरायत्र इन्द्रःशापाद्भ्रूगीकृतः ।

भगव्रीडाद्युत सक्रः प्रविश्य वनमुत्तमम् । २३

वतोपयत्तदोश्रेण तपसा शङ्करम्पुरा ।

तुष्टेन शम्भुना विप्र! ये भगास्तच्छरीरगाः ॥२४

गोसहस्रीकृतास्तेन गोपीन्द्रमिति कथ्यते ।

तत्र स्नात्वा दिवं याति शकनुह्यपराक्रमः ॥२५

येमृतास्तेपुनर्जन्मनाप्नुयन्तिमहीतले ।

गङ्गातीर्थं नरःस्नात्वापुण्यं प्राप्नोतिपुष्कलम् ॥२६

ज्येष्ठशुक्लदशम्यान्तु गङ्गायाःफलमादिशेत् ।

गङ्गातीर्थं नरः स्नात्वा दृष्ट्वा पुष्कररञ्जकम् ॥२७

पुष्पकेशविमानेन प्रयातिदिविमोदते ।

नरकादुद्धरत्याशु नरः स्नात्वोत्तरेश्वरे ॥२८

समका वह दान सब तक प्रलय रहता है जब तक ये चन्द्र श्रीर सूर्य स्थिर रहा करते हैं । अब एक अन्य उत्तम गोपीन्द्र तीर्थ को बतलाऊँगा ॥२२॥ जहाँ पर प्राचीन समय में भीतम के क्षाप से इन्द्र को भगो बाधा कर दिया था । भगों के चिन्हों से लज्जा से मुक्त होकर इन्द्र ने वन में प्रवेश कर लिया था ॥२३॥ पहिले इन्द्र ने अत्यन्त उग्र तप से भगवार्द्र शम्भु को सन्तुष्ट कर दिया था । हे विप्र ! परम प्रसन्न हुए शम्भु ने जो उसके शरीर में रहने वाले अथ वे उनको एक सहस्र गो कर दिया था जो गोपीन्द्र इस नाम से कहा जाता है । उसमें स्नान करने के इन्द्र के समान पराक्रम वाला होकर दिवलोक को चला जाया करता है ॥२४-२५॥ जो इस मही के तल में मृत हो गये वे फिर दूसरा जन्म प्राप्त नहीं किया करते हैं । गंगा तीर्थ में मनुष्य स्नान करके बहुत अधिक पुण्य की

प्राप्ति किया करता है ॥६॥ ज्येष्ठ मास की दशमी मे गंगा का फल कहते हैं—गंगा तीर्थ मे मनुष्य स्नान करके और पुष्कर रण्डक के दर्शन करे ॥२७॥ वह पुष्पक विमान के द्वारा दिवलोक मे चला जाता है और महान् प्रसन्न होता है । उत्तरेश्वर मे मनुष्य स्नान करके शीघ्र ही नरक से उदार प्राप्त करता है ॥२८॥

इष्टभोगसमापन्नो यातिस्वर्गं न संशयः ।

भूतेश्वरे नरः स्नात्वा भूतेश्वरमथार्चयेत् ॥२९

गन्धपुष्पादिनेवेद्यंमृतः सुरपुरं व्रजेत् ।

शिप्राया तु नरः स्नात्वा कैलासं तु नमस्यति ॥३०

सूर्याहतं तमोयद्वत्तद्वत्पापं प्रणश्यति ।

अम्बालिकाचया पश्येत् समाधिनियमेन च ॥३१

समुक्ता सर्वपापेभ्यः कञ्चुकेनफणीयथा ।

घण्टेश्वरं प्रवक्ष्यामि यत्सुरैरपि पूजितम् ॥३२

यत्र रूपोदकम्भीरवा सौभाग्यमतुलं लभेत् ।

अर्चयेद्यत्सुदेवेश गन्धपुष्पैरनुकृमात् ॥३३

शिवलोके वसेत्तावद्यावदिन्द्राश्च नुदता ।

पुण्येश्वर तु यः पश्येच्छुचिः स्नातो जितेन्द्रियः ॥३४

स गणपत्यमाप्नोति यत्सुरैरपि दुर्लभम् ।

सुम्पेश्वरे नरः स्नात्वा समभ्यर्च्यं गह्वरम् ॥३५

यभीष्ट भोगों से मुक्तमन्न होता हुआ स्वर्ग को चला गया करता है—इसमें शेषमात्र भी संशय नहीं है । मनुष्य भूतेश्वर में स्नान करके इसके उपरान्त भगवान् भूतेश्वर की धरणा करे और वह पूजा गन्ध पुष्पादि नैवेद्य के द्वारा करनी चाहिए । ऐसा मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके सुरपुर में गमन किया करता है । मनुष्य शिप्रा में स्नान करके कैलास को नमस्कार करता है ॥६-३०॥ जिस तरह से मूर्त से तम आहत होता है उसी भाँति उतावा पाप नष्ट हो जाता करता है । जो मर्त्याधि के नियम मे अम्बालिका का दर्शन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है जैसे सर्प अपनी बँधुने से मुक्त हो जाता है । जब भूतेश्वर के

विषय में वरुण कहूंगा जिसकी सुरों ने भी पूजित किया है ॥३१-३२॥
 जहाँ पर कूद का जल पीकर अतुल सीभाग्य को प्राप्त करना है जो गन्ध-
 और पुष्पों के द्वारा अनुक्रम से देवेश की अर्चना किया करता है ॥३३॥
 वह उम समय तक शिव लोक में वास करता है जब तक चौदह इन्द्र
 हुआ करते हैं । जा शुचि होकर पुण्येश्वर का दर्शन किया करता है और
 इन्द्रियों को जोतकर वहाँ स्नान करता है वह गणपत्य के पद को प्राप्त
 करता है जो कि सुरों को भी बहुत ही दुर्लभ होता है । लुम्बेश्वर तीर्थ
 में मनुष्य स्नान करके महेश्वर भगवान् का अर्घ्यार्चना किया करता है
 ॥३४-३५॥

नयातिनरकंमर्त्यः स्वर्ग लोकेमहोयते ।

तथान्यत्संप्रवक्ष्यामि यत्सुरैरपिटुलंभम् ॥३६

पूजितं ब्रह्मणा पूर्वं स्थविरार्यं विनायकम् ।

तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा पूजयेद्यो विनायकम् ॥३७

गन्धधूपैश्च पुष्पैश्च भक्ष्यैर्भोज्यैः फलं शृणु ।

समीहिता भवेत्सिद्धिमृतः शिवपुरं व्रजेत् ॥३८

नवनद्याः समीपे तु पार्वतीम्पूजयेद्वयुधः ।

गन्धपुष्पैश्च धूपैश्च सीभाग्यमतुलं लभेत् ॥३९

कामोदके नरः स्नात्वा दृष्ट्वा कामं रतिप्रियम् ।

स्वर्गं च देवगन्धर्वैः सह जीयवपुर्भवेत् ॥४०

प्रयागेतु नरः स्नात्वा प्रयागेशंतु पश्यति ।

सर्वलोकानतिक्रम्य शिवलोकेमहोयते ॥४१

वह मनुष्य कभी भी नरकों में नहीं जाता करता है और स्वर्गलोक
 में महिमाविश्व हुआ करता है तथा अन्य भी ब्रह्माज्ञान जो कि देवों को
 भी परम दुर्लभ है ॥३६॥ प्राचीन समय ब्रह्माजी ने स्थविर नाम वाले
 विनायक की पूजा की थी । वहाँ पर स्नान करके पवित्र होकर जो विना-
 यक की पूजा किया करता है ॥३७॥ यह पूजा गन्ध से—पुष्पों तथा
 भक्ष्य-भोज्यों के द्वारा किया करता है अथवा पुण्य पत्र धरालु करे ।
 उनको फल ही मिले ही है और शृंग होकर वह शिवपुर को गमन

किया करता है ॥३८॥ बुध पुष्य को भव नदी के समीप मे पार्वती देवी को पूजा करनी चाहिये और गन्ध पुष्पों तथा घूप से अर्चना करे तो वह प्रतुल सोभाग्य का लक्ष्य प्राप्त करता है ॥३९॥ कामोदक तीर्थ में मनुष्य स्नान करके घोर रति प्रिय काम का दर्शन करे तो वह स्वर्ग मे देवों और गन्धर्वों के द्वारा स्पृहा करने के योग्य वपु वाला हो जाया करता है ॥४०॥ प्रयाग मे मनुष्य स्नान करके जो प्रयागेश के दर्शन करता है वह सभी लोकों का अतिक्रमण करके शिव लोक मे प्रतिष्ठित हुमा करता है ॥४१॥

६७—प्रतिकल्पाभिधानवर्णन

शृणुष्यावंहितोव्यास कथामेकाग्रमानसः ।
 मयाव्यासमुखात्प्राप्ताकल्पभेदेकथाशुभा ॥१॥
 गृह्याद्गुह्यतराश्रेष्ठादेयायस्यनकस्यचित् ।
 नास्तिकायकृताघ्नायनाशिष्यायकदाचन ॥२॥
 एपापुण्यतमाव्यास! कथापापहरापरा ।
 यस्याःश्रवणमात्रेण कल्पदोषो न बांधते ॥३॥
 प्रमाणं कल्पपर्यन्तं ब्रह्मण परमेष्ठिनः ।
 मन्वन्तरेषु सर्वेषु कल्पकलान्तरेषु च ॥४॥
 यावत्सङ्ख्या परिमिता तावती शृणु सत्तम ! ।
 अहोरात्रं विभजसे मूर्ध्नि भानुपदैःपदम् (मानुपदैवतम्) ॥५॥
 तामुपादाय गणनां शृणु सङ्ख्यां द्विजोत्तम ।
 निमिषैःपरुचदशभिः काष्ठास्त्रिंशत्सु ताःकलाः ॥६॥
 त्रिंशत्कलो मुहूर्तस्तु त्रिंशद्भिस्तमनीषिणः ।
 अहोरात्रमिति प्राहुश्चन्द्रादित्यगतिस्तथा ॥७॥

महापि मनस्कुमार जो ने कहा—हे व्यास ! मन को एकाग्र करके परम सावधान होकर एक कथा का धरण करो ! कल्प के भेद में यह शुभ कथा मैंने भी व्यास के मुख से प्राप्त की थी । यह कथा परम गोप-

नीय से भी अधिक गोपनीय है जिस किसी को इसे नहीं देना चाहिए । जो नास्तिक हो—कृतघ्न हो और शिष्य न हो उसे तो इसे कभी भी नहीं देना चाहिये ॥१-२॥ हे ध्यास ! यह परम पुण्यतमा है और यह क्या परम पापों के हरण करने वाली है । जिसके केवल ध्यान कर लेने ही से कल्प का दोष बाधा नहीं दिया करता है ॥३॥ परमेश्वी ब्रह्माजी का सभी मन्वन्तरो में और कल्प कल्पान्तरो में कल्प पर्यन्त प्रमाण होगा है ॥४॥ हे श्रेष्ठतम ! जितनी संस्था परिमित है उतनी का तुम ध्यान करो । सूर्य भानुपदों के द्वारा पद की महोरात्रों के द्वारा विभाजन किया करता है । पद मनुष्यों का और देवों का होता है ॥५॥ हे द्विजोत्तम ! उसी गणना का ग्रहण करके सप्तरात्रों को सुनी । पंद्रह निमिषों की कण्ठ है और तीस षोडशों की एक कला होती है । तीस कला का मुहूर्त होता है और मनीषी का तीस मुहूर्तों का एक महोरात्र होना है तथा चन्द्र की और आदित्य की गति कही जाती है ॥६-७॥

रवेर्मतिविशेषेण सर्वेष्वेतेपुनित्यशः ।

तदहस्तु मनुस्याणा रात्रिश्चैकतुतादृशी ॥८

पक्षामासाश्चतुरब्दमयनच प्रकीर्तितम् ।

पितृणाञ्चैव देवाना ब्रह्मणश्च यथातथम् ॥९

यावत्सङ्ख्या समाख्याता आयुरन्तश्च तादृशः ।

अहोरात्राः पञ्चदश पक्ष इत्यभिशाब्दितः ॥१०

पक्षौ द्वौ तीकृतोमासो मासीद्वावृत्तुश्च्यते ।

अयनतस्त्रिभिः प्रोक्तमब्देद्दे प्रयनेस्मृतः ॥११

दक्षिणं चोत्तरञ्चैव सङ्ख्यातत्त्वविशारदः ।

मानेनानेनयोमासः पक्षद्वयसमन्वितः ॥१२

पितृणातदहोरात्रमितिकालविदोविदुः ।

शुक्लपक्षस्त्वहस्तेषा कृष्णपक्षस्तु शर्वरी ॥१३

कृष्णपक्षेत्त्रिहत्याद्धं पितृणावर्तते ततः ।

मानुष्यणतुमानेन योर्वसवत्सरस्मृतः ॥१४

इन सभी में नित्य ही विशेष रूप से रवि की शक्ति होती है । मनुष्यों को वह दिन है और वही ही रात्रि है ॥८॥ पक्ष—मास—ऋतु—उत्तर और अयन कहे गये हैं । ये पितृ गणों के—देवों के और ब्रह्मा के प्रयोजित रूप से हुआ करते हैं ॥९॥ जितनी संख्या कही गई है और वही ही आयु का अन्त होता है । पन्द्रह अहोरात्र ही पक्ष इस शब्द से कहा गया है ॥१०॥ दो शब्दों का एक मास होता है और दो मासों का एक ऋतु हुआ करता है । तीन ऋतुओं का एक अयन होता है और वर्ष में दो अयन (दक्षिणायन—उत्तरायण) होते हैं ॥११॥ संख्या के तत्त्व पण्डितों ने दक्षिण और उत्तर कहा है । इस मान से जो मास होता है वह दो पक्षों से युक्त हुआ करता है ॥१२॥ पितृगण का वह एक महोरात्र है—ऐसा ही काम के वेत्ता कहते हैं । जो शुक्ल पक्ष है वह दिन कहा गया है तथा कृष्ण पक्ष पितृगणों की रात्रि हुआ करती है ॥१३॥ यहाँ पर कृष्ण पक्ष में पितृगणों के आश्रय होते हैं जो मनुष्यों के मान से एक सम्बन्ध ही कहा गया है ॥१४॥

देवानां तदहोरात्रं दिवाचैघोत्तरायणम् ।

दक्षिणायनं स्मृतं रात्रिःप्राज्ञैस्तत्वार्षकोविदेः ॥१५॥

दिव्यमब्दं शतगुणमहोरात्रं मनोःस्मृतम् ।

अहोरात्रं दशगुणं मानवः पक्षउच्यते ॥१६॥

पक्षाद्दशगुणो मासो मासैर्दशभिर्गुणैः ।

ऋतुर्मानसम्प्रोक्तः प्राज्ञैस्तत्स्वातंर्दशभिः ॥१७॥

षड्भिस्तैर्वर्षं आरूपात्स्तेन सङ्ख्या निबध्यते ।

अत्यायैव सहस्राणि वर्षाणान्तु कृतं युगम् ॥१८॥

तावतीतु भवेत्सन्ध्या सन्ध्यांशश्चतयाविधः ।

श्रीणि वर्षेसहस्राणि त्रेतायाः परिमाणतः ॥१९॥

तस्याश्चतावतीसन्ध्या सन्ध्यांशश्चतयाविधः ।

तथा वर्षं सहस्रं द्वे द्वापरं परिकीर्तितम् ॥२०॥

सस्यापि तावती सन्ध्या सन्ध्यांशश्चतयाविधः ।

कलिवर्षं सहस्रान्तु सङ्ख्यातोऽत्र मनोपिभिः ॥२१॥

तस्य तावतिका सन्ध्या सन्ध्यांशश्चतथाविधः ।

एपाद्वादशसाहस्री युगसंख्या प्रकीर्तिता ॥२२

देवों का वही एक अहोरात्र होता है । देवों का जो उत्तरारण है वही दिन होता है और दक्षिणायन को रात्रि तत्वायं के कोविदो प्राज्ञों ने कहा है ॥१५॥ दश गुण दिव्य शब्द (वर्ष) मनु के एक अहोरात्र होते हैं । दश गुना अहोरात्र मनु का पक्ष कहा जाया करता है । पक्ष से दश गुना मास होता है । द्वादश मासों के गुणों से मनुष्यों का ऋतु कहा गया है । ऐसा तरवों के ज्ञाता प्राज्ञ लोगों के द्वारा ही बतलाया जाता है ॥१६-१७॥ उन छे ऋतुओं से एक वर्ष कहलाया है उससे ही सख्या को निबद्ध किया जाता है । चार हजार वर्षों का कृत्तयुग (सत्ययुग) होता है ॥१८॥ उसनी ही उस युग की सन्ध्या होती है और उसी प्रकार का सन्ध्यांश होता है । परिमाण से तीन सहस्र वर्ष प्रेता के होते हैं ॥१९॥ उसकी भी उसनी ही सन्ध्या और उसी तरह का सन्ध्यांश हुआ करता है । दो सहस्र वर्ष का द्वापर युग कहा गया है ॥२०॥ उसकी भी उसनी ही सन्ध्या और वंसा ही सन्ध्यांश भी होता है । कलियुग का परिमाण एक ही सहस्र वर्ष की सख्या वाला मनीषियो ने कहा है ॥२१॥ उसकी भी उसनी सख्या और वंसा ही सन्ध्यांश हुआ करता है । यह बारह सहस्रों को युगों की सख्या कही गई है ॥२२॥

द्विज्येनानेनमानेन युगमंख्या निबोधने ।

ससर्जसपुनस्तात जगत्सर्वमिदंततम् ॥२३

श्रुतं त्रेताद्वापरञ्च कलिञ्चैव चतुर्युगम् ।

युगं तदेकसप्तत्या गुणितं द्विजसत्तमम् ॥२४

मन्वन्तरमितिप्रोक्तं स ख्यानार्थं विशारदः ।

अयनं चापि तत्प्रोक्तं द्वययनेदक्षिणोत्तरे ॥२५

मनुःप्रलीयतेह्यत्र सम्प्राप्ते जगतःप्रभो ।

ततोपरोमनुःकालमेतावन्तं भवत्युत ॥२६

समतीतेतुराजेन्द्र! प्रोक्तस्संवत्सरस्सर्वं ।

तदेवचायनंप्रोक्तं मुनिनातत्त्वदर्शिना ॥२७

ब्रह्मणस्तदहःप्रोक्तः कल्पश्चेति समुच्यते ।

सहस्रयुगपर्यन्तं सानिशाप्रोच्यतेबुधैः ॥२८

इस तरह से मुझसे आप इस दिव्य मान से युगों की सख्या को समझ लो । हे तात ! फिर उसने इस विस्तृत सम्पूर्ण जगत का सृजन किया था ॥२३॥ कृतयुग-त्रैता-द्वापर और कलियुग ये चार युग हैं । इन चारों युगों को इकट्ठतर चौकड़ी गुणित होकर द्विजसत्ताम मन्वन्तर कहा गया है और यह संख्या के विचारको ने गणना की है । दक्षिण धीरे उत्तर दो अयन भी कहे गये हैं ॥२४-२५॥ हे प्रभो ! इस जगत् के समाप्त होने पर मनु का लय हो जाया करता है । इसके अनन्तर फिर इतने ही काल तक दूसरा मनु हुआ करता है ॥२६॥ हे राजेन्द्र ! समतीत होने पर वही सम्बन्तर कहा गया है और वही भयन तत्वों के वर्षों मनु ने बताया है । ब्रह्मा का वह एक दिन कहा गया है और वह कल्प भी कहा गया करता है । बुधों के द्वारा एक सहस्र युग पर्यन्त वह निशा (रात्रि) कही जाती है ॥२७-२८॥

निमज्जत्यथ तत्रोर्वी सश्लवनकानना ।

तस्मिन् युगसहस्रे तु पूर्णे भरतसत्ताम ॥२९

ब्राह्मे दिवसपर्यन्त कल्पो निशेष उच्यते ।

युगानि समतीतानि साग्राणि कथितानि ते ॥३०

कृतत्रैतानियुक्तानि मनोरन्तरमुच्यते ।

चतुर्दशैतेमनव कथिता कीर्तिवद्धनाः ॥३१

वेदेषु स पुराणेषु सर्वेषु प्रभविष्णवः ।

प्रजानाम्पतयोव्यास धन्यमेपाप्रकीर्तितम् ॥३२

मन्वन्तरेषु सहाराः सहारान्तेषु सम्भवाः ।

नशक्यमन्तस्तेषां वै वक्नुवपशतैरपि ॥३३

विसर्गश्च प्रजानां सहारस्यच भारत ! ।

मन्वन्तरेषु सहारः श्रूयते भरतर्षभ ॥३४

यत्र तिष्ठन्तिवैदेवाः सर्वेसप्तपिभिस्सह ।

तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेनच समन्विताः ॥३५

हे भरत सत्तम ! उग एक हजार युगों के पूर्ण हो जाने पर पहाड़ घोर वन एवं जाननों से युक्त यह पृथ्वी उग समय में निमज्जित हो जाया करती है ॥२६॥ ब्रह्मा में दिवस पर्यन्त में ही एक कल्प पूरा हो जाया करता है । अथ के महित समस्त युगों को मैंने तुम्हें बताया दिया है ॥३०॥ इन घोर त्रेता युग में नियुक्त मनु का अन्तर कहा जाता है । वे मनु चौदह वीति की वृद्धि करने वाले बताये गये हैं ॥३१॥ हे व्यास ! यह वेदों में घोर समस्त पुराणों में प्रमद्विष्णु प्रजापति के प्रति हैं जिनका होना बहुत ही धन्य वीतिन किया गया है ॥३२॥ मन्वन्तरो में सहार हाते हैं और सहारो के अन्त में जन्म अर्थात् उत्पत्तियाँ हैं । उनका अन्त ही वर्षों में भी कहा नहीं जा सकता है ॥३३॥ हे भारत ! प्रजापति का दिसग और सहार का वर्णन नहीं किया जा सकता है । हे भरत के वश में परम श्रेष्ठ ! मन्वन्तरो में सहार सुना जाता है ॥३४॥ जिसमें सप्तपियों के सहित समस्त देववृन्द तब से, ब्रह्मचर्य के घोर धर्म से समन्वित होते हुए स्थित रहा करते हैं ॥३५॥

पूर्णे युगमहस्रे तु कल्पो निश्शेष उच्यते ।

तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्यरश्मिभि ॥३६

ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहादित्यगणद्विजा ।

प्रविगन्तिसुरश्रेष्ठ हरिनारायण प्रभुम् ॥३७

स स्रष्टामर्वभूताना कल्पान्तेषु पुन पुन ।

अव्यक्तशाश्वतोदेवस्तस्यमवमिञ्जगत् ॥३८

स एव विद्यतेव्यास महेशविधिसयुत ।

महाकालवनेरम्ये वासचक्रे स ईश्वर ॥३९

प्रलयोन्बाधते व्यास महाकालवनोत्तमे ।

कल्पेकल्पेचवैरम्या पुरीह्येषाकुशस्थली ॥४०

निरामया निरातङ्का निविकारा युगे युगे ।

मार्कण्डेयोपादिष्टानि कल्पानि सम्भवन्ति च ॥४१

अत्रैवचवनेरम्ये ब्रह्मा लोकपितामहः ।

प्रजाना पतयो ये ते दक्षप्राचेतसस्तथा ॥४२

एक सहस्र युगो के पूर्ण हो जाने पर एक पूर्ण कल्प कहा जाता है । उसमें सूर्य की तीव्रतम किरणों से सब भूत दग्ध हो जाया करते हैं ॥३६॥ द्विजगण देवगणों के साथ ब्रह्माजी को आगे करके सुरों में परम श्रेष्ठ प्रभु हरि नारायण में प्रवेश किया करते हैं ॥३७॥ कल्पों के अन्त समयों में समस्त भूतों का धारम्बार सृजन करने वाला यही है । वह देव अत्यक्त व नाश्वत है और उसी का यह संपूर्ण जगत् है ॥३८॥ हे व्यास ! महेश और विधाता से समन्वित वह ही विद्यमान रहा करता है । वह ईश्वर परम रम्य महाकाल वन में नियाम किया करता था ॥३९॥ हे व्यास ! परमोत्तम महाकाल वन में प्रलय की कोई बाधा नहीं हुआ करती है । यह कुशस्थली सुरम्य पुरी कल्प-कल्प में अतीव सुन्दर हो जाती है ॥४०॥ युग-युग में यह पुरी भ्रामय (पीडा) से रहित, आतङ्क (भय) से हीन और विकारों से धून्व्य होती है । मार्कण्डेय ऋषि के द्वारा उपदिष्ट कल्प हुआ करते हैं ॥४१॥ इस परम सुरम्य वन में लोको के पितामह ब्रह्माजी तथा दक्ष और प्राचेतस जो प्रजाओं के पति हुए थे ॥४२॥

मरीचिः कश्यपोरुद्रोयेचाम्ये भार्गवादयः ।

कल्पादीसृजतेल्लोकाञ्चराचरान्यथातथा ॥४३

एवमादौ पुराव्यास कल्पं कल्पान्तकंसदा ।

वाराहोवामनोविष्णुः पितृणां वं तर्थावच ॥४४

कल्पभेदास्समाख्याता महाकालवनेशुभे ।

चतुराशीतिकल्पानिसञ्जातानिद्विजोत्तम ॥४५

तावन्ति ज्योतिर्लिङ्गानि वने निष्ठन्ति सत्तम !

पुनर्जाता पुनर्नष्टा महीसागरपर्वताः ॥४६

पुनः पुनर्भविष्यन्तिह्येपाञ्चलास्मृता ।

तस्मात्सर्वेषुकालेषु सर्वलोकेषु गीयते ॥४७

प्रतिकल्पेति सञ्ज्ञा सा भुवि व्यास ! भविष्यति ।

यस्याञ्च मानवा दान्ताः स्नानदानादिकं तथा ॥४८

हे भरत सत्तम ! उस एक हजार युगों के पूर्ण हो जाने पर पहाड़ और वन एवं काननो से युक्त यह पृथ्वी उस समय में निमज्जिन हो जाया करती है ॥२१॥ ब्राह्म में दिवस पर्यन्त में ही एक कल्प पूर्ण हो जाया करता है । अथ के सहित समतीत युगों को मैंने तुम्हें बतना दिया है ॥३०॥ कृत्त और त्रेता युग में नियुक्त मनु का अन्तर कहा जाता है । वे मनु चोदह कीर्ति की वृद्धि करने वाले बताये गये हैं ॥३१॥ हे व्यास ! यह वेदों में और समस्त पुराणों में प्रभविष्णु प्रजापति के पति हैं जिनका होना बहुत ही धन्य कीर्तित किया गया है ॥३२॥ मन्वन्तरो में संहार होते हैं और संहारों के अन्त में जन्म अर्थात् उत्पत्तियाँ हैं । उनका अन्त सौ वर्षों में भी कहा नहीं जा सकता है ॥३३॥ हे भारत ! प्रजापति का द्विसग और संहार का वर्णन नहीं किया जा सकता है । हे भरत के वंश में परम श्रेष्ठ ! मन्वन्तरो में संहार सुना जाता है ॥३४॥ जिसमें सप्तपिण्डों के सहित समस्त देववृन्द तप से, ब्रह्मचर्य से और धृत से समन्वित होते हुए स्थित रहा करते हैं ॥३५॥

पूर्ण युगसहस्रे तु कल्पो निश्शेष उच्यते ।

तत्र सर्वाणि भूतानि दग्धान्यादित्यरश्मिभिः ॥३६

ब्रह्माणभग्रतः कृत्वा सहादित्यगणद्विजाः ।

प्रविशन्तिसुरश्रेष्ठं हरिनारायणं प्रभुम् ॥३७

स स्रष्टासर्वभूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः ।

अव्यक्तःशाश्वतोदेवस्तस्यसर्वमिदञ्जगत् ॥३८

स एव विद्यतेव्याम महेशविधिसंयुतः ।

महाकालवनेरम्ये वासंचक्रे स ईश्वरः ॥३९

प्रलयोनद्याघते व्यास! महाकालवनोत्तमे ।

कल्पेकल्पेचवैरम्या पुरीह्येपाकुशग्रथली ॥४०

निरामया निरातङ्गा निर्विकारा युगे युगे ।

सार्कण्डेयोपदिष्टानि कल्पानि सम्भवन्ति ध ॥४१

अत्रैवचवनेरम्ये ब्रह्मा लोकपितामहः ।

प्रजानां पतयो ये ते दक्षःप्राचेतसस्तथा ॥४२

एक महत्त्व युगो के पूर्ण हो जाने पर एक पूर्ण कल्प कहा जाता है ।
उसमे सूर्य की तोषणम किरणो से सब मृत दग्ध हो जाया करते हैं
॥३६॥ द्विब्रह्म देवगणो के साथ ब्रह्माजी को आगे करके सुरो मे परम
श्रेष्ठ प्रभु हरि नारायण मे प्रवेश विद्या करते हैं ॥३७॥ मत्स्यो के भक्त
समर्थो मे समस्त मृतो का वारम्बार सृजन करने वाला यही है । वह देव
दग्धक व शाश्वत है और उसी का यह संपूर्ण जगत् है ॥३८॥ है व्यास ।
महेश पौर विधाता से समन्वित वह ही विद्यमान रहा करता है । वह
ईश्वर परम रम्य महाकाल वन मे निवास किया करता था
॥३९॥ है व्यास ! परमोत्तम महाकाल वन मे प्रलय की कोई बाधा नहीं
हुया करती है । यह ब्रुहस्पती सुरम्भ पुरी कल्प-कल्प मे प्रतीव सुन्दर
हो जाती है ॥४०॥ युग-युग मे यह पुरी भ्रामय (बीजा) से रहित,
आतङ्क (भय) से हीन और विकारों से शुद्ध होती है । मार्गण्डेय ऋषि
के द्वारा उपदिष्ट कल्प हुमा करते हैं ॥४१॥ इस परम सुरम्भ वन मे
लोको के पितामह ब्रह्माजी तथा ब्रह्म और प्राचेतस जी प्रजाओ के पति
हुए थे ॥४२॥

मरीचि. कश्यपोरुद्रोयैश्चाभ्ये भागवादायः ।

कल्पादीसृजतेलोकान्चराचरान्यथातथा ॥४३

एवमादौ पुराव्यास कल्पं कल्पान्तकसदा ।

वाऽहोवामनोविष्णुः पितृणावन्तर्भवत् ॥४४

कल्पभेदास्समाख्याता महाकालवनेषुभे ।

अतु राक्षीतकल्पानिसृज्जातानिद्विजोत्तम ॥४५

तावन्ति ज्योतिर्लिङ्गानि वने निष्ठन्ति सत्तमः ।

पुनर्जन्ता पुनर्नष्टा महीसागरपर्वता ॥४६

पुनः पुनर्मविष्यन्तिह्येपाऽचलास्मृता ।

तस्मात्सर्वेषुकालेषुमर्वलोकेषु यीयते ॥४७

प्रतिकल्पेति सञ्ज्ञा सा भुवि व्यास! भविष्यति ।

यस्याञ्च मानवा दान्ताः स्नानदानादिक तथा ॥४८

महर्षि सनत्कुमारजी ने कहा—इस प्रकार से हे व्यास ! सनातनी नाम होने वाली रम्यपुरी जो हे धनम ! युग-युग में जैसी हुई थी उसी प्रकार की मैंने बतलावो है ॥१॥ व्यासजी ने कहा—हे वेदों के वेताओं में परम श्रेष्ठ ! मैं पुनरपि आप में श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ जो कि शिप्रा नदी की परम पुण्यमयी—अत्यन्त पवित्र और पापों के हरण करने वाली कथा है ॥२॥ आपने एक सुन्दर कुण्ड बतलाया था तथा पिशाच मोचन कहा था । आपने नील गङ्गा कही थी और इसके आगे परम कर्क राज वर्णित किया था । सब पुष्कर और अत्युत्तम गया तीर्थ तथा गोमती कुण्ड का वर्णन किया था । उसी प्रकार से धर्मसर नाम का वर्णन किया था ॥३-४॥ संगम से समुत्पन्न तीर्थ ख्यात किया था तथा धनि के शुभ जन्म की कथा का वर्णन किया । ऋषभ ऋषि की जो वार्ता है वह तथा शुभ नागालय में जो वार्ता थी वह बतलाई थी ॥५॥ पुष्योत्तम की महिमा का वर्णन किया । किन्तु किस समय में किस के द्वारा कैसे यह सब हुआ—यहो मैं जानना चाहता हूँ आपके मन में जो भी हो कृपया कहिए ॥६॥

शृणुव्यास ! महाभाग कथापापहरांपराम् ।

यस्मिन्कालेयथा जाता महाकालवनेशुभे ॥७

नास्ति वत्स ! महीपृष्ठे शिप्रायाः सदृशी नदी ।

यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किञ्चिरात्सेवनेन वै ॥८

वैकुण्ठेजायतेशिप्राज्वरधनीचसुरालये ।

यमद्वारेचपापघ्नी पातालेऽमृतसम्भवा ॥९

वाराहकल्पेवंप्रोक्ता विष्णुदेहेतिनामतः ।

शिप्रावन्त्या समाख्याता कामधेनुसमुद्भवा ॥१०

विविधमिदमाख्यातं भगवनृपिसत्तम ! ।

वक्तुमर्हसि शिप्रायाः समासेन कथां शुभाम् ॥११

ब्रह्मकपालमादाय भिक्षार्थं व्यचरन्महीम् ।

महादेवोविशुद्धात्मा सर्वलोकेषुसर्वतः ॥१२

अप्राप्तभिक्षो भिक्षार्थी वैकुण्ठमगमद्विभु ।

गतस्त्वातिथ्यवेलायां भ्रमन्देवो यतस्ततः ॥१३

लोकनिन्दारः क्रुद्धः क्षुधितो बहुवासरं ।

भिक्षां देहीति भोजहान् क्षुधितोऽह समागतः ॥१४

श्री मनसुमारजी ने कहा—हे महाभाग व्यास ! इस पापों के हरण करने वाली परमोत्तम कथा का तुम पत्र धवण करो । यह कथा अत्यन्त पुन महाकाल वन में जिस समय में जिन रीति से हुई थी ॥७॥ हे वत्स ! इस मही मण्डल के पृष्ठ पर शिप्रा के समान अग्न्य कौई भी नदी नहीं है । जिसके तट पर कुद्य हो समीप में रहकर सेवन करने से क्षणमर में ही मृत्ति हो जाया करती है ॥८॥ यह शिप्रा वैकुण्ठ में उत्पन्न होती है और सुरास्य में ज्वरों का हनन करने वाली है । यमराज के द्वार पर पापों का विनाश किया करती है और पाताल में प्रपृत सम्भवा होती है ॥९॥ यह वाराह कल्प में नाम से विष्णुदेहा कही गयी थी और भवती में यह शिप्रा कामधेनु से समुद्रमय वाली बही गई है ॥१०॥ महर्षि व्यासजी ने कहा—हे ऋषि श्रेष्ठ ! हे भगवन् ! यह तो आपने अति अद्भुत बात बतलाई है । अब आप इस शिप्रा नदी की कथा संक्षेप में कहने के माग्य होते हैं ॥११॥ महर्षि मनसुमारजी ने कहा—विशुद्ध आत्मा वाले महादेव प्रभु सब लोकों में सभी और ब्रह्म कथाय को लेकर भिक्षा के लिये मही में विचरण करते थे ॥१२॥ भिक्षार्थी विभु भिक्षा प्राप्त न करने वाले वैकुण्ठ में गये थे । देव जहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए प्रातिपद्य के समय में गये थे ॥१३॥ लोगों की निन्दा में तत्पर बहुत दिनों से भूखे और अत्यन्त क्रुद्ध थे और यही करते थे—हे ब्रह्मन् ! भिक्षा दी, मैं भूखा यहाँ पर आगया हूँ ॥१४॥

कपालचक्रे कृत्वा इत्युवाचिपून.पुनः ।

गृह्यतां हरभिक्षाते ददामीति हरिस्तदा ॥१५

इत्युवाच कारमुद्यम्य तर्जन्यगुलिमदसंयत् ।

तदारद्रसमाध्मातस्त्रिशूलेनाहनद्रुपा ॥१६

तदांगुलिसमुद्भूतं बहुशुश्रावशोणितम् ।

पूर्णपात्रंचतेनाशुशङ्करस्यकरेस्थितम् ॥१७

तदोद्वेलितपात्राद्वेधाराजातासमन्ततः ।

तन्नस्थानात्समुद्भूताशिप्राऽमृग्धारसम्भवा ॥१८

वैकुण्ठाच्चाभवत्सद्यो नदीत्रैलोक्यपावनी ।

एवंशिप्रासरिच्छ्रेष्ठा त्रिपुंलोकेषुविश्रुता ॥१९

उवरधनी च यथा प्रोक्ता तथा व्यास ! व्रवीम्यहम् ।

पदा वाणामुरोदैत्यः कुण्णेन सह संयुगे ॥२०

योधयामास दैत्येन्द्रोऽनिरुद्धकृतहेलनः ।

सहस्रबाहुभिर्वीरो नानाप्रहरणोद्यतः ॥२१

कपाल को हाथ में लेकर बारम्बार यही बोल रहे थे । उस समय में भगवान् हरि ने कहा था—हे हर ! भिक्षा ग्रहण करो । मैं आपको भिक्षा देता हूँ । इतना कहकर हाथ को उद्यत करके तर्जनों अंगुलि प्रदर्शित की थी । उस समय में समाप्तमान उद्भ भगवान् ने क्रोध से त्रिशूल के द्वारा हनन किया था ॥१५-१६॥ उस समय में अंगुलि से समुत्पन्न बहुत—सा रुधिर स्त्रावित हुआ था । उससे भगवान् शङ्कर के हाथ में स्थित पात्र क्षीघ्र पूर्ण हो गया । उस समय में पात्र से उद्वेलित होकर चारों ओर धारा बन गई । वहाँ पर उसी स्थान से रुधिर की धार से समुत्पन्न शिप्रा प्रकट हुई थी ॥१७-१८॥ तुरन्त ही यह नदी वैकुण्ठ से त्रैलोक्य पावनी हो गई । इस प्रकार से यह शिप्रा नदी परम श्रेष्ठ तीनों लोको में प्रसिद्ध हो गयी थी ॥१९॥ हे व्यास ! जिस प्रकार से यह उवरधनी हुई उसे मैं बतलाता हूँ । जिस समय में वाणामुर दैत्य आकृष्ण के साथ रणक्षेत्र में युद्ध कर रहा था । अनिरुद्ध के द्वारा जिसका भ्रवमान हो गया ऐसा वह दैत्यन्द्र बड़ा वीर था और सहस्रो बाहुओं से अनेक आयुधों से समन्वित था ॥२०-२१॥

तस्मात्क्रद्धोवासुदेवः चक्रमादायसत्वरः ।

चिच्छेददोः सहस्रन्क्षुरप्रेणाशुमिगाना ॥२२

सतदाभग्नसंकल्पश्छिन्नदोषचरणादितः ।

युद्धात्पराङ्मुखोभूत्वा शंकरशरणंययौ ॥२३

तदागतंमहादेत्यं समीपेययविह्वलय् ।

विलोक्यकृपयाविष्टो गतः संग्राममूर्द्धनि ॥२४

छित्वाबाहुसहस्रं वै दैत्यराजस्यसंपुगे ।

क्रुद्धः कृष्णोमहाबाहुः परसेनान्तकोवली ॥२५

स्थितोयथाचलोभ्यासगतस्तत्रमहेश्वरः ।

वारयामासकृष्णं वैशरीषांश्चसमाकिरन् ॥२६

अन्योन्यंतीसमासाद्य युद्धं कृत्वाचदारुणम् ।

शास्त्रास्त्रैश्चमहाघोरैः सर्वप्राणिभयंकरैः ॥२७

वैष्णवास्त्रं तदाकृष्णसन्दधेहरत्निघांसया ।

पाशुपतञ्चनामास्त्रसर्वसंहारकारकम् ॥२८

इस कारण से परम क्रोध में भरे हुए बागुदेव ने शीघ्रता से संयुक्त हो ब्रह्म ग्रहण कर सिया और आशुगामी धुरप्र से उसके सहस्र बाहुओं का छेदन कर दिया था ॥२२॥ उस समय में अपने सङ्कल्पों की भग्न कर देने वाला वह कटे हुए बाहुओं वाला और चरणों से भी पीड़ित होता हुआ युद्ध से पराङ्मुख होकर भगवान् शङ्कर की शरणापति में गया था ॥२३॥ उस समय में भय से अत्यन्त विह्वल समीप में समागत महादेव की देखकर कृपा से समाविष्ट होकर संग्राम स्थल में सब से आगे पहुँच गये थे ॥२४॥ युद्ध में दैत्यराज की सहस्र बाहुओं का छेदन करके महाबाहु श्रीकृष्ण शत्रु की सेना का हनन करने वाले बलवान् अधिक क्रोधित हुए थे ॥२५॥ हे व्यास ! श्रीकृष्ण जहाँ पर अब स्थित थे वही पर अचल थे वही पर महेश्वर गये थे । बहुत से शरों के मगूहों को समाकीर्ण करते हुए श्रीकृष्ण का वारित किया था ॥२६॥ उन दोनों ने परस्पर में प्राप्त होकर और परम दारुण युद्ध करके जो कि समस्त प्राणियों के लिये महान् भयङ्कर तथा अत्यन्त घोर शास्त्रास्त्रों से किया गया था ॥२७॥ उस समय में महादेव को मारने की इच्छा से श्रीकृष्ण ने वैष्णवास्त्र

का सन्धान किया और शिव ने सबका संहार कर देने वाला अपना पागु-
पत नाम वाला अस्त्र सेमाला था ॥२८॥

सन्दधेवैतदाशम्भुः कृष्णप्राणहरोत्सुकः ।

हाहाकारस्तदाजातः सर्वलोकेपुश्रूयते ॥२९

मोहनास्त्रं पुनः कृष्णो हरोपरिमुभोचह ।

तेनास्त्रेण तदाशम्भुर्भोहितो देवमायया ॥३०

जृम्माणः स्थितः मंस्ये किञ्चित्कालं मुहुर्मुहुः ।

लब्धसंज्ञः पुनर्जातो यदा रुद्रो महाहवे ॥३१

तदाक्रोधाभिभूतेन कृतो माहेश्वरो ज्वरः ।

ललाटफलकात्सद्यो वीरभद्रो महाबलः ॥३२

त्रिनेत्रस्त्रिनिरोहस्वस्त्रिपादो वकंरकृतिः ।

क्षुद्रो जटिलभस्माङ्गो महाश्याधिदुंरत्ययः ॥३३

कृष्णसेनासमासाद्य महादेवेन प्रेरितः ।

प्राणिनां कदनं चक्रे सर्वेषां कृष्णसङ्गिनाम् ॥३४

परां मुञ्च पराभग्ना ज्वराभिघात पीडिता ।

बभूव सहसा व्यास ! सेना कृष्णेन पालिता ॥३५

उस समय में श्रीकृष्ण के प्राणों का हरण करने के लिये अर्युत्सुक शिव ने उस समय में पागुपत का सन्धान कर लिया था । उस समय में हा हा कार भव गया था जो कि सभी लोको में सुना गया था ॥२९॥ पुनः श्रीकृष्ण ने हर के ऊपर मोहनास्त्र का परिमोचन किया । उस अस्त्र से उस समय में देव माया से अशम्भु मोहिन हो गये थे ॥३०॥ कुछ समय तक युद्ध स्थल में बारम्बार में जैभाई लेते हुए स्थित हो गये थे । उस महा युद्ध में जिस समय में पुनः संज्ञा (होन-हवाम) प्राप्त करने वाले हो गये थे ॥३१॥ उस समय में क्रोध से अभिभूत शिव ने माहेश्वर ज्वर समुत्पन्न किया । ललाट के फलक से तुरन्त महा बलवान् वीरभद्र उत्पन्न हुआ । वह वीरभद्र तीव्र नेत्रों वाला—तीव्र अस्त्रको धारता—छोटा बंद वाला—तीन चरखों से युक्त—वकंर की आकृति वाला—क्षुद्र—जटाधारो—अङ्गों में भस्म लेपन करने वाला—महान्—ध्याधि से समन्वित और

दुरय या ॥३२-३३॥ श्रीकृष्ण की सेना को प्राप्त कर महादेव के द्वारा उसे प्रेरित किया गया था । अपने धीकृष्ण के साथी सब प्राणिप्रा का विनाश किया था ॥३४॥ हे व्यास ! धीकृष्ण के द्वारा पालित सेना सहसा ही पराङ्मुख—परागम—उत्तर के अभिप्राय से पीड़ित हो गई थी ॥३५॥

तयाभूतानमालोऽघजुम्भमाणां रुजादिताम् ।

स्वसेनामग्नसंकल्पामाहेश्वरपीडिताम् ॥३६॥

ससज्वैष्णवंजापं कृष्णः परमकोपनः ।

तेनसहृषंभवस्य माहेश्वरज्वरेणच ॥३७॥

अन्योन्यमभवद्युद्धं घोरंघोरतरंमहत् ।

सप्रायंयहुंरुंरुत्वा भग्नोमाहेश्वरोज्वरः ॥३८॥

सर्वलोकेषु गत्वा ये न दान्ति प्रतिजग्मिरेणु ।

महाकालवने रम्ये प्राप्तस्तेनाभिपीडितः ॥३९॥

निमग्नश्चैवक्षिप्रायां ततःशान्तिपरांगमौ ।

दृष्ट्वामाहेश्वरं शान्तं ज्वरंपरमकोपनम् ॥४०॥

वृष्णयोऽपिसमासाद्य तस्या मज्जनमाचरत् ।

तस्याः प्रभावगन्गो ज्वरो हरिहरोद्भवौ ॥४१॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु ज्वरघ्नी साऽभवत्क्षणाव ।

ज्वराभिभूता ह्यामाद्यजनाः परमदुःखिताः ॥४२॥

निमज्जन्तिचक्षिप्राणां वसन्ति च समाहिनाः ।

नतेपांदाघते पीडाज्वरोद्भूताकदाचन ॥४३॥

सत्यमुक्त तदाभ्याम ब्रह्मन्हरिहरेणच ।

येश्चरन्तिकया दिव्यां नरादचैकाग्रमानसाः ॥

न तेषां जायते किञ्चिज्ज्वरसन्तापजं भयम् ॥४४॥

इत मे अरिउ—जैमाई सेयो हई—यन् सन्त शान्ति-माहेस के ज्वर से पीडित उस प्रकार की अपनी सेना को देखकर पत्न केव याले धीकृष्ण ने बंधुव तार का मृकन किया था । उन बंधुव तार का माहेस ज्वर के माय परस्पर में परव घोर घोर उठने से अत्यन्त घोर

महान् युद्धं दृष्ट्वा या । बहुत सशाम करके माहेश्वर ज्वर भग्न हो गया था ॥३६-३८॥ समस्त लोको में जाकर भी कहीं पर शान्ति प्राप्त नहीं की थी । उससे अभिषीडित होकर रम्य महाकाल वन में प्राप्त हुआ ॥३९॥ इसके पश्चात् वहाँ पर शिप्रा में निमग्न हो गया और शीघ्र ही परम शान्ति को प्राप्त हुआ । परम कोप युक्त माहेश्वर ज्वर को शान्त देखकर वैष्णव भी वहाँ आकर उस ने भी उमी नदी में मग्नन किया । या । उसके प्रभाव से दोनों हरि और हर से उत्पन्न ज्वर नष्ट हो गये थे ॥४०-४१॥ इसी लिये सभी समयों में वह क्षणभर में ज्वरघ्नी हो गई ।

ज्वर से अभिभूत परम दुःखित मनुष्य वहाँ प्राप्त होकर शिप्रा में निमग्नन किया करते हैं और समाहित होकर वास किया करते हैं । फिर कभी भी उनकी ज्वर से होने वाला पीडा बाधा नहीं दिया करती है ॥४२-४३॥ हे ब्रह्मन् व्यास । उस समय में हरि और हर ने सत्य कहा था । जो एकाग्र मन वाले मनुष्य इस दिव्य कथा का श्रवण किया करते हैं उनको ज्वर के सन्ताप से होने वाला कुछ भी भय नहीं हुआ करता है ॥४४॥

६८—विष्णु स्तोत्र और ध्यान

विष्णुभक्तिः परा नित्या सर्वातिदुःखनाशिनी ।

सर्वं पापहरा पुण्या सर्वसुखप्रदायिनी ॥१॥

एषा ब्राह्मी महाविद्या न देया यस्य कस्यचित् ।

कृतघ्नाय ह्यशिष्याय नास्तिकायानृताय च ॥२॥

ईर्ष्यकाय च रूक्षाय कामिकाय कदाचन ।

तद्गतं सर्वं विघ्नन्तियत्तद्धर्मं सनातनम् ॥३॥

एतद्गुह्यतमं शास्त्रं सर्वपापप्रणाशनम् ।

पवित्रं च पवित्राणां पावनानां च पावनम् ॥४॥

विष्णोर्नामसहस्रं च विष्णुभक्तिकरं शुभम् ।

सर्वसिद्धिकरं नृणां भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम् ॥५॥

ॐ अस्य श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य मार्कण्डेयऋषिः ।

विष्णुदेवताअनुष्टुप्छन्दासर्वकामावाप्त्यर्थं जपे विनियोगः ॥६॥

सजलजलदनीलं दक्षितोदारशीलं,
 करतलघृतक्षलं वेणुवाचे रसालम् ॥७
 ब्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलीलं,
 तरुणतुलसिमालं नोमि गोपालबालम् ॥८

महर्षि मार्कण्डेय जी ने कहा—मगवान् विष्णुं की भक्ति परम प्रदान है श्री नित्या और सभी दुःखों को घाँति का विनाश करने वाली है । यह समस्त पापों के हरण करने वाली—पुण्यमयी और सब सुखों के प्रदान करने वाली है ॥१॥ यह ब्राह्मी महा विद्या है । इसको चाहे जित किमी को नहीं देना चाहिए । जो कृप्य हो—घसिय्य हो—नास्तिक हो तथा क्रूडा हो उसे कभी न देवे ॥२॥ जो ईर्ष्यातु हो—स्व हो और कामुक हो उसे भी इन विद्या को नहीं देना चाहिए । उसमें रहने वाले सब का विष्णु कर देनी है—यही मनातम धर्म है ॥३॥ यह परम गोपनीय शास्त्र है जो सर्व पापों का नाशक है यह पवित्रों में परम पवित्र है और पावनों में परम पावन है ॥४॥ मगवान् विष्णु के सहस्र नाम परम शुभ विष्णु की भक्ति के करने वाले हैं । मनुष्यों की समस्त निद्रियों के के करने वाले तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही में प्रदान करने वाला है ॥५॥ इस विष्णु सहस्र नामक स्तोत्र मन्त्र का मार्कण्डेय ऋषि हैं—विष्णु देवता है—अनुष्टुप् छन्द है—ममदा कामनाओं को प्राप्ति के लिये ही जय में विनियोग है ॥६॥ ध्यान—ब्रज से परिपूर्ण मेघ के समान धीविष्णु का भीता वर्ण है—उदारता और नील से दक्षित स्वस्व है—हाथ पर दंत को धारण करने वाले हैं—रमणीय वेणु का वादन करने वाले हैं—व्रजवासियों के कुल के मनुष्यों का सदा परिपालन करने वाले हैं—रामिनियों की केलि में शरीर चंचल हैं—तरुण तुलसी की माला को धारण करने वाले योगान के बात स्वस्व को भी प्रणाम करता है ॥७-८॥

ॐ विश्वं विष्णुह पावनः सधात्मा नवभावनः ।

सयंगः सर्व रानायो भूतश्रामाश्चयाशयः ॥८

अनादिनिधनो देवः सर्वज्ञः सर्वसम्भवः ।

सर्वध्यापी जगद्धाता सर्वशक्तिधरोऽनघः ॥१०

जगद्बीज जगत्स्रष्टा जगदोशो जगत्पतिः ।

जगद्गुरुर्जगन्नाथो जगद्धाता जगन्मया ॥११

सर्वाऽऽकृतिधरः सर्वविश्वरूपी जनार्दनः ।

अजन्मा शाश्वतो नित्यो विश्वाधारो विभुः प्रभुः ॥१२

बहुरूपैकरूपश्च सर्वरूपधरोऽहम् ।

कालाग्निप्रभवो वायुः प्रलयान्तकरोऽक्षयः ॥१३

महार्णवो महामेघो जलबुद्बुदसम्भवः ।

सस्कृतो विकृतो मरस्यो महामरस्यस्तिमिङ्गिलः ॥१४

घन विष्णु के सहस्र नामावली का धारण होता है—विश्व स्वरूप वाले—विषयेन्द्रियो के स्वामी—सबके आत्मा—सब पर कृपा करने वाले विष्णु हैं । सवत्र गमन करने वाले—शर्वरी के स्वामी—भूत प्राणों के प्राणयो के भी प्राणय हैं ॥९॥ धारि और अन्त से रहित हैं । देव—सभी कुछ के ज्ञाता, सबकी समुत्पत्ति करने वाले हैं । सर्वत्र सब में व्यापक—इस जगत् के धाता—सभी प्रकार की शक्तियों के धारण करने वाले तथा निष्ठाप हैं ॥१०॥ इस जगत् की उत्पत्ति के बीज स्वरूप हैं—जगत् के मृज्ज करने वाले—जगत् के स्वामी और इस जगत् की रक्षा करने वाले हैं । जगत् को ज्ञान देने वाले गुरु—जगत् के नाथ—जगत् के पालक और सम्पूर्ण जगत् के स्वरूप वाले हैं ॥११॥ सभी भावितियों के करने वाले—सम्पूर्ण विश्व के स्वरूप वाले तथा जनों की पीडा को दूर करने वाले हैं । कभी जन्म न धारण करने वाले—निरन्तर स्थित रहने वाले—नित्य—विश्व के धावार—व्यापक और कर्तुं मकर्तुं मयाकर्तुं समर्थ प्रभु हैं । अर्थात् करने न करने और विपरीत करने की शक्ति से समन्वित समर्थ है ॥१२॥ बहून से स्वरूपों से समुत्—एक ही रूप वाले—सबका स्वरूप धारण करने वाले—हर—वाताग्नि के समुत्पन्न करने वाले—वायु—प्रलय के अन्त करने वाले और क्षय से रहित हैं ॥१३॥ महान् सागर—महान् मेघ—जन् के बुनबुने से समुत्पन्न—

संस्कार सम्पन्न—विष्णु युक्त—भक्त्य—महान् भक्त्य स्वरूप और
तिमिङ्गल हैं । सबका भक्षण करने वाली सागर मे एक परम विशाल
मच्छली को तिमिङ्गल कहते हैं ॥१४॥

अनन्तोत्रासुकिःशेषोवराहोधरणीवरः ।

पयः क्षीरविवेकाढ्योहंसोहैमगिरि स्थितः ॥१५

ह्यग्नीवो विशालाक्षो ह्यकर्णो दयाकृतिः ।

मन्थनो रत्नहारी च कूर्मो धरधराधरः ॥१६

विनिद्रो निद्रितोनन्दी सुनन्दोनन्दनप्रियः ।

नाभिनालमृणाली च स्वयंभूश्चतुराननः ॥१७

प्रजापतिपरो दक्षः सृष्टिकर्ता प्रजाकरः ।

मरीचिः कश्यपोदक्षः सुरासुरगुरुःकविः ॥१८

वामनो वाममार्गी च वामकर्मा बृहद्वधुः ।

त्रैलोक्यक्रमणो दीपो बलियज्ञ विनाशन. ॥१९

यज्ञहर्ता यज्ञकर्ता यज्ञेशो यज्ञभुग्विभुः ।

सहस्रांशुर्भगो भानुर्विवस्वानरविरंशुमान् ॥२०

अनन्त (शेष)—वासुकि—शेष—ररणी को धारण करने वाले—वराह
है । दूध और जल के विवेचन से सुसम्पन्न हस हैमगिरि पर स्थित रहने
वाले हैं ॥१५॥ ह्यग्नीव—विशाल लोचनो वाले—ह्य के समान कर्णों
वाले—और अश्व के सदृश आकृति वाले हैं अथवा दया के आकार से
युक्त हैं—मन्थन करने वाले—रत्नो का हरण करने वाले—कूर्म—धरा का
धर धारण करने वाले हैं ॥१६॥ निद्रा से रहित—परम निद्रा वाले—
मानन्द स्वरूप—सुनन्द और नन्दन प्रिय हैं । नाभि के कमल नास के
मृणाल वाले हैं—स्वय ही समुत्पन्न (ब्रह्मा) और चार मुखो वाले हैं ।
धर्षान् ब्रह्मा भी विष्णु भगवान् का ही एक स्वरूप है ॥१७॥ परम प्रजा-
पति—दक्ष—सृष्टि के करने वाले—प्रजाओं को समुत्पन्न करने वाले—
मरीचि—कश्यप—दक्ष—सुरों के गुरु तथा असुरों के गुरु हैं । धर्षान्
सब प्रजापतियों और ऋषियों का स्वरूप भी विष्णु का ही रूप है ॥१८॥
वामन—वाम मार्ग वाले—वाम कर्म करने वाले तथा सृष्ट्य धारी से

ममिव्यं ह । तीनों तीर्थों में मंत्रमण करने वाले—दीन अर्थात् प्रजा
 राजा भीर राजा इति के यज्ञ का विनाश करने वाले हैं ॥१६॥ यज्ञों के
 हरण करने वाले—यज्ञों के करने वाले—यज्ञों के रक्षायी—यज्ञों में मंत्र
 ब्रह्मण करने वाले—अथर्व—सदृश विरणों से युक्त (गूँपें)—भग—मनु
 विषयवान्—अनुमान्—रवि है ॥२०॥

तिग्मतेजः।दद्याल्पतेजाः कर्मणादो मनुयंमः ।

देवराजः सुरपतिर्दानवारिः नवीपतिः ॥२१

अग्निर्वायुनरो जह्नुर्वैरुणा यादमापतिः ।

नैर्ऋतोमादनोऽनादीरक्षयज्ञोचनाधिपः ॥२२

मुचेरोविस्त्वान्देवो वसुपालो विलागशृत् ।

अमृतसवणः सोमः सोमपानकरः मुधीः ॥२३

सश्वीपधिकरः श्रीमान्निशाकरदिवाकरः ।

विपारिविपहृत्ता च विषकण्ठधरोगिरिः ॥२४

नीलकण्ठी वृषी रद्री भ्रातृचन्द्रो ह्यमापतिः ।

दिवः दान्ती यती धीरो ध्यानी मानो च मानदः ॥२५

धूमिकोटो मृगव्याधो मृगहा मृगलाञ्छनः ।

बटुको भ्ररवो बालः कपाली दण्डविग्रहः ॥२६

श्मशानबामी मांमादा दुष्टनाशी वरान्तकृत् ।

योगिनीप्राप्तको योगी ध्यानस्थो ध्यानयामनः ॥२७

तीक्ष्ण तेज से युक्त—स्थूल तेज वाले—सबके किये हुए कर्मों को
 देखने वाले—मनु—यम—देवों के राजा—सुरों के रक्षक—दानवों के शत्रु—
 इन्द्राणी के पति—अग्नि—वायु के सखा—वह्नि—वरुण—मादवों के
 पति—नैर्ऋत—नाहन—मनादि—रक्षयज्ञ और कुचेर हैं ॥२१-२२॥
 मुचेर—विष्णु वाले—वेग स्वल्प—वायुपाल—भीर विलासों के करने
 वाले हैं । अमृत के सवण करने वाले—सोम—सोमरस को पीने वाले—
 मुधी हैं ॥२३॥ मण्डूक्य धीपवियों के करने वाले, श्री सम्पन्न निशाकर
 (चन्द्रमा) और दिवाकर (सूर्य) हैं । विष के शत्रु, विष के हरण करने

वाले, विष (गरल को पण्ड मे धारण करने वाले—गिरि है ॥२४॥
नीलकण्ठ—वृष वाले—रुद्र—साल मे चन्द्र को धारण करने वाले, उमा
के स्वामी—दिश—शान्त स्वस्व—धरा मे रहने वाले—धीर—ध्यान मे
मग्न—मानयुक्त श्रीर दूसरो को मान के देने वाले हैं ॥२५॥ कृमि कीट—
मृगो के व्याध—पशुओ के हनन करने वाले—मृग के चिह्न वाले
(चन्द्रमा)—पटुक काल स्वस्व भंरय (शिष के प्रधान गण) बाल-
कपाल धारी और दण्ड के विग्रह वाले हैं ॥२६॥ दमशान मे निवास करने
वाले— मास का ग्रसन करने वाले—पुटो के नाशक— वरो के अन्त करने
वाने हैं । योगियो को प्राप्तवाना—योगी—ध्यान मे स्थित धीर ध्यान
प्राप्त हैं ॥२७॥

सेनानीः सेनदः स्कन्दो महाकालो गणाधिपः ।

आदिदेवोगणपतिविघ्नहा विघ्ननाशनः ॥२८

ऋद्धिसिद्धिप्रदोदन्ती भालचन्द्रोगजाननः ।

नृसिंह उग्रदष्टरुच नखी दानवनाशकृत् ॥२९

प्रह्लादपोपकर्ता च सर्वदैत्यजनेश्वरः ।

शलभः सागरः साक्षी कल्पद्रुमविकल्पकः ॥३०

हेमदो हेमभागी च हिमकर्ता हिमाचलः ।

भूधरो भूमिदोमेघः कलासशिखरोगिरि ॥३१

लोकालोकान्तरो लोकी विलोकी भुवनेश्वरः ।

दिकपालो दिक्पर्तिदिव्यो दिव्यकायो जितेन्द्रियः ॥ २

विरूपो रूपवानुरागी नृत्यगीतविशारदः ।

हाहा हूहश्चित्ररथो देवर्षिर्नारद सखा ॥३३

विश्वेदेवाः साध्यदेवा धृताशीश्च चलोऽचलः ।

वपिलो जल्पको वादी दत्तो हैहय सङ्घराट् ॥३४

सेनानी (सेना के अधिपति कार्तिकेय) —सेना देने वाले, स्कन्द, महा-
काल, गणों के स्वामी, आदि देव, गणपति (गणेश), विघ्नो के हनन करने
वाले, विघ्नो के नाशक है ॥२८॥ ऋद्धियो और सम्पूर्ण सिद्धियो के
प्रदान करने वाले, दन्ती (एक दाँतवारी), मस्तक मे चन्द्रमा को धारण

करने वाले, गज के समान मुख से संयुक्त, नृसिंह, उग्र दाढी वाले, नखों से (विशाल एवं तीक्ष्ण नखों वाले) युक्त, दानवों के विनाशकारी हैं ॥२१॥
 प्रह्लाद के पोषण करने वाले, समस्त दैत्यजनों के स्वामी, शनभ, सागर, साथी कल्प वृक्ष के विकल्प वाले धर्मानु समस्त मनोरथों का पूरा करने वाले कल्पद्रुम के ही सदृश हैं ॥२०॥ हेम के दाता, हेम के भागी, हिन के करने वाले, हिमधनु पर्वत, भूधर, भूमि के दाता, सुमेरु, कैलाश का शिखर, गिरि है ॥३१॥ नांकालाक पर्वत के अन्नर, लोकी, किन्नर करने वाला, भुवनों के स्वामी, दिशाप्रो के पालक, दिशाप्रो के पति, परम उत्तम, उत्तम आवृति तथा काया वाले और इन्द्रियों को धीतने वाले हैं ॥३२॥ विगत रूप वाले, परम सुन्दर रूप से सयुक्त, राग युक्त, शूल और गीतों के महान् मनोपी हैं । हाहा-हेह, चित्ररथ, दक्षिण नारद प्रीत सखा हैं ॥३३॥ विश्वदेव, साध्य देव, धृताशी, चल, अचल (वह जो अलायमान न हो), अपिल, अल्पक, नाक्षी, दत्त, हेहय और छहणः हैं ॥३४॥

वसिष्ठो वामदेवश्च सप्तपिप्रवरो भृगुः ।

जामदग्न्योमहावीरः क्षत्रियान्तकरो ह्यपिः ॥३५॥

हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षो हरप्रियः ।

अगस्तिः पुलहोदक्षः पौलस्तारावणो घटः ॥३६॥

देवारिस्तापसस्तापी विभीषण हरिप्रियः ।

तेजस्वी तेजदस्ते जी ईशो राजपतिः प्रभुः ॥३७॥

दास रथी राघवो रामो रघुवंशविवर्धनः ।

सीतापतिः पतिः श्रीमान् ब्रह्मण्यो भक्त वत्सलः ॥३८॥

सन्मद्भः कवचो खड्गो चो रवासा दिगम्बरः ।

किरोटी कुण्डली चापी शङ्खचक्रा गदाधरः ॥३९॥

कौशलप्रानन्दनोदारो भूमिशायी गुहप्रियः ।

सीमित्रो भरतो बालः शत्रुघ्नो भरताग्रजः ॥४०॥

लक्ष्मणः परवीरघ्नः स्त्रीक्षहायः कपीश्वरः ।

हनुमान् क्षराजश्च सुग्रीवो बालिनाशनः ॥४१॥

दूतप्रियो दूतकाशी ह्यङ्गदो मदता वरः ।

भनध्वंसो वनो वेगो वानरध्वजलांगुली ॥४२

बगिनु, घामदेव और सप्तपियों में परम श्रेष्ठ नृगु हैं । जामदग्न्य, महावीर और क्षत्रियों का जन्त करने वाले ऋषि परनुराम) हैं ॥३५॥
 हिरण्यकशिपु, हिरण्यवाज-हर कात्रिष, भगस्ति, पुनह, दत्त, वीनरप, रायण, पर हैं ॥३६॥ देवारि, तारन, तापो, विनीषण और हरि के प्रिय, तेजदुक्त, तेज को देने वाले, तेजी, ईश, राजवति और प्रभु हैं ॥३७॥ दत्तरप के पुत्र, रायव, राम, रघु के वज की वृद्धि करने वाले, सीता के पति, स्वामी, श्रीमान्, ब्रह्मण्य (ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले), भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं ॥३८॥ मगद, क्वच धारी, मङ्गयुक्त, पंगरी के वस्त्रों वाले, दिग्म्बर (नग्न), किरीट पहनने वाले, कृष्णों की धारण करने वाले, चाव से युक्त, गह्व और मृदगन चक्र क धारी, गदा की धारण करने वाले हैं ॥३९॥ कीर्त्या को भानन्द देने वाले पुत्र, उदार, भूमि पर दायन करने वाले, गृह के प्यारे, सुमित्रा पुत्र, भरत, बाल पाशु-धन और भरत के अग्र भाई हैं ॥४०॥ नरमण, दूगलों के बोरों का हनन करने वाले, स्त्री की महापता से युक्त, बपियों में ईश्वर, हनुमान्, शीशों का राजा जाम्बवान्, सुषीम और शानि का वज करने वाले हैं ॥४१॥ दूत प्रिय, दूगों के करने वाले, अङ्गद, बावने वालों में श्रेष्ठ, बनों का विध्वंस करने वाले, वनो, देव और वानरों के स्वज का मांगुमी हैं ॥४२॥

रविर्दृष्टी च मङ्गाहा हाहाकारी वरप्रदः ।

भयनेनृं महामेनुचढसेतु रमेश्वरः ॥४३

जानपीदन्वनः कामी किरीटी कृष्णली मणी ।

गुण्डीक विद्यालाभो महाबाहुर्पेनाहृतिः ॥४४

पञ्चनदचपलः नामी वामो वामाङ्गवन्धनः ।

स्त्रीप्रियः स्त्रीपरः स्त्रीपाः स्त्रियो वामाङ्गवागवः ॥४५

जितपंरो जितनामो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ।

मान्तो दानो दयालमो ह्येवस्त्रो यथाचारः ॥४६

करने वाले, गज के समान मुख से संयुक्त, गृहिह, उग्र दाढी वाले, नखों से (विशाल एवं तीक्ष्ण नखों वाले) युक्त, दानवों के विनाशकारी हैं ॥२१॥
 प्रह्लाद के पीपण करने वाले, समस्त दैत्यजनों के स्वामी, शलभ, सागर, साक्षी कल्प वृक्ष के विकल्प वाले अर्थात् समस्त मनोरथों का पूरा करने वाले कल्पद्रुम के ही सदृश हैं ॥ २० ॥ हेम के दाना, हेम के भागो, हिम के करने वाले, हिमवान् पर्वत, भूधर, भूमि के दाता, सुमेरु, कंलास शिखर, गिरि है ॥३१॥ लोकालोक पर्वत के अन्तर, लोकी, विनाश करने वाला, भुवनों के स्वामी, दिशामो के पालक, दिशामो के पति, पर उत्तम, उत्तम आकृति तथा काया वाले और इन्द्रियों को जीतने वाले ॥३२॥ विगत रूप वाले, परम सुन्दर रूप से संयुक्त, राग युक्त, गूल और गीतों के महान् मनोपी हैं । हाहा हूहू, चिन्तय, दक्षिणारव और सखा हैं ॥३३॥ विश्वेदेवा, साध्य देव, धृताशी, चल, अचल (यह भी चलायमान न हो), अपित्त, जल्पक, नाधी, दत्त, हृदय और शङ्खपद हैं ॥३४॥

वसिष्ठो वामदेवश्च सप्तपिप्रवरो भृगुः ।

जामदग्न्योमहावीरः क्षत्रियान्तकरो ह्यपिः ॥३५

हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षो हरप्रियः ।

अगस्तिः पुलहोदक्षः पौलस्त्यारावणो घटः ॥३६

देवारिस्तापसस्तापीविभौषणहरिप्रियः ।

तेजस्वीतेजदस्तेजो ईशो राजपतिः प्रभुः ॥३७

दासरथी राघवोरामोरघुवशविवर्धनः ।

सीतापतिःपतिः श्रीमान्ब्रह्मण्योभक्त वत्सलः ॥३८

सन्नद्धः कवचो ग्बह्गी चौरवासा दिगम्बरः ।

किरोटी कुण्डली चापी शङ्खचक्रा गदाधरः ॥३९

कौशल्यानन्दनोदारो भूमिशापी गुहप्रियः ।

सौमित्रो भरतो बालः शत्रुघ्नो भरताग्रजः ॥४०

रुक्मणः परवीरधनः स्त्रीतहायः कपीश्वरः ।

हनुमानूक्षराजश्च सुग्रीवोवालिनाशनः ॥४१

दूतप्रियो दूतकारी ह्यङ्गदो गदतां वरः ।

भ्रमध्वंती वनी वेगो वानरध्वजलांगुली ॥४२

वसिष्ठ, वामदेव और सप्तप्रियो में परम श्रेष्ठ भृशु हैं । जामदग्न्य, महाधीर और क्षत्रियो का अन्त करने वाले ऋषि परशुराम) हैं ॥३५॥ हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष-हर का प्रिय, अगस्ति, पुलह, दक्ष, पौलस्त्य, रावण, घर है ॥३६॥ देवारि, तापन, तापो, विभीषण और हरि के प्रिय, तेजयुक्त, तेज को देने वाले, तंजी, ईश, राजर्षि और प्रभु हैं ॥३७॥ दशरथ के पुत्र, राघव, राम, रघु के वत्स को वृद्धि करने वाले, सीता के पति, स्वामी, श्रीमान्, ब्रह्मर्षि (ब्राह्मणों को रक्षा करने वाले), भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं ॥३८॥ सत्रद्व, कवच धारी, सङ्गयुक्त, धीरो के वस्त्रों वाले, दिग्म्बर (नग्न), किरीट पहनने वाले, कुण्डलों को धारण करने वाले, चाय से युक्त, शङ्ख और सुदहन चक्र के धारी, गदा को धारण करने वाले हैं ॥३९॥ कौसल्या को आनन्द देने वाले पुत्र, उदार, भूमि पर क्षयन करने वाले, गुह के प्यारे, सुमित्रा पुत्र, भरत, बाल राम-धन और भरत के श्रेष्ठ भाई हैं ॥४०॥ लक्ष्मण, दूमरो के धीरो का हनन करने वाले, स्त्री को सहायता से युक्त, कपियों में ईश्वर, हनुमान्, रीछो का राजा आम्बवान्, सुग्रीव और बालि का बन्धु करने वाले हैं ॥४१॥ दूत प्रिय, दूतों के करने वाले, अङ्गद, बालने वाली में श्रेष्ठ, वनी का विध्वंस करने वाले, वनी, वेग और वानरो के ध्वज का लांगुली हैं ॥४२॥

रविदग्नी च सङ्गहा हाहाकारो वरप्रदः ।

भवसेतुं मंहासेनुचदसेतु रमेश्वरः ॥४३

जानकीवत्सलः कामी किरीटो कुण्डली सगी ।

पुण्डरीक विशालाक्षो महाबाहुर्धनाश्रुतिः ॥४४

धञ्चलदचपला कामी वामो वामाङ्गवत्सलः ।

स्त्रीप्रियः स्त्रीपटुः स्त्र्यणः स्त्रियो वामाङ्गवासकः ॥४५

जितचरो जितकामो जितक्रोधो जितेन्द्रियः ।

नान्तो दान्तो दयारामो ह्येकस्त्री व्रतधारकः ॥४६

सात्त्विक सत्त्वसस्थानो मदहा क्रोधहा तरः ।

बहुराक्षससम्ब्वीत सर्वराक्षसनाशकृत् ॥४७

रावणारी रणक्षुद्रदशमस्तकच्छेदक ।

राज्यकारी यज्ञकारी दाता मोक्ता तपोधन ॥ ८

अयोध्याधिपति कान्तो वैकुण्ठोऽकुण्ठविग्रह ।

सत्यप्रतो ज्ञानी शूरस्तपी सत्यफलप्रद ॥४९

रथि के दृष्टाभा वाला, लड्डा वा हनन कर्ता, हा हा कार, वरदान के देने वाले, इस समार से पार हाने का सेतु, महान् सेतु और रमा (लदमी) के ईश्वर हैं ॥४३॥ ज्ञानकी के प्रिय, कामी, किरौट धारी, कुण्डल पहिने वाले, खगी अर्थात् गहड़ पर खवारी करने वाले, पुण्डरीक के सहदा विद्याल नेत्रो से सयुत, बड़ी भुजाओं वाले, मेघ के समान आकार वाले हैं ॥४४॥ परम अचल, अपल, काम युक्त, वामो वाले, बामापी के अर्गों पर प्रेम करने वाले, स्त्रियो के प्रिय, स्त्री परायण, स्त्रियो मे ही रहे रहने वाले, स्त्री के वाम अङ्ग मे वास देन वाले हैं ॥४५॥ बैरियो को जीतने वाले, काम पर विजयी, क्रोध को पराजित करने वाले, इन्द्रियो को वन मे रखने वाले, परम शास्त, दमनशील, दयाराम और एक ही स्त्री के व्रत को धारण करने वाले हैं ॥४६॥ परम सात्त्विक, सत्त्व के सत्स्थान वाले, मद के हर्ता, क्रोध के क्षरण कर्ता, तर, बहुत, से राक्षसो से सम्ब्वीत और समस्त राक्षसों के नाश करने वास हैं ॥४७॥ रावण प शत्रु, रण मे क्षुद्र दश मायो के सेदन करन वाले, राज्य करने वाले, यज्ञा के कर्ता, दान देने वाले, भोग करने वाले और तप को ही धन मानने वाले हैं ॥४८॥ अयोध्या के स्वामी, का त (सुन्दर, वैकुण्ठ, अकुण्ठिन विग्रह वाले, सत्य के ज्ञन से समन्विन, अतधारी, शूर, तप करने वाले सत्य फल न दाता हैं ॥४९॥

सर्वसाक्षी स्वर्गश्च सर्वप्राणहरोऽयम् ।

प्राणाश्चाथाप्यपानश्च व्यानोदानः समानकः ॥५०

नागः शृङ्खल कूर्मश्च देवदत्तो घनञ्जयः ।

सर्वप्राणविदो व्यापी योगधारकधारकः ॥५१

तत्त्ववित्तत्त्वदस्तत्त्वी सर्वतत्त्वविशारदः ।
 ध्यानस्थो ध्यानशाली च मनस्वी योगवित्तमः ॥५२
 ब्रह्मज्ञो ब्रह्मदो ब्रह्मज्ञाता च ब्रह्मसम्भवः ।
 आध्यात्मविद्विदो दीपो ज्योतिरूपो निरञ्जनः ॥५३
 ज्ञानदोऽज्ञानहा ज्ञानी गुरुः शिष्योपदेशकः ।
 सुशिष्यः शिक्षितः शाली शिष्यशिक्षाविशारदः ॥५४
 मन्त्रदो मन्त्रहा मन्त्री तन्त्रो तन्त्रजनप्रियः ।
 सन्मन्त्रो मन्त्रविन्मन्त्री यन्त्रमन्त्रैरुभञ्जनः ॥५५
 मारणो मोहनो मोही स्तम्भोच्चाटनकृत्खलः ।
 बहुमायो विमायश्च महामत्याविमोहकः ॥५६
 सहस्राक्षः सहस्रपात्सहस्रवदनोज्ज्वलः ।
 सहस्रनामानन्ताक्षः सहस्रबाहुर्नमोऽस्तुते ॥५७

सबके द्रष्टा—सर्वत्र गमनशील—सबके प्राणों का हरण करने वाले—
 अव्यय (नाश रहित)—प्राण—अपान—ध्यान—उदान और समान है ।
 ये शरीर में रहने वाली पाँच प्रकार की वायु है जो जीवन के आधार है
 ॥५०॥ नाम—कृबल—कूर्म—देवदत्त—धनञ्जय—(ये पाँच अन्य वायु
 हैं)—सब के प्राणों के ज्ञाता—ध्यापी—योग के धारण करने वालों के
 धारक है ॥५१॥ तत्त्वों का ज्ञान, तत्त्व प्रदान करने वाला, तत्त्व से संयुक्त
 सब तत्त्वों के विशारद, ध्यान में स्थित, ध्यानशाली, मन को नियन्त्रित
 रखने वाले और परम श्रेष्ठ योग के वेत्ता हैं ॥५२॥ ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्म
 ज्ञान के दाता, ब्रह्म को पहिचानने वाले, ब्रह्म से सम्भव, अव्यारम वेत्ताओं
 के ज्ञाता, दीप स्वरूप, ज्योति रूप और निरञ्जन हैं ॥५३॥ ज्ञान के
 दाता, ज्ञान के हर्ता, ज्ञान से मुक्त, अज्ञान का नाशक, शिष्यों को उपदेश
 देने वाले, सुशिष्य, शिक्षित, शोभा संयुक्त और शिष्यों की शिक्षा के
 विशारद (महा पण्डित) हैं ॥५४॥ मन्त्रों के दाता, मन्त्रों के हनन करने
 वाले, मन्त्रों से संयुक्त, तन्त्र युक्त, तन्त्र जनो के प्रिय, सत मन्त्रों वाले,
 मन्त्रों के वेत्ता, मन्त्रों और मन्त्र तथा मन्त्रों के एक ही भञ्जन करने

घाले है ॥५५॥ मारण करने वाले, मोहन करने वाले, मोह युक्त, स्तम्भन और उच्चाटन करने वाले, खल, बहुत माया से समन्वित, बिना माया घाले और महा माया की मोह करने वाले हैं ॥५६॥ सहस्र नेत्रो वाले, सहस्र चरणो से युक्त, सहस्र मुख वाले, अनीव उज्ज्वल, सहस्र नामो वाले, अनन्त नेत्रो से युक्त, और सहस्र बाहुश्री से संयुत हैं ऐसे प्रापको सेवा मे नमस्कार समर्पित है ॥५७॥

विष्णोर्नामसहस्रं च पुराणं वेदसम्मतम् ।

पठितव्यं सदा भक्तेः सर्वमङ्गलमङ्गलम् ॥५८॥

इति स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र वैद्विज ।

प्रत्यक्षं प्राह भगवान् वरदा वरदाचितः ॥५९॥

त्रियतां भोः सुराः! सर्ववरोऽस्मत्तोऽभवाच्छितः ।

तत्सर्वं सम्प्रदास्यामि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥६०॥

वरदोऽसि यदा विष्णो वरमेतं ददस्व नः ।

अदितेर्गर्भसंभूतः शक्रस्याऽप्यनुजो भव ॥६१॥

इति संप्राथितो देवैर्ब्रह्मशक्रपुरोगमैः ।

तथेत्युक्त्वा च भगवास्तत्रैवान्तरर्थायत ॥६२॥

ततः कतिपये काले भगवानदिति नन्दनः ।

विष्णुरूपधरोऽनन्तो वामनत्वाच्च वामनः ॥६३॥

यह भगवान् विष्णु के नामों का सहस्र पुराण है तथा वेदों के द्वारा समाप्त है । इसे सदा ही भक्तों को पढना चाहिए । यह अमङ्गल ही रहित सभी प्रकार के मङ्गल करने वाला है ॥५८॥ हे द्विज ! इस स्तव से युक्त देवों की वहाँ पर वरदों के द्वारा समन्वित वरदान देने वाले भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से कहा था ॥५९॥ श्री भगवान् ने कहा—हे सुर गणों ! आप सब हमसे अभिवाञ्छित वरदान माँग लो । यह सभी में आपको दे दूँगा । इसमें कुछ भी विचारणा मत करो क्योंकि वर मिलेगा या नहीं—ऐसा सन्देह मत करो ॥६०॥ देवगण ने कहा—हे विष्णो ! जब वरदान देने की ही कृपा करते हैं तो हमको यह वरदान प्रदान कीजिए कि आप स्वयं अदिति के गर्भ से समुत्पन्न होकर इन्द्र के छोटे भाई हो जाइये

॥६१॥ देवों के द्वारा इस प्रकार से सम्प्रापित होते हुए जिन देवों में ब्रह्मा और इन्द्र पुरोगामी थे । तथास्तु अर्थात् ऐसा ही होवे—यह कहकर भगवान् विष्णु वही पर अन्तर्हित हो गये थे ॥६२॥ इसके अनन्तर कुछ काल में भगवान् विष्णु रूपवारी अदिति के पुत्र हुए थे । जो अनन्त थे तथा बीना होने से वामन नामधारी हुए थे ॥६३॥

बलिवैरोचनो व्यास वाञ्छिमेषशतेन च ।

ईजे द्विजवरश्रेष्ठ! इन्द्रराज्यजिहीर्षया ॥६४

ऋत्विजं कश्यपं कृत्वा होतावं भृगुसत्तमम् ।

ब्रह्मा तथाभयञ्चैषस्वयमेवपितामह ॥६५

अश्वयुं भगवानग्निं भूव मुनिसत्तमः ।

उद्गाता नारदश्चैव वसिष्ठश्च समासदः ॥६६

ये यत्र विहिताः सर्वे तत्र तत्र मुनीश्वराः ।

अलिस्तत्रऽभवद्ध्यास दीक्षिनो राजसत्तम ॥६७

एव प्रवर्तमानेषु यज्ञेषु मुनिसत्तम! ।

द्रुपता भुज्यता चैव दीयता धीयता तथा ॥६८

इति वाचः शुभास्तत्र श्रूयन्ते च द्विजोत्तम! ।

तस्मिन्काले सुविशेषु वामनोऽगान्धुचिस्मितः ॥६९

हे व्यास ! विरोचन का पुत्र बलि भी वाञ्छिमेष यज्ञों के द्वारा यजन कर रहा था । हे द्विज वरो मे श्रेष्ठ ! इन बलि ने यह यज्ञ इन्द्र के राज्य के हरण करने की ही इच्छा से किया था ॥६४॥ उस बलि ने यज्ञ में कश्यप को तो ऋत्विज नियुक्त किया था और भृगु घंष्ट को होता बनाया था तथा पितामह ब्रह्माजी ही स्वयं उस यज्ञ में ब्रह्मा हुए थे ॥६५॥ भगवान् अग्नि उसमें अश्वयुं थे जो कि परम श्रेष्ठ मुनि थे । नारद उद्गाता थे और वसिष्ठ समासद थे ॥६६॥ जो जहाँ पर विहित किए थे वही-वही पर सब मुनीश्वर अपना २ कर्म कर रहे थे । वही यज्ञ में हे व्यास ! श्रेष्ठतम राजा बलि दीक्षिन हुआ था ॥६७॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार से यज्ञों के प्रवर्तमान होने पर "द्रुपतां, भुज्यतां, दीयतां,

धीयतां" अर्थात् आहुतियाँ डालो या हवन करो, भोजन कराओ, दान दो, धारण करो—इस प्रकार की वाणियाँ जो परम शुभ थीं वहाँ पर सुनाई दे रही थी । हे द्विजोत्तम ! उन्ही समय में उन सुचित्रित यज्ञों में शुचिस्मित बाले वामन आ गये थे ॥६८-६९॥

पठमानो मुखाग्रेण चातुर्वेदिकमन्त्रकान् ।

द्वारे तिष्ठति राजेन्द्र वामनो द्विजसत्तमः ॥७०

प्रतिहारेण वै व्यास! सर्वं राज्ञेनिवेदितम् ।

उरयाय च महाराजोर्ध्वलिखरोचनिस्तदा ॥७१

अर्घ्यमादाय तत्सर्वं जंगाम स्वः सभासदः ।

पूजयित्वा यथान्यथं वामनं लोकभावनम् ॥७२

धानयित्वा सभामध्ये दत्त्वाऽऽसनपरिग्रहम् ।

कुतस्त्वागमनं ब्रह्मन्किन्तेऽभीष्टं ददामि वै ॥७३

राजराजाश्रिता सृष्टिर्ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ।

ततोऽहमागतो भूमन्वज्रं चैव दिदृक्षया ॥७४

चरुणस्यच यज्ञो वै दृष्टो मे वै पुराऽनघ !

यक्षाधिपतेनूनं च यज्ञं वैदृष्टवानहम् ॥७५

धर्मस्यापि च यज्ञो मे प्रजापतेश्च सत्तम ।

त्रायोर्यज्ञो महाराज दृष्टोमेविविपूर्वकः ॥७६

राजर्षिणां च ये यज्ञा दृष्टास्तेऽपि महाव्रत !

यादृशं वै महाराज यज्ञं ते दृष्टवानहम् ॥७७

ईदृशो राजराजेन्द्र न भूतो न भविष्यति ।

तस्मादिहागतो राजन् ! याचनार्थतवाऽनघ ॥७८

कष्टस्थ चारो वेदा के मन्त्रों का मुख से पढ़ते हुए एक परम श्रेष्ठ द्विज, प्रहरी ने कहा—हे राजेन्द्र ! द्वार पर तड़ा हुआ हूँ ॥७०॥ हे व्यास ! प्रतिहारी ने सभी पुत्र वामन के विषय में राजा यनि से निवेदन कर दिया था । उन्ही समय में विरोचन का पुत्र महाराज बनि ने उठकर अर्घ्य लेकर अपने गणसदों के साथ धे सवके साथ वहाँ पर गये थे । सर्वाधि पूजा करने अर्थात् योर्षों पर श्रुपा करने वाले वामन देव भी

अर्चना की थी ॥७१-७२॥ फिर उन वामन देव को सभा के मध्य में
लिवाकर ले प्राये और आसन आदि निवेदित किया था । बलि ने पूछा—
हे ब्रह्मन् ! आपका आगमन कहाँ से हुआ है ? आपका क्रम धर्मोष्ठ है
जिसे मैं आपकी सेवा में समर्पित करूँ ? ॥७३॥ वामन देव ने कहा—
हे राज राज ! हे भूमन् ! यह समस्त सृष्टि परमेष्ठी ब्रह्म की है वही से
मैं इस यज्ञ के देखने की इच्छा से समागत हुआ हूँ ॥७४॥ हे भ्रमन् !
मैंने पहिले वरुण का यज्ञ देखा था और यज्ञो के अविपति का भी निश्चय
ही, मैंने यज्ञ का दर्शन किया था, ॥७५॥ हे सत्तम ! मैंने धर्म का प्रीर
प्रजापति का भी यज्ञ देखा था किन्तु हे राजन् ! मैंने जैसा यह आपका
यज्ञ देखा है । हे महाराज राज राजेन्द्र ! इस प्रकार का यज्ञ तो न कभी
पहिले हुआ प्रीर न होगा । हे राजन् ! हे अनद्य ! इसी कारण से आपसे
कुछ याचना करने के ही लिए मैं यहाँ पर आया हूँ ॥७६-७८॥

याचस्व त्वं द्विजश्रेष्ठ! किं तेऽभीष्टं ददाम्यहम् । ७९

देहि मे राजराजेन्द्र! पदानि त्रीणि मेदिनीम् ।

घासाय^० रोचते तेऽद्य यदि पार्थिवसत्तम! ॥८०

किमिदं याचितं विप्र! स्वरूपं ते नहि ते परम् ।

गजवाजिरथाः क्षोणी रत्नानि विविधानि च ॥८१

दासदासीषं रारोहाः स्त्रियोनानावसूनिच ।

द्रव्याणिवाससीशुभ्रेयाषस्त्रत्वंद्विजोत्तम ॥

पात्रोऽसि कृतकृत्योऽसि वेदवेदाङ्गपारग! ॥८२

न मे किञ्चित्स्पृहा राजन्विद्यते भुवि मानद ! ।

देहि त्वं त्रिपदां भूमि यदि श्रद्धाऽस्ति तेऽधुना ॥८३

इत्युक्ते वामनेनाथ बलिर्वचनमब्रवीत् ।

गृहाण त्रिपदा भूमि वासस्यार्यहि मानद ॥८४

राजा बलि ने कहा—श्रेष्ठ द्विज ! आप याचना कीजिए । मैं आपके
धर्मोष्ठ पदार्य को दूँगा ॥७६॥ श्री वामन देव ने कहा—हे राज राजेन्द्र !
आप मुझे देवल तीन पद भूमि दीजिए जो मेरे निवास के लिए पर्याप्त

हे । हे राजाओं में परम श्रेष्ठ ! यदि यह शापको रचिकर हो तो आज ही दे दीजिए ॥८०॥ बलि ने निवेदन किया—हे विप्र ! आपने बहुत थोड़ा सा यह पया माँगा है । यह आपके लिए देना अधिक सुन्दर नहीं है । हे द्विजोत्तम ! मेरे समीप में दान देने के लिए आप जैसे श्रेष्ठ महानुभाव को अनेक पदार्थ हैं । गन्ध, अन्न, रथ, भूमि, विविध प्रकार के रत्न दास, दासी, परम सुन्दरी नारियाँ, नाना भाँति के धन, द्रव्य, धुम वस्त्र हैं । आप भी इनकी याचना कीजिए । आप तो समस्त वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों के पारगामी मनीषी हैं । आप सभी प्रकार के ज्ञान के समुचित पात्र हैं और कृतकृत्य हैं ॥८१-८२॥ श्री वामनदेव ने कहा— हे मान के देने वाले ! हे राजेन्द्र ! इस भूमण्डल में मुझे किसी भी पदार्थ के प्राप्त करने की स्पृहा नहीं है । यदि इस समय में आपकी थडा हो ता मुझे केवल तीन पद परिमित भूमि ही दीजिए ॥८३॥ वामन देव के द्वारा ऐसा कथन करने पर बलि ने यह वचन कहा था—हे मानद ! अपने निवास के लिए तीन पद भूमि ग्रहण कीजिए ॥८४॥

इत्युक्त्वासचराजपिदं दीभूमिद्विजाय वै ।

वारितोऽपितदाव्यासभृगुणार्धवनोदितः ॥८५॥

दत्तमात्रे जलेसद्यो ब्रह्माण्डं चाक्रमद्धरिः ।

सार्धपादद्वयं जाता सर्शलधनकानना ॥८६॥

वसुधैव तदा व्यास ! बलिना चापितं वसु ।

जित्वाऽमुरगान्तसर्वाध्याज्यं दत्त्वा शतक्रतोः ॥८७॥

पञ्चात्कुमुद्वतीं प्राप्तो विष्णुर्वामनरूपधृक् ॥८८॥

ऋद्धिद्विधाश्वमे पुण्ये तीर्थं कृत्वाऽऽत्मसंभवम् ।

निवासमकरोद्व्यास तत्रैव स सुरोत्तमः ॥८९॥

यह कहकर उस राजपि ने द्विज को भूमि के दान का संकल्प कर दिया था । हे व्यास ! उस समय में देव के द्वारा प्रेरित हुआ राजा भृगु (शकराचार्य) के द्वारा निवारित भी किया गया था कि भूमि के दान का वचन मत दो । संकल्प के जल के देते ही श्री हरि ने तुरन्त ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का आक्रमण कर दिया था । वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिसमें

घोल, वन धीरे कानन समी धे ढाई पद मे ही नाप लिया गया था ॥८५-८६॥ उस समय में हे व्यास ! राजा बलि के द्वारा समर्पित सम्पूर्ण वैभव जीतकर तथा सब असुरों को पराजित करके इन्द्र को सम्पूर्ण राज्य दे दिया था ॥८७॥ इसके पश्चात् वामन के स्वरूप धारण करने वाले भगवान् विष्णु कुमुद्वती मे प्राप्त हो गये थे ॥८८॥ उस श्रद्धि और सिद्धियों के परम पुण्यमय आश्रम मे आत्म सम्भव अर्थात् अपने द्वारा उत्पन्न तीर्थ बनाकर हे व्यास ! सुरोत्तम वामन देव ने वही पर अपना निवास किया था ॥८९॥

वामनेन कृत तीर्थं वामनं कुण्डमुच्यते ।

भाद्रेमासिसितेपक्षेद्वादशा श्रवणान्विता ॥००

वामनद्वादशी प्रोक्ता हत्याकोटिविनाशिनी ।

अस्मिस्तोर्थं नरा स्नात्या ह्यनोप्यंकादशी यदा ॥९१

राज्ञी जागरण कुर्याद्ब्रह्मभुवाय कल्पते ।

द्वादश्या वं विशेषेण महादानानिकुर्वते ॥९२

नतेपादुर्लभ किञ्चित्त्रिपुलानेषु पिद्यते ।

एवं वं वामन तीर्थं पुरा प्रोक्तं महर्षिणा ॥९३

सर्वं पापहरं पुण्यं सर्वं कामवरप्रदम् ।

प्राप्यते तेन सर्वं हि नाऽत्र कार्याविचारणा ॥९४

वामन देव के द्वारा किया हुआ तीर्थ वामन कुण्ड कहा जाता है । भाद्रपद मास मे शुक्ल पक्ष मे अथवा नक्षत्र से शुक्ल द्वादशी तिथि वामन द्वादशी कही गई है । यह करोड़ों हत्या के पापों का विनाश करने वाली है । इस तीर्थ मे मनुष्य स्नान करके जब एकादशी का उपवास करे और रात्रि मे जागरण करे 'तो वह ब्रह्म' भूय कल्पित होता है अर्थात् ब्रह्म का ही समान हो जाता करता है । यह द्वादशी के विशेष स्त ने महान् शान करे उन पुण्य के लिए सोना मोक्षों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहा करता है । इस प्रकार से पहिले महर्षि ने वामन तीर्थ का वर्णन किया था । यह समस्त पापों के हरण करने वाला पुण्यमय सब वामनायो

के वरों के प्रदान करने वाला है उस मनुष्य के द्वारा सभी कुछ प्राप्त कर लिया जाता है इसमें कुछ भी शक्य नहीं है ॥६०-६४॥

७०—कुटुम्बेश्वरमाहात्म्यकथन

शृणुव्यासपर तीर्थ भूविविख्यातमुत्तमम् ।
 कुटुम्बेश्वरेतिविख्यातो नाम्नाचवमहेश्वर ॥१॥
 तस्यतीर्थं चर तीर्थं सर्व तीर्थं फलप्रदम् ।
 यस्मिंस्तीर्थं नर. स्नात्वा कुटुम्बीजायते ध्रुवम् ॥२॥
 कुटुम्बायं तपस्तेपे पुरा दक्ष. प्रजापतिः ।
 नारदेन पुरा व्यास पुत्रपष्ठिविवासिता ॥३॥
 प्रजाकाम. स धर्मात्मा सुचिरं व्रतमाचरत् ।
 सपत्नीको महातेजा निराहारो जितेन्द्रियः ॥४॥
 अस्मिंस्तीर्थं शुचि. स्नातो जपन्ब्रह्म सनातनम् ।
 वर्षाणामयुतं व्यास! तपस्तेपे सुदारुणम् ॥५॥
 तेन तीर्थं प्रसादेन लभेत्सं बहुलाप्रजाम् ।
 प्रजापतिरितिख्यातोजातोदक्ष प्रतापवान् ॥६॥
 ब्रह्मापि तत्र वै पश्चात्तप कृत्वा सुदुष्करम् ।
 निष्कल कमलं रूप प्राप्नवास्तत्क्षणाद्विधिः ॥७॥

महामहर्षि सनत्कुमार जी ने कहा—हे व्यास ! भू मण्डल में अत्यन्त प्रसिद्ध उत्तरा घोर परम प्रधान तीर्थ के विषय में श्रवण करो । यह तीर्थ कुटुम्बेश्वर विख्यात है घोर नाम से वमहेश्वर है ॥१॥ उसका यह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है जो समस्त तीर्थों के फलों का प्रदान करने वाला है जिस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके निश्चय ही कुटुम्बी ही जाया करता है ॥२॥ पहिले प्रजापति दक्ष ने कुटुम्ब के लिए तपस्या की थी । हे व्यास ! नारद ने पहिले साठ पुत्र विवासित कर दिये थे ॥३॥ प्रजा की कामना वाले उस धर्मात्मा ने बहुत काल पयन्त व्रत का समाचरण किया था और सपत्नी पत्नी को साथ में लेकर, इन्द्रियों को जीतकर और आहार का

त्याग करके ही महान तेज वाले ने यह ग्रथ लिया था ॥४॥ हे व्यास ! इस तीर्थ में घुचि होकर स्नान किया था और सनातन ब्रह्म का जप करते हुए दस हजार वर्ष तक परम दारुण तपश्चर्या की थी ॥५॥ उस तीर्थ के प्रभाव से हे व्यास ! उसने बहुत-सी प्रत्राप्नों की प्राप्ति की थी । सभी से वह प्रत्रापति विख्यात हो गया था और दश परम प्रताप वाला हो गया था ॥६॥ यहाँ पर पीछे ब्रह्माजी ने श्री सुदुष्कर तप किया था । विधाता ने उसी समय में निष्कल कर्मन का रूप प्राप्त कर लिया था ॥७॥

महादेवोऽपि तत्रैव प्राप्तवान्ब्रह्मणः पदम् ।

चतुर्मुखवरं लिङ्गं दृश्यतेऽद्यापिसत्तम ॥८

भद्रपीठधरा देवी भद्रकालीति विश्रुता ।

तत्रैव च सदा व्यास कीडतिस्म घृतग्रता ॥९

द्वारे तिष्ठति तत्रैव भैरवः क्षेत्रपालकः ।

पादेन सञ्जतांघतः पुरा दैत्यवरादितः ॥१०

पुत्रवत्पालितो देव्या सदा तिष्ठति तत्स्यले ।

ये ते देवगणाः सर्वे तस्मिंस्तीर्थे प्रविष्टिताः ॥११

शृपयोऽपि महाभागाः सदा पवणिययणि ।

ध्यायन्ति चैव सन्ध्यायै बहूपुत्रप्रदेशरे ॥१२

अस्मिन्स्तीर्थे सदाचारः स्नानं कुर्वन्ति येनराः ।

गतेषां दुर्लभं किञ्चिज्जायते जन्मजन्मनि ॥१३

महायावानु धोरानु महामारीषु तत्परैः ।

हवनं क्रियते नित्यं सर्वेषु राजिकैर्यैः ॥१४

महादेश में श्री वही पर ब्रह्म के पद को प्राप्त किया । हे महाम ! धारा भी धार सुगों का धारण करने वाला निग दिग्गर्द दिया करना ॥८॥ भद्र पीठ धरा देवी जो भद्र काली इस नाम में विद्युत है । हे व्यास ! यही पर महा व्रत धारण करके पढ़ा किया जाती थी ॥९॥ यही पर डार पर क्षेत्र का पालन करने वाला भैरव स्थित रहा करता है । पहिले महा दैत्य वर के डारा भदिन होकर एक वर मँगरा हो गया ॥१०॥ देवी ने इयका पुत्र के ही मंत्रि पालन किया और बहू गदा ही

उसके हो स्थल में स्थित रहता है । जो देवमण हैं वे सभी उस तीर्थ में प्रतिष्ठित हैं ॥११॥ ऋषि वृन्द भी महान् भाग वाले सदा हो पर्व—पर्व पर उस बहु पुत्रों को प्रदान करने वाले सर पर सन्ध्या के लिये प्राण करते हैं ॥१२॥ जो सदाचरण वाले इस तीर्थ में मनुष्य स्नान किया करते हैं उनको प्रति जन्म में कुछ भी दुःख नहीं होता है ॥१३॥ महान् घोर वाधाओं में और महामारियों में तत्पर मनुष्य सर्प (सरसों) यव (जौ) और राजिक (राई) से नित्य हवन किया करते हैं ॥१४॥

पायसैविविधैर्भोगैस्तेषां दोषो न जायते ।

दुभिधे राज्यभ्रंशे च संग्रामे भृशदारणे ॥१५

पूजयेत्क्षेत्रपालं च सर्वापदि समाहितः ।

सर्वदुःखानिभुंक्तो जायतेनाऽत्र संशयः ॥१६

स्नात्वा कूटुम्बके तीर्थं पूजयित्वा महेश्वरम् ।

दानं कृष्माण्डकं बद्धाद् ब्राह्मणाय तपस्विने ॥१७

सौवर्णमणिमुक्ताभिर्वासोऽलङ्कारसंयुतम् ।

धनधान्यसमायुक्तः कूटुम्बी जायतेनरः ॥१८

फाल्गुने च मिते पक्षे यावत् चतुर्वर्षी भवेत् ।

प्रयोदशीयुता ध्यास शिवरात्रिस्तथोच्यते ॥१९

तद्दिने च नरः स्नात्वा रात्री जागरणं चरेत् ।

विल्बोदकेन गन्धेन बहुपुष्पफलेस्तथा ॥२०

धूर्जर्वाभिश्च नैवेद्यैर्वासोऽलङ्कारकादिभिः ।

पूजयेद्योनरो भक्त्या गिरीशं सगणंपरम् ॥२१

द्विविध भोगों के द्वारा तथा पायस से जिनके द्वारा हवन किया जाता है उनको कोई भी दोष नहीं होता है । दुभिध (प्रकाश) में—राज्य के भ्रंश हो जाने पर—संग्राम में और जो अत्यन्त दारुण समय हो उसने तथा सभी तरह की आपत्ति में समाहित होकर क्षेत्रपाल की पूजा करता है वह सभी दुःखों से छुटकारा पा जाता है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥१५-१९॥ कूटुम्बक तीर्थ में स्नान करके और महेश्वर का प्रथम

करके किमी तपस्वी ब्राह्मण को कूर्माण्ड (पेठा) का दान देना चाहिए ॥१७॥ यह मनुष्य सुवर्ण—मणि—मुक्तजो वे, वस्त्र और अलङ्कारों से संयुक्त होकर घन—गन्ध से समन्वित होना हुआ कुटुम्बी हो जाया करता है ॥१८॥ फारगुन मास के मिन पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि होवे । हे व्यास ! त्रयोदशी तिथि से जो युक्त होती है यह शिवरात्रि कही जाया करती है ॥१९॥ उम दिन में मनुष्य को स्नान करके रात्रि में जागरण करना चाहिए । पित्त के पत्र तथा फल—जल—गन्ध—बहुत से पुष्प और फल—धूप, दीप, नैवेद्य तथा अलङ्कार आदि से जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान् गिरीश का गणो के तहित पूजन करता है ॥२०-२१॥

तस्य पापं क्षयंयानि शिवलोके महीयते ।

द्वादशकादशीपुण्यं लभते भुवि मानवा ॥२२

अश्वमेधफलं तस्यजागरे च क्षणेदामे ।

तनस्तुप्रातरुत्थायस्नानदानादिका क्रियाः ॥२३

कृत्वा तु विधिवद् व्यास ! शिवपूजाञ्चनं तथा ।

विप्राश्च भोजयेत्सप्त तस्य पुण्यफलं शृणु ॥२४

कपिलानां सत्त्वानां महत्याणि चतुर्दश ।

याजयेद्यमहस्यस्य फलं प्राप्नोति नान्यथा ॥२५

उम मनुष्य के ममस्त पाप क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं और फिर वह पवित्र होकर इस क्षण के प्रभाव से शिव लोक में जाकर प्रतिष्ठित होगा है, भ्रूगण्डन में मनुष्य बारह एकादशियों के उपवास का फल प्राप्त किया करता है । उसके एक—एक क्षण के रात्रि जागरण में अश्वमेध यज्ञ का पुण्य—फल प्राप्त होता है । इसके उपरान्त प्रातः काल में उठकर धर्षान् जागरण का कृत्य समाप्त करके स्नान—दान आदि की क्रिया करे । हे व्यास ! फिर विधि—विधान के महिम्न भगवान् शिव की भजना करने काहिम्न और मान बिना ही सुन्दर गुण्यादु पदार्थों का भोजन करावे । इनका जो पुण्य—फल होगा, है उम का भी अर्थण करा ॥२२-२४॥ यन्तो के महिम्न कृतिना शीको का जो गणना में बीसह महिम्न हा उमो दान करने का उमो एक पहर बाबाइ यज्ञा ५ करो हा पुण्य

—फल वह मानव प्राप्त कर लेता है, इसमें अन्यथा लेना मात्र भी नहीं है ॥२५॥

७१—अखण्डेश्वरमहिमावर्णन

शृणु व्यास महापुण्यं तीर्थं परम शोभनम् ।
 देवप्रयागमाख्यातं सर्वं प-पप्रणाशनम् ॥१
 देवानां च परं स्थानं यत्र तीर्थं परंतप ।
 सोमतीर्थोत्तरे भागे प्रयागस्य च दक्षिणे ॥२
 क्षि (क्षि) प्रायाः पूर्वभागे च तत्र तीर्थं प्रतिष्ठितम् ।
 तत्र तीर्थं नरः स्नात्वा पश्येच्चैव सुरोत्तमम् ॥३
 देवं माधवमित्याख्यं भुवि सर्वं फलप्रदम् ।
 ददाति तस्य देवेन्द्रो वान्छितार्थं जगत्पतिः ॥४
 ध्यानन्दभंरवस्तत्र सर्वदेवनमस्कृतः ।
 यस्य दर्शनं मात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत् ॥५
 न तस्य जायते व्यास ! यातनाभंरवीकदा ।
 स्वर्गद्वारे सदा व्यासजायते निर्भयः पुमान् ॥६
 ज्येष्ठे मासे सिते पक्षे दशम्यां बुध हस्तयोः ।
 गरानन्दे व्यतीपातिकन्याचन्द्रे वृषेरवी ।
 द्रशाला जायते वत्स ! गङ्गाजन्म परं शुचि ॥७
 तद्दिने च नरः स्नात्वा सर्वतीर्थफलं लभेत् ।
 अखण्डं च परं तीर्थं शृणु व्यास ! ह्यतः परम् ॥८

महर्षि सनत्कुमारजी ने कहा—हे व्यास ! सबसे अधिक अच्छा महान् पुण्य वाले तीर्थ के विषय मे सुनो । यह तीर्थ देव प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है और यह सभी तरह के पापों का विनाश कर देने वाला है ॥१॥ हे परन्तप ! जहाँ पर यह तीर्थ है वह देवों का परम स्थान है । यह सोम तीर्थ के उत्तर भाग मे और प्रयाग के दक्षिण में तथा क्षिप्रा नदी के पूर्व भाग मे वहाँ पर ही यह तीर्थ प्रतिष्ठित है । वहाँ उस तीर्थ मे मनुष्य

स्नान करके सुरोत्तम प्रभु का दर्शन करे ॥२-३॥ यह देव माधव नाम वाले हैं और भू मण्डल में समस्त फलों के प्रदाता हैं । जगत् के स्वामी देवेन्द्र उस मनुष्य को वाञ्छितार्थ प्रदान किया करते हैं ॥४॥ वहाँ पर आनन्द भरे व देव हैं जिनको सभी देवगण नमस्कार किया करते हैं और जिसके केवल दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता करता है ॥५॥ हे व्यास ! उसको कभी भी भँरवी यातना नहीं हुआ करती है । वह मनुष्य निर्भय होकर स्वर्ग के द्वार पर है व्यास ! सदा पहुँच पाया करता है ॥६॥ प्येष्ट मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि में जब कि बुधवार हो और हस्त नक्षत्र हो, गरानन्द में, व्यतीपात में, कन्या के चन्द्रमा में और वृष राशि पर स्थित सूर्य में हे वत्स ! परम पवित्र गङ्गा का जन्म दशाला होता है । उस दिन में मनुष्य वहाँ पर स्नान करके समस्त तीर्थों का पुण्य —फल प्राप्त कर लिया करता है । हे व्यास ! इससे भी पर अखण्ड तीर्थ है उसके विषय में श्रवण करो ॥७-८॥

यस्य श्रवणमात्रेण व्रतभङ्गो न जायते ।

एक एव पुंश ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥९

धर्मशर्मतिविख्यातः सदाचाररतः शुचिः ।

बहुव्रतधरो बान्तो वेदवेदाङ्गपारगः ॥१०

किञ्चिदोपप्रसङ्गेन व्रतपूर्तिन चाभवत् ।

एव बहुतिथे काले नारदो देवदर्शनः १-११

तस्य गेहागतां ब्रह्मन्नातिध्याय महोत्तमः ।

तदोस्याय द्विजो नित्य बहुमानपुरः सरम् ॥१२

सत्कृत्य नारद भूमन्विघट्टेन कर्मणा ।

पूजयित्वा द्विजश्रेष्ठः पप्रच्छ मुनिसत्तम ॥१३

मगवन्भवता सर्वं विदितं ज्ञानचक्षुषा ।

अस्माकं च परं दोषः किञ्चिज्जातः पुराज्जघ ॥१४

येन पापप्रसङ्गेन व्रतभङ्गोऽभवद्दधुवम् ।

कारणं ब्रूहि मे नाथ किं दोषोऽत्र तु गण्यते ॥१५

यह ऐसा तीर्थ है जिमने विषय में धरण करने ही से व्रत का मंग नहीं होता है । हे ब्रह्मन् ! पहिले एक ब्रह्म वेत्ताओं मे परम श्रेष्ठ ब्राह्मण था । उसका धर्म शर्मा नाम विद्वान् था । यह सदाचार मे रति रखने वाला और परम पवित्र था । बहुत से व्रतों का धारण करने वाला, दमन शील तथा वेदों और वेदों के सम्पूर्ण अंग—शास्त्रों का पारगामी विद्वान् था ॥६-१०॥ कुछ दोष के प्रसंग होने से इसके व्रत की पूर्ति नहीं हुई थी । इस प्रकार से बहुत-सा समय व्यतीत हो जाने पर देव दर्शन भगवान् नारदजी हे ब्रह्मन् ! उसके पर मे आये ये उन समय मे महान् तपस्वी बह्म द्विज उनके आतिथ्य करने के लिये उठ्य था और नित्य ही बहुमान पूर्वक हे भूमन् ! विधि युक्त कर्म के द्वारा उमने नारदजी का सत्कार किया और हे मुनिमत्तम ! उत श्रेष्ठ द्विज ने पूजा करके उमसे पूछा था ॥११-१३॥ हे भगवन् ! आपने तो ज्ञान की चक्षु के द्वारा यह सभी जान लिया हे । पहिले हे भगवन् ! हमको कुछ दोष उत्पन्न हो गया । जिस वाप के प्रसंग से व्रत का मंग निश्चित रूप से हो गया । हे नाथ ! उसका कारण आप बतलाइये कि यहाँ पर क्या दोष गिना जाता है ॥१४-१५॥

श्रुयता भो द्विजश्रेष्ठ । भवदिभश्च पुराकृतम् ।

महाराष्ट्रे सुविख्यातो ब्राह्मणो धनसञ्चकः ॥१६

प्रह्लादत्तैयसी विप्रो वेदब्राह्मणनिन्दकः ।

पनलोभी पराक्रान्तः सर्वधमबहिर्मुखः ॥१७

नास्तिको देवतीर्थेषु परद्रव्यापहारकः ।

परस्त्रीषु रतो नित्य द्यूतवादी च तस्करः ॥१८

एवमायुः परिक्षोणो धनहीनोऽभवत्तदा ।

इतस्ततोऽभ्रमद्भ्रष्टो नदीतीरे सुविह्वला ॥१९

गतश्रौर्यप्रसङ्गेन यात्रिके सह सङ्गतः ।

किञ्चित्कालेषु दुःशीलो मृतिम्प्राप्ता ह्यजादितः ॥२०

नीतः संयमिनी विप्रस्तत्काल यमकिङ्करैः ।

यमराजपुरं प्राप्तो बहुपापकरो द्विजः ॥२१

देवर्षि नारदजी ने कहा—हे द्विज ध्येष्ठ ! आपने जो पहिले किया था उसको सुनो । महाराष्ट्र में धन का सञ्चय करने वाला एक सुविश्रुत ब्राह्मण था ॥१६॥ ब्रह्मदत्त यह विषय वेदो और ब्राह्मणों की निन्दा करने वाला, धन का लोभी, पराक्लांत, और मभी धर्मों से वहिर्मुख था ॥१७॥ देवों और तीर्थों के विषय में वह परम नास्तिक था और पराये द्रव्य का उपहरण करने वाला था । वह नित्य ही पराई स्त्रियों में रत रहता था—छुन वादी और तस्कर था ॥१८॥ इस तरह से वह भ्रातृ से क्षीण हो गया था और उन समय में धन से हीन हो गया था । इधर—उधर प्रमत्ता रहता था, भ्रष्ट होकर नदी के तट पर सुविह्वल होकर पड़ब गया था ॥१९॥ खोरी के प्रगम से यात्रियों के साथ सद्गत होकर गया कुछ बाल में रोग से पीड़ित होकर दुःशील वह मृत्यु की प्राप्त हो गया था ॥२०॥ उसी समय में यमराज के दूतों के द्वारा वह विप्र नयमनी (दण्ड विधान का स्थल) पर ले आया गया । बहुत अधिक पाप कर्म करने वाला वह द्विज यमराज की पुरी में प्राप्त हुआ गया था ॥२१॥

दृष्टोऽपि धमराजेन तदा पापपरायणः ।

निरीक्ष्य सहस्रोवाच धर्मपूर्वमिदं वचः ॥२२

शृणुष्व फिकरा त्वे श्रूयमकाग्रमानसा ।

अननाचरित सर्वदुष्कर्मसर्व किल्बिषम् ॥२३

गोदातीरे मृतः पापी तस्य न. कारण नहि ।

निश्च. कोटघोऽघकाटिश्च यानि तीर्थान्यहर्निशम् ॥२४

आयान्ति गौतमीतीरे सिंहस्थेऽपि बृहस्पती ।

तेषां तु वायुसंस्पर्शो जाताऽश्यान्ते (न) कलेबरे ॥२५

तेन पुण्यप्रभायेण नोऽस्माककारण वचचित् ।

ग्राह्यो भवदिभर्त्तव्य मुच्यतामो. पुराः मराः ॥२६

एव तैर्मोचितो विप्र. पुनर्भूतगति गतः ।

तेन पापप्रसङ्गेन यमभङ्गी गतो भुवि ॥२७

ब्रह्मन्नेन प्रकारेण सर्वपापक्षयो भवेत् ।

हि तप. किं च दानं च हि तीर्थं प्रसमेयनम् ॥२८

येन पुण्यप्रभावेण व्रत भंगो न जायते ॥२९

उस समय मे घर्मराज ने इसको देखा कि यह तो बड़ा ही पाप परायण है । उसको देखकर वह घर्म पूर्वक यह वचन सहसा ही बोल उठे ॥२२॥ हे सब किङ्करो ! सुनिए और सभी एकाग्रमन वाले हो जाइये । इसने सभी पापों से पूर्ण दुष्कर्म किये हैं किन्तु यह महापापी गोदावरी नदी के तीर पर मरा है वहाँ पर हमारा कोई कारण नहीं है । तीन करोड़ और प्राधा करोड़ जो भौं तीर्थ हैं वे सब रात दिन वहाँ पर गौतमी के तट पर आया करते हैं । बृहस्पति के सिंहराशि पर स्थित होने पर भी वे प्राते हैं । उन सब तीर्थों की वायु का संस्पर्श इसके दरीर के अन्दर में हुआ है ॥२३-२५॥ उस पुण्य के प्रभाव से हमारा कहीं पर कोई कारण नहीं है । आप लोगो को यह ग्रहण नहीं करना चाहिए । पूर्व में ही आप लोग इसको छोड़ दो ॥२६॥ इस राति से उन दम के दूतों के द्वारा छोड़ा गया वह विप्र पुनः ब्रह्मगति को प्राप्त हो गया । उस पाप के प्रसंग से यह व्रत भंगो हो गया था ॥२७॥ ब्राह्मण ने कहा— हे ब्रह्मन् ! किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय होता है ? क्या तप है, क्या दान है और क्या क्या तीर्थों तथा दानों का सेवन है / जिस पुण्य के प्रभाव से व्रत भंग नहीं होता है ॥२८-२९॥

शृणु द्विजवर श्रेष्ठ ! महाकालवनं स्मृतम् ।

यत्र रुद्रसरः प्रोक्तमृषिणा तत्स्वर्दिशिना ॥३०

कोटिकोटिसुतीर्थानि वर्तन्ते द्विजसत्तम ! ।

कोटितीर्थेतिविख्यातं तस्माद् द्विज ! सनातनम् ॥३१

तत्तीर्थस्योतरे भागे सुतीर्थं सर्वकामदम् ।

नाम्नाऽखण्डसरः ख्यातमखण्डेश्वरसन्निधौ ॥३२

यस्यदर्शनमात्रेण सर्वं यज्ञफलं लभेत् ।

तस्माद्धि सर्वथा वत्सगच्छत्वन्तत्रमाचिरम् ॥३३

इति तस्य वचः श्रुत्वा सद्भिर्जोऽगात्कुमुदतीम् ।

स्नात्वाऽखण्डमरे व्यास दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् ॥३४

सद्यः पुण्यवतां लोकान्प्राप्तो वै द्विजसत्तमः ।

एव व्यास ! महातीर्थमखण्डेश्वरमुत्तमम् ॥३५॥

श्री नारद जी ने कहा—हे श्रेष्ठ द्विज गण ! सुनिए । महाकाल बन कहा गया है । जहाँ पर तत्त्व दर्शी ऋषि ने रुद्र सर कहा है ॥३०॥ हे द्विज सत्तम ! वहाँ पर करोड़ों-करोड़ों सुन्दर तीर्थ वर्तमान रहते हैं । हे द्विज ! इसी से वह सनातन कोटि तीर्थ नाम से विख्यात है ॥३१॥ उस तीर्थ के उत्तर भाग में समस्त मनोरथों का प्रदान करने वाला सुतीर्थ है । यहाँ पर ब्रह्मलेश्वर की सन्निधि में अखण्ड सर नाम से एक सर प्रसिद्ध है ॥३२॥ जिसके केवल दर्शन से ही सम्पूर्ण यज्ञों के फलों का लाभ होता है इस कारण से हे बरम ! तुम वहाँ पर चले जाओ और अधिक बिलम्ब मत करो ॥३३॥ इस उगके बचन को सुनकर वह द्विज कुमुदनी को चला गया था । हे व्यास ! उसने अखण्ड सर में स्नान किया था और महेश्वर देव का दर्शन किया था ॥३४॥ वह द्विजों में श्रेष्ठ गुरुत्त ही पुण्य बालों के लोको को प्राप्त हो गया था । इस प्रकार से ब्रह्मलेश्वर उत्तम महान् तीर्थ है ॥३५॥

७२—हनुमत्केश्वरमाहात्म्यवर्णन

अयान्यत्प्रवक्ष्यामि देवत्रिदशपूजितम् ।

हनुमत्केश्वर नाम भुक्तिभुक्तिफलप्रदम् ॥१॥

दांवेसरसियः स्नात्वा पश्येद्धनुमत्केश्वरम् ।

कल्पकोटिसहस्राणिवायुलोके समोदते ॥२॥

हनुमत्केश्वरोयस्तु ह्युक्तः पूर्वस्त्वयानघ ! ।

कपाकथयस्यै तस्य यत्पूर्वाननातनोम् ॥३॥

श्रीलोक्यकण्ठकः पूवो रावणोनामराक्षसः ।

विष्णुनारामरूपेण लंकायांविनिपातितः ॥४॥

घातयित्वातुतंदुष्टं सीतामादायजानकोम् ।

वानरंस्तहृष्टं दत्तं नगरोस्यामुपागतः ॥५॥

तत्रराज्यमनुप्राप्य ऋषिभिः परिवारितः ।
 कथावसानेरामेण ह्यगस्त्योमुनिसत्तमः ॥६
 पृष्टोऽधिकोद्वयोर्वापिशम्भुर्वातजयोऽस्तुकः ।
 तदादाशरथिप्राहअगस्त्योमुनिसत्तमः ॥७

श्री सनत्कुमार जी ने कहा—इसके अनन्तर देवों के द्वारा समवित्त एक अन्य देव के विषय में वर्णन करूँगा जिनका नाम श्री हनुमत्केश्वर है और यह भुक्ति और मुक्ति दोनों के प्रदान करने वाले हैं । शंख सर में जो स्नान करके श्री हनुमत्केश्वर प्रभु का दर्शन किया करता है वह एक सहस्र करोड़ कल्पों तक वायु लोक में आनन्द का साधन प्राप्त किया करता है । श्री व्यास देव जी ने कहा—हे अनघ ! आपने जो पहले हनुमत्केश्वर कहा था अब इसकी बलपूर्वक सनातनी कथा कहने की कृपा काजिए । श्री सनत्कुमार जी ने कहा—पहिले होने वाला एक ब्रूलोक का कष्टक स्वरूप अर्थात् दुःख दायी रावण नाम वाला राक्षस था । उसका विनिपायत श्रीराम रूपधारी भगवान् विष्णु ने किया था । उस दुष्ट रावण का बध करके और जनक महाराज की पुत्री सीता को लेकर समस्त वानर और रीछों के सहित वापिस अपनी नगरी अयोध्या में समागत हो गये थे । वहाँ अपना राज्यासन ग्रहण करके ऋषियण से समावृत्त मुनियों ने श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कथा के अवसान में श्रीराम ने पूछा था कि भगवान् शङ्कर और वायुदेव इन दोनों से समुत्पन्न होने वाले ने अधिक कौतसा है । उस समय में मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी ने महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम से कहा था ॥१-७॥

अनीपम्योयथादेवो युद्धेशीर्यमहेश्वरः ।
 ज्ञेयोवायुसुतस्तद्वत्सत्यमेतद्ब्रवीमिते ॥८
 एवंश्रुत्वाथहनुमान्यच्छिवेनोपमामम ।
 कृतामुनिवरेणेह प्रत्यक्षं राघवस्यहि ॥९
 गमिष्येनगरीलंकां लिंगमेकं प्रयाचितुम् ।

१ राक्षसेन्द्रं महाभागं विभीषणमकल्मषम् ॥१०

ततो गतस्सलंकायां विभीषणमुवाच ह ।
 देहि मत्वं महाभाग लिंगमेकञ्च शोभनम् ॥११॥
 उक्तञ्च राक्षसेन्द्रेण गृहार्णोत्तथारुचि ।
 एतानि पद्वर्लिङ्गानि रावणस्थापितानि वै ॥१२॥
 शंलोभ्य विजयात्सूबं मम भ्रात्रामहात्मना ।
 एतेषु यदभीष्टन्ते लिंगकथय सुव्रत ! ॥१३॥
 तत्प्रपञ्छामितेऽद्यैव सत्यमेतत्प्लवंगम ! ।
 ततो जगद्गहनुमात्स्लिंगं मौक्तिकसन्निभम् ॥१४॥

मुद्द मे और दूरकीरता मे महेश्वर देवता के समान अनुपम वायुपुत्र को समझना चाहिए और यह वायु के ही समान है—यह मैं बिल्कुल सत्य आपको बतला रहा हूँ ॥१॥ इसके अनन्तर हनुमान् जी ने इस प्रकार से थकावट करके कि मेरी शिव प्रभु के साथ उपमा वहाँ पर मुनिवर ने की है जो कि श्री रावण के प्रत्यक्ष में की गयी थी । मैं अब लङ्का नगरी में जाऊँगा और वहाँ पर एक लिङ्ग की स्थापना करूँगा और वह भी कर्मियों से रहित राक्षसों के शत्रु महात्मा भाग वाले विभीषण से ही करूँगा । इसके उपरान्त वह लङ्का में गया था और विभीषण से बोला— हे महाभाग ! मुझे एक परम शोभन लिङ्ग दीजिए । उसी समय में उम राक्षसों के इन्द्र ने कहा—इसका प्राप्त अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण कीजिये । ये ही लिङ्ग है जो कि रावण के द्वारा स्थापित किये गये हैं । मेरे भाई महात्मा ने त्रैलोक्य विजय करने के पूर्व में ही इन लिङ्गों की स्थापना की थी । हे सुव्रत ! इन छत्रों लिंगों में प्राप्त बतलाइये कौन-सा शिव लिङ्ग आपको श्रेष्ठ है ? हे प्लवङ्ग ! उसी को मैं आज ही आपको दिये देता हूँ—यह सर्वथा सत्य ही है । इसके पश्चात् हनुमान् जी ने एक जो मौक्तिक के सदृश लिङ्ग था उसी को ग्रहण कर लिया था ॥१६-१४॥

यदेतद्दृश्यते वीर ! तत्प्रपञ्चममानघ ।

श्रुत्वा हनुमतो वाक्यमथोवाच विभीषणः ॥१५॥

कथं तावद्भ्रुपादाख्ये यातावन्नमहामुने !
 न पश्येद्यमलोकं ॥ यद्यपि ब्रह्महाभवत् ॥२
 भारवतारणार्थाय देवीरामजनार्दनौ ।
 अश्वनीर्णोयदोवशो दिव्यरूपो महाद्युतो ॥३
 कंसं हृत्वाथ चाणूरमुग्रसेनं नराधिपम् ।
 अभिषिच्यस्त्रयराज्ये यदुसिह उवाच तम् ॥४
 किं कार्यं ते मया ब्रूहि कर्तव्यन्ते सुते हते ।
 एवमुक्तस्स राजार्यं उग्रसेनोऽग्रीवीदिदम् ॥५
 सर्वं सम्पत्स्यते कण्ठे ! भवतो हिन दुर्लभम् ।
 विज्ञाताखिलविज्ञानी भवितारो बुभावपि ॥६
 गच्छेतामुज्जयिन्याव कृतविद्यो भविष्यथः ।
 ततस्तान्दीपनिविप्रं जग्मतुरामकेशरी ॥७

श्री सनत्कुमारजी ने कहा—अवन्ती में अद्भुतपाद नाम वाले स्थान में राम जनार्दन दोनों का दर्शन करना चाहिए । जिनके दर्शन मात्र से हा मनुष्य फिर यम लोक को नहीं देखता करता है । श्री श्याम देव जी ने कहा—हे महामुने ! इस भ्रुकण्ठ नाम वाले स्थान में वे दोनों कैसे प्राप्त हुए थे । यद्यपि ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो तो भी इसके दर्शन का ऐसा प्रभाव होता है कि वह मनुष्य यमलोक का कभी दर्शन नहीं किया करता है ॥१-२॥ सनत्कुमारजी ने कहा—भूमि के बड़े हुए भार को उतारने के लिए श्रीराम और जनार्दन दोनों देव अवतीर्ण हुए थे और यदु के वश में महती धृति से सम्पन्न दिव्य रूप वाले इन्होंने अवतार लिया था । मथुरा के राजा वसु को मारकर और चाणूर का वध करके नराधिप उग्रसेन का अभिषेक किया था और फिर यदुओं में सिंह के समान उन्होंने उतारे कहा था—अब कुछ क्षण के गुन के मार देने पर मुझे आपका क्या कार्य शेष रह गया है और मुझे अब क्या करना चाहिए—यह बनाओ । इस प्रकार से जब उभरे कहा गया तो वह राजा उग्रसेन यह बोला—हे वृष्ण ! क्षण में ममो कुछ हा जायगा, कुछ भी दुर्लभ नहीं है । तन्मूर्छे विज्ञान के जानने वाले पाद दोनों ही होंगे । अब आप दोनों

ही उज्जयिनी पुरी में चले जाइये वहाँ पर आप कृत्विष्ठ अर्थात् विद्या प्राप्त करने वाले होगे । इसके अनन्तर वे दोनों बत्तराम और केशव सान्दीपनि विप्र के समीप में चले गये थे ॥३-७॥

कण्ठस्थाश्चकृत्वुर्वेदानाचारमखिलञ्चती ।
 सरहस्यं धनुर्वेदं ससंहारं तथैव च ॥८
 अहोरात्रैश्चतुःपष्टघालदद्भुतमभूद्विज ।
 सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कर्मातिमानुषम् ॥९
 विश्विन्त्यतीतदामेनेप्राप्तोचन्द्रदिवाकरी ।
 ततःकिञ्चित्मनोवाचस्नातुं तीर्थमथोपयी ॥१०
 शिष्यैस्तु सहितो विप्रो महाकालमयाविशत् ।
 शिष्यैस्सह प्रविष्टौ द्वौ तदा तौ रामकेशवौ ॥११
 वन्द्यमानो महाकालस्तदाकेशवमव्रवीत् ।
 त्वयानाथेन देवानां मनुष्यत्वे हिति प्लुता ॥१२
 सुखमासीच्च साधूनामज्ञानाञ्च सर्वदा ।
 जनपीडाकराये तु सदा वा बलदपिताः ॥१३
 युवाभ्यातेहतास्सर्वकंसप्रमुखतो नृपा ।
 मुनिसिद्धपुरादीनां स्थितिं कार्यास्त्वयानघ ॥१४
 करिष्यामि तमित्युक्त्वा स नमस्यस्ततो ययौ ।
 दृष्ट्वा सान्दीपनिं शिष्या ऊचुरेवं दिनेदिने ॥१५

दोनों ने चारों वेदों को कण्ठस्थ कर लिया था और सम्पूर्ण आचार का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । रहस्य से समन्वित एवं संहार के सहित धनुर्वेद को जान लिया था । यह समग्र ज्ञान चौमठ अहारात्र में ही प्राप्त कर लिया था । हे द्विज ! यह एक परम अद्भुत ही घटना थी । उन दोनों बालकों का मनुष्य की शक्ति से बाहिर असम्भाव्य कर्म के दिव्य में सान्दीपनि ने स्वयं बहुत कुछ किया था और वे इन दोनों को चन्द्र और सूर्य ही मानने थे । इसके पश्चात् उसने कुछ भी नहीं कहा था और वह शीघ्र में स्नान करने के लिए चला गया था । वह विप्र धनने शिष्यों के सहित महाकाल के मन्दिर में प्रविष्ट दृष्टा था । उस समय में शिष्यों के

सहित वे दोनों राम और केशव भी प्रविष्ट हुए थे । वन्दना किये गए महाकाल ने भगवान् केशव से कहा था—देवों के स्वामी आपके इस मानवोप शरीर में स्थित रहकर विराजमान होने से साधु पुण्यों को परम सुख हुआ था और जिनको ज्ञान नहीं था उनको भी सर्वदा सुख था । जो जनों की पीड़ा करने वाले थे धयवा सर्वदा अपने बल का धमण्ड रखते थे वे सभी कंस आदि प्रमुख राजा आपके दोनों के द्वारा निहत कर दिए हैं । हे भगवन् ! आपको मुनि, सिद्ध और सुर आदि की स्तुति करनी चाहिए । उनको मैं इसे कलंगा, यह कहकर नमस्कृत हुए वह वहाँ से चले गये थे । शिष्यों ने सान्दीपनि को देख कर दिन-दिन में इसी प्रकार से कहा था ॥८-१५॥

कोपिनाभहृद्यत्तेपां वचस्त्वत्यद्भुतं यतः ।

स्वयं ययौ ततो द्रष्टुमाश्चर्यं शिष्यभाषितम् ॥१६

ततस्तथोत्थितः शब्दः संश्लेषश्च तथा तयोः ।

तावागतौ गृहं तत्र गुरुवचनमग्रवीत् ॥१७

नवैशातीमयावीरोयदिवृष्णि कुलोद्भवो ।

ततस्सान्दीपनिकृष्णः कृतकृत्योऽब्रवीद्वचः ॥ ८

गुर्वथ किन्ददामीतसहरामेणहृषितः ।

तच्छ्रुत्वावचनं हृद्यं गुरुः प्रोवाचहृषितः ॥१६

पुत्रमिच्छाम्यहं त्वत्तोयोमृतो लवणाम्भसि ।

पुत्र एको हि मे जातस्स चापितिमिनाहतः ॥२०

प्रभासेतीर्थयात्रायां त्वमेव तमिहानय ।

तथेति चाब्रवीत्कृष्णो रामस्यानुमतेगतः ॥२१

क्योंकि यह अत्यन्त अद्भुत वचन था । इस पर कोई भी श्रद्धा नहीं करता था । इसके अनन्तर शिष्यों के द्वारा कहे हुए वचन को जो प्राश्चर्यं युत था देखने के लिए स्वयं ही ग्रा गये थे । इसके अनन्तर उस प्रकार का शब्द उत्थित हुआ था और उन दोनों का संश्लेष हुआ था । वहाँ पर वे दोनों गृह में समागत हो गए थे । तब श्री गुरुदेव ने यह वचन कहा

था—वृष्णि कुल में समुद्रभूत आप दोनों बोरों को मैंने नहीं पहिचाना है । इसके उपरान्त भगवान् कृष्ण कृष्णकृत्य होते हुए मान्दीपनि से बोले—राम के सहित हृषित में श्री गुरुदेव को सेवा में बया भेंट करूँ । यह वचन सुनकर परम हृषित गुरुजी ने अतीव सुन्दर वचन कहा था ॥१६-१६॥ मैं तो केवल आपसे अपने पुत्र को चाहता हूँ जो लवण सागर में मृत हो गया है । मेरे एक ही तो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह भी तिमि के द्वारा निहत हो गया है । प्रभास क्षेत्र की तीर्थ यात्रा में यह दुर्घटना हुई थी । आप ही उस को यहाँ पर लाइये । हे गुरुदेव । ऐसा ही किया जायगा, यह बलराम की अनुमति से श्रीकृष्ण ने गुरु को उत्तर दिया था ॥२०-२१॥

तं समुद्रउवाचेद दैत्यः पञ्चजनोमहान् ।
 तिमिरूपेणतंवाल ग्रस्तवान्मयिसस्थितः ॥२२
 ततः पञ्चजन हत्वा ग्राहुरूप महाबलम् ।
 तन्मध्यस्थ चजग्राह शङ्खु ग्रस्तोहियः पुरा ॥२३
 जलमध्यस्थिते नैवग्राहेणातीवलीलया ।
 तस्योदरेयदावालनददर्शजनार्दनः ॥२४
 यमालयगत मत्वा तदावरुणमब्रवीत् ।
 भगवन्त्यादसामीश रथोमेदीयताम्महान् ॥२५
 येनाह्वेहिताञ्जित्वापश्येयप्रतपयमम् ।
 पुराजिरेहतादैत्यादानवाबलदर्षितः ॥२६
 मयायेनरथेनाद्य समह्य दीयतारथः ।
 न्यासभूतोरथोयस्ते विधृतोपरत्तरेणे ॥२७
 मयाधर्मपुरस्कृत्य दीयता सह्यपाम्पते । ।
 एनच्छ्रुत्वाप्रहृष्टात्माज्ञात्वाकार्याथिनहरिम् । २८

समुद्र ने श्री कृष्ण से कहा था—एक महान् पञ्चजन दैत्य है उसने ही तिमि के स्वरूप से उस बालक को मेरे अन्दर स्थित होते हुए प्राप्त किया था । इसके अनन्तर समुद्र के मध्य में स्थित महान् बनशाली ग्राह के रूप वाले उस पञ्चजन का वा करके शय को प्राप्त किया गा जो पहिले इस-

ने ब्रह्म लिया था । यह जल के मध्य में स्थित अत्यन्त बल वाला ग्रह था । उसके उदर में जब जनार्दन प्रभु ने उस बालक को नहीं देखा था तो यह मानकर कि वह यमालय को चला गया है । उस समय में यादवों के स्वामी भगवान ने वरुण से यह कहा था कि मुझे एक महान् रथ दो । जिस रथ के द्वारा युद्ध में शत्रुओं को जीतकर मैं प्रेतों के स्वामी यमराज के समीप पहुंच सकूँ । पहिले रथ में बल से दक्षिण दक्षिण और दक्षिण निहत किये गये हैं और मैंने जिस के द्वारा युद्ध किया है वही रथ मुझे इस समय में दो । रथ के उपरत हो जाने पर वह रथ न्यास के रूप में आपके समीप में रखा हुआ है । हे अर्षांपते ! वही रथ मुझे दो जो मैंने धर्म कार्य को पहले करके रखा था । यह श्रवण करके वरुण परम प्रसन्न आत्मा वाला हुआ और उसने श्री हरि को उस समय में कार्याधीन समझ लिया था ॥२२-२८॥

ददौतुरथमक्षोभ्यं रणेत्स्मंसुरासुरैः ।

ततोहरिस्समालोक्य रथंरत्नपरिष्कृतम् ॥२९

द्वीपिचर्मपरीधानं वंयाघ्नपरिवारितम् ।

नानाचित्रविचित्राङ्गं गरुडद्वजराजितम् ॥३०

सयुक्तंशैव्यसुग्रीवमेघपुष्पवलाहकैः ।

अजेयन्दैवदेवेन्द्रदानवासुरराक्षसैः ॥३१

अनेकायुधसम्पूर्णमणिविद्रुमभ्रूपितम् ।

सहस्रसूर्यप्रतिमचारुवक्रचतुर्युगम् ॥३२

किङ्किणीशतशोभाढ्यं घण्टाचामरचन्द्रिकम् ।

संवर्त्ताकारविषमं खगेन्द्रवरकेतनम् ॥३३

दृष्ट्वाकृष्णस्तरामस्तु मुमुदे वीतविस्मयः ।

प्रदक्षिणभ्रुपागत्य देवताम्यः प्रणम्यच ॥३४

आहरोह रथं विष्णुविमानं साग्रजोऽजनः ॥३५

वरुण देव ने तुरन्त ही वह रथ भगवान को समर्पित कर दिया था जो रथ में सुरों और असुरों के द्वारा अक्षोभ्य या अर्थात् किसी के द्वारा भी उसे कोई क्षोभ नहीं दिया जाता था । इसके अनन्तर हरि ने रथों

से परिष्कृत उस दिव्य रथ का समवलोकन किया था ॥२६॥ वह रथ हाथी के चर्म से मढ़ा हुआ था और व्याघ्रों के चर्म से परिवारित था । वह नाना प्रकार के चित्रों से विचित्र रंगों वाला था और गरुड़ की ध्वजा से शोभायमान था । शंख, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहकों से समन्वित था तथा देश देवेन्द्र, शनव, अपुर और राक्षसों के द्वारा धजेय था । वह रथ अनेक आयुषों से सम्पूर्ण था और मणियों तथा विद्रुमों से विभूषित था । वह रथ एक सहस्र सूर्यों के समान तेज युक्त था, चार बक्र और चार युगों वाला था । वह भगवान् विष्णु के विराजमान होने वाला रथ सैकड़ों किङ्कणियों की शोभा से समन्वित था तथा घण्टा और चामरों की चन्द्रिका से संयुत था । वह सम्बर्ण आकार से विषम था तथा सगेन्द्र ध्रुव के केतन (ध्वजा) वाला था । भगवान् श्री कृष्ण और श्री बलराम को विष्णु से रहित होकर बहुत ही प्रसन्नता हुई थी । प्रदक्षिण को समुपागत होकर और देवगणों को प्रणाम करके अपने प्रथम के सहित भगवान् विष्णु उस विमान रथ पर समाह्वय हुए थे ॥३०-३५॥

ततो जगाम त्वरितो जनाददन्तो

जगन्निवासो यमलोकमाश्रिताम् ।

दिशं सहस्रैः किरणैर्वृताम्पुरी

ददर्श सङ्घं परिगृह्य चाभ्युतः ॥३६

तत्रप्रध्मापयामास सङ्घं खड्गधनुधरः ।

तेनशब्देनविप्रस्ताः कृतान्तालयासिनः ॥३७

नरकान्तगंतामर्त्याः पापाचारपरायणाः ।

सुखमापुः प्रशान्ताश्रवहृद्यःकृष्णदर्शनात् ॥३८

शस्त्राणि कुण्ठतां प्रापुर्ग्रन्थाणि विविधानि च ।

विदीर्णानि तदा चाशु देवदेवस्य दर्शानात् ॥३९

असिपत्रघननाम शीर्णपर्धमजायत ।

रौरवंनामनरकमर्भरवमभूत्तदा ॥४०

अर्भरवंभरवास्यं कुम्भोपाक्रमपाचिकम् ।

शृङ्गाटंशृङ्गसदृशं सोहस्रच्यपसूचिका ॥४१

दुस्तरामुनराजा नदीवैतरणीनृणीम् ।

नरकान्तेतदाजातेगतेविश्वेश्वरेविभौ ॥४२

इसके अनन्तर जगत् के निवास बन्धुत जनादेन भगवान् ने शङ्ख का परिग्रहण करके सहस्रो किरणों से परिवृत यम लोक के समाहित दिशा वाली उष यमराज की पुरी को देखा था ॥३६॥ खंब और धनुष के धारण करने वाले प्रभु ने वहाँ पर उस अपने शङ्ख को बजाया । उस शङ्ख की ध्वनि से यमराज के लोक के समस्त निवास करने वाले मय भीत हो गये थे । जो लोग नरकों में धन्दर रहने वाले मनुष्य थे और पापों के समावरण में ठटपर रहते थे उन्होंने परम सुख की प्राप्ति की थी । भगवान् श्रीकृष्ण के दर्शन से अग्निर्वा एक वम प्रखान्त हो गई थी । जितने भी शस्त्र थे वे सब कुण्ठन दशा को प्राप्त हो गये थे और विविध भ्रांति के यज्ञ भी देवों के देव के दर्शन से बहुत हो शीघ्र उस समय में विदीर्ण हो गये थे ॥३७-३९॥ असिपत्र वन नाम वाला जो नरक था वह शीघ्र भण हो गया था और उष ममय में रौरव नाम वाला महा भीषण नरक उस समय में धर्भरव हो गया अर्थात् उसकी भीषणता दूर हो गई थी ॥४०॥ भैरव नाम वाला नरक भर्भरव हो गया और कुम्भोपाक नाम वाला नरक प्रपाचिक हो गया अर्थात् उसकी पाचन क्रिया समाप्त हो गई थी । जो शृ गार नाम वाला नरक था वह शृ ग के समान था और लोह सूत्रो भी बिना सूत्रियो वाला हो गया । जो वैतरणी नदी परम दुस्तर थी वह भी मनुष्यों के लिये सुतरा हो गई । उस समय में जब कि नरकों के समीप विश्वेश्वर पहुँचे तो उनकी सभी मान-नाओं की क्रियाएँ समाप्त हो गई थी ॥४१-४२॥

पापक्षयात्ततस्सर्वे तेमुक्त्वा नरकान्नरा ।

पदमव्ययमासाद्य दृष्ट्वा विष्णु तमोपहृम् ॥४३

विमानेषुसहस्रेषु ह्यारूढास्तेसमन्तत ।

समीक्ष्यपुण्डरीकाक्षं मुक्त्वास्तेसर्वपातकात् ॥४४

ततश्शून्यमुनेजातं सर्वनिरयमण्डलम् ।

दर्शनात्तस्यदेवस्य विष्णोर्विश्वस्वरपिण ॥४५

ततोद्भूताः कृतान्तस्यकृष्णञ्चयुद्धकारिणम् ।
 चारयामासुरव्यग्रा विशन्तं नरकान्प्रति ॥४६॥
 मावीरानेनमार्गेण रथमानयमानवाः ।
 प्रयान्स्यधोगतिं पापात्परस्त्रीस्वापहारकाः ॥४७॥
 यमादिष्ठानराः पापाद्ये मोच्या वर्षकोटिभिः ।
 दृष्ट्वा तएवसद्यस्त्वां गतास्स्वर्गमघावृताः ॥४८॥
 एतच्छ्रुत्वावचस्तेषा कृपयापीडितोभृशम् ।
 पुनः प्रोवाचमधुहा मोक्षायाहमुपागतः ॥४९॥

पापों के क्षय हो जाने से फिर वे सभी नरक वासी मनुष्य नरकों से विमुक्त हो गये थे । अथर्व्य पद को प्राप्त करके और तम का अपहरण करने वाले भगवान् विष्णु का दर्शन प्राप्त करके वे सभी घोर सहस्रो विमानों में समाह्वित हो गये थे । भगवान् पुण्डरीकाक्ष का दर्शन प्राप्त करके वे नरकों में रहने वाले प्राणी सभी पापों से विमुक्त हो गये थे । हे मुने ! उसके पदघान् तो ऐसा हुआ था कि वह सम्पूर्ण नरकों का मण्डल एक दम धून्य हो गया था अर्थात् वहाँ पर कोई भी रहा ही नहीं था । यह सारा प्रभाव विद्वत् स्वस्वी भगवान् विष्णु देव के दर्शनों का ही था । इसके अनन्तर यमराज के दूतों ने युद्धकारी श्रीकृष्ण को नरकों में प्रवेष्ट करने पर अभ्यग्र होते हुए निवारित कर दिया था ॥४३-४६॥ यमराज के किकरों ने कहा था—हे वीर ! इस मार्ग से रथ को मत लाओ । जो परायण धन तथा परायणी स्त्री का अपहरण करने वाले मनुष्य होते हैं वे ही अपने किये हुए पाप के कारण से हम मार्ग में प्रयोगति को धामा करते हैं । जिस नरक की यातना को भोगने के लिये मनुष्यों को आदेश दिये गये थे और जो करोड़ों वर्षों तक मोचन करने के योग्य थे वे भी आपका दर्शन प्राप्त करके अपों से आवृत भी तुरन्त ही स्वर्ग लोक को चले गये हैं । इस उनके वचन को सुनकर कृपा से अत्यन्त पीडित होकर मधुरिपु प्रभु ने पुनः यह कहा था—मैं तो उनके मोक्ष के लिये ही पाया हूँ ॥४७-४९॥

सर्वेषां स्वर्गदाताऽहं यमलोकनिवारकः ।
 अञ्जसायमराड्दूता यमायाख्यातमेव च ॥५०
 एतच्छ्रुत्वावचोदूनास्सत्वरायममागताः ।
 सर्वमाचक्षिरेवृत्तं यथानारकिमोक्षणम् ॥५१
 ततोयमोरुपाविष्टः प्राहृतान्यमकिङ्करान् ।
 यः कश्चिदागतोमर्ष्यो मर्यादाभेदकृन्नरः ॥५२
 तंगन्वावाद्यध्वंवं गृहीत्वानीयतामहम् ।
 अयन्नरान्तकोयानु किङ्करस्महकिङ्करैः ॥५३
 एवमुक्तो यमेनाथ किङ्करस्सनरान्तकः ।
 गत्वातंवारयामास वाग्भरुग्राभिरच्युतम् ॥५४
 यदानवारितस्तस्थौ तदाक्रुद्धोनरान्तकः ।
 तदाशरैरतीवोग्रैस्ताडितस्तेनयेशवः ॥५५
 बलदेवोऽपिसमरे ताडितोविविधैश्शरैः ।
 तावुभौताडितौघोरैः समन्ताद्यमकिकरैः ॥५६

मैं सभी को स्वर्ग के प्रदान करने वाला हूँ और इस यमलोक का निवारण करने वाला हूँ । तुरन्त ही उन यमराज के दूतों ने यमराज से जाकर यही कह दिया । यह वचन सुनकर यम के दूत बहुत ही शीघ्रता से यमराज के समीप में पहुँच गये थे और उन्होंने यह सभी वृत्त जैसे कि नारकिमो का मोक्ष हुआ यमराज से निवेदित कर दिया । यमराज ने कहा—यह नरान्तक किंकर अपने किंकरों के साथ वहाँ पर चला जावे और वहाँ जाकर उनको रोक दो । उसे पकड़ कर वहाँ मेरे पास लाओ । इस प्रकार से यम के द्वारा कहे हुए उस नरान्तक किंकर ने बहुत ही उग्र वचनों से उन भगवान् अच्युत को रोक दिया । जब वह वारित किये जाने पर भी नहीं रुके तो वह नरान्तक बहुत क्रुद्ध हुआ था और उस समय में बहुत ही उग्र शरो से उस नरान्तक ने भगवान् केशव पर प्रहार किया । बलदेवजी को अनेक शरो से द्वारा ताडित किया । वे दोनों ही धीवृष्ण और बलराम परम घोर वाणों से शरो ओर से यमराज के किंकरों के द्वारा प्रताडित हुए थे ॥५०-५६॥

आशयधनुषोदिव्ये जघ्ननुर्यमक्रिकरान् ।
 चाणेरनेकसाहस्रं : क्रुद्धोरामजनाहंनो ॥५७
 नरान्तकोऽपिनगरे बसेनवलिनार्दितः ।
 पपातगदयामिन्नो मूर्धनिर्गतलोचनः ॥५८
 ततो नरान्तकेवोरे पतितेयमक्रिकरे ।
 क्रिकराणामभूत्सैन्यमार्तरणपाट्मुखम् ॥५९
 सैद्रुतारामकृष्णाम्यां हन्यमानाभयातुराः ।
 यमायकथयामामुनं रान्तकनिपातनम् ॥६०
 ततोयमोयमोययोक्रुद्धः भ्रमन्तार्त्तिककरं वृतः ।
 ततः प्राह यमः क्रुद्धोनोजितोऽहंपुरापरं ॥६१
 ततोवादित्रघोषं स्नु मुरजानकगोमुखं ।
 नानाडमरुताद्यंश्चित्रगुप्तं च गच्छति । ६२
 देवाविद्याधराः सिद्धा इष्टुं प्राप्ता महाबलम् ।
 वृत्तान्तस्य रणेऽशोभ्यं कामपालं जगत्पतिम् ॥६३

गद्य भी बलराम और जनार्दन दोनों बहुत ही क्रुद्ध हो गये थे और उन्होंने महर्षों याणों से अग्ने दिव्य दिव्य धनुषों को ग्रहण करके उन यमराज के बिचरों का हनन कर दिया । वह नरान्तक भी उम समर स्थल में परम वनतापी बनरामजी के द्वारा मूर्ख हो पीड़ित किया गया और गदा के प्रहार माये में भिदा हुआ वह निश्चये हुए नेत्रों वाला होकर गिर गया । इसके अनन्तर जब वह नरान्तक वीर यमराज का बिचर कुछ स्थल में गिर गया तो उमके पतन होने ही यमराज के बिचरों की वह सम्पूर्ण सेना रण से पराष्ट-मुग हो गई । वे समस्त दून राम कृष्ण के द्वारा हन्यमान होने हुए भयभीत होकर यमराज के पाग पशुंसे और उन्होंने ये यमराज से उम नरान्तक के निनाश होने का समाचार बट दिया । इनके उदरान्त यमराज अत्यन्त क्रुद्ध होकर सभी और में अपने बिचरों द्वारा परिभूत होकर वहाँ पर गया और योगबिष्ट होकर उमने बट्टा— पहिले आत्र लक्ष मुने सभी दूगरोने नहीं प्रोश है । इनके वरपात्र बादिनों

की ध्वनियों से—मुरज—आनक और गोमुख के शब्द से तथा अनेक डमरू आदि के घोषों के साथ चित्रगुप्त के जाने पर वहाँ पर समस्त देव गण—विद्याधर और सिद्ध उस कृतान्त के युद्ध में महान् बलवात् जगत् के स्वामी कामपाल को देखने के लिये प्राप्त हो गये थे जो कि अज्ञान्य थे ॥५७-६३॥

ततस्तेकिंकराः सर्वेचित्रगुप्तेननोदिताः ।

रथामावृत्यवाणीर्घः प्रबबाधुस्समन्ततः ॥६४

बलञ्चकेशवं संख्ये जघ्नतुस्तावुभावपि ।

रणेचविविधैर्वाणंश्चित्रगुप्तस्यपश्यतः ॥६५

विदार्यचसहस्राणि किंकराणांसमन्ततः ।

कृतान्तानीकिनीमध्ये कृतान्तइवकेशवः ॥६६

चचार रणदुर्द्धर्षः कामपालेन पालितः ॥६७

ततश्चित्रगुप्तोरणे किंकरोर्धं

विद्वीर्णं निरीक्ष्यास्तनादचकार ।

शरं पञ्चभिः कृष्णमायान्तमाजौ

जघानाष्टभिर्ववप्रदेशे सभिन्नः ॥६८

शरार्तोरथोपस्थआसीत्तदानीं

तमालोक्यभिन्नं रणे नष्टसञ्ज्ञम् ।

रथं स्वं समादाय यातः कृतान्त

स्ततश्चित्रगुप्तेशरार्ते प्रसुप्त ॥६९

रणे कीर्तिलुप्तेभयक्षोभयुक्ताः

स्वसंन्यंश्चयुक्ताभयार्तानिषण्णाः ॥

प्रधानाश्च भग्ना विचित्राश्च भग्ना

स्ततश्चित्रगुप्तं निशम्याऽथ भग्नम् ॥७०

इसके अनन्तर चित्रगुप्त के द्वारा प्रेरित हुए वे सब किंकर कृष्ण बलराम के रथ की चारों ओर से घेर कर बाणों के समूह में प्रहार कर रहे थे । उन्होंने उस युद्ध में श्री बलराम और धीरुण दोभो के ही शूब्र आघात किये थे । चित्रगुप्त के देखते हुए उस युद्ध स्थल में

अनेक प्रकार के बाणों के द्वारा हनन हो रहा था । उस समय में भगवान् केशव ने साक्षात् कृतान्त के ही समान उस यमराज को सेना के मध्य में यमराज के किकरो में सभी ओर से सहस्रो को विदीर्ण करके कामपाल के द्वारा पालित वह रण में दुर्घर्ष होकर विचरण कर रहे थे ॥६४-६७॥ इसके पश्चात् चित्रगुप्त ने उस युद्ध में अपने किकरो के एक बहुत बड़े समुदाय को विदीर्ण होते हुए देखा और ऐसी बुरी दशा उन अपने किकरो की देखकर चित्रगुप्त ने आर्तनाद किया था ॥६८॥ उसने पाँच शरो के द्वारा आते हुए श्रीकृष्ण पर हनन किया और वह घाठ बाणों से मुख प्रदेश में भिन्न हो गया । उस समय में वह शरो से अत्यन्त आर्त होकर रण के समीप में ही था । उसको रण में भिन्न तथा बेहोश देखकर शरो से आर्त और चित्रगुप्त के प्रमुक्त हो जाने पर कृतान्त अपने रण को लेकर स्वयं वहाँ पर समागत हो गया । रण में कीर्ति के लुप्त हो जाने पर भय और क्षोभ से मुक्त तथा अपनी सेनाओं के सहित भय से आर्त एवं सब बँटे हुए थे । सभी प्रधान भग्न हो गये थे—विचित्र भी भग्न हुआ गये थे और फिर चित्रगुप्त को भी भग्न हुआ सुन लिया था ॥६९-७०॥

सकालस्तमायान्तमालोक्यदराद् ।
 वरं संन्यमादाय देवारिक्षत्रुम् ।
 विनाशाय युध्यद्युगान्ते प्रजाना
 यथा वाडवो ज्वायवृद्धः प्रवृत्तः ॥ ७१

तमायान्तमालोक्य काल करालं
 शरैरावृणोदन्तकं कालकल्पः ।
 स कालः कराल समादायदण्डं
 मुमोचाच्युते पश्यतान्देवतानाम् ॥ ७२
 ततः कालदण्डः प्रजाना विनाशो
 हरेस्सन्निकाश समभ्याजगाम ।
 ततो देवगन्धर्वयक्षामुनीन्द्राः
 परं विस्मयं प्रापुरन्वीक्ष्य रामम् ॥ ७३

ज्वलन्तञ्च जग्राह कालस्य दण्डं
 स रामो वरं लीलयानन्तमूर्तिः ।
 कालदण्डे गृहीते बलेनाहवे
 भोक्तुकामे पुनः कालनाशाय वै ॥७४
 लूणंमभ्येत्य तत्रान्तरे पद्मजस्तं ।
 रणे वारयामास कृष्णं तदा ॥७५
 मां मुञ्चेत्यग्रधीद्वेषाः कालं कालायुधं बल ! ।
 त्वयाविलम्बतावीर चराचरधराधरा ! ।
 धार्यतेषिरसादेव समारेनास्ति ते समः ॥७६
 त्वयाविश्वपतिविष्णुहृत्सङ्गं नसदोह्यते ।
 षोऽन्योऽस्ति त्वत्समो रामयोजगद्वह्नेक्षमः ॥७७

उस काल ने देवों के धारियों के शत्रु उसको भाते हुए दूर से ही देखकर बहुत अच्छी सेना लेकर उनके विनाश के लिये युद्ध करने लगा जैसे प्रजाओं के घन्त करने में ज्वालाओं से प्रवृद्ध बाह्य प्रवृत्त होता है ॥७१॥ उस भाते हुए करालकाल को देखकर काल के तुल्य शरीर से उस घन्तक को आवृत कर दिया । उस काल ने कराल दण्ड को लेकर देवताओं के देखते हुए अच्युत पर उसका प्रहार कर दिया । प्रजाओं का विनाश वह काल दण्ड था जो कि श्रीहरि के समीप में आकर प्राप्त हुआ । इसके अनन्तर श्रीराम को देखकर देव—यन्वर्व—यक्ष और मुनीन्द्र परम विस्मय को प्राप्त हो गये थे ॥७२-७३॥ श्रीअनन्त मूर्ति उन श्रीवलराम ने लीला से ही परम श्रेष्ठ जाज्वल्यमान काल के दण्ड को ग्रहण कर लिया । बलराम जी के द्वारा उस युद्ध में काल दण्ड के ग्रहण करने पर पुनः काल के विनाश करने के लिये उसके छूटने की इच्छा करने पर भगवान् ब्रह्माजी उसी बीच में उस युद्ध स्थल में क्षीघ्र उपस्थित हुए थे और उस समय में उन्होंने भीकृष्ण को निवारित कर दिया । ब्रह्माजी ने कहा—हे बल ! इस कालायुध काल को मत छोड़ो । हे वीर ! बलवान् आप के द्वारा तो इस समस्त चराचरो को धारण करने वाली इस भूमि को शिर से ही धारण किया जाता है । इस सत्कार में आप ने तुल्य अन्य कोई भी नहीं

हे । आपके द्वारा विष्णु के पति भगवान् विष्णु सदा उत्सङ्ग के द्वारा धारण किये जाग करते हैं । हे राम ! जो जगत् के वह न करने मे समर्थ हैं वैसा धन्य आपके समान कौन है । अर्थात् कोई भी नहीं है ।
११७४-७७११

जगत्स्रष्टाजगद्गोप्ताजगद्धर्ताजगत्पतिः ।

पात्यतेयस्त्ययासोऽपिविष्णुर्विश्वैकनायकः ॥७८

कस्ते स्तुतिकरोऽस्तीह को गुणान्वेत्तुमहंति ।

ततो वयं त्वदङ्घ्रस्था विष्णुनाभिभवायनाः ॥७९

इत्युक्त्वाबलदेवञ्च वासुदेवंपुनर्वचः ।

उवाच चतुरास्यस्नु स्तुतिपूर्ववृत्तस्सुरैः ॥८०

कृष्ण ! कृष्ण ! करालास्य ! कालस्यास्य कृपां कुरु ।

यतो भवन्तमायाभक्तं विष्णुं विश्वैकनायकम् ॥८१

वेत्तिनायं जगन्नाथ नरकार्णवतारकम् ।

एवयार्थंभगवन्पूर्वयमः सस्थापितः पदे ॥८२

नृणादुत्कृतकर्तृणां नरकाययमः प्रभो ! ।

तस्मादस्य जगन्नाथ क्षम्यतांपुरुषोत्तम ! ॥८३

विभो ! कृतापराधस्यन्नूहियस्तेविवक्षितम् ।

एतच्छ्रुत्वाऽऽनवीकृष्णोधातः शृणुगुरोर्मम । ८४

सान्दीपनेस्समानीतस्सुतस्तेनागताविह ।

समर्प्यतागुरुश्रेष्ठ श्रेष्ठायगुरुदक्षिणा ॥८५

इस समस्त जगत् के मृजन करने वाले—जगत् की रक्षा करने वाले—जगत् के धारण करने वाले और इस जगत् के पति—विश्व के एक ही नायक जो विष्णु देव हैं वे भी आपके ही द्वारा पालित होते हैं । यहाँ पर कौन स्तुति के करने वाला है और कौन गुणों को जानने को योग्य होता है । विष्णु के द्वारा अभिभवायन हम आपके ही अङ्घ्र मे स्थित हैं—यह कहकर पुनः बलदेव और वासुदेव को सुरों से समानृत ब्रह्माजी ने स्तुति पूर्वक कहा—हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! आप तो कराल मुख वाले हैं—इस काल के उमर वृषा करिए । कारण यह है कि विश्व के एक नायक

विष्णु भगवान् आपको आते हुए यह नहीं जानता था कि आप समस्त जगत् के नाथ और नरकों के सागर से तारने वाले हैं। हे भगवन् ! आपने ही पहिले इस यमराज को इस पद पर संस्थापित किया। हे प्रभो ! जो वृष्कृत करने वाले मनुष्य हैं उनको दण्ड देने के लिये ही इस यम को आपने यह पद प्रदान किया है। हे जगन्नाथ ! हे पुरुषोत्तम ! इसी कारण से भय इसको आप धमा कर दीजिए। हे विभो ! इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि इसने आपका अपराध किया है किन्तु अब उसके क्षमापन के लिये आप ही बतलाइये कि आपका क्या विषयित है। यह सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—हे धाता ! आप मेरा कथन श्रवण कीजिए— मेरे गुरु सान्दीपनि का पुत्र यहाँ लाया गया है। इसी लिये हम दोनों यहाँ पन आये हैं। हम अपने परम श्रेष्ठ गुरु देव के लिये गुरु दक्षिणा समर्पित करें। हे विभो ! हम दोनों ने प्रतिज्ञा की है कि हम गुरु सान्दीपनि के पुत्र को लाकर उन्हें देंगे इसी लिये उसका पालन कीजिए ॥७५-८५॥

आवाभ्यां य प्रतिज्ञाता तस्मात्सा पाल्यतां विभो ! ।

एतत्पितामहः श्रुत्वा यम समरनिर्जितम् ॥८६

समाहूयाऽब्रवीद्विष्णुय्येदब्रवीति कुरुष्व तत् ।

तच्छ्रुत्वा धर्मराजस्तु विरञ्चिमिदमब्रवीत् ॥८७

भगवन्विश्वकृल्लोकेनपमार्गस्त्वयाकृतः ।

यमलोकमनुप्राप्तः कायहीनः शरीरवान् ॥ ८

शरीरसहितोयाति नैतदत्रप्रपद्यते ।

तच्छ्रुत्वाहिपुनर्ब्रूया विश्वस्यास्यविभुः स्वयम् ॥८९

विश्वकृद्विश्वहृद्यस्माद्यदिच्छति करोतु तत् ।

तस्मादप्यं पुत्रं त्वं मुनेस्सान्दीपनेश्च वै ॥९०

पितामह ने यह सुनकर समर भूमि में निजित किये हुए यमराज को बुलाकर कहा कि जो भगवान् विष्णु बोल रहे हैं उसे तुम दीघ्न करो। यह सुनकर धर्मराज ने विरञ्चि देव से यह कहा—हे भगवन् ! इस विश्व

की रचना करने वाले आपने ही यह मार्ग निर्मित किया है कि जो इस यमलोक में प्राप्त हो जाया करता है वह काया से रहित शरीर वाला होता है। जो शरीर के सहित होता है वही जाया करता है जो ऐसा शरीर धारी यह प्राप्त हो नहीं होता है। यह ध्येय करके इस सम्पूर्ण विश्व के स्वयं विभु ब्रह्माजी ने पुनः कहा था कि वयो कि इम विश्व की रचना करने वाले और इम विश्व के हृदय जो भी चाहते हैं वही तुम करो। इस लिये मुनि सान्दोपनि के पुत्र को तुम इनका समर्पित करदो ॥८९-९०॥

नरकायं पुनः कृत्वा तञ्चानयमहामते ।
 तच्छ्रुत्वाधर्मराजस्तु पुत्रं सान्दीपनेस्तथा ॥९१
 ससर्जबालरूपञ्चतदात्मानंतदुद्भवम् ।
 अर्पयामासकृष्णाय बालरूपसमन्वितम् ॥९२
 समक्षं देवतानां च तदद्भुतमिवाभवत् ।
 दत्तः प्राप्यगुरोः पुत्रं प्रभु प्रीतः प्रजापतिम् ॥९३
 प्राह प्राप्तो मया ब्रह्मन् स्वरूपो द्विजदारकः ।
 अद्यप्रभृति लोकेश ! देशे मच्चरणाङ्किते ॥९४
 अवन्त्यामकपादाख्ये मृतानेक्षन्तितेयमम् ।
 महाकालोत्तरे देवमार्गं वै पुरुषोत्तमम् ॥९५
 विश्वरूपञ्च गोविन्दं गह्वरोद्धारं च केदारवम् ।
 ये पश्यन्ति कुशस्थल्यामेतेशामूर्तिपञ्चकम् ॥९६
 तेन रातगमिष्यन्ति विरञ्चेनिरयवचिन्त ।
 तर्षवागमनादत्र मम रामस्य नारकाः ॥९७
 विमुक्तास्ते त्वया धीरात् प्राप्नुवन्त्यखिलादिवम् ।
 इत्युक्ते वचने वैधाः प्रोवाच प्रीतिमान्हरिम् ॥९८

हे महामते ! पुनः मनुष्य के शरीर की रचना करके उगले यही परमात्मा। यह ध्येय करके धर्मराज ने सान्दोपनि मुनि के पुत्र की रचना की थी जो कि बालक के रूप वाला उषी स्वरूप से युक्त और उगले उद्वय को प्राप्त करने वाला ही था। ऐसे बानरूपी उषकी भगवान् श्री-

कृष्ण के लिये उय धर्मराज ने वह समर्पित कर दिया था ॥६१-६२॥
समस्त देवताओं के समक्ष में वह एक प्रदुभुत जैसी घटना घटित हुई
थी । इसके अनन्तर प्रभु ने अपने गुरु के पुत्र को प्राप्त करके प्रजापति पर
परम प्रसन्नता उनको हुई थी और उन्होंने कहा था—हे ब्रह्मा ! मैंने
ठीक सुन्दर स्वरूप वाला द्विज का बालक प्राप्त कर लिया है । श्रीकृष्ण
ने कहा—हे लोकेश ! ब्राह्मण से लेकर मेरे चरणों से भ्रंशित देश में भवन्ती
में भ्रंशपाद नाम वाले स्थल में जो मृत पुरुष हैं वे आकर धर्मराज का मुख
नहीं देखेंगे । महाकालोत्तर में आद्यदेव पुरुषोत्तम, विश्वरूप, गोविन्द और
दांबोडार केशव भगवान् का जो दर्शन किया करते हैं और कुशस्थली में
इनकी पाँच मूर्तियों का भवभोकन करते हैं, हे ब्रह्मा ! वे मनुष्य कभी
भी कहीं पर नरक का दर्शन नहीं करेंगे । उसी भाँति यहाँ पर मेरे
आगमन से तथा बलरामजी के आगमन से नारक लोग अर्थात् नरको में
निवास करने वाले मनुष्य विमुक्त हो गये हैं । ये सब इस घोर नरक से
जो आपने इन्हें दिया था विमुक्त होकर सब के सब दिवलोक को प्राप्त
होते हैं । इस वचन के कहने पर ब्रह्माजी परम प्रीति वाले होकर श्री हरि
से बोले—हे श्री कृष्ण ! आपने जो कुछ भी वचन कहा है वह सदा सफल
होगा ॥६३-६८॥

यत्त्वयोक्तं वचः कृष्णतदस्तुसकलंसदा ।

ये च त्वामादिपुरुषं प्रथमं पुरुषोत्तमम् ॥९५

प्रणम्य ये च द्रक्ष्यन्ति स्नात्वा शिवसरस्यपि ।

अधोज्वलं महाकालं सोऽश्वमेघफलं लभेत् ॥१००

एवमुक्तो हरिः पुत्रमादायबलेन (हलिना) सह (?) ॥१०१

आपृच्छद्यवेधसंदेवमारुरोहरथंततः ।

शङ्खमापूरयामास कृतकार्योजनाद्दुः ॥१०२

मोक्षायनिरयस्थानं नृणां वैपापकर्मणाम् ।

ततस्ते शङ्खशब्देन स्मरणेनाच्युतस्य च ॥१०३

दिव्यान्विमानानारुह्य दिवमेवाखिलागताः ।

शून्यतन्मण्डलं जातं नारायणसमागमे ॥१०४

कालोऽपि दण्ड मासाद्य बलदेवात्पुरः पुरम् ।

प्रविवेश ततो घाता तत्रैवान्तरधीयत ॥१०५

जो मनुष्य प्रथम पुण्योत्तम आदि पुरुष आपकी प्रणाम करके और शिवसर मे भी स्नान करके अश्विज्वल महाकाल का दर्शन करेगे वे प्रश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं । इस प्रकार से कहे हुए श्री हरि बलराम जी के साथ द्विज पुत्र को लेकर धीरे देव ब्रह्माजी से अनुमति प्रहण करके रथ पर समासूढ हो गये थे । कृत कार्ये जनार्दन प्रभु ने शंख का नाद किया था । पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के निरय स्थान के मोक्ष के लिए ही वह शंख की ध्वनि की थी । इसके पश्चात् वे उग्र शाल के शब्द से तथा भगवान् अच्युत के स्मरण करने ॥ परम दिव्य विमान पर चढ़कर वे सबके सब स्वर्ग लोक को चले गये थे । भगवान् नारायण के वहाँ पर समागम होने से वह पूरा मण्डल शून्य हो गया था ॥६६-१०४॥ काल भी दण्ड प्राप्त करके बलदेवजी के घागे २ प्रविष्ट हुमा था भीर इसके पश्चात् घाता (ब्रह्मा) वही पर अन्तर्धान हो गये थे ॥१०५॥

शृणोऽपिबलवान्वीरा प्राप्त उज्जयिनीपुरीम् ।

बलदेवसहायस्तुमरथेनाशुगामिना ॥१०६

ततस्सान्दीपनेः पुत्रमर्पयामासकेशिहा ।

क्रुरवेयत्प्रतिज्ञातं ततस्मादनृणोऽभवत् ॥१०७

एवं सान्दीपनेः पुत्रं दृष्ट्वा च पुनरागतम् ।

नागरास्तत्रराजा च विस्मयं परमं ययुः ॥१०८

तौ वीराय च यामासुर्मत्वा देवोत्तमोत्तमौ ।

सान्दीपनिरुवाचे दं तौ च रामजनाहंती ॥१०९

इह स्यास्यति वः कीर्तिर्यद्विदाश्रुतसम्भवम् ।

स्थाने तु वयमेतस्मिन् स्यास्यामो यद्वृन्दनी ॥११०

न विज्ञातीमया वीरो यदुवृष्णि कुलोद्भवो ।

नरनारायणो देवो देवकार्यार्थमागतो ॥१११

नाल्पमृत्युर्भवेत्तस्यनव्याधिर्नचदुर्गतिः ।

प्राप्नोत्यत्रचस्नातश्च तस्वर्गलोकेमहीयते ॥११२

भगवान् श्री कृष्ण भी वीर उज्जयिनी जी पुरी में आ गये थे । वसुदेव जो भी उनके साथ में सहायक थे । वे द्यौघ्रगामी रथ के द्वारा वहाँ पहुँच गये थे और केशो दैत्य के हनन करने वाले प्रभु ने सान्दीपनि मुनि को उनका पुत्र लाकर अर्पित कर दिया था । अपने गुरुजी से जो पुत्र को लाकर दे देने की प्रतिज्ञा की थी उस गुरु ऋषि से वे उद्धार हो गये थे । इस प्रकार से सान्दीपनि मुनि के पुत्र को जो मर गया था पुनः अर्पित समागत हुआ देख कर वहाँ के सभी नगर निवासी लोग भी राजा भी परम विस्मित हो गये थे । उन सबने उन दोनों श्री बलराम और श्री कृष्ण की अर्घा की थी और सभी ने उन दोनों को परमोत्तम देव मान लिया था मुनि सान्दीपनि ने उन दोनों श्री राम और जनार्दन से यह वचन कहा था—यहाँ पर लोक में आपकी यह कीर्ति जब तक समस्त भूतो का सम्प्लव होगा स्थित रहेगी । हे यदुनन्दनी ! इस स्थान में हम लोग स्थित रहेंगे । यदु कृष्ण कुल में उद्भव प्राप्त करने वाले आप दोनों वीरों को मैंने नहीं पहिचाना था कि साक्षात् नर नारायण देव देवों के कार्यों को सुसम्पादन करने के लिए ही इस लोक में समागत हुए हैं । यहाँ पर प्राप्त जो भी कोई होता है और यदि यहाँ स्नान कर लेता है तो वह कभी भी मृत्यु आयु में मरने वाला नहीं होगा । उसे कभी भी कोई व्याधि भी पीडित नहीं करेगी और न किसी प्रकार की उसकी दुर्गति ही होगी । अन्त में इसका ऐसा प्रभाव होगा कि वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है ॥१०६-११२॥

शस्त्रिनं विश्वरूपञ्चामाधवञ्चक्रिणतथा ।

चत्वारिविंशत्पुक्षेत्राणि अकपादस्तुपञ्चम ॥११३

एषा यात्रा प्रवक्ष्यामि यथा कार्या मनीषिभिः ।

मन्दाकिन्या कृतस्नानो दृष्ट्वा रामजनादनौ ॥११४

शंखोद्दारे ततस्स्नात्वा प्रपश्येद् बलकेशवी ।

स्नानं कृत्वा ततः कुण्डे गोविन्दञ्च समर्चयेत् ॥११५

चक्रिणञ्चततोहृष्टा विश्वरूपततोव्रजेत् ।

तस्याग्रतः करीकुण्डेस्नानं कृत्वायथाविधि ॥११६

पुनस्तेन प्रकारेण प्रपश्येद् बलकेशवौ ।

स्नानं कृत्वा ततः कुण्डे गोविन्दञ्च समचयेत् ॥११७

तथैव चक्रहस्तौ तौ दृष्ट्वा केशवमाव्रजेत् ।

क्षिप्राम्भति नर स्नात्वा भक्त्या सम्पूज्य केशवम् ॥११८

शशी, विश्वरूप, पञ्च माधव, श्रीर चक्री ये चार विष्णु क्षेत्र हैं श्रीर अक्षुपाद पांचवाँ क्षेत्र है । इनकी यात्रा के विषय में मैं कहूँगा कि किस प्रकार से मनोपियो को यह करनी चाहिए । मन्दाकिनी में स्नान करके श्रीराम जनादन का दर्शन करके फिर शखोठार में स्नान करके बलराम आर केशव भगवान का दर्शन करना चाहिए । इनके पश्चात् कुण्ड में स्नान करके श्री गोविन्द प्रभु का अर्चन करे ॥११३-११५॥ इसके पश्चात् चक्री भगवान् का दर्शन करे और इसके बाद में विश्व रूप की सेवा में उपस्थित होना चाहिए । उनके आगे करी कुण्ड में विधिपूर्वक स्नान करे और फिर उसी प्रकार से श्री बल श्रीर केशव का दर्शन करना चाहिए । इसके पश्चात् कुण्ड में स्नान करके श्री गोविन्द प्रभु का समर्चन करे ॥११६-११७॥ उसी भाँति से चक्र हाथ में रखने वाली का दर्शन करके भगवान केशव के समीप में गमन करना चाहिए । क्षिप्रा के जल में मनुष्य को स्नान करके भक्ति की भावना से भगवान केशव का मली-भक्ति पूजन करना चाहिये ॥११८॥

परावृत्तयः कपाटतु ता रात्रिगमयेच्छुचिः ।

प्रातर्वभोजयेत्तत्र पञ्चविप्रांश्चसुव्रतान् ॥११९

गोदक्षिणाश्शस्त्रिनेनु विश्वरूपाय वैह्वयः ।

गोविन्दाय गजः प्रोक्तस्सर्वदद्याच्चकेशवम् ॥१२०

उपाष्य द्वादशीविप्रायाकपादसमर्चयेत् ।

गन्धपुष्पैश्चधूपैश्चनर्बेद्यैर्विधिस्तथा ॥१२१

श्राद्धं यः कुरुत्सर्वं तस्य पुण्यफलं शृणु ।

कुलानां शतसुद्यूत्य विमानं स्तार्वकामिकैः ॥१२२

गीतनृत्यादिभोगैश्च वैकुण्ठे सुचिरं वसेत् ।

पुनर्लोकमिमंप्राप्य पवित्रे जायते कुले ॥१२३

प्राप्नोत्यनन्तसन्तानं विष्णुलोकं पुनर्भजेत् ॥१२४

अंकपाद में वापिस लोटकर परम पवित्र होकर उस रात्रि में वहीं पर निवास करे । प्रातः काल होने पर पर सुव्रत पवित्र विप्रों को वहाँ पर भोजन करावे शंखी प्रभु को गौ की दक्षिणा यिन्न रूप के लिए हय की दक्षिणा, गोविंद के लिये गज की दक्षिणा बताई गई है । केशव भगवान के लिए सर्वस्व दक्षिणा में देवे ॥११६-१२०॥ द्वादशी का उपवास करके विप्र के लिए अंकपाद का समर्चन करना चाहिए । गन्ध, पुष्प, धूप, नैवेद्य और विवध प्रकार के अग्न्य उपचारों से समर्चन करना चाहिए । जो वहाँ पर श्राद्ध करता है उसका सब पुष्प फल अर्पण करो । यह मनुष्य जो श्राद्ध वहाँ पर किया करता है अपने सौ कुलों का उद्धार करके समस्त कामनाओं से परिपूर्ण विमानों के द्वारा तथा गीत और नृत्य आदि महान् सुखोपभोगों के द्वारा वह वैकुण्ठ लोक में चिरकाल पर्यन्त निवास किया करता है । फिर सुवधि के अनन्तर इस लोक में आकर किती महान् पवित्र कुल में समुत्पन्न हुआ करता है । यहाँ पर वह मनुष्य अनन्त सन्ततियों का सुख प्राप्त किया करता है और फिर भी वह विष्णु लोक में ही गमन किया करता है ॥१२१-१२४॥

७४-रामेश्वरतीर्थमाहात्म्यवर्णन

अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि केदारेश्वरमुत्तमम् ।

प्रवरं सर्वतीर्थानां सर्वलोकेषु विश्रुतम् ॥१

तत्रस्नात्वाशुचिभूत्वा यःपश्यतिमहेश्वरम् ।

केदारैयत्फलं प्रोक्तं तदत्रापिलभेन्नरः ॥२

सर्वपापविनिर्मुक्तः स्वकीयकुलसंयुतः ।

विमानेनाकवर्णन शिवलोकेसमोदते ॥३

जटाशृङ्गेनरा स्नात्वा शुचिभूत्वाजितेन्द्रियः ।

दृष्ट्वा जटेश्वरं देवं ततःपापाद्धिमुच्यते ॥४

महास्नपनमादीच कृत्वागच्छेच्छिवम्प्रति ।
 मातृकपैतृकंचैव कुलानांतारयेच्छतम् ॥५
 इन्द्रतीर्थेनरः स्नात्वा दृष्ट्वाचेन्द्रेश्वरं शिवम् ।
 विमुक्तः सर्वपापेभ्यः शक्रलोकेमहीयते ॥६
 कुण्डेश्वरं तु यः पश्येच्छिवध्यानपरायणः ।
 लभतेसनरोव्यास! शिवदीक्षाफलंशुभम् ॥७

श्री सनत्कुमार जी ने कहा—इसके अनन्तर मैं उत्तम केदारेश्वर का वर्णन करूंगा जो ससार के समस्त तीर्थों में परम बरिष्ठ है और सभी लोकों में प्रसिद्ध है । वहाँ पर स्नान करके परम पवित्र होकर जो मनुष्य भूदेव प्रभु का दर्शन किया करता है वह मनुष्य केदार तीर्थ में जो पुष्प-फल कड़ा गया है उसे यहाँ पर भी प्राप्त कर लिया करता है । अपने कुलों के सहित समस्त पापों से निर्मुक्त होकर मूर्ध के समान आभा वाले विमान के द्वारा शिव लोक में ध्यानन्द का लाभ लिया करता है ॥१-३॥ जटा शृंग नामक तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य शुचि होकर अपनी इन्द्रियों को जीत लेने वाला जटेश्वर देव के दर्शन करता है वह फिर पाप से एक दम छुटकारा पा जाता करता है । आदि में महा स्नान करके फिर भगवान् शिव के मन्दिर में जाना चाहिए । ऐसा मनुष्य अपने मातृ कुल को और पितृ कुल को दोनों के सौ-सौ की संख्या में तार दिया करता है । इन्द्र तीर्थ में नर स्नपन करके फिर जो इन्द्रेश्वर शिव के दर्शन किया करता है वह भी सब तरह के अपने किए हुए पापों से विमुक्त होकर इन्द्रलोक में प्रतिष्ठित हुषा करता है । जो कुण्डेश्वर के दर्शन किया करता है, हे व्यास देव ! वह मनुष्य शिव की शोभा के परम शुभ का फल का लाभ पा जाता है ॥४-७॥

गोपतीर्थेनरः स्नात्वा दृष्ट्वागोपेश्वरंशिवम् ।
 शिवलोकं सर्वथाति ह्यामृदामरोयथा ॥८
 स्नात्वातुचिगिटातीर्थे शिवदेवंप्रणम्यच ।
 तिर्यङ्गोन्निररो नंब प्रयानिमुनिपुङ्गव! ॥९

विजयेचनरः स्नात्प्राज्ञानन्देश्वरपूजनात् ।
 विमुक्तःसर्वपापेभ्यःस्वर्लोकेविजयीभवेत् ॥१०
 अथान्यं सम्प्रवक्ष्यामि कृशस्थत्यां विनिर्मितम् ।
 देवं रामेश्वरं व्यासं! भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ॥११
 चित्रकूटात्पुरारामो मैथिल्यालक्ष्मणेनच ।
 अथरामं समागत्य पप्रच्छमुनिसत्तमम् ॥१२
 कानितीर्थानिपुण्यानि किवाक्षेयं महामुने ।
 यत्रगत्वाप्तुं चाप्नोतिवियोगः सहवान्धर्वः ॥१३
 अनेनवनवासेन मरणेनपितुःप्रभो ।
 भरतस्यवियोगेन प्रतप्येऽहं त्रिभिर्मने! ॥१४

एक गोपतीर्थं वहाँ है, उसमें स्नान करके मनुष्य गोपेश्वर भगवान् शिव के दर्शन करता है वह सोपा शिव लोक में गमन किया करता है जैसे अमृत के पान से अमर हो जाता है । चिपिट्ट तीर्थ में स्नान करके और देवेश्वर शिव को प्रणाम करके हे मुनियों में परम श्रेष्ठ ! वह मनुष्य फिर कभी भी तिर्यग योनि को प्राप्त नहीं किया करता है । विजय नाम वाले तीर्थ में स्नान करके श्रीमान्देश्वर प्रभु के पूजन करने से मनुष्य सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होता हुआ स्वर्ग लोक में पहुँच कर विजय वाला हुमा करता है । इसके अनन्तर मैं एक अन्य तीर्थ के विषय में वर्णन करता हूँ जो कृशस्थली में विनिर्मित तीर्थ है । वहाँ पर हे व्यास देव ! भुक्ति और मुक्ति इन दोनों के प्रदान करने वाले रामेश्वर देव विराजमान हैं । पहिले परम पुरातन समय में श्रीराम अपनी प्रिया मैथिली और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से यहाँ पर समागत हुए थे और उन्होंने मुनियों में परम वरिष्ठ से पूछा था—श्रीराम ने कहा—हे महा मुनिवर ! यहाँ पर कौन-कौन से परम पुण्यमय तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य अपने बान्धवों के साथ कभी वियोग की प्राप्ति नहीं किया करता है । हे प्रभो ! हे मुनिवर ! मेरा मन तो इस लम्बे वन के निवास से और पूज्य पिताजी के मरण हो जाने से तथा भरत जैसे परम प्रिय एवं श्रेष्ठ भाई के वियोग हो जाने से इन तीनों बातों से बहुत ही सन्तप्त रहा करता है ॥८-१४॥

तद्वाक्यं राघवेणोक्तं श्रुत्वाविप्रपंभस्तदा ।
 ध्यात्वातुमुच्चिरं कालमिदं वचनमब्रवीत् ॥१५
 साधुपृष्टं त्वयावीर रघूणां वंशवधेन ।
 ममपित्राकृतं क्षेत्रं प्रयाच्यशिवमादरात् ॥१६
 अवन्तीविषये रामपुरा तस्मिन् कुशस्यली ।
 उज्जयिनीति वै नाम्ना ख्यातिं लोके गता विभो ! ॥१७
 तस्यांगत्वादशरथं पिण्डदानेनतर्पय ।
 सुरासुरगुरुस्तत्र महाकालोप्यवस्थितः ॥१८
 देवः सदाशिवो राजन् वाञ्छितार्थफलप्रदः ।
 दृष्टे तस्मिञ्जगन्नाथे वियोगो नैव जायते ॥ १९
 तत्र गच्छन्तियेषि प्रा राजानो वै महाबलाः ।
 लभन्ते ते परं स्थानं यत्र देवो महेश्वरः ॥२०
 तीर्थानामपि तत्तीर्थं भो विष्णोऽन्तिमण्डले ।
 आजगाम ततोऽवन्ती सा शिप्रा यत्र पुण्यदा ॥२१

उस समय मे इस श्रीराघवेन्द्र प्रभु के द्वारा कहे हुए वाक्य का श्रवण करके विप्रो मे परम श्रेष्ठ ने चिरकाल पर्यन्त ध्यान करके इस वचन को कहा—हे वीर ! आपने बहुत ही अच्छी बात मुझ से पूछी है । आप तो रघु के वंश की वृद्धि करने वाले हैं । मेरे पिताजी ने भगवान् शिव मे प्रकृष्ट ह्म से याचना करके बड़े ही आदर से इस क्षेत्र को किया है । हे राम ! अवन्ती देश मे पहिले एक कुशस्यली है । हे विभो ! यह उज्जयिनी—इस नाम से लोक मे ख्याति को प्राप्त हुआ है । वहाँ पर जाकर आप महाराज दशरथ को पिण्ड दान के द्वारा मन्तृपूज करिए । वहाँ सुर और असुरों के गुरुदेव साशान् महाकाल समवस्थित रहा करते हैं । हे राजन् ! वहाँ पर सदा शिव देव ममो वाञ्छित मनोरथो के फलों के प्रदान करने वाले हैं । प्रभु श्रीजगन्नाथ के दर्शन करने पर कभी भी वियोग नहीं हुआ करता है । जो विप्रगण वहाँ पर जाया करते हैं तथा महात् बलवान् राजा लोग मनन किया करते हैं वे परम श्रेष्ठ स्थान को

प्राप्त किया करते हैं जहाँ पर महेश्वर देव विराजते हैं । हे विष्णो ! इस अश्वन्ती मण्डल में वह तीर्थ समस्त तीर्थों का भी एक तीर्थ होता है । इसके उपरान्त जहाँ पर परम पुण्यो के देने वाली क्षिप्र समागत हो गई थी ॥१५-२१॥

तस्यास्नात्वाततोरामस्तपयामासपूर्वं जानु ।
 महाकाल यदाद्रष्टुं प्रतस्थैरधुनन्दनः ॥२२
 वाण्याततोऽशरीरिण्या देवदेवेन भाषितम् ।
 भोभोराघव ! भद्रन्ते स्वनाम्ना स्थापयस्व माम् ॥२३
 अत्रस्थानं मयादत्त माविचारय राघव । ।
 ततोहृष्टमनारामो लक्ष्मणवाक्यमब्रवीत् ॥२४
 अनुगृहीतः सीमित्रे देवदेवेनशम्भुना ।
 तस्मात्स्थापयतीर्थंऽस्मिल्लिङ्गं रामेश्वरं शुभम् ॥२५
 वाक्यं लल्लक्ष्मण. श्रुत्वा स्थापयामास शङ्करम् ।
 दृष्ट्वा देव पुरो रामो लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् ॥२६
 एहिलक्ष्मणशीघ्रन्त्वं शिप्रायाजलमानय ।
 करिष्यामियतोभ्रातर्देवस्यस्नपनं शुभम् ॥२७
 लक्ष्मणस्त्वब्रवीद्वाक्यं सीतयाकिंकरिष्यसि ।
 रामनाऽहसर्वकालदानमाव करोमिहे ॥२८

उसमें इसके उपरान्त श्रीराम ने स्नान किया था और अपने पूर्वजों का स्तौन किया । जिस समय में धीरधुनन्दन ने महाकाल भगवान् के दर्शन करने के लिये प्रस्थान किया उस समय में बिना शरीर वाली आकाश वाणी ने द्वारा देवों के देव ने कहा—हे राघवेंद्र ! आपका कल्याण हो । अब आप अपने ही शुभ नाम से मेरी यहाँ पर स्थापना कर दो । हे राघव ! यहाँ पर मेरे द्वारा दिया हुआ यह स्थान है । इसका कुछ भी विचार मत करो । इसके उपरान्त प्रसन्न मन वाले श्रीराम ने सद्मन् जी से यह वचन कहा—हे सीमित्रे ! मैं देवों के देव शम्भु भगवान् के द्वारा अनुगृहीत हुआ हूँ । इस लिये सद् तीर्थ में परम शुभ श्रीरामेश्वर स्तौन लिङ्ग की स्थापना करो । श्रीराम के इस वचन का अर्थ करने सद्मन्

जी ने श्रीशङ्कर भगवान् की स्थापना की थी। श्रीराम ने अपने अपने देवेश्वर का दर्शन करके सत्मण से यह वचन कहा—हे लक्ष्मण ! आप यहाँ पर शीघ्र भाइए और सिन्धु नदी का जल ले आओ। हे भाई ! क्योंकि मैं देवेश्वर का शुभ स्नान करूँगा। लक्ष्मण ने वाक्य कहा—सीताजी से क्या करे मे। मैं राम नाम वाला हूँ। सभी काला मे मैं आप का दास भाव करूँगा ॥२२-२८॥

इयंचपुष्टादृढा पीवराचमनाप्यतः ।

वद राघवसत्येन अनया किकरिष्यसि ॥२६

श्रुत्वापूर्वाहितद्वावयं लक्ष्मणेनप्रभाषितम् ।

विमनाराधयस्तस्यौ सीताचापिवरानना ॥३०

यदुक्तंलक्ष्मणेनाथ तच्चसीताचकारह ।

स्नात्वाभुवत्वाचतीवीरो महाकालमुपागतौ ॥३१

नीत्वाविभ्रावरीनक्ष गमनायमनोऽथे ।

उत्तिष्ठवत्ससौमित्रे व्रजामोक्षिणां दिशम् ॥३२

सौमित्रिरब्रवीद्वाक्यं नाश्रुं गन्ताकथञ्चन ।

व्रजत्वमनयासाद्धं भार्ययाकमलेक्षय ॥३३

नाहमप्रवेनं यामि नवायोध्याकथञ्चन ।

एव ब्रूवाण सौमित्रिमुवाचरघुनन्दनः ॥३४

कथ पूर्वमयोध्याया निगतोसिमयासह ।

वने वनम्यहरामनववर्षाणिपञ्चच ॥३५

हे राघव! यह तो परग पुष्ट-मुष्ट और मुक्तने भी अधिक पीयर है। हे राघवेन्द्र! सत्यनापूर्वक यह बनवास्ये कि इससे आप क्या करेंगे? ॥२६॥ प्रथम हितवाचक का प्रयत्न करके लक्ष्मण ने यह भाषित किया था। श्री रामवेन्द्र उदास होकर स्थित हो गये थे और वह आनन (मुक्त) वाली सीता भी स्थित हो गई थी ॥३०॥ जो लक्ष्मण ने कहा था वही सीताजी ने किया था। उन दोनों बीरो ने स्नान और भोजन करके दोनों महानात में ममुपागत हुए थे। वहाँ पर उन रात्रि ही व्यतीत करके फिर गमन

करने के लिये मन किया । हे सौमित्रे ! उठो, चलो दक्षिण दिशा को चलें सौमित्रि (लक्ष्मण) ने यह वाक्य कहा—मैं कैसे भी नहीं जाऊंगा । हे कमल के समान नेत्रों वाले ! घ्राप ही इस भार्या के माय गमन कोजिए । मैं न तो घ्रापे वन में जाऊंगा और न अयोध्या ही को किसी भी प्रकार से जाऊंगा । इस तरह से बोलते हुए लक्ष्मण से श्रीराघवेन्द्र ने कहा— पहिले मेरे साथ मे घ्राप अयोध्या से कैसे निकल कर घ्रापे हैं ? आपने उम समय में तो मुझ से यही कहा कि हे राम ! मैं थोदह, वर्ष तक वन में निवास करूंगा ॥३१-३५॥

प्रसादः क्रियतांमह्यं नयमानपिराघव ।

इदानीत्वमद्धं पथे कथं रथातासिशत्रुहन् ॥३६

लक्ष्मणस्त्वब्रवीद्वावयं नाऽहं गन्ता वनं पुनः ।

लक्ष्मणं विकृतं ज्ञात्वा रामो वचनमब्रवीत् ॥३७

मामनुद्भज सौमित्रे ! एको यास्यामि काननम् ।

द्वितीया च त्वियं सीता उक्तो रामेण लक्ष्मणः ।३८

धनुःसंगृह्यविमना उत्तस्थीलक्ष्मणस्तदा ।

प्राप्तौप्राकारमर्यादां क्षेत्रसीमां परन्तपो ॥३९

त्वंनिवर्तस्वसौमित्रे समर्पयचमेधनुः ।

रामवाक्यमुपश्रुत्य सीतांवलक्ष्मणोऽब्रवीत् ॥४०

किमर्थं हि परित्यक्तः कोऽपराधः कृतो मया ।

रामेण च रित्यक्तः प्राणांस्त्यक्त्याभ्यसंशयम् ॥४१

रामं ततोऽब्रवीत्सीता किमर्थं लक्ष्मणस्त्वया ।

देवसन्त्यज्यतेवीरःसुमित्रानन्दवर्धनः ॥४२

हे राघव ! मेरे ऊपर आप प्रसाद कीजिए मुझ को या वन में ले चलिए । अब इस समय मे आधे मार्ग मे बीच में हो हे शत्रुहन् ! क्यों स्थित हो रहे हो ? लक्ष्मण ने यही वाक्य कहा—मैं फिर वन में नहीं जाऊंगा । इस प्रकार से लक्ष्मण को परम विकृत जान कर श्रीराम ने वचन कहा—हे सौमित्रे ! मेरे पीछे गमन करो, मैं एक ही वन को जाऊंगा, दूसरी यह सीता है । इस तरह से श्रीराम के द्वारा लक्ष्मण से

कहा गया । उस समय मे घनुष ग्रहण करके लक्ष्मण उदास होकर स्थित हो गये थे । इस प्रकार से वे दोनों परन्तप प्राकार मर्यादा वाली (चहार दिवारी से जिसकी हद बनी हुई थी) क्षेत्र की सीमा पर प्राप्त हो गये थे । श्रीराम ने कहा—हे सीमित्रे ! मेरे घनुष को मुझे देदो और आप क्षापित लौट जाओ । श्रीराम के इस वाक्य का ध्वज कर लक्ष्मणजी ने सीताजी से कहा—मुझे किस लिये परित्याग किया गया है ? मैंने क्या अपराध किया है । श्रीराम के द्वारा परित्याग किया गया मैं निश्चय ही अब अपने प्राणों का त्याग कर दूँगा । इसके अनन्तर सीताजी ने श्रीराम से कहा—हे देव ! आपके द्वारा परम बोर सुमित्रा के आनन्द के बढाने वाले लक्ष्मण का परित्याग क्यों किया जा रहा है ? ॥३६-४२॥

राघवस्त्वन्नृसीता नाऽह त्यक्ष्यामि लक्ष्मणम् ।

न कदाचिदपि स्वप्ने लक्ष्मणस्येदृगप्रियम् ॥४३

श्रुतपूर्वन्तु सुश्रोणि क्षेत्रस्यास्य विचेष्टितम् ।

अस्मिन् क्षेत्रे न सौभ्रात्र सर्वो हि स्वार्थतत्परः ॥४४

परस्परं न मन्यन्ते स्वार्थनिष्ठं कहेतवः ।

न शृण्वन्निपितुः पुत्राः पुत्राणाञ्चतयापिता ॥४५

न न शिष्योगुरोर्वाक्यं गुरुर्वा शिष्यकर्म च ।

अर्थानुबन्धिनी प्रीतिर्न कश्चित्कस्यचित्प्रियः ॥४६

एवमुक्त्वाययोरामो लक्ष्मणोजानकोतथा ।

लिंग तत्रप्रतिष्ठाप्यास्वनाम्नारघुनन्दनः ॥४७

रामतीर्थं नर स्नात्वा दृष्ट्वा रामेश्वरं शिवम् ।

विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥४८

श्रीरामदेव ने सीताजी से कहा—मैं लक्ष्मण को नहीं त्यागूँगा । हे सुश्रोणि ! पहिले कभी भी स्वप्न मे भी लक्ष्मण का ऐसा अप्रिय वचन नहीं सुना था—यह इसी क्षेत्र का विचेष्टित है । इस क्षेत्र मे सौभ्रात भाव नहीं होता है । यहाँ पर सभी स्वार्थ में तत्पर रहा करते हैं । स्वार्थ की निष्ठा ही जिनका एक मात्र हेतु होता है वे लोग परस्पर मे किसी को नहीं माना करते हैं । पुत्र गण पिता की वान नहीं मुना करते हैं और पिता पुत्रों का

कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं । शिष्य गुरु के वाक्य को नहीं मानते हैं और गुरु भी शिष्य के कर्म को कुछ नहीं समझते हैं । यहाँ पर जो भी प्रीति होती है वह भय (मतलब) के अनुबन्धन वाली ही हुआ करती है वास्तविक रूप से कोई भी किसी का प्यारा या प्रेम करने वाला नहीं होता है । यह कर कर थोराम, लक्ष्मण तथा जानकी वहाँ गये थे । श्री रघुनन्दन ने अपने ही नाम में वहाँ पर शिव लिङ्ग की स्थापना की थी । इन थोराम तीर्थ में मनुष्य स्नान करके तथा थोरामेश्वर प्रभु का दर्शन करके समस्त अपने कृत पापों से विमुक्त हो जाया करता है और वह भग्न में विष्णु लोक में गमन किया करता है ॥४३-४८॥

७५—विष्णुमाहात्म्यवर्णि

महाकाल किमर्थं तु किंवाशिवपदस्मृतम् ।
 कोटीवर किमर्थं तु पावकं तत्किमुच्यते ॥१
 नरदीपः किमर्थं तु द्वितीयावटमातरः ।
 अभयेश्वर किमर्थं तु शंखोद्धारणमेव च ॥२
 शूलेश्वरं किमर्थं तु किमोद्धारम्य कथ्यते ।
 धूतपापं किमर्थं तु किमङ्गारेश्वर तथा ॥३
 पुरीचोज्जयिनीदिव्या सप्तकल्पाकथ स्मृता ।
 कथयस्व मुनिश्रेष्ठतस्यानामानियानि च ॥४
 शृणु व्यासं यथा ख्याता पुरी दिव्या सुपुण्यदा ।
 स्वर्णशृङ्गा तु प्रथमे द्वितीये तु कुशस्थली ॥५
 तृतीयेऽवन्तिकाप्रोक्ता चतुर्थे स्वमरावती ।
 विख्यातापञ्चमेकल्पे पुरीचूडामणीति च ॥६
 पण्डेपद्मावतीज्ञे योज्जयिनीसप्तमेपुरी ।
 पुनरन्तेतु कल्पस्य स्वर्णशृङ्गादिकास्मृता ॥७

महा महर्षि श्रीव्यासदेवजी ने कहा—यह महा काल किस लिये हुआ था ? अथवा यह शिव पद कैसे कहा गया है ? कोटीवर किस लिये है

और वह पावक क्यों कहा जाता है ? नारदीय किम लिये है तथा द्वितीया वट मातर क्यों हैं—अभयेश्वर किस लिये है और शङ्खोद्धारण का क्या क्या प्रयोजन है ? नूलेश्वर किस लिये है और भोङ्कार क्यों कहा जाता है ? घृत पाप का क्या अर्थ है तथा भोङ्कारेश्वर का क्या प्रयोजन है ? पहिले यह दिव्या उज्जयिनी सप्तकल्प कैसे कही गयी है ? हे मुनि श्रेष्ठ ! इसके जो भी नाम हैं उन सबको कहिए । श्रीसनत्कुमारजी ने कहा—हे श्याम देव ! सब आप श्रवण करिए जिस तरह से यह मुपुष्य की देने वाली दिव्या पुरी विख्यात हुई थी । प्रथम कल्प में यह स्वर्ण शृङ्गा विख्यात थी—दूसरे कल्प में यही कुशस्यली नाम वाली कही गयी थी । तीसरे कल्प में इसको अवन्तिका कहा गया है और चौथे कल्प में अमरावती नाम से यह प्रसिद्ध हुई थी । पाँचवें कल्प में यही पुरी चूडामणी—इस नाम से विख्यात हुई थी । छठवें कल्प में इसको पद्मावती कहा गया और सातवें कल्प में इसीको उज्जयिनी पुरी बोला जाता है, फिर कल्प के अन्त में यह स्वर्णशृङ्गा भादि नाम वाली कही गयी है ॥१-७॥

एतानि सप्तानमानि प्रातस्तथाय यः पठेत् ।

सप्तजन्मकृताः पापान्मुच्यते नात्र सशयः ॥८

उज्जयिन्या पुराराजा बभूवकिलचान्धकः ।

तस्यपुत्रोमहावीर्यो नाम्नाकनकदानवा ॥९

युद्धार्थं समहावीर्यं शक्रं युद्धे समाह्वयत् ।

क्रोधादिन्द्रणसंग्रामे युद्धमानो निपातितः ॥१०

निहस्य दानवशक्रो भयादन्धासुरस्य तु ।

जगाम शंकरान्वेशी कलासशंकरालयम् ॥११

दृष्ट्वा प्रणम्य देवेशं चन्द्रार्द्धं कृतशेखरम् ।

भीतो विज्ञापयामास सहस्राकृतलोचनः ॥१२

अभयं देहि मे देव ! दानवा दन्धकासुव ।

शक्रस्येत्थं वचः श्रुत्वा शरणागतवत्सलः ॥१३

ददाव भृशमेवासौ मामंस्त्वमन्धकाद्विनै ।

कृत्वा रूपं महादेवो विश्वरूपं सुभैरवम् ॥१४

जो कोई मनुष्य प्रायः काल में उठकर इन सात नामों को पढ़ता है वह सात जन्मों में बुरे हुए पापों से मुक्त हो जाता है—इस में कुछ भी संशय नहीं है । इस उज्जयिनी नगरी में पहिले अन्धक नाम वाला राजा हुआ । उसका एक पुत्र था जो महान् वीर्य वाला था, उसका नाम कनक दानव था । उस महान् वीर्य वाले ने युद्ध के लिये युद्ध भूमि में इन्द्र देव का प्राह्वान किया । इन्द्र को बहुत ही अधिक क्रोध आया और उसने मगध भूमि में युद्ध करते हुए उस को निपानित कर दिया अर्थात् मार डाला । इन्द्र ने युद्ध में दानव को मार तो दिया किन्तु फिर वह अन्धासुर के भय से भगवान् शङ्कर के अन्वेषण करने वाला होकर शङ्कर के निवास स्थान वलास पर्वत पर चला गया । वहाँ पर अर्धचन्द्र को मस्तक पर धारण करने वाले देवेश्वर का दर्शन करके उनको इस ने प्रणाम किया । सहस्र नेत्रों से समाकुल इन्द्र ने अत्यन्त भय भीत होकर प्रार्थना की थी—हे देव ! अन्धक दानव से मुझे अब आप अमय का दान दीजिए । धारण में समागत प्राणी पर दया स्नेह करने वाले प्रभु शङ्कर ने इन्द्र देव को इस वचन को सुनकर उसे पूर्ण विश्वास दिया कि तुम अन्धक से भय मत करो । महादेव ने सुभारव विश्वरूप धारण कर लिया था ॥५-१४॥

सर्पैर्लिहृद्भिरत्युग्रं स्तोक्षणदष्ट्रं विपोत्वर्णैः ।

पातालोदररूपश्च भैरवारावनादिभिः ॥१५

भुजैरनेकसाहस्रं बहुशस्त्रधृतंस्तथा ।

सिंहचर्मपरीधानं व्याघ्रत्वगुत्तरीयकम् ॥१६

गजाजिनकृताटोपं चन्द्राग्निरविलोचनम् ।

महामहीघृतुल्याभिजङ्घाभिभूषितं सदा ॥१७

क्षीभयञ्चालयन्सर्वान् पातालस्यतलावधि ।

ईदृग्रूपं विधाये शो दनुर्दत्यभयावहम् ॥१८

अवातरन्महीभीमः पादेनैकेनशंकरः ।

तत्र वहिह्लदोजातः सर्वदेवतवन्दितः ॥१९

ख्यातं शिवपदं वद्वियप्पदाकान्तवान्विभुः ।

यस्मादप्रपुराकोटिः पादांगुष्ठरथधारिता ॥२०

कोटितीर्थं मतःख्यातं सर्वपापप्रणाशनम् ।

अगस्त्येन तथा कोटिस्तीर्थीनामघारिता ॥२१

बहुत तीक्ष्ण दाढ़ों वाले—विष से महान् उत्खण अत्यन्त उग्र—सप्त सपाती हुई जीभों वाले सर्पों से भूषित थे जो कि पातालोदर के सदृश थे और महान् भँरख द्यनियों से त्रिनाद करने वाले थे । बहुत से प्रकार के दाशास्त्रों को धारण करने वाले बहुत से सहस्र भुजाओं से युक्त उनका स्वरूप था । सिंह के चर्म का परोधान करने वाला तथा व्याघ्र चर्म के अन्तरीय धारण करने वाला उनका स्वरूप था । गजचर्म से आटोप किया हुआ तथा पद्म और अग्नि के समान नेत्रों वाले थे । महान् पर्वतों के तुल्य जाँपों से सदा भूषित थे । पाताल के तल के मध्य में सब को क्षोभ करने वाले थे । ईश ने उस समय में ऐसा दनुजों और दैत्यों को भय देने वाला अपना स्वरूप बना लिया । तब भगवान् शंकर ने भीम स्वरूप से युक्त होते हुए एक पाद से इस महो में भ्रवतरण किया । वही पर समस्त देवों के द्वारा वन्दित एक हृद उपपन्न हो गया, वही शिवपद—इस नाम से विख्यात हो गया क्योंकि विष्णु ने अपने पाद से उसे आक्रान्त कर दिया । क्यों कि यहाँ पर पहिले पादांगुष्ठ की धारिता कोटि थी अतएव सम्पूर्ण पापों का प्रणाशन करने वाला यह कोटितीर्थ—इस शुभ नाम से ही विख्यात हो गया । यहाँ पर महापुनि अगस्त्यजी ने एक कोटि तीर्थों की धारिता की थी, इसलिये भी लोक में ऐसा परम शुभ नाम सदा ही कहा गया है ॥१५-२१॥

अतोपीडक् शुभं लोके कोटितीर्थं सदा स्मृतम् ।

दृष्ट्वा तु त्रिदशाः सर्वे स्नाता वै हितकाम्या ॥२२

महाकालं कृत्स्नं महाकालस्ततः स्मृतः ।

अन्वासुरोपि दनुजः पुत्रं च त्वाहत् युधि ॥२३

क्रोधेन महता विष्टोरणतूयांश्चिवा दयत् ।

ससंन्योनिगतः प्राप्तो यत्र ते त्रिदशाः स्थिताः ॥२४

महत्यासेनयासाद्धं रथवारणयुक्तया ।

तदं वदानवान्वीक्ष्य महाह्वकृतोद्यमान् ॥२५

वेपन्तस्तेसुसन्नश्राः शम्भुं शरणमाययुः ।

मार्भपतमहाकालो देवानूचेत्रिलोचनः ॥२६

गृहीत्वाशूलमातिष्ठद्दंष्ट्रादष्टाधरोरुपा ।

कोपयुक्तो विरूपाक्षे ज्वलाभिः पूरितन्नभः ॥२७

अन्धकेनाथ रुष्टेन क्षर कोटिस्तु दुःसहा ।

मुक्ता जगाम देवानां नाशात् क्षलभाकृतिः ॥२८

समस्त देव गणों ने इस तरह से देखा तो उन सभी ने अपने हित को कामना से यहाँ पर स्नान किया था ॥२२॥ महान् काल के तुल्य अपना स्वरूप किया इसी वास्ते इसे महाकाल इस नाम से कहा गया है । अन्धा-सुर ने भी अपने पुत्र को युद्ध में मृत हुआ सुनकर महान् क्रोध से समा-विष्ट होते हुए उसने संग्राम के सूर्य बाध बजवा दिये थे । वह अपने समस्त सेना के ही साथ में निकल पड़ा और वही पर सम्प्राप्त हो गया जहाँ पर देवगण स्थित थे । उन देवों ने बड़ी भारी बिघाल और रण के आवरणों से युक्त सेना के साथ उसी समय में महान् संग्राम को करने के लिये उत्तम करने वाले सब दानवों को देला । वे सुसप्त थे किन्तु कांप उठे थे और भगवान् शम्भु के क्षरण में हो गये थे । उस समय में त्रिलोचन महाकाल भगवान् ने उन देवों से कहा—डरो मत । तब उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और क्रोध से अपनी दाढ़ों से अधरों को काटते हुए स्थित हो गये थे । भगवान् विरूपाक्ष के कोप से युक्त होने पर आकाश ज्वालाओं से पूरित हो गया । परम रुष्ट हुए अन्धक अपुर ने अत्यन्त दुस्सह एक करोड़ वारी की छोडा था जो कि क्षलभा के समान आकृति वाले समस्त देवों के विनाश करने के लिये छोड़े गये थे ॥२३-२८॥

विस्फुलिगार्चिषं वह्नि मञ्चमानः पिनाकधृक् ।

शतशशकलीचक्रेतञ्चबाणरताड्यत् ॥२९

अन्धकोऽपि हि युद्धस्थो शिथिलः शिथिलायुधः ।

निरुद्धश्शम्भुना वारणरलिभिः पंकजं यथा ॥३०

तस्य सैन्यञ्च बहुधा स्वगणैर्युद्धयोधिभिः ।

योध्वरंहंतं दिव्यैः रथाणुसान्निध्यमाश्रितं ॥३१

ततोऽन्धकेन सैन्यं स्वं भिन्नं दृष्ट्वा तथा सुरैः ।
 आत्मानञ्च महेशेन विद्धं च वाणकोटिभिः ॥३२
 विकलीकृतदेहोऽसौ भयमाश्रित्यवेगतः ।
 चकारतामसीमाया मायाशतविशारदः ॥३३
 तयान्तर्हितदेहोऽसौ जगामदिमत्तराम् ।
 शम्भोर्भीतिहरं विभ्रद्वभ्रामशुविभिन्नहृत् ॥३४
 येनाध्वनागतो वैत्यस्तेन देवोजगामह ।
 वदन् नदृश्यते वकासौ गतो दुष्टपुनः पुनः ॥३५

पिनाक नामक घनुप के धारण करने वाले भगवान् ने विस्फुलिंग वाली अग्नि (ज्वालाओं से युक्त अग्नि) को छोड़ दिया और उन्होंने उनक सैकड़ों ही खण्ड २ कर दिये थे तथा अपने वाणों से उसका ताड़न किया था ॥३२॥ वह अन्धक घसुर भी युद्ध स्थल में स्थित होता हुआ बहुत ही शिथिल शायुधो वाला होकर स्वयं भी परम शिथिल हो गया । जिस प्रकार से और कमल को एक दम ढक लिया करते हैं उसी तरह से मह अन्धकासुर भी शम्भु के द्वारा वाणों से एक दम निरुद्ध कर दिया गया था ॥३०॥ उसकी प्रायः सभी सेना युद्ध भूमि में सग्राम करने वाले शिव के गणों के द्वारा जो कि परम दिव्य श्रेष्ठ योद्धा थे और स्थाणु के सन्निधि का समाश्रय ग्रहण करने वाले थे, निरुद्ध कर दी गयी थी ॥३१॥ इसके पश्चात् अन्धक ने अपनी सेना को देवों के द्वारा भिन्न हुई देखकर और अपने आपको महेश के द्वारा करोड़ों वाणों से विद्ध देखकर विकली-कृत देह वाला मह भय का आश्रय लेने वाला हो गया और फिर सैकड़ों मायाओं के विशारद इसने अपनी एक तामसी माया की । उस माया से अन्तर्हित देह वाला यह उत्तर दिशा की ओर चला गया जो कि भगवान् शम्भु की भीति (भय) का हरण करने वाली थी । भिन्न हृदय वाला यह भू मण्डल में भ्रमण कर रहा था । जिस मार्ग से यह दैत्य गया उसी से देव भी गये थे किन्तु यह कहीं पर भी गया हुआ दुष्ट दिखलाई नहीं देता और बोलता हुआ बारम्बार चला जा रहा था ॥३२-३५॥

उवाचचान्धकदशब्दं तथोवाचमहेश्वरः ।
 तत्रतीर्थं मथोत्पन्नं वागन्धकमिति श्रुतम् ॥३६
 तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा यो वै दद्यात्सशर्करम् ।
 नवम्यां मार्गशीर्षं स्त शुदलायां श्रद्धयान्वितः ॥३७
 अक्षयंतद्भ्रूत्रेत्सर्वं दाता शिवपुरं ब्रजेत् ।
 पितृनेददिश्ययत्किञ्चिद्दीयते भक्तितः शिवे ॥३८
 तृप्तास्तिष्ठन्ति ते तावद्यावदाभूतसम्प्लवम् ।
 तमसा छादिता देवाः सम्बभूवुः समाकुलाः ॥३९
 सम्भ्रान्तमनसस्सर्वे न किञ्चिदपि मे निरे ।
 एतस्मिन् न्तरे व्यास नरादित्यः स्व तेजसाः ॥४०
 उत्तस्थो नररूपेण कुर्वन्वित्तमिरा दिशः ।
 नष्टे तमसि दंत्येऽपि प्रकाशे प्रकटे सति ॥४१
 देवामुदमवापुस्ते दृष्ट्वाऽनन्तं तुलोचनैः ।
 स्तुवन्तो विविधैः स्तोत्रैर्नररूपदिवाकरम् ॥४२

वहाँ पर अन्धक ने शब्द बोला तथा महेश्वर प्रभु ने भी बोला ।
 वहाँ पर वागन्धक तीर्थं उत्पन्न हो गया—ऐसा सुना गया है । वहाँ पर
 स्नान करके परम शुचि होकर जो कोई शर्करा के सहित दान किया
 करता है और मार्गशीर्ष मास को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि में धड़ा
 युक्त होकर दान किया करता है तो वह अक्षय हो जाता है । सबका दान
 करने वाला शिवपुर को गमन किया करता है । हे शिवे ! पितृगण
 का उद्देश्य करके भक्ति भाव से जो कुछ भी दिया जाता है तो वे
 पितृगण परम सन्तुष्ट होकर जब तक भूत संपन्न होता है तब तक स्थित
 रहा करते हैं । उस समय में दंत्य की माया से विहिततम से ऐसा
 अन्धकार हो गया कि सभी देवगण ममाच्छादित होते हुए परम समाकुल
 हो गये थे ॥३६-३९॥ सभी सम्भ्रान्त मन वाले होकर कुत्स भी नहीं मान
 रहे थे । इसी बीच में हे व्यास ! नरादित्य अपने तेज से नररूप से उत्थित
 हो गये और उन्होंने सभी दिक्षामो को बिना अन्धकार वाली कर दिया ।
 अन्धकार के नष्ट हो जाने पर वह दंत्य भी प्रकाश में प्रकट होगया । उत्

द्वैत के प्रकट हो जाने पर देवों ने अपने लोचनों से अनन्त को देखकर परम प्रसन्नता प्राप्त की । देवों ने अनेक स्तोत्रों के द्वारा उन नर रूप धारी दिवाकर भगवान् का स्तवन किया था ॥४०-४२॥

उत्तस्थौनररूपेण दीप्तोयस्माद्दिवाकरः ।

तेनास्यनामनेचक्रुर्नरदीपइतीश्वराः ॥४३

यः पश्यतिनरोभवत्या नरदीपं दिवाकरम् ।

मुच्यते सर्वपापेष्वोयद्यपि ब्रह्महाभवेत् ॥४४

पञ्चमार्कदिनेविप्र सप्तम्यामुपवासकृत् ।

दिनक्षयेऽथसकान्तौ ब्रह्णेविपुवत्यथ ॥४५

कुण्डेस्नात्वाशुचिभूत्वा जपन्नियतमानसः ।

नरदीपनरः पश्येत्स्तोत्रवादित्रमङ्गलं ॥४६

गन्धधूपं पंक्त शोदीपनेवेद्यविविधंस्तथा ।

गीत वाद्य पुरा कृत्वा प्रणम्याष्टाङ्गमेव च ॥४७

प्रातर्मध्यपराह्णे वा कृत्वाकंस्यप्रदक्षिणाम् ।

समुक्तसर्वपापंस्तु सप्तजन्मकृत्तरपि ॥ ८

सूर्यकोटिप्रतीकाशंविमानैः सार्वकामिकैः ।

सूयलोकं प्रयात्याशु यत्सुरं रपि दुर्लभम् ॥४८

क्योंकि वह दिवाकर प्रभु नर के रूप को धारण करके उरियत हुए और परम प्रदीप्त हो गये इसी कारण से उन ईश्वरों ने नरदीप यद्द नाम उनका रखा । जो कोई मनुष्य भक्ति से उन नर रूप दिवाकर का दर्शन किया करता है चाहे भले ही वह ब्रह्म हत्यारा हो क्यों न हो तो भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता करता है । हे विप्र । रविचार से युक्त पक्षी में तथा सप्तमी में उपवास करने वाला—दिन के क्षय में—मक्रान्ति में—ब्रह्मण में—विपुवदिन में कुण्ड में स्नान करके शुचि होकर नियत मन वाला होता हुआ जाप बरे और नरदीप वा धवभोजन करे तथा स्तोत्र, धादिन मङ्गल-वृष-शेष एव विविध नैवेद्यों से गीत वाद्य पहिले करके घाटों आदि से प्रणाम करे । प्रातः काल, मध्याह्न और अपराह्न काल में सूर्य को प्रदक्षिणा करे तो वह मनुष्य सब पापों से जो कि सात जन्मों में भी

किये गये हैं मुक्त हो जाया करता है । अन्त में इस नर लोला का संवरण करने के पश्चात् वह करोड़ों सृष्टियों के सदृश—सब कामनाओं की पूर्ति वाले विमानों के द्वारा सूर्य लोक में प्रयाण किया करता है जो कि बड़े २ देवों को भी परम दुर्लभ होता है ॥४३-४६॥

शक्रात्प्राप्यपुरायस्माद्भानुरनप्रतिष्ठितः ।

नरेणैव प्रसादेन नरदीपस्ततो ह्ययम् ॥५०

तद्देवास्त्रपुराव्यास ! यात्रा शक्रेणनिर्मिता ।

आगमिष्याम्यहं पार्थ साद्धं देवैः समाहितः ॥५१

ज्येष्ठेऽतीतेद्वितीयायां नरदीपेतुसर्वदा ।

तत्राहमागतोज्ञेयो लोकैर्देवस्त्ववपंणात् ॥५२

ततोऽनन्तरमागम्य देवा ये त्रिदशालये ।

इष्ट्वा देवं तथारूढं नरदीपंसुदीपनम् ॥५३

कृत्वायात्राञ्चतेयान्तिदेव यात्रात्पयेततः ।

यः पश्येन्मानवीभक्त्यानरदीपरथस्थितम् ॥५४

सर्वपापविनिर्मुक्तः सूर्यलोके महीयते ।

रथयात्रामथो वक्ष्ये नरदीपस्य या पुनः ॥५५

ता कृत्वा चैव तत्पुण्यं मुनीभिः परिकीर्तितम् ।

ज्येष्ठेऽतीते द्वितीयायां रथस्थो हि दिवाकरः ॥५६

पर्योक्ति पहिले परम पुरातन समय में इन्द्र देव में प्राप्त करके भातु को यहाँ पर प्रतिष्ठित किया और यह प्रतिश्रापन नर के द्वारा ही प्रसाद से हुआ घतएव तभी से यह नरदीप नाम वाला हो गया है । हे व्यास ! उसी समय में पहिले इन्द्र ने यह यात्रा निमित्त की घोर कहा—हे पार्थ ! मैं परम समाहित होकर देवों के साथ यहाँ पर आऊगा । अतीत ज्येष्ठ में द्वितीया तिथि में सर्वदा इस नरदीप में यहाँ पर देव के वपंन होने से लोगों को मुझे आया हुआ ही गमना चाहिए । इसके पदपात् घारुत जो देव त्रिदशालय में यहाँ पर घारुत सुदीपन नरदीप देव का यजन करके यो यात्रा किया करते हैं वे फिर देव यात्रात्पय में गमन किया करते हैं ।

जो मनुष्य भक्तिभाव से रथ में स्थित नरदीप का दर्शन करता है वह समस्त पापों से विमुक्त होकर सूर्य लोक में प्रतिष्ठित एवं सम्मानित हुआ करता है । जो वहाँ की रथ यात्रा होती है उसे मैं फिर कहूँगा । उसको सम्पन्न करके जो कुछ उसका पुण्य—फल होता है उसे मुनियों ने कीर्तित किया है । अतीत ज्येष्ठ में द्वितीया तिथि के दिन में भगवान् दिवाकर रथ में सस्थित हुआ करते हैं ॥५०-५६॥

कुशस्थत्या द्विजश्रेष्ठं वाहुश्रेष्ठं प्रणीयते ।

उत्तरा दिशमायान्तं यः पश्यति दिवस्पतिम् ॥५७

अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य लभते सोऽखिल फलम् ।

निवृत्त केशवाकर्ण्योरथं पश्यति मानवः ॥५८

मृण्डीरस्वामिनो यात्रा कृता तेन न सशयः ।

रथमाकर्षते यस्तु रज्ज्वाकर्षणं मुने ! ॥५९

कुलमुद्धरने सोऽपि पूर्वान्पितृपितामहान् ।

वक्षिणाभिमुखं यान्त नरदीपं द्विजोत्तम ! ॥६०

ये सयना प्रपश्यन्ति ते यान्ति च त्रिविष्टपम् ।

सूत्रेण वेष्टने क्षेत्रं रथं देवमथापि वा ॥६१

सर्वकामानवाप्नोति कृतपुण्यस्तजायते ।

प्रदक्षिणा तु पर्यस्य भक्त्या कुर्वन्ति ये नराः ॥६२

प्रदक्षिणीकृतार्तस्तु सप्त द्वीप वसुन्धरा ।

प्रातरुत्थाय यो भक्त्या मौनीयाति दिवाकरम् ॥६३

कुशस्थली में ध्वंष्ट द्विजों के द्वारा बाहुश्रेष्ठों से प्रणयन किया जाता है । जो कोई उत्तर दिशा में भागे हुए दिवस्पति का दर्शन करता है वह अग्निष्टोम यज्ञ का पूरा फल प्राप्त करता है । जो मानव केशवार्थ से निवृत्त रथ की देखता है उसने मृण्डीर स्वामी की यात्रा पूर्ण करली है—इसमें कुछ भी सशय नहीं है । हे मुने ! जो मनुष्य रज्जु के धारण के द्वारा रथ का आकर्षण किया करता है वह भी अपने मुच का उद्धार कर दिया करता है जो कि पूर्वज पिता-पितामह धादिव होने हैं उन गच का उद्धार कर देता है । हे द्विजोत्तम ! जो लोग परम सयत्न होते हुए दक्षिण

दिशा की ओर अभिमुख होकर गमन करते हुए नर दीप का दर्शन किया करते हैं वे सीधे ही त्रिविष्टप को चले जाया करते हैं । जो सूत्र के द्वारा होत्र को—रथ को अथवा देव को वेष्टित किया करते हैं वे भी परम पुण्य के करने वाले हैं और अपनी सभी कामनाओं की प्राप्ति कर लिया करते हैं । जो मनुष्य भगवान् दिवाकर की भक्ति से प्रदक्षिणा करते हैं उनसे तो मानो मातो हीपो वाली सम्पूर्ण वसुन्धरा को प्रदक्षिणा कर ली है अर्थात् सम्पूर्ण वसुन्धरा को परिक्रमा करने का फल उन्हें प्राप्त ही जाया करता है । प्रातःकाल में जठकर भक्ति भाव से जो कोई मीन व्रत धारण करने वाला भगवान् दिवाकर के समीप में ज्ञाना करता है उसकी सर्वांशों और पुण्य फल वतलाते हैं ॥५७-६३॥

दृष्टानुपूर्वद्वारेण नमस्कृत्यद्विजोत्तम ।

प्रविश्य दक्षिणेनेव रथचक्रं प्रपूजयेत् ॥६४

तेनद्वारेण निष्क्रम्य प्रणिपर्यन्नजेत्ततः ।

पश्चिमद्वारमाश्रित्य रथस्थं सूर्यमचंयेत् ॥६५

धामरे च वितानरुच घण्टां वापि निवेदयेत् ।

पूर्वद्वारे तु गौर्देया तथाऽश्वश्चैव दक्षिणे ॥६६

पश्चिमेचगजः प्रोक्त उत्तरेरथ रथच ।

कुर्यादेवंतु योयात्रां रथदीपस्य मानवः ॥६७

गो सूर्यशिवशक्राणां स्वालोक्य समते सुखम् ।

प्रदक्षिणा महामेरोः कृता तेन भवेन्मुने ! ॥६८

दद्याद्गत्रां सहस्रं यो व्यतीपातशतेन च ।

अश्वानाञ्च सहस्रेण यात्रायां तत्फलं भवेत् ॥६९

नरदीपेरथारूढे अपन कारयेत्तुयः ।

श्रिया न विच्युतिस्तस्य सूर्यलोके महीरते ॥७०

हे द्विजोत्तम ! पूर्व दिशा के द्वार को देखकर नमस्कार करे—दक्षिण द्वार से प्रवेश करके रथ चक्र का पूजन करना चाहिए ॥६४॥ उस द्वार से निकलकर प्रणिपान करके वहाँ से गमन करे । पश्चिम दिशा के द्वार

का माध्यम ग्रहण करके रथ में स्थित सूर्य का पूजन करना चाहिये । वहाँ पर दो चमर, धितान और घण्टा निवेदित करे । पूर्व द्वार में गी देनी चाहिए । दक्षिण द्वार पर अश्व समर्पित करे । पश्चिम द्वार पर ह्याथी देवे और उत्तर दिशा के द्वार पर रथ समर्पित करे । इस तरह तो जो मानव रथ दीप की यात्रा करे वह मनुष्य गी—सूर्य—शिव और इन्द्र के स्वालोक्य के सुख का लाभ प्राप्त किया करता है । हे मुने ! यह समझ लो कि उम मनुष्य ने महामेघ की प्रदक्षिणा करली है अर्थात् उसे मेघ की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है । जो भी व्यतीपातो मे एक महान् गीमो का दान करता और सहस्र अश्वों का दान करता है यात्रा में उसका फल उसे प्राप्त ही आया करता है । नर दीप के रथ पर समाह्व होने पर जो वषण कराया करता है उम पुण्य की थी से कभी भी विच्छ्युति नहीं हुआ करती है और भन्त मे वह सूर्यलोक मे महत्य की प्राप्ति किया करना है ॥६५-७०॥

सूर्यस्य पुरतो वाप्यां मासं नित्यं विग्राह्य च ।

यस्तमालोकते मर्त्या दुस्स्वप्नं तस्य नश्यति ॥७१

भवरघाथोनुदिनं व्यास! नरदीपं प्रपद्यति ।

उत्तम स्थानमाग्राद्य पुत्रपोत्रममन्वितः ॥७२

प्रक्रीडथ बन्धुभिः सार्द्धं मृतः सूर्यपुरम्भजेत् ।

प्रणष्टे तिमिरेविप्र जातेमवंश सुप्रभे ॥७३

हतेऽधके महेशेन शूलेनत्रिसिधेनर्ष ।

प्रहृष्टाश्च मुरास्मर्वे ब्रह्मोन्द्रप्रमुखास्तदा ॥७४

शङ्खं दध्मी तदा विष्णुः सुराणां हिनकाम्यया ।

तत्र तीर्थमगोत्पन्नं शगोद्वारणमञ्जकम् ॥७५

तत्र सन्निहिनोविष्णुलिङ्गञ्चंचक्रुमुं गम् ।

अनाद्यञ्चं विप्रेन्द्रलिङ्गम्यच मगोपता ॥७६

देवस्य दक्षिणे भागे शूलेनालक्षितः स्थितः ।

चतुर्दशं तदाऽऽम्भ्यां धे पद्यन्नि जितेन्द्रियाः ॥७७

सूर्यदेव की सामने में स्थित वापी बावड़ी में जो भ्रवगाहन करके मनुष्य उसका दर्शन करता है उसके दुःस्वप्न वा कुफल नष्ट हो जाता है ॥७१॥ हे व्यास देव ! भक्ति से जो अनुदिन नर दीप के दर्शन किया करता है वह अत्युत्तम स्थान पाकर पुत्र-पौत्रादि समन्वित होता है और अपने बन्धुओं के साथ आनन्द सहित क्रीड़ा करके मृत्यु प्राप्त करने पर वह सूर्य के पुर में गमन करता है । हे विप्र ! उस तिमिर के नष्ट हो जाने पर सर्वत्र सुन्दर प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर तीव्र शिक्षा वाले विद्वान् से भगवान् महेश्वर के द्वारा अन्धक दैत्य के निहत हो जाने पर ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रपन्न सभी सुरगण बहुत ही प्रसन्न हो गये थे । उसी समय में सुरगणों की दिल की कामना से भगवान् विष्णु ने अपना शस्त्र बनाया था । वहाँ पर शचीन्द्रारण नाम वाला तीर्थ समुत्पन्न हो गया था ॥७२-७५॥ हे त्रिप्रेन्द्र ! वहाँ पर विष्णु सन्निहित रहते हैं । लिंग के समीप में बनाए चतुर्मुख लिंग सन्निहित हैं । देव के दक्षिण भाग में शूल से भालकित स्थित रहते हैं । जो इन्द्रियों को जीत लेने वाले लोग चतुर्दशी तथा अष्टमी तिथि में उनका दर्शन किया करते हैं उनका महान् पुण्य होता है ॥७६-७७॥

ते क्षीणशेषपापोधाः प्राप्स्यन्ति परमां गतिम् ।

योगिनीनां बलिं यानु यथावरसम्प्रदास्यति ॥७८

भूतप्रेतपिशाचाद्येनीसोकेनापिवाच्यते ।

द्वादशी सभुषोप्येव स्नात्वादेवं जनार्दनम् ॥७९

यः पश्येच्छङ्खिनं देवं सोऽभ्युतं स्थानमाप्नुयात् । ८०

यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशी यस्सर्वभूतो च च सर्वभूतः ।

विश्व यतश्चैव हि विश्वहेतुर्नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥८१

उन मनुष्यों के शेष पापों के समूह क्षोण हो जाते हैं और वे परम मोक्ष गति को प्राप्त हुमा करते हैं । जो वहाँ पर योगानियों की बलि यथा-वत् सम्प्रदान करता है वह भूत प्रेत और पिशाच आदि के द्वारा कभी भी बाधित नहीं किया जाता है । द्वादशी के दिन भली भाँति उपवास करके स्नान करने के पश्चात् आ देव जनार्दन संख्यारी देव वा दर्शन किया

करता है वह अच्युत स्थान को प्राप्त करता है ॥७८-८०॥ जो स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप वाला है—प्रकटित प्रकाश से युक्त है—जो सर्वभूत है और सर्वभूत नहीं है—जिससे यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता है और जो इस विद्वत् का हेतु है उस परम पुरुषोत्तम के लिए नमस्कार है ॥८१॥



७६—गयातीर्थमाहात्म्यवर्णन

शृणु व्यास ! प्रवक्ष्यामि तीर्थभेकमतः परम् ॥१
 तीर्थानामुत्तमं तीर्थं गयानामेतिनामतः ।
 यत्र स्नात्स्वानरो नित्यं मुच्यते च ऋणभयात् ॥२
 देवान् पितॄन्समम्यर्चां विष्णुलोकं स गच्छति ।
 कीकटपुगयापुण्या नदीपुण्या पुना पुनः (पुनः पुना) ॥३
 तीर्थानामुत्तमतीर्थं पुण्योराजगिरिस्तथा ।
 (च्यवनस्याश्रमः पुण्यः पुण्योराजगिरिस्तथा) ॥४
 सकथं विदितो देशे महाकालवने शुभे ।
 एतद्वेदितुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ! ।
 शृणु व्यास ! कथाम्पुण्यां पवित्रां पापहारिणीम् ॥५
 यस्याः श्रवणमात्रेण पितरोयान्तिसदगतिम् ।
 पुराकृतयुगे पुण्ये युगादिदेवनामतः ॥६
 राजासीत्सतुघर्मास्मापुण्यश्रवणकीर्तनः ।
 तस्यपालयतः सम्यक्प्रजाः पुत्रानिवीरसान् ॥७

भगवान् सनत्कुमारजी ने कहा था—हे व्यास ! अब मैं एक इमसे भी परमोत्तम प्रागे तीर्थ के विषय में बतलाता हूँ । आप उसका श्रवण कीजिएगा ॥१॥ समस्त तीर्थों में परम उत्तम नाम से गया कहे जाने वाला एक अष्ट तीर्थ है । जिस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य निरर्थ ही तीर्थो ऋणों से छुटकारा पा जाया करता है । देवों को और अपने पितृगणों को यहाँ पर भली भाँति अभ्यर्चन करके वह मनुष्य सीधे विष्णु लोक को चला जाता है ॥२॥ श्री व्यासदेव ने कहा था—व्यासजी बोलें—कीकटों

मे गया परम श्रेष्ठ पुण्यमयी पुनः पुनः नदी है । तीर्थों में उत्तम तीर्थ तथा पुण्यमय राजगिरि है । च्यवन का आश्रम पुण्यमय है तथा राजगिरि पुण्यमय है । परम शुभ महाकाल वन में श्रीर देश में वह कैसे विदित हुआ है—हे तपोधन ! मैं यह जानना चाहता हूँ । आप विस्तार में कहिए । श्री सनत्कुमारजी ने कहा—हे व्यास ! भव घाप पापों का हरण करने वाली इस परम पुण्यमयी पवित्र कथा का अथण कीजिए जिसके धवण करने मात्र से ही पितृगण सद्गति को प्राप्त हो जाया करते हैं । पुरातन समय में परम पुण्यमय कृतयुग में एक युगादि देव नाम का राजा हुआ था । वह बहुत ही धर्मात्मा और पुण्य अथण तथा कीर्तन वाला था । उसकी प्रजा ऐसी थी जिनका वह अपने औरस पुत्र पौत्रों के समान ही पालन किया करता था ॥३-७॥

बभूवुः सर्वं सम्पन्ना वद्धमानाः समन्ततः ।

धर्मश्चतुष्पदो नित्यं यस्मिन्नराज्ञिप्रशासति ॥८

कालेवर्षी च पजन्यो ऋतवः स्वाङ्गचारिणः ।

बहु सस्यफला पृथ्वी गावश्च वनूदुग्धदाः ॥९

वेदवादरताविप्राः क्षत्रियावाहुशालिनः ।

वैश्याधनपरा नित्यं मूद्राः शुभ्रूषणेरताः ॥१०

वर्णाश्रमरताः सर्वे सर्वधर्मोपदेशकाः ।

ऋनिस्मृतिपरो धर्मो हृष्टपुष्टं जनकरः ॥११

नाधिब्याध्यभिमम्भूता लक्ष्यन्ते केऽपि मानवाः ।

दुःशीला दुर्भंगा नार्या विववा नो तथैव च ॥१२

बहुपुत्राल्पपुत्राश्च मृतपुत्रानवन्ध्यकाः ।

रूपशीलगुणोपेताः पतिव्रतपरायणाः ॥१३

सुमानंकरसंकीर्णा दस्युदोषविवर्जितः ।

ह्यताम्भुज्यतांशश्च दीयताञ्च गृहे गृहे । १४

सभी प्रजाजन सर्व सम्पन्न और सभी प्रकार से बद्धमान हुए थे ।

उस राजा के प्रशासन काल में जिन समय में नित्य ही धर्म चार पदों वाला अर्थात् सर्वोद्गम पूर्ण था । मेघ समय पर वर्षा करने वाला था और

सभी ऋतुएं अपने २ षड्भौ के समाचरण करने वाली थीं । धूमि बहुत रास्यो के फलने वाली थी और गौएं बहुत अन्निक दुग्ध देने वाली थी । विप्रगण सब वेदों के वाद करने में रति रखने वाले थे और क्षत्रिय लोग बाहु धर्म में सम्पन्न थे । वैश्य धन परायण अर्थात् बहुत ही सम्पत्तिशाली थे तथा शूद्रगण सबकी सुख्खा करने में रत रहा करते थे । सभी लोग अपने २ षड्भौ और आश्रमों में निरत रहने वाले थे । सभी धर्मों के उपदेशक थे । उस समय में धृति तथा स्मृति में परायण ही धर्म था और हृष्ट पुष्ट जनों की खान था । यह ऐसा शासन एव धर्म का प्रभाव था कि उस समय में कोई भी मनुष्य भ्रांति (मानसिक व्यथा) और व्याधि (शारीरिक रोग) से अभिसम्भूत बिलनाई नहीं देते थे । नारियाँ भी बुरे स्वभाव वाली—बुरे भाव्य धाती तथा विषवाएं नहीं होती थीं । उस समय में धार्मिक राजा के शासन का ऐसा प्रभाव था कि स्त्रियाँ बहुत पुत्रों वाली—अल्प पुत्रों वाली—मृत वत्सा और अग्न्याएं नहीं थीं । सभी नारियाँ रूप लावण्य और गुणों से समन्वित थीं तथा पातिव्रत धर्म में परायण रहने वाली थीं । समस्त पृथ्वी सुभाग कर सङ्कीर्ण थी तथा वसु (घोर डाकूओं) के दोष से रहित थी । सभी जगह घर घर में हवन भोजन, दान निरन्तर हुआ करते थे ॥८-१४॥

जपदागतपोहोमस्तुतियज्ञक्रियापराः ।

जना. सर्वत्र दृश्यन्ते सबधर्म परायणा. ॥१५

चतुष्पदचरोधर्मो ह्यधर्मः पादविग्रहः ।

एव राजा सर्वमात्मा युगादिदेवसञ्जित ॥१६

येनेयपालिता पृथ्वीवर्मण वर्द्धिता. प्रजाः ।

अवन्त्याच पुराव्याय ! यज्ञकोटि समाचरत् ॥१७

तस्मिन्कालेऽतिविक्रान्तस्तुहु (ह) षडानामदानवः ।

तेन सर्वं च नोत् चराचरमिदं जगत् ॥१८

घोरं तप्त्वा तपः पुण्यं ब्रह्मालम्बनः खलः ।

नैवदेवानयज्ञाश्च वेदमार्गैर्वर्जिताः ॥१९

देवतापूजनं नास्ति स्वधास्वाहानदृश्यते ।
 उत्सन्नोधर्ममार्गोऽप्यशश्वतोर्वदुरासदः ॥२०
 नष्टप्रायाः सुरास्तेन कृताः सर्वोत्तमोत्तमाः ।
 ब्रह्माण शरणजग्मूः पितृणासहसाधुभिः ॥२१

सर्वत्र सब मनुष्य जप—दान—तप—होम—स्तवन—यज्ञ और क्रियामो मे परामर्श रहा करते थे । सब जगह मनुष्य धर्म मे तत्पर ही दिखलाई दिया करते थे । धर्म धारो परो से युक्त सर्वाङ्ग सम्पूर्ण था और मधर्म केवल एक ही चरण से युक्त था । इस तरह से वह राजा युगादि देव नाम वाला धर्मात्मा था जिसके द्वारा यह पृथ्वी धर्म से पालित थी और प्रजा सब वर्धमान हो रही थी । हे व्यास ! अचन्ती पुरी मे पहिले एक करोड यज्ञो का समाचरण किया था । उस समय में अत्यन्त विक्रम वाला एक तुहुण्ड नाम वाला दानव था । उसने इस समस्त चराचर जगत् को अपने ही बश मे ले लिया था । इसने अत्यन्त परम पुण्यमय घोर तपस्या की थी और इस खल ने ब्रह्माजी से बरदान प्राप्त कर लिया था । कोई भी देवगण पूजा के योग्य नहीं है—न कोई यज्ञादि ही है—सब वेद के निदिष्ट मार्ग से रहित हो जाइये—देवो का पूजन भी कुछ नहीं है । स्वधा और स्वाहा कही पर भी दिखलाई ही नहीं दे रहे थे । धर्म का मार्ग उत्सन्न हो गया था जो शाश्वन तथा दुरासद था । उसने सभी सुर नष्ट प्रायः कर दिये थे जो कि सबसे उत्तमो मे भी उत्तम थे । वे सब सुर गण त्रितरो और साधुओ के सहित मिचकर ब्रह्माजी की शरण मे गये थे ॥१५-२१॥

किं कुर्मः क्व च गच्छामस्तुहु (ह) ण्डेन पराजिताः ।
 इति श्रुत्वा वचस्तेषा ब्रह्मा लोकपितामहः ॥२२
 समुत्थायततः सर्वविष्णुलोकं जगामह ।
 तत्र गत्वासमाराध्य विष्णुदेवगणैः सह ॥२३
 स्तुतिपुरूपसूक्तेन विष्णोरतुलतेजसः ।
 प्रचक्रुस्तुसर्वे एते ह्यात्मनोऽभ्युदयाय च ॥२४

तदा तेषामिच्छन्ती वंणवी चा (वागुवाचा)शरीरिणी ।

श्रूयताम्भोः सुरश्रेष्ठा भवता श्रेय उत्तमम् ॥२५

श्रूययातक्षितोक्षिप्रं महाकालवनं प्रति ।

गुह्याद्गुह्यतरं पुण्य पवित्रं पापनाशनम् ॥२६

मोयत्रमायिनामाया प्रकाशयतिभूतले ।

सर्वतीर्थं मयतीर्थं कोटितीर्थं वरप्रदम् ॥२७

यत्रक्षिप्रासरिच्छ्रेष्ठा सर्वकामफलप्रदा ।

दैव्यान्तकारिणीदिव्या महाकाली कुलेश्वरी ॥२८

समस्त सुरगणों ने ब्रह्माजी से प्रायना की थी कि हम लोग क्या करें और कहाँ पर चले जावें । इन सब को सुदृग् ने पराजित कर दिया है । ब्रह्माजी ने जो समस्त लोको के पितामह हैं उनके इस वचन को सुनकर वे उठ खड़े हुए थे, और उन सब का हाथ में लेकर विष्णु लोक का चले गये । वहाँ पहुँच कर देवगणों के सहित भगवान् श्री विष्णु की समाराधना की थी । उन सबने अतुल तेज वाला विष्णु की स्तुति पुरुष सूक्त के द्वारा की थी । इन सभी ने अपने सम्युदय के ही लिए यह सस्तवन किया था उसी समय में उन सब के कल्याण की इच्छा करने वाली बिना परीर वाली वंणवी वाणी ने कहा था—“ह सुरश्रेष्ठो ! आप सब लोग श्रवण कीजिए जोकि आपका परम उत्तम श्रेय है । आप सभी लोग बहुत ही शीघ्र भूमण्डल में महाकाल वन में चले जाइये । यह परम गुप्त तीर्थो गुप्त, पुण्यमय और पवित्र तथा सपस्त पापों का नाश करने वाला क्षेत्र है । जहाँ पर ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि भूतल में बड़े से बड़े मायावारियों की भी माया प्रकाश नहीं किया करता है । यह स्थल ऐसा तीर्थ है जो सम्पूर्ण तीर्थों से परिपूरण है और करोड़ों तीर्थों के वर का प्रदान करने वाला है । जहाँ पर समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा नदी प्रवाहित होती हुई विराजमान है जो सभी मनोरथों को पूर्ण कर देने वाली है । वहाँ पर परम दिव्य बुलेश्वरी महाकाली विराजमान रहा करती है जो कि दैव्यों के अन्त कर देने वाली है ॥२२-२८॥

कोटिकोटिगणकीर्णा मातृणांशक्तिवर्द्धनी ।
 गयायत्रमहापुण्या कङ्गुषर्चंमहानदी ॥२९
 पुरुषोत्तमगिरिः श्रेष्ठो यत्रबुद्धगयास्मृता ।
 तत्रयत्रगयास्याता त्रिपुलोकेषुविश्रुता ॥३०
 विष्णोः षोडशपदीतीर्थं गदाधरविनिर्मितम् ।
 सर्वपापहरापुण्या यत्र प्राचीसरस्वती । ३१
 महासुरनदीप्रोक्ता पञ्चतिष्ठन्ति पुण्यदाः ।
 न्यग्रोधप्राधायोनित्यः पुराप्रोक्तोमहर्षिणा ॥३२
 तत्रैव साशिलाप्रोक्ता प्रेतमोक्षकरीशुभा ।
 तत्रैवसतेनर्या देवताः पितृकल्पजाः ॥३३
 सर्वाक्षरमयोङ्कारः सर्वदेवमयोहरिः ।
 सर्वतीर्थंमयादेवा गयातीर्थंमनुत्तमम् ॥३४
 शीघ्रं गच्छतत्रैव परांसिद्धिमवाप्स्यथ ।
 यत्रप्रविष्टमात्रेण पितरोनिरयस्यजाः ॥३५
 ते सर्वे स्वर्गमायान्ति ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३६

यह महाशाली देवी करोटी ही गणों से समाकीर्ण रहा करती है ।
 और मातृगण को शक्ति के वर्द्धन करने वाली हैं । यह ऐसा स्थल है जहाँ
 पर महापुण्यमयी गया विद्यमान है और महानदी कङ्गु बहती है । वहाँ
 सब पर्वतो में परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम गिरि है जहाँ पर बुद्ध गया कही गयी
 है । उसी भाँति यह गया भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर स्यात हुई है ।
 भगवान् गदाधर के द्वारा निर्मित वहाँ विष्णु का षोडशपदी तीर्थ विद्य-
 मान है । जहाँ पर समस्त पापों के हरण करने वाली परम पुण्यमयी
 प्राची सरस्वती है । महासुर नदी बही गयी है । ऐसे वहाँ पर पाँच पुण्य
 कर्मों के प्रदान करने वाली नदियाँ स्थित रहा करती हैं । पुरातन समय
 में महर्षि के द्वारा कथित नित्य और अत्रय न्यग्रोध भी वहाँ पर विद्यमान
 है । वहाँ पर ही वह शिला बताई गयी है जो परम शुभ और प्रेतों के
 मोक्ष करने वाली है । वही पर पितृ कल्पज समस्त देशगण निवास किया
 रहे हैं । सर्वाक्षरमय ओङ्कार है अर्थात् अकार में सभी अक्षरों का समा-

वेश होता है और श्री हरि भगवान् व सभी देवता विराजमान रहा करते हैं । देवगण सम्पूर्ण तीर्थों से परिपूर्ण होते हैं तथा गया तीर्थ सर्वोत्तम तीर्थ है । वही पर बहुत ही शीघ्र ही आप लोग चले जाइए । वहाँ प्राय सब परासिद्धि को प्राप्त करेंगे । जिस क्षेत्र में प्रविष्ट होने मात्र से ही नरकों में स्थित पितृगण सबके सब स्वर्ग में धा जाया करते हैं और ब्रह्म भूय कल्पित किये जाते हैं अर्थात् ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं ॥२६-३६॥

७७—नागतीर्थमहिमावर्णन

नागतीर्थं त्वया ब्रह्मपुराप्रोक्तं यशस्विना ।
 तस्यतीर्थं वरस्याऽपिमहिमानञ्चसतम ॥१
 भूयस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ।
 कियत्काले समाख्यातमेतद्विस्तरतो वद ॥२
 शृणु ब्रह्मन्प्रवक्ष्यामि तवाग्ने नागतीर्थं जाम् ।
 कथापुण्यतमानुम्यं भुविपागहरापरासम् ॥३
 यस्याः श्रवणमात्रेण क्षापमुक्तो भवेन्नरः ।
 पुरा नागा परिभ्रष्टा मातुःशापात्परन्तप ॥४
 जनमेजयेन दग्धास्ते मोक्षिता ह्यास्तिकेन च ।
 पप्रच्छुस्ते द्विजश्रेष्ठः जरत्कार्वात्मजं तदा ॥५
 ब्रह्म स्तवप्रसादेनमोक्षिताहव्यवाहनात् ।
 जनमेजयस्ययज्ञेऽस्मिन्देवराजस्यमन्निधौ ॥६
 अस्माकं भूतिमन्विच्छन्वासस्यार्थं परतप ।
 यस्मिन्स्थाने सदा ब्रह्मन्निवासो जायतेऽभयः ॥७

महर्षि प्रवर भी व्यासजी ने कहा—हे ब्रह्मन् । आपने पहले नाग-तीर्थ का वर्णन किया था । प्राय तो बहुत ही यशस्वी हैं । हे श्रेष्ठतम ! उस श्रेष्ठतम तीर्थ की महिमा की हे ब्रह्मवेत्ताओ मे वरिष्ठ देव ! मैं पुनः आपके मुख से श्रवण करना चाहता हूँ । कितना समय होगया तभी आपने इसको कहा था । अब प्राय इसको विस्तार के साथ कहिए । श्री

सनत्कुमारजी ने कहा— हे ब्रह्मान् ! अब आप सुनिए, मैं आपके समक्ष में इस नागतीर्थ में समुत्पन्न कथा को आप से कहना हूँ । यह परम पुण्यतम कथा है जो कि इस महोमण्डल में पापों के हरण करने के लिये परम प्रशस्त है । यह ऐसी कथा है जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य शाप से विमुक्त हो जाया करता है । हे परन्तप ! पुरातन समय में नाग गण माता के शाप से परिभ्रष्ट हो गये थे । जनमेजय ने उनको दाव कर दिया था और आस्तिक ने उनको मोक्षित किया था । हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय में उन्होंने जरत्कार के पुत्र से पूछा था ॥१-५॥ नागी ने कहा— हे ब्रह्मान् ! हम सब लोग आपके ही प्रसाद से इस अग्नि से मुक्ति को प्राप्त हुए हैं जबकि देवराज की सन्निधि में राजा जनमेजय द्वारा इस यज्ञ में हम सब को दण्ड किया जा रहा था । हे परन्तप ! हमारी भूति की इच्छा करते हुए आप हम लोगों के निवास करने के लिए भी स्थान निर्दिष्ट कर दीजिए जिसमें हे ब्रह्मान् ! सदा भय से रहित हमारा निवास हो जावे ॥६-७॥

धूमतामातुलथेष्ठा युष्माकंहितमुत्तमम् ।
 महाकालवने रम्ये या वं कुशस्थलीस्मृता ॥८
 तस्या हि दक्षिणे भागे पूर्वतीर्थं सनातनम् ।
 नागालयं पुरा प्रोक्तं यत्र सन्निहितो हरिः । ९
 योगनिद्रासमासाद्य शैते ब्रह्म सनातनम् ।
 शेषशायीतिविरुधातः सर्वलोकेपुगीयते ॥१०
 कल्पदोषो न तत्रैव बाधते सर्वदेहिनाम् ।
 वक्त्रालम्ब्य ऋषिस्तत्र तपस्तेपे धृतव्रतः ॥११
 लोमशश्च महातेजास्तत्रैव प्रतिष्ठति ।
 दीर्घायुष्टुं समापन्नोमार्कण्डेयो महामुनिः ॥१२
 न वर्तते कालचक्रं महाकालप्रतापतः ।
 कपिलः सिद्धिभापन्नो यत्र तीर्थवरोत्तमे ॥१३
 हरिश्चन्द्रो विमुक्तोऽभूद्गह्वरं चण्डालयोनितः ।
 सप्तारिप्रचरायेते निर्वाणपदवी गताः ॥१४

प्रास्तीक ने कहा—हे मातुल श्रेष्ठो ! आपके उत्तम हित की बात का आप प्रब श्रवण करो । परम रम्य महाकाल वन में जो एक कुशस्थली बजायी गयी है । उसके दक्षिण दिग्भाग में एक सनातन (मदा से चला आने वाला) पूर्व तीर्थ है । पहिले यह नागालय कहा गया है जहाँ पर श्री हरि सन्निहित रहा करते हैं । वह सनातन ब्रह्म योगनिद्रा को प्राप्त होकर वहाँ पर क्षयन किया करते है और शेषशायी—इस नाम से वह विख्यात हैं उनका इसी नाम से सब लोकों में गायन किया जाता है । वहाँ पर समस्त देहधारियों को कल्प का कोई दोष भी बाधा नहीं दिया करता है वहाँ पर व्रत धारण करने वाले बकदाल्भ्य ऋषि तपश्चर्या किया करते थे । महान् तेज वाले लोमश ऋषि भी यही पर प्रतिष्ठित रहा करते हैं । महामुनि भार्कण्डेय दीपयुष्ठता को प्राप्त हो गये हैं । भगवान् महाकाल के प्रताप से वहाँ पर काल चक्र नहीं है । जिस उत्तम तीर्थ धर में कपिल मुनि भी सिद्धि को प्राप्त हो गये थे । हरिवचन्र अतीव गह्यं (निन्दा के योग्य अर्थात् नीच) चाण्डाल योनि से विमुक्त हो गया था । जो सप्तदि प्रवर हैं वे सब निर्वाण पदवी को प्राप्त हो गये थे ॥८-१४॥

एतस्मात्कारणात्सर्वैस्तत्र विथम्यता सदा ।

मातुः शापोद्भवो दोषो युष्माकं न व वाधते ॥१५

एतत्तौवचनं श्रुत्वामहर्षेरास्तिकस्य च ।

भागच्छंस्तत्र ते शीघ्रं वासाथं पन्नगोत्तमाः ॥१६

एलापत्रः कम्बलश्च कर्कोटकघनञ्जयो ।

वासुकिःपन्नगश्चेष्टस्तक्षकी मील एव च ॥१७

पद्मकश्चार्जुं दशर्चं व नागास्ते सर्व एव हि ।

अत्रागत्य स्वस्थानानि चक्रुस्ते सुचिरव्रताः ॥१८

तत्ररम्याणितीर्थानिजातानिपरमाणि च ।

नवानि चक्रुःकुण्डानि तीर्थं भूतानिसत्तम ॥१९

महापुण्यप्रदान्याहुर्महापापहराणि च ।

यत्र सिद्धाश्च गन्धर्वा ऋषयः संशितव्रताः ॥२०

अप्परोगणसङ्घं श्र सेव्यन्ते च सदा वरैः ।

यत्र शेषो महानागः पुरा प्रोक्ता महर्षिणा ॥२१

इस कारण से आप सभी लोग वही पर सदा विधाम करें । माता के शाप से होने वाला दोष वहाँ पर आप सबको वाधा नहीं देगा । उन सब नागों ने उन महर्षि आस्तिक के इस बचन का श्रवण करके वे पत्न्योत्तम वही पर अपने निवास के लिए शोधता से चले गये थे । उन विशेष नागों के नामों का संक्षिप्त परिणाम बताते हैं—एजापत्र—कम्बल—कर्कोटक—घनञ्जय—पद्मश्रेष्ठ वासुकि—तक्षक—नील—पद्मक—ध्रुव आदि वे सभी नाग थे । यहाँ पर आकर सुघर वनो वाले उन्होंने अपने २ स्थान वास के लिये कर लिये थे । वहाँ परमोत्तम एवं सुरम्य तीर्थ हो गये थे । हे श्रेष्ठतम । नवीन कृण्डों की रचना की गयी थी जो कि सभी तीर्थों के स्वरूप वाले हो गये थे । ये सभी महान् पुण्यो के प्रदान करने वाले और महान् मे महान् पापों के हरण करने वाले हैं ऐसा कहा जाता है । जहाँ पर सिद्ध—गन्धर्व और संशित वनो वाले ऋषिगण सदा श्रेष्ठ अप्सरामों के मञ्जो से सेवित किये जाया करते हैं । जहाँ पर महर्षि के द्वारा शेष महानाग पहले कहा गया है ॥१५-२१॥

शेषशायी ह्यलं विष्टगुर्भं गवान्कमलेभ्रणः ।

तत्र सर्वाणितीर्थानितिष्ठन्तिभुविसर्वं वा ॥२२

इवेतद्वीषेति विरुपाता मणिविक्रान्तभूमिका ।

यत्र पुण्याश्च वै वृक्षाः पुष्पिताश्चैव सर्वशः ॥२३

हंसकारण्डकाकादिपिककोकिलसारमाः ।

पद्मलण्डगणस्तत्र नृत्यन्ति च दिग्लण्डिनः ॥२४

निधिरेपमहापद्मो नीलोत्पलसुगन्धिना ।

वासितो वायुना शुभ्रः किन्नरोद्गारनादितः ॥२५

यत्र मुसंस्कृता नार्यो विहरन्ति सुराङ्गनाः ।

नागकन्याभो रम्याभिमं ण्डितं परमाद्भुतम् ॥२६

यत्रस्नात्वानरोयाति वैकुण्ठं घामशोभनम् ।

शेषशायो हरिर्यत्र शेते हि च रमापतिः ॥२७

तत्र रमासरोनाम तीर्थं परमशोभनम् ।

यत्रस्नात्वानरोनित्यं श्रीमान्भवति नाञ्ज्यथा ॥२८

कमल के समान नेत्रों वाले शेष की शय्या पर शयन करने वाले भगवान् विष्णु ही पर्यति हैं । इस भूमण्डल पर वहाँ पर सर्वदा समस्त तीर्थं स्थित रहा करते हैं । मणियों से विक्रान्त भूमि श्वेतद्वीप—इस नाम से विश्वात है । जहाँ पर पुण्य वृक्ष हैं जो सब प्रकार की सदा फूलों वाले रहा करते हैं । यह ऐसा स्थल है जिसमें हम—कारण्ड—काक आदि तथा पिक (कोयल)—सारस और पक्ष खण्ड गण एवं शिखण्डी नृत्य किया करते हैं । यह महापक्ष निधि है । यह स्थल नील कमल की सुगन्ध वाली वायु से सुवासित रहता है—परम सुध्र और किन्नर गणों के उद्गारों से ध्वनित रहा करता है । जहाँ पर सुन्दर संस्कारों से सम्न्वित नारियाँ और सुरों की भङ्गनाएँ विहार किया करती हैं । यह स्थल परम रम्य नाग कन्याओं से मण्डित रहता है और परम भद्रमुत है । जहाँ पर मनुष्य एक बार स्नान करके ही सौभाग्य शोभा सम्पन्न शंकुण्ड धाम को चला जाया करता है । जहाँ पर रमा के पति श्री हरि शेष की शय्या पर शयन करते हुए विराजमान रहा करते हैं । वहाँ पर एक 'रमासर' नाम वला अत्यन्त शोभन तीर्थ है जिसमें नित्य स्नान करके मनुष्य श्रीमान् हो जाया करता है अन्य किसी भी तरह से नहीं होता है । प्रथवा यह बात सिद्धा है ही नहीं—सर्वदा सत्य है ॥२२-२८॥

एवं व्यास! परं स्थानं सर्वपापहरं परम् ।

अत्रैव च परं तीर्थं श्वेतराश्रमद्रमुतम् ॥२९

अत्रस्नानादिकं कार्यं यत्रसनिहितोहरिः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा नरोभवति तत्क्षणात् ॥३०

कियत्प्रमाणमात्रां च ये ददति वमुन्धराम् ।

तनूच्छाणि यावन्ति तावत्कालसहस्रस्यया ॥३१

अथाय्या लभ्यते वृद्धिस्तेषां लोकाः सनातनाः ।

श्रावणे मासि दशं च पञ्चम्यां सोमवासरे ॥३२

नागानां पूजनं कार्यं श्राद्धं दशं विधीयते ।

अक्षयं जायते श्राद्धं वाञ्छितार्थं भवेत्तदा ॥३३

हे व्यास देव ! इस प्रकार से यह परमोत्तम स्थान है जो समस्त पापों के हरण करने वाला है । यही पर परमोत्तम तीर्थ बलि का अद्भुत आश्रम है । यहाँ पर भी स्नान आदि अवश्य ही करना चाहिए जहाँ कि श्री हरि भगवान् सक्षिप्त रह जाते हैं । यहाँ स्नानादि की क्रिया करने से मनुष्य उसी क्षण में तुरन्त ही सब पापों से छुटकारा पाकर विमुक्त आत्मा वाला हो जाता करता है । किरने प्रमाण वाली वसुन्धरा के धन का पुण्य फल यहाँ पर होता है—इस पर बताया जाता है कि शरीर में जितने रोग हैं उतनी ही सख्या वाली पूर्ण वसुन्धरा के दान का पुण्य हुआ करता है । उन पुरुषों की कभी भी क्षीण न होने वाली वृद्धि प्राप्त हो जाती है और उनको सनातन लोको का लाभ हुआ करता है । धावण मास की अमावस्या तिथि में अथवा पञ्चमी तिथि में चन्द्रवार के दिन में नागों का पूजन अवश्य ही करना चाहिए । दश में श्राद्ध का भी विधान है । यह श्राद्ध भी अक्षय हुआ करता है तथा जो भी कोई वाञ्छित अर्थ होता है उसकी भी प्राप्ति हो जाता करता है ॥२६-३३॥

७८—अवन्तीमाहात्म्यवर्णन

भूमस्तु श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोत्रह्यविवांवर ।

अवन्त्याश्चपरं पुण्यं महिमानं श्रुतं मया ॥१

एवया ब्रह्माविदा प्रोक्तं वत्सरत्रतपारणम् ।

तीर्थं स्यास्य सुविस्तारात्स्नातकानां द्विजोत्तम ! ॥२

अचिरेण तु कालेन तीर्थं स्य फलमश्नुते ।

सिद्धो भूत्वा नरो याति तद्वदस्वद्विजोत्तम ॥३

गुह्याद्गुह्यातरं वत्स पृच्छामि त्वं ममानघ ।

ततो हे तम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वत्यं समाहितः ॥४

महाकालं ततो गच्छेन्नियतो नियतात्मना ।

कोटितीर्थं नरस्स्नात्वा पुनर्जन्मन विच्यते ॥५

नास्तिवत्समहीपृष्ठेक्षिप्रायाःसदृशीनदी ।

यस्यानिरीक्षणान्मुक्तिःकिञ्चिरात्सेवनेनवै ॥६

माधवेमासियोदेवं पूजयेत्पुरुषोत्तमम् ।

भोचनेमुच्चप्रतेनित्यं तर्पणादेकवासरात् ॥७

महापि प्रवर श्री व्यासजी ने कहा—हे ब्रह्म के ज्ञान रखने वालों में परम वरिष्ठ ! मैंने अवन्ती की परम पुण्यपूर्ण महिमा का श्रवण कर लिया है किन्तु पुनः मैं कुछ आपसे श्रवण करने की अभिलाषा रखता हूँ । हे द्विजोत्तम ! आपने जो कि परम ब्रह्म वेत्ता हैं पूरे एक वर्ष के व्रत का पारण वर्णित किया था सो स्नातको को उस व्रत का जो कि इस तीर्थ पर किया जाता है पूर्ण विस्तार के साथ वर्णन कीजिए । हे द्विजो मे परम श्रेष्ठ ! अब यह बतलाइये कि कैसे मनुष्य बहुत स्वल्प समय में ही इस तीर्थ का फल प्राप्त कर लिया करता है और परम सिद्ध होकर प्रयाण करता है ? श्री सनत्कुमारजी ने कहा—हे वत्स ! हे निष्पाप ! आप तो इस समय में परम गोपनीय से भी गोपनीय बात मुझसे पूछ रहे हैं । अच्छा मैं आपको तो यह भी बतलाऊंगा । अब आप बहुत ही सावधान चित्त वाले होकर श्रवण कीजिए । इसके उपरान्त पूर्वोक्तम नियत आत्मा से नियत होकर महाकाल तीर्थ में मनुष्य को गमन करना चाहिए । कोटि तीर्थ में मनुष्य स्नान करके फिर दूसरा जन्म ग्रहण नहीं किया करता है । हे वत्स ! इस मही मण्डल में क्षिप्रा के तुल्य अन्य कोई भी नहीं है । जिसके केवल निरीक्षण कर लेने ही से मनुष्य की मुक्ति हो जाया करती है, चिरकाल पर्यन्त मेवम करने की तो बात ही क्या कही जावे । माघव मास में जो कोई पुरुषोत्तम देव का पूजन किया करता है वह नित्य ही मुक्त हो जाता है और केवल एक ही दिन के तर्पण करने से भी मुक्त हो जाता है ॥१-७॥

अवन्त्यामङ्गपातास्थं ये पश्यन्ति जनार्दनम् ।

न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि ॥८

इतिव्यासवचस्सर्ववदन्तिनियतात्मनः ।

वाराहमत्स्यकन्दाद्या लोमशश्चमहामुनिः ॥९

विधितथापितीर्थं स्यशृणुपुण्यसमम्पुनः ।
 योर्वस्वल्पेनपुण्येनतीर्थं स्यफलमिच्छति ॥१०
 तस्यसर्वस्यवक्ष्यामिशृणुष्वेदं तपोधन ।
 सर्वतीर्थं फलाकाङ्क्षी शुचिःप्रयतमानसः ॥११
 अवगाहन्नतीयाति तीर्थानिचाष्टविंशतिः ।
 ऊर्जेमाधेतथापाठे वंशाखेचविशेषतः ॥१२
 यदाकवापुरीं प्राप्य कर्तव्यंतोर्थं मज्जनम् ।
 सवतीर्थं फलं प्राप्य शिवलोकेमहीयते ॥१३

प्रवन्ती मे जो अंगपात नाम वाले जनार्दन प्रभु का दर्शन किया करते हैं उनकी फिर करोड़ों कल्पों में भी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं हुआ करती है अर्थात् वे फिर जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैं । हे व्यास ! सभी नियत आत्मा वाले लोग इस वचन को कहा करते हैं । धाराह-मत्स्य और कन्द आदि तथा महामुक्ति लोमश यही कहते हैं । तो भी पुनः पुण्य सम तीर्थों की विधि का ध्वज कर लो । जो कोई स्वल्प पुण्य ही से तीर्थों के फल की इच्छा किया करता है उसका सभी कुछ मैं बताऊंगा । हे तपोधन ! इसे अब आप सुनिए । समस्त तीर्थों के फलों की आकांक्षा रखने वाला—शुचि (पवित्र) प्रयत मन वाला—अवगाहन के द्वारा से मुक्त झट्टाईन तीर्थों को जग्या करता है । प्राशिवन-माघ—घापाठ और विशेष रूप से वैशाख मास में जब कभी पुरी पहुंच कर तीर्थ का मज्जन करना चाहिए । वह सभी तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त करके शिव लोरु में महिमान्वित होकर प्रतिष्ठित हुआ करता है ॥८-१३॥

क्षिप्रातीरेहिवर्तन्तेपुरास्यातानिसूरिभिः ।
 पुण्यानितीर्थं मुख्यानितानिमेगदत्तशृणु ॥१४
 पापादितःशुचिभ्रुत्वा विष्णुविष्णुरितिस्मरन् ।
 आदाय नियमं सर्वं स्नातकानाञ्च सत्तमा ॥१५
 स्नात्वा रुद्रसरे नित्यं कृत्वा श्राद्धादिकं तथा ।
 यथाशक्ति परां वत्स! गां दत्त्वा चैव काञ्चनीम् ॥१६

तीर्थं राजनमस्तुभ्यं निजतीर्थविगाहने ।

अनुज्ञादिहिभेनित्यं करिष्यामितवार्चनम् ॥१७

ततः प्रयातितत्तीर्थं कर्कराजाभिधं सरः ।

तत्र स्नानादिकं कृत्वा घृतपात्रं प्रदापयेत् ॥१८

नृसिंहाख्यं परं तीर्थं तत्रस्नायाद्द्विजोत्तम ! ।

कृष्णाजिनं ततोदद्यात्प्रकार्यविशुद्धये ॥१९

मङ्गमो नीलगङ्गायाः क्षिप्रयाश्च वसन्तम् ।

तत्र स्नात्वाशुचिभूर्त्वाहृष्ट्वाचमङ्गमेश्वरम् ॥२०

वाहनञ्च ततो देयं द्विजातिभ्यः स्वलङ्कृतम् ।

भूपणानि च देयानि यानानि विधिनानि च ॥२१

श्री सनत्कुमार जी ने कहा—क्षिप्रा नदी के तट पर परम पुण्यमय तीर्थ मुख्य है जिनको कि पहले विद्वानो ने बतनाया है और परम प्रसिद्ध है उनको मैं बतलाता हूँ आप उन्हे सुनिए । पापो से जो छद्दिन है वह परम शुद्ध होकर "विष्णु-विष्णु" इस तरह से भगवान् का स्मरण करते हुए हे योष्ठम ! स्नातको के समस्त नियमो को प्रवृण करके निरथ ही घटसर मे स्नान करके तथा घाट आदि की क्रियाओ का सम्पादन करके हे वरस ! अपनी शक्ति के धनुषार काञ्चनी गौओ का दान करके यह तीर्थ से प्रार्थना करे—हे तीर्थराज ! आपकी सेवा मे मेरा नमस्कार समर्पित है । अपने इस तीर्थ मे श्रवणगहन करने के लिए मुझे अनुज्ञा प्रदान कीजिए । मैं निरथ ही आपका मनचैन करूंगा । यही प्रार्थना करने का यहाँ पर मन्त्र है । इस प्रार्थना करने के पश्चात् ही कर्कराज नाम वाले सर पर आये जो कि महान् तीर्थ है । वहाँ पर स्नान घाटि करके घृतपात्र प्रदान कराये । हे द्विजोत्तम ! एक नृसिंह नाम वाला तीर्थ है वहाँ पर स्नान करना चाहिए । इसके अनन्तर अपने कार्य की विशुद्धि के लिए कृष्णाजिनका दान करना चाहिए । हे मत्तम ! वहाँ पर नील गंगा और निज्रा का संगम है । उममे स्नान करके और शुचि होकर तथा गणेश्वर प्रभु का दर्शन करके इनके पश्चात् द्विजों से लिए वस्त्राणों से विनूयित

किया हुआ वाहन का दान करे और भूषण दे। तथा विविध प्रकार के मानों का दान करना चाहिए ॥१४-२१॥

ततः प्रायाद् व्रती सम्यक् तीर्थं पंशाक्यमोशनम् ।

तत्र स्नात्वा च विधिवदाह्निकादि च कारयेत् ॥२२

गांसवत्सां ततो दद्याद्वेदवेदाङ्गपारिणे ।

सीदस्कृदुम्यिने नित्यं द्विजाय मुनिसत्तम ॥२३

महादानानिसर्वाणि तत्रदेयानिसत्तम ।

पिशाचेशं ततो दृष्ट्वा सर्वपापं : प्रमुच्यते ॥२४

गन्धवतीथं गच्छेच्च नियमो व्रतकारकः ।

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा श्राद्धं कुर्यात्समाहितः ॥२५

पष्टिजल्पेश्वरं देवं पूजयेद्विधिवद्विज ।

ब्राह्मणेभ्यस्ततो दद्याद्गेहदानादिकं परम् ॥२६

दासीदासन्ततो देय सर्वकायार्पसिद्धये ।

धनवान् पुत्रवांल्लोके मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ॥२७

ततो गच्छेद्ब्रतीविप्रकेदारं तीर्थं मुत्तमम् ।

तत्रस्नात्वा महादानं ब्राह्मणेभ्यस्तमर्पयेत् । २८

इसके अनन्तर व्रत धारण करने वाले को पैदावाय मोक्षन तीर्थ में प्रच्छी तरह से जाना चाहिए । वहाँ पर विधि-विधान के सहित स्नान करके ब्राह्मिक पादि करे । इसके पश्चात् किसी वेदीं और वेदीं के पारगामी द्विज के लिए बरस से युक्त गौ का दान करना चाहिए । हे मुनिप्रोष्ठ ! दान सर्वदा ऐसे ही ब्राह्मण को देना चाहिए जो धनाभाव में अवसन्न और कुटुम्बी हो । हे सत्तम ! सभी महादान ऐसे ही द्विज को वहाँ पर देने चाहिए । इसके अनन्तर भगवान् पिशाचेश्वर के दर्शन करे जिससे मनुष्य सभी पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है । व्रत के करने वाले और नियमों में स्थिर मानव को इसके उपरान्त गन्धर्व तीर्थ को जाना चाहिए । वहाँ पर स्नान करके शुचि हो जावे और फिर समाहित होकर उसको श्राद्ध करना चाहिए । हे द्विज ! फिर पष्टि देवेश्वर देव की विधि के सहित अर्चा करे और फिर द्विजों को परम थोष्ट गृह और

दान आदिक देना चाहिए । सब कार्यों को अर्थ सिद्धि के लिए दासी और दास भी देवे । इससे श्लोक में धन सम्पन्न और पुत्रो वाला होता है और अन्त में मृत्युगत होकर मोक्ष की प्राप्ति किया करता है । इसके अनन्तर अती पुरुष को अत्युत्तम तीर्थ केदार को हे विप्र ! नमन करना चाहिए । वहाँ पर भी स्नान करे और ब्राह्मणों के लिए महादान देवे ॥२२-२८॥

शुभंगोमिथुनं दस्वा विधिवसात्रकारयेत् ।

कम्बलाजिनवासांसि तत्रदेयानिसत्साम ॥२९

सर्वपापविशुद्धात्मा शिवलोके महीयते ।

चक्रतीर्थं नरःस्नात्वा चक्राणिसमर्चयेत् ॥३०

शंखशस्त्रविमानानि तत्रदेयानि सत्साम ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ॥३१

सोमतीर्थं नरःस्नात्वा दृष्ट्वा सोमेश्वरं शिवम् ।

निर्मलाङ्गो नरो भाति कुष्ठरोगो न बाधते ॥३२

इक्षुधेन्वादिकं दानं तत्रदेयं द्विजायते ।

देवप्रयागं गच्छेच्च स्नानार्थं द्विजसत्साम ॥३३

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा देवं माधवमर्चयेत् ।

गुडधेनुः प्रदातव्या विधिदृष्टेन कर्मणा ॥३४

सर्वपापविशुद्धात्मा देवलोके महीयते ।

प्रयागे परम आस वेणीतीर्थं मनुत्तमम् ॥३५

हे सत्तम ! प्रति सुभग को कार्यों का जोडा दान करे जो कि पूर्ण शास्त्रोक्त विधान के माथ करना चाहिए वहाँ पर कम्बल—अजिन और वस्त्रो का भी दान देवे । ऐसा करने वाला पुरुष सभी पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर शिव लोक में समवस्थिति प्राप्त किया करता है । चक्र तीर्थ में मनुष्य स्नान करके उसे फिर भगवान् चक्रपाणि का अर्चन करना चाहिए । हे श्रेष्ठतम ! वहाँ पर शंख शस्त्र और विमानों का दान देना चाहिए । वह मनुष्य समस्त प्रकार के घोरतम पापों से भी छुटकारा पाकर विशुद्ध हो जाया करता है और अन्त में विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है । सोम तीर्थ में मनुष्य स्नान करके तथा सोमेश्वर भगवान् शिव

का दर्शन प्राप्त करके परम निर्मल भ्रंगो वाला मनुष्य हो जाया करता है और अत्यन्त दीप्ति से शोभित हो जाता है कि कुछ रोग उसको फिर बाधा नहीं देता है । ईक्ष, धेनु आदि का दान वहाँ पर द्विजाति को देना चाहिए । हे द्विजों मे परम वरिष्ठ ! और देव प्रयाग को गमन करे जहाँ पर पहुँचकर स्नान करना चाहिये । वहाँ स्नान करके परम सुधि हो जाये और फिर माघव देव का यजन करे । विधि में देखे हुए कर्म के अनुसार वहाँ पर गुड और धेनु का दान अवश्य ही करे । वह आदमी सभी पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर देवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है । हे व्यास ! प्रयाग में परमोत्तम वे तीर्थ हैं ॥२६-३५॥

तत्र स्नानञ्चकर्त्तव्यं तिलामलकसंयुतम् ।

प्रयागेशमथाभ्यर्च्य सकलफलमश्नुते ॥३६

तिलधेनुः प्रदातव्या विधिवद्विजपुङ्गवे ।

सर्वकामवरम्प्राप्य विष्णुलोके समीदते ॥३७

ततो गच्छेद् भ्रती भूयो योगतीर्थमनुत्तमम् ।

तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा योगिनीश्वरमर्चयेत् ॥३८

जलधेनुं ततो दद्याद्दीर्घामुश्च सुखीभवेत् ।

कपिलाश्रमं परं तीर्थं नरोगच्छेत्ततः परम् ॥३९

स्नानदानादिकं कृत्वा कपिलेश्वरमर्चयेत् ।

मुच्यते सर्वपापेभ्यस्तपोलोके स गच्छति ॥४०

घृतकुल्यापरं तीर्थं क्षिप्रकूले च पश्चिमे ।

तत्र स्नात्वानरोनित्यं घृतधारेश्वरं शिवम् ॥४१

पूजयेद्विधिवद्विप्रं घृतधेनुं ममर्चयेत् ।

प्राप्यपुण्यकृतान् लोकान् सर्वपार्थः प्रमुच्यते ॥४२

उस धेनु तीर्थ में तिल और अमलों के माघ स्नान करे । इसके पान्तर प्रयागेश्वर प्रभु का अभ्यषन करे । इगदा ऐसा महान प्रभाव होता है कि मनुष्य सभी प्रकार के कर्मों का नाश कर लिया करता है । वहाँ पर किंगी श्रेष्ठ द्विज को तिलों और धेनु का विधिपूर्वक दान देना चाहिए वह मनुष्य समस्त वागनाथों की शक्ति का वरदान प्राप्त करे

ग्रन्त में विष्णु लोक में सानन्द प्रतिष्ठित हुआ करता है। इसके पश्चात् उस तीर्थाटन के व्रतधारी पुरुष को अनीव उत्तम योगतीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पर अवगाहन करके पहिले परम विशुद्धि प्राप्त कर लेवे और फिर श्रीयोगिनीश्वर प्रभु का समर्चन करना चाहिये ॥३६-३८॥ वहाँ जल धेनु का दान करे। इससे दीर्घ आयु वाला और परम सुख से सम्पन्न हो जाता है। इसके पश्चात् परम श्रेष्ठ कपिलाश्रम नामक तीर्थ के लिए गमन करे वहाँ बहुचकर भी स्नान आदि समस्त प्रथम कर्तव्य सम्पादित करके फिर कविलेश्वर भगवान की अर्चना करे। वह मनुष्य सब पापों से छुड़कारा पा जाता करता है और फिर तपोलोक को गमन किया करता है। क्षिप्र नदी के पश्चिम दिग्भाग में तट पर एक घृतकुल्या नाम वाला परम श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ पर मनुष्य को निरय स्नान करके घृतचारेण्वर विष का विषाण के सहित पूजन करना चाहिए। है विप्र। वहाँ घृत धेनु का दान ब्राह्मण को समर्पित करना चाहिए। इस का यह पुण्य फल होता है कि पुण्य वृत्त लोको की गद प्राप्ति कर लेता है और इसके पूर्व ही सब पापों से विमुक्त हो जाता करता है ॥३९-४२॥

मधुकुल्यानराऽस्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम् ।

मधुदानं प्रकुर्वीत इधुधेनुं ततः परम् ॥४३

ऊपर परम तीर्थ सर्व तीर्थ फलप्रदम् ।

तत्र स्नात्वा नरः पश्येन्महेशमूपरेश्वरम् ॥४४

फलमूलादिकं देयं प्राप्यते मोक्ष उत्तमम् ।

नरादित्यः स्थितो यत्र तत्र तीर्थं परं स्मृतम् ॥४५

तत्र स्नात्वा नरः पश्येत् क्षेत्रादित्येश्वर परम् ।

रपदानं ततोदत्त्वा नरलोकेऽगच्छति ॥४६

केशवाकोपरोदेवस्तस्यतीर्थं परं स्मृतम् ।

तत्र स्नानं विधेयञ्च केशवार्कं समर्चनम् ॥४७

अन्नं बहुविधं देयं तत्र तीर्थं द्विजोत्तमम् ।

कालभैरव आरयातस्तत्रतीर्थं महाव्रती ॥४८

तत्रस्नात्वानरोनित्यं दृष्ट्वा भैरवमन्तकम् ।

दद्यात्पूर्णमहादानं नगच्छेद्यमशासनम् ॥४९

एक वहाँ पर मधुकुल्या नाम वाला भी तीर्थ है । वहाँ पर स्नान करके महेश्वर की पूजा करे—मधु का दान करे और इसके परचात् ईश और धेनु का दान दे । एक समस्त तीर्थों के फलों का देने वाला ऊपर नामक परमोत्तम तीर्थ है । वहाँ पर मनुष्य को स्नान करके ऊपरेश्वर महेश का दर्शन करना चाहिए । वहाँ फल और मूल-प्रभृति का दान देवे । इससे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति की जाया करती है । जहाँ पर नरादित्य स्थित हैं वहाँ पर परमोत्तम तीर्थ कहा गया है । वहाँ पर मनुष्य को स्नान करके परम प्रभु क्षेत्रादित्येश्वर का दर्शन करना चाहिये । फिर रथ का दान करे । वह नरलोक में गमन किया करता है । केशवाकं सर्वं शिरोमणि परम देव हैं अतएव उनका तीर्थ भी सर्वश्रेष्ठ है ऐसा कहा गया है । वहाँ स्नान और केशवाकं का अभ्यर्चन करना ही चाहिये । हे द्विजोत्तम ! अनेक प्रकार का धन वहाँ पर तीर्थ में दान में देना चाहिए । उस तीर्थ में महाव्रती काल भैरव कहे गये हैं । वहाँ पर भी मनुष्य का परम कर्तव्य है कि नित्य स्नान करे अन्त तक भैरव का दर्शन करे । वहाँ पूर्ण महादान भी देना चाहिये । इनका यह प्रभाव होता है कि मनुष्य फिर यमराज के शासन में कभी प्राप्त नहीं हुआ करता है ॥४३-४६॥

द्वादशार्कैति विख्यातं क्षिप्राकूले च दक्षिणे ।

तीर्थञ्च सर्वपापघ्नं सर्वकामवरप्रदम् ॥५०

तत्र स्नात्वाशुचिर्भूत्वा द्वादशार्कसमर्चयेत् ।

भजादानञ्चदेयंवेवासोऽलंकारसंयुतम् ॥५१

आरोग्यं सर्वदादेहे तस्यसम्पत्पदेपदे ।

तत्रापि ऋषयोदेवाः सन्ध्योपासनतत्पराः ॥५२

उपासाञ्चक्रिरेतस्य प्रातः कालेसदैवहि ।

तत्र तीर्थे नर स्नात्वाशुचिर्भूत्वासमाहितः ॥५३

एकानंशेति विख्याता भवानी पापनाशिनी ।

तमर्चयेद्द्विजश्रेष्ठदशाश्रमेधपंशिवम् ॥५४

तत्र देयं महादानं श्वेताश्वं समलङ्कृतम् ।

विप्रायवेदविदुषे विधिवद्विपित्तम ! ॥५५

सर्वपापविशुद्धात्मा स्वर्गलोके महीयते ।

योऽप्तावङ्गारको देवो विख्यातो वै धरात्मजः ॥५६

सिन्धु नदी के दक्षिण दिग्भाग में तट पर एक द्वादशार्क तीर्थ परम विख्यात तीर्थ है । यह तीर्थ सभी पापों का हनन करने वाला और सभी कामनाओं के वरों का प्रदान करने वाला कहा गया है ॥५०॥ वहाँ पर अवगाहन करके परम पवित्र होकर द्वादशार्क प्रभु का समर्चन करना चाहिये । वहाँ वस्त्र और अलंकारों से समन्वित भजा (बकरो) का दान देना चाहिये । उस दानी तीर्थ व्रती पुरुष के देह में सर्वदा आरोम्य रहता है और उनके कदम-कदम पर सम्पत्ति विलाम किया करती है । वहाँ पर देवगण और ऋषि वृन्द सन्ध्योपासना में तत्पर रहा करते हैं । प्रातः काल को वेला में वे सभी सर्वदा उनकी उपासना किया करते हैं । वहाँ पर उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके शुचि होकर समाहित हो जाया करता है । वहाँ पर एकानंशा—इस नाम से विख्यात पापों के नाश करने वाली भवानी विराजमान है । हे द्विष्येष्ट ! वहाँ उस देवी का अभ्यर्चन करे और दशाश्वमेवम शिव का यजन भी करना चाहिए । वहाँ पर महादान देना चाहिए । एक इवेत वर्ण का प्रश्न जो भूषणों से भली भाँति अलंकृत हो इसका दान हे ऋषि श्रेष्ठ ! देवों के विद्वान् विप्र का देना चाहिए और विद्या के साथ ही दान करे । वह मनुष्य सभी प्रकार के ऐहिक तथा पूर्व जन्मों के किये हुए पापों से मुक्त होकर परम विशुद्ध आत्मा वाला हो जाया करता है और अन्त में स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है । यहाँ पर एक धरात्मज अद्भुत देव परम विख्यात है ॥५१-५६॥

तस्य तीर्थं परं व्यास सर्वतीर्थफलप्रदम् ।

तत्र तीर्थेनरः स्नात्वा मङ्गलेश्वरमर्चयेत् ॥५७

गुडान्नं घृतभक्तं रक्तं सवासः समलङ्कृतम् ।

स्वर्लोकत्रैभ्यो विप्रैर्म्यो यो ददाति समाहितः ॥५८

तस्यहस्तगतालक्ष्मीः पुत्र दारादिसम्पदः ।
 खगङ्गासङ्गमंतीर्थं गङ्गोद्भेदसमन्वितम् । ५९
 तत्र तीर्थं नरः स्नात्वा दृष्ट्वागङ्गेश्वरं शिवम् ।
 मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकेमहीयते ॥६०
 तिलपात्रं प्रदातव्यं विधिवत्काञ्चनान्वितम् ।
 सर्वं सौख्यकरं दानं सर्वपापहरं परम् ॥६१
 ऋणमोचनकं तीर्थं सर्वपापहरं स्मृतम् ।
 तत्र तीर्थं नरः स्नात्वा ऋणतेश्वरमर्चयेत् ॥६२
 घृतश्राद्धं प्रकुर्वीत दत्त्वास्वर्णञ्च शक्तितः ।
 ऋणनयविनिमुक्तः स्वर्गलोके महीयते ॥६३

हे व्यासदेव ! उनका तीर्थ सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है और अन्य सभी तीर्थों का जो कुछ भी पुण्य फल होता है उन सबका यह एक ही तीर्थ प्रदान कर देने वाला है । उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके उसे मगलेश्वर का प्रार्थन करना चाहिये । जो मनुष्य यहाँ पर गुड के सहित अन्न-वस्त्रों से परावृत्त रक्त घृषण जो कि भूषणों से भली भाँति विभूषित हो उसका परम समाहित होकर स्वलकृत विप्रों को दान देना चाहिये । इसका यह प्रभाव होता है कि लक्ष्मी तो बिल्कुल उसके हाथ में ही रहा करती है और पुत्र, दारा आदि की सम्पत्तियाँ भी सब प्राप्त हो जाया करती हैं । वही पर गंगा के उद्भेद से सयुत एक छ (आकार) गङ्गा का सगम तीर्थ है । उस तीर्थ में मनुष्य स्नान करके मगेश्वर भगवान् शिव का दर्शन प्राप्त करके ममस्त पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है और अन्त में विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है । वहाँ पर एक तिलो का भरा घृतपात्र जो कि सुवर्ण से भी युक्त हो दान में देना चाहिये । यह दान सभी प्रकार के सौख्यों का करने वाला है और सम्पूर्ण पापों का भी हरण करने में परम श्रेष्ठ है । एक ऋणमोचनक नाम वाला उत्तम तीर्थ है जो कि ममस्त पापों के नाश करने वाला कहा गया है । उस तीर्थ में अवगहन करके मनुष्य को ऋणेश्वर देव का यजन प्रवश्य ही करना चाहिये ।

वहाँ पर घृत ध्याद्ध करे और अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण का दान करे । ऐसा करने वाला मनुष्य तीनों ऋणों से विमुक्त हो जाता है तथा स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है ॥५७-६३॥

ततो गच्छेन्नरो नित्यं शक्ति भेदमकल्मषम् ।

तीर्थनाञ्चैव सर्वेषामुत्तमं पापनाशनम् ॥६४

तत्र स्नात्वानरोव्यास शुचिः प्रयतमानसः ।

मातृशोणाञ्च सर्वेषां दर्शनं कारयेद्बुधः ॥६५

कीमारीकात्तिकीमाता चर्पटावटमातरः ।

तथा भगवती देवी स्कन्दञ्चैव समर्चयेत् ॥६६

तत्र श्रद्धानि देयानि विधिवद् द्विजसत्तम ! ।

दद्याद् शय्यादिकं दानं कांस्यधेनुं तथेतरद् ॥६७

मातुर्ऋणं समुत्तये सायुज्यं लभतेनरः ।

यत्तत्तीर्थं वरं श्रेष्ठं पापमोचनसञ्ज्ञकम् ॥६८

तत्र स्नात्वनरं देयं छायादानञ्च सत्तम ।

सर्वपापविणुद्धात्मा जायते भ्रुवि मानवः ॥६९

ततः परं परं व्यास तीर्थं त्रैलोक्य विश्रुतम् ।

प्रैतशिलेतिविख्यातं प्रैतमोक्षकरम्परम् ॥७०

इन सब तीर्थों की यात्रा समाप्त करके फिर मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह नित्य ही कल्मषों से रहित शक्तिभेद नामक तीर्थ को गमन करे । यह भी प्राग्य समस्त तीर्थों से उत्तम और पापों का विनाश करने वाला तीर्थ है । हे व्यास ! उसमें मनुष्य स्नान करके परम शुचि एवं प्रयत मन वाला होकर बुध को एवं मातृको का दर्शन करना चाहिये । वहाँ पर कीमारी कात्तिकी माता हैं और चर्पटावट माताएँ हैं । उसी भाँति भगवती देवी और भगवान् स्कन्द का अभ्यर्चन करे । हे द्विज सत्तम ! वहाँ पर विधिपूर्वक ध्याद्ध भी देने चाहिए । शय्या आदि कांस्यधेनु तथा इतर दान देकर मनुष्य माता के ऋण से उऋण होकर सामुज्य की प्राप्ति किया करता है । एक परम श्रेष्ठ तीर्थों में वरिष्ठ पापमोचन सज्ञा (नाम) वाला तीर्थ है । हे सत्तम ! वहाँ पर मनुष्यों को स्नान करके छाया दान देना

चाहिये । वह मनुष्य फिर भूमि में सब पापों से विमुक्त आत्मा बाला होकर स्थित रहा करता है । हे व्यास । इसके पश्चात् सबसे परमोत्तम एवं श्रेष्ठ एक तीर्थ है जो त्रिलोकी में परम प्रसिद्ध है और यह 'प्रेतशिला'— इस नाम से ही विख्यात है । यह तीर्थ प्रेतों की मुक्ति करने के लिये ही परमोत्तम है ॥६४-७०॥

तत्र स्नात्वानरोदद्याच्छ्राद्ध द्विजसमाहित ।
 तिलोदकप्रदानेन पितरोयान्तिसद्गतिम् ॥७१
 घटदान ततोदेय क्षत्रोपानत्समन्वितम् ।
 महिषीञ्चततोदद्याद्वासासि विविधानिच ॥७२
 अन्नदान ततोदेय रसेनलवणान्वितम् ।
 यमेश्वर समभ्यर्च्य निरयेनाधिगच्छति ॥७३
 पितरस्तस्य सन्तुष्टा यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।
 पितृदोषा न बाधन्ते तेषाञ्च द्विजसत्तम । ॥७४
 तीर्थानामुत्तम तीर्थं भुविर्लोकप्रवन्दितम् ।
 नवनदीसङ्गमोयत्र तत्र तिष्ठति पार्वती ॥७५
 तत्र स्नात्वा नरो नित्य शुचिभूत्वा समाहित ।
 पूजयेद्भगवती भद्रा पार्वती विधिवत्ततः ॥७६
 महाबानानिकुर्याच्च हस्तिपान्नधरान्तिलान् ।
 सुरभीदुग्धमहिता दद्यान्द्विजवरायच ॥७७

इस प्रेत शिला नामक तीर्थ में स्नान करके हे द्विज । मनुष्य को परम समाहित होकर श्राद्ध देना चाहिए । यहाँ पर तिलोदक के प्रदान करने से पितृगण सद्गति को प्राप्त हो जाया करते हैं, घट का दान—क्षत्र उपानह—महिषी और विविध भाँति के वस्त्रों का दान करना चाहिए । इसके अनन्तर अन्न का दान रस और लवण से समन्वित करके देना चाहिए । फिर यमेश्वर देव का अभ्यर्चन करके मनुष्य नरक से अग्निमन किया करता है । उस अर्चना करने वाले के पितर भी परम सन्तुष्ट होकर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लिया करते हैं । हे द्विज श्रेष्ठ । उनको पितृ दोष कुछ भी बाधाएँ नहीं किया करते हैं । सम्पूर्ण तीर्थों में उत्तम एक

तीर्थ है जो इस भू मण्डल में विद्यमान है और त्रिलोकी के द्वारा बन्दित है । जहाँ पर नव नदियों का सङ्गम होता है वहाँ पर जगदम्बा पार्वती स्वयं विराजमान रहा करती हैं । उस तीर्थ में मनुष्य नित्य स्नान करके परम शुचि होकर समाहित होते हुए भगवती भद्रा पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए । वहाँ पर महादान करे—हाथी—अन्न—धरा—तिल सुरभी जो दुग्ध सहित हो—इनका दान किसी परम श्रेष्ठ को देना चाहिए ॥७१-७७॥

सर्वपापविशुद्धात्मा साक्षाच्छम्भुर्भवेन्नरः ।

मन्दाकिनीतोगच्छेदारमकार्यं विशुद्धये ॥७८॥

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा पूजयेद्यः सदाशिवम् ।

दत्त्वा शकटमन्नाद्यं तिलद्रोणं प्रदापयेत् ॥७९॥

सर्वपापविशुद्धात्मा घनाधिपसमो भवेत् ।

ततोगच्छेद्भ्रती विप्र तीर्थं पैतामहंपरम् ॥८०॥

तत्र स्नात्वा शुचिभूत्वा विधिवत्स्नानमाचरेत् ।

दत्त्वा दानानि सर्वाणि श्रीणि तत्र विशेषतः ॥८१॥

यथाशक्तिप्रदेयानि पृथ्वीगावःसुवर्णकम् ।

विप्राश्च भोजयेन्नित्यं विधिवद्भूरिदक्षिणः ॥८२॥

ततस्तु पुनरागम्य रुद्रसरमनुत्तमम् ।

तस्मिन् स्नात्वा च नत्वा च दृष्ट्वा देवं महेश्वरम् ॥८३॥

पूजयित्वा प्रयान्यायं यात्रेश्वरमनुत्तमम् ।

तुलसीविल्वपत्रैश्च पुष्पैर्विधिघवासकैः ॥८४॥

इस तीर्थ में जाने वाला मनुष्य सब पापों से विशुद्ध आत्मा वाला होकर वह साक्षात् शम्भु ही हो जाता करता है । इसके उपरान्त मनुष्य को भ्रमने कार्यों की विशुद्धि के लिये मन्दाकिनी पर जाना चाहिए । वहाँ जाकर स्नान करे—पवित्र हो जावे और फिर जो सदा शिव का पूजन किया करता है तथा शकर—अन्न आदि का एवं तिलो का द्रोण दान करता है वह सभी पापों से रहित एवं विशुद्धात्मा होकर घनाधिप (कुवेर)

के मुख्य ही हो जाया करता है । इनके उपरान्त तीर्थ वती पुरण को हे विप्र । परमोत्तम पैतामह तीर्थ पर गमन करना चाहिए । वहाँ स्नान कर स्नान होकर घर्षात् विधान के साथ ही स्नान का समाचरण करना चाहिए । वहाँ पर भी समी प्रकार के दान देने विन्तु इनमें विशेष रूप से तीन ही दान होते हैं और वे ये हैं—अपनी शक्ति वितनी हो उसी के अनुगार भूमि—गो और शुक्ल का दान करे । निरम हो विप्रों को भोजन कराये और उन विप्रों को विपुल दक्षिणा देनी चाहिए । इसके अनन्तर वहाँ से आकर पुनः सर्वोत्तम रत्नर में स्नान करे—उसको नमस्कार करे तथा गहेश्वर देव का दर्शन करे । यथा विधि परमोत्तम यात्रा के ईश्वर देव का पूजन करे । देवेश्वर का पूजन विविध प्रकार के परम सुगन्धित पुष्पों से—तुलसी दलों से और विह्य पत्रों से अभ्यर्चन करे ॥७८-८४॥

धूपदीपादिर्नवेद्यं मुं सवा सोत्तरच्छदः ।

पूजयित्वा महादेवं यात्रेश्वरमुमापतिम् ॥८५॥

प्रार्थयेद् देवदेवेशं व्रतसम्पूर्णहेतवे ।

यात्रेश्वर ! नमस्तुभ्यमुमानायजगत्पते ! ॥८६॥

त्वत्प्रसादात्कृतां यात्रां सफलां कुरु मे प्रभो ! ॥८७॥

एवं यः कुरुते यात्रामवन्त्याश्रद्धिजोत्तम ।

अवन्तीवासजं पुण्यं प्राप्यते नात्र सशयः ॥८८॥

भुक्त्वा च विपुलान्भोगान् धनदारादिसम्पदम् ।

सर्वपापविशुद्धात्मा मृतः शिवपुरं व्रजेत् ॥८९॥

ये शृण्वन्ति कथां पुण्यां पवित्रां पापहारिणीम् ।

न तेषां दुर्लभं किञ्चिदिह लोके परत्र च ॥९०॥

माहात्म्यमेतच्छिवभक्तिवद्धनं यशस्करं पुण्यविवर्धनञ्च ।

यः प्रावयेद्वा शृणुयाच्च भक्त्या कुलसमुद्घृत्य हरेः पदं व्रजेत् ॥९१॥

यात्रा के ईश्वर उमादेवी के स्वामी महादेव का यजन धूप—दीप—

नैवेद्य—मुलवास और उत्तर छूद के द्वारा भली भाँति करना चाहिए ।

पूजन के पश्चात् अपने व्रत को साङ्ग समाप्ति के लिये देव देवेश की

प्रार्थना करनी चाहिए । हे उमा के नाथ ! हे इस सम्पूर्ण जगत् के

स्वामिन् ! आप तो यात्रा के अधिपति हैं आपकी पवित्र सेवा में मेरा नमस्कार समर्पित होवे । हे प्रभो मेरे द्वारा यह आपकी ही कृपा के प्रसाद से तीर्थों की यात्रा की गयी है अब मेरे इस यात्रा को आप सफल कर दीं जोजिए ॥८५-८७॥ श्रीसनत्कुमारजी ने कहा—हे द्विजोत्तम ! इस रीति से जो भी कोई इस भवन्ती की यात्रा करता है वह भवन्ती पुरी में निवास से समुत्पन्न पुण्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया करता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है । वह बहुत—से भोगों को भोग करके तथा धन—द्वारा आदि की प्राप्ति करके समस्त प्रकार के पापों का नाशकर विदुद्ध आत्मा वाला होकर अन्त में मृत्यु होने पर सीधा शिवपुर को ही गमन किया करता है । जो इस परम पवित्र-पुण्यमयी-पापों के हरण करने वाली कृपा का ध्वण किया करते हैं उनको इस लोक में और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है । यह महा माहात्म्य शिव की भक्ति को बढ़ाने वाला है—पशु की बुद्धि करने वाला है तथा पुण्य का भी वर्धन करने वाला है । जो इसका स्वयं भक्ति की भावना से ध्वण किया करता है अथवा दूसरों को ध्वण कराया करता है वह अपने कुल का भली भाँति उदार करके स्वयं श्रीहरि के पद की प्राप्ति किया करना है ॥८८-९०॥

७६—गणेश्वरमाहात्म्यवर्णन

दाक्षत्वारिक्षत देवं गङ्गेश्वरमथो शृणु ।
 यस्य दर्शनमात्रेणमर्वतीर्थ फल लभेत् ।
 ध्रुवाधार जगद्योनेः पद नारायणस्य ॥१॥
 पदात्प्रवृत्ता या देवी गङ्गा त्रिपयगा नदी ।
 सा प्रविश्य सुषायोनिं सोममाधारमभसाम् ॥२॥
 ततः सम्बद्धं मानाकरंश्मिसङ्गनिपावनी ।
 पपात मेरुपृष्ठे च सा चतुर्धा ततो ययौ ॥३॥
 मेरुपृष्ठतटान्तेभ्यो निपतन्ती यदास्त्वनी ।
 विकीर्यमाणसलिला निशालम्बा पपन सा ॥४॥

मन्दरादिवृ शैलेषु प्रविभक्तोदकासमम् ।
 तत्र सीतेतिविख्याता ययौ चैत्ररथम्बनम् ॥५
 तत्प्लावयित्वा च ययावरुणोद सरिद्वरा ॥६
 तथं बालकनन्दाख्या दक्षिणे गन्धमादने ।
 मेरुपादवनं गत्वा नन्दने देवनन्दने ॥७

श्रीहर ने कहा—इसके अनन्तर अब प्राय व्यालीसवें अध्याय में गणेश्वर देव के विषय में श्रवण करिए जिस के दर्शन मात्र से ही सब तीर्थों का फल मनुष्य प्राप्त कर लिया करता है । इस सम्पूर्ण जगत् की योनि अर्थात् समुत्पत्ति स्थल भगवान् नारायण का पद (वरुण) ही इसका ध्रुव (निश्चित) आधार है । जो देवी भगवान् के पद से प्रवृत्त हुई गङ्गा त्रिपथगा (तीन मार्गों में बयन करने वाली) नदी है । उस गङ्गा ने जलों के आधार और सुधा का उत्पत्ति स्थान सीम में प्रवेश किया । इसके पश्चान् सूर्य की किरणों की सद्गति से पावन हो जाने वाली वह सम्बद्ध मान होती हुई मेरु पर्वत के पृष्ठ भाग में गिरी थी । वहाँ से वह चार मार्गों में होकर गयी । वह यशस्विनी मेरु पर्वत के कूट तटान्ती से गिरती हुई फँसे हुए जल वाली बिना अबलम्ब वाली गिरी । मन्दर प्राय पर्वतों में प्रविभक्त होती हुई अर्थात् विभक्त जलों वाली होकर वहाँ पर 'सीता'—इस नाम से विख्यात हुई और वह चैत्ररथ वन में गयी । उस वन को प्लावित करके यह सरिताधो में परम श्रेष्ठ नदी प्रह्लाद को गमन कर गयी । दक्षिण गन्ध मादन पर्वत में यह शलकनन्दा नाम वाली हो गई । मेरुपाद के वन में जाकर फिर यह देवों का आनन्द देने वाले नन्दन वन में चली गयी थी ॥१-७॥

मानसञ्च महावेगात्प्लावयित्वासरोवरम् ।
 तस्मान्चक्षुर्शलराजानं रम्यत्रिशिखरं गता ॥८
 तस्मान्च पर्वताः सर्वे प्लावितास्तत्क्षणात्प्रिये ! ।
 तान्प्लावयित्वा सम्प्राप्ता हिमवन्तं महागिरिम् ॥९
 मया धृता च तत्रैव जटाजूटेन पार्वति ! ।
 न मुक्ता ष यदा गंगा तदा क्रुद्धा ममोपरि ॥१०

गात्राणि प्लावयामास मदीयानि वरानने ।
 मया च रुद्धाक्रोधेन जटामध्येयदास्विनि ॥११
 तत्रैव सा तपश्चक्रे बहुकल्पशतानि च ।
 भगीरथेनोपवासैः स्तुत्याचाराघितोह्यहम् ॥१२
 तदामुक्ता मया देविगङ्गात्रिपथागामिनी ।
 महाकालमनुप्राप्ता प्लावयित्त्वोत्तरान्कुरुन् ॥१३
 समुद्रमहिषी जाता प्राणेष्योऽपि गरीयसी ।
 सवीनामुत्तमागगा समुद्रेण कृतातदा ।
 स तथा सहितो रेभे समुद्रः सरिताम्पतिः ॥१४

इसके अनन्तर यह अपने महान् वैश से मान सरोवर की एक दम प्लावित करके उस स्थान से परम रम्य तीन बिलखरी वाले शैलराज पर पहुँच गयी । हे प्रिये ! वहाँ से हमने क्षण मात्र में ही समस्त पर्वतों को प्लावित कर दिया । उन सब पर्वतों को सम्प्लावित करके महान् पर्वत हिमवान् में यह प्राप्त हो गई । हे पार्वति ! वही पर मैंने अपनी जटाजूट के द्वारा इसको धारण किया था । जब मैंने इसको अपनी जटाओं से नहीं छोड़ा था तो यह मेरे ऊपर बहुत ही क्रुद्ध हो गई । हे वरानने ! इसने मेरे समस्त ऋद्धों को प्लावित कर दिया । हे मशस्विनि ! मैंने भी क्रोध से अपनी जटाओं के मध्य में इसको अवन्द्य कर लिया । वही पर इसने बहुत से सैकड़ों कल्पों तक तपस्या की थी । इवर राजा भगीरथ ने उपवासों के द्वारा और स्तवन से मेरी परम उत्कृष्ट आराधना की थी । उस समय में हे देवि ! इस त्रिपथ गामिनी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था । वहाँ से मुक्त होकर यह महाकाल में प्राप्त हुई और इसने उत्तर कुश्यों को प्लावित कर दिया । प्राणों से भी अधिक प्रिया यह समुद्र की महिषी हो गई । उसी समय में समुद्र ने नदियों में गङ्गा को सर्वोत्तम बना दिया । सरिताओं के स्वामी समुद्र इस गंगा के साथ रमण करता था ॥८-१४॥

ततः कदाचिद्ब्रह्माणमुपामाञ्चक्रिरे सुरा ।
 तथार्णवोजगामाय ब्रह्मलोकं सनातनम् ।

गंगया सहितो देवि ! दर्शनार्थं महोत्सवे ॥१५
 अथ गंगा सरिच्छ्रेष्ठा समुपायात्पितामहम् ।
 तस्यावासः समुद्रघूर्तं मारुतेन शशिप्रभम् ॥१६
 ततोऽभवन्सुरगणाः सहसाज्वाङ्मुखास्तदा ।
 महाभिपस्तु राजर्षिनिःशङ्को हृष्टवान्नदीम् ॥१७
 तस्य भावं विदित्वाज्य ब्रह्मणा स तिरस्कृतः ।
 उक्तस्तु जातो मर्त्येषु पुनर्लोकानवाप्स्यसि ॥१८
 गंगाशप्तायक्रुद्धेन समुद्रेणयशस्विनि ।
 मां विहायान्यसक्तासितस्माद्यास्पमिभानुपम् ॥१९
 लोकमल्लायुपदीना तत्रदुःखमवाप्स्यसि ।
 तं शापं दारुणं श्रुत्वा गंगावचनमब्रवीत् ॥२०
 विनापराधाच्छप्तार्हं कस्माद्देवसंसदि ।
 पतिव्रता पतिप्राणा पतिना परमार्थतः ॥२१

इसके धनन्तर किसी समय में सुरगणों ने ब्रह्माजी की उपमत्ता की थी । उसी अवसर पर समुद्र उस सनातन ब्रह्मलोक में गया । हे देवि ! इस समुद्र के साथ मे यह गंगा भी थी और उस महोत्सव में दर्शन के लिये गंगा को साथ में लेकर वहाँ पहुँच गया । इसके धनन्तर वह सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा पितामह के समीप में पहुँच गयी । मारुत ने उसका वास(वस्त्र)शशि प्रभु की ओर भ्रमुद्धूत (उठाकर फेंक) कर दिया । तब ही सभी सुरगण सहसा नीचे की ओर मुक्त करने वाले हो गये । राजर्षि महाभिप ने निःशङ्क होकर नदी का देखा । उसके भाव को जानकर ब्रह्माजी ने उसका तिरस्कार कर दिया और उस को कहा गया कि मनुष्यों में समुत्पन्न होकर फिर लोकों को प्राप्त करेगा । हे यशस्विनि ! इधर परम क्रुद्ध होकर समुद्र ने गंगा को शाप दे दिया था कि तू मुझ को छोड़कर अन्य में समासक्त हो गई है इस लिये मनुष्य लोक को प्राप्त हो जायगी जो कि अल्प आयु वाला है । वहाँ पर दीन होकर अत्यन्त दुःख को प्राप्त करेगी । उस परम दारुण शाप को मुनकर गंगा यह वचन बोली । बिना ही अपराध के इस देवी की उभा में क्यों मुझे शाप दिया

गया है । मैं तो पतिव्रता और पति की ही प्राण समझने वाली महिला हूँ और परमात्म से पति के ही साथ रहने वाली हूँ ॥१५-२१॥

प्रमादाद्ब्रह्ममुद्घृतं वायुना व्यापकेतु न ।

प्रत्युवाच ततो ब्रह्मा तां नदीलोकपावनीम् ॥२२

बसूना कारणाहं वि ! शप्ता यस्मान्महाशदि ! ।

भाव्यर्थं तोयनिधिना तस्माच्छीघ्रं ब्रजाधुना ॥२३

महाकाल वने रम्ये सिद्धगन्धवंसेविते ।

शिप्राया दक्षिणे भागे विद्यते लिंगमुत्तमम् ॥२४

सर्वसिद्धिकरं पुण्य सर्वपातकनाशनम् ।

तमाराधय यत्नेन स ते दास्यति वाञ्छितम् ॥२५

पितामहवचः श्रुत्वा तुष्टा त्रिपथगामिनी ।

गमनं तत्र मेऽभीष्टं विद्यते यत्सखी मम ।

शिप्राऽपि मे प्रिया पुण्या महापातकनाशिनी ॥२६

इति सञ्चिन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीतदा ।

आजगाममहाकाले ह्यपश्यत्लिंगमुत्तमम् ॥२७

पूजयामास पयसा दिव्येन विधिनातदा ।

दृष्ट्वा शिप्रानखी तत्र सश्लेषचाभ्रतयोः ॥२८

इस व्यापक रहने वाले वायु ने प्रमाद से मेरे वस्त्र की अद्भूत कर दिया अर्थात् उठाकर उम ओर में कर दिया । इसके पदवात् उम नीचे पावनी नदी से बहा—हे देवि । हे महा नदि ! कारण यह है कि बसुगण के कारण से तुझे यह शाप दिया गया है और आगे होने वाले अर्थ में ही तोयनिधि ने ऐसा किया है अतएव अब तुम बहुत ही शीघ्र सिद्ध और गन्तव्यों के द्वारा सेवित परम रम्य महापात वन में जाकर पहुँच जाओ । वहाँ पर शिप्रा नदी के दक्षिण भाग में एक उत्तम निखत्री का लिंग विद्यमान है । यह मनसत सिद्धियों के करने वाला और सभी पात्रियों के विनाश करने वाला है । तुम वहाँ जाकर उमो निग की ममा-राधना यत्न पूर्वक करो । वह आपकी तुम्हारा वाञ्छित मनोरथ पूरा कर देगा । पितामह के इस वचन का ध्यान करने त्रिपथ गामिनी गया परम

गंगया सहितो देवि ! दर्शनाथं महोत्सवे ॥१५
 अथ गंगा सरिच्छ्रेष्ठा समुपायात्पितामहम् ।
 तस्यावासः समुद्घूतं मास्तेन शशिप्रभम् ॥१६
 ततोऽभवन्मुरगणाः सहसाऽवाङ्मुखास्तदा ।
 महाभिपस्तु राजर्षिनिःशङ्को वृष्टवान्मदीम् ॥१७
 तस्य भावं विदित्वाऽथ ब्रह्मणा स तिरस्कृतः ।
 उक्तस्तु जातो मर्त्येषु पुनर्लोकानवाप्स्यसि ॥१८
 गंगाशप्तायक्रुद्धेन समुद्रेणयशस्विनि ।
 मा विहायान्यसक्तासितस्माद्यास्यसिमानुपम् ॥१९
 लोकमल्शायुपदीना तत्रदुःखमवाप्स्यसि ।
 तं शापं दारुणं श्रुत्वा गंगावचनमब्रवीत् ॥२०
 विनापराधाच्छप्ताहं कस्माहं देवसंसदि ।
 पतिव्रता पतिप्राणा पतिना परमार्थतः ॥२१

इसके धनन्तर किसी समय में सुरगणों ने ब्रह्माजी की उपासना की थी । उसी धनन्तर पर समुद्र उस सनातन ब्रह्मलोक में गया । हे देवि ! इस समुद्र के साथ मैं यह गंगा भी थी और उस महोत्सव में दर्शन के लिये गंगा को साथ में लेकर वहाँ पहुँच गया । इसके धनन्तर वह सरिताम्रों में श्रेष्ठ गंगा पितामह के समीप में पहुँच गयी । मास्ते ने उसका धास (वस्त्र) शशि प्रभु की ओर भुद्घूत (उड़ाकर फेंक) कर दिया । तब तो सभी मुरगण सहसा नीचे की ओर मुख करने वाले हो गये । राजर्षि ब्रह्माभिप ने निःशङ्क होकर नदी का देखा । उसके भाव को जानकर ब्रह्माजी ने उसका तिरस्कार कर दिया और उस को कहा गया कि मनुष्यों में समुत्पन्न होकर फिर लोको को प्राप्त करेगा । हे यशस्विनि ! इधर परम क्रुद्ध होकर समुद्र ने गंगा को शाप दे दिया था कि तू मुझ को छोड़कर अन्य में समासक्त हो गई है इस लिये मनुष्य लोक को प्राप्त हो जायगी जो कि भूत आद्य वाला है । वहाँ पर दीन होकर अत्यन्त दुःख को प्राप्त करेगी । उस परम दारुण शाप को सुनकर गंगा यह वचन बोली । बिना ही अपराध के इस देवी की समा में क्यों मुझे शाप दिया

गया है । मैं तो पतिव्रता और पति को ही प्राण समझने वाली महिला हूँ और परमार्थ से पति के ही साथ रहने वाली हूँ ॥१५-२१॥

प्रमादाद्वस्त्रमुद्धृतं वायुना व्यापकेतु न ।

प्रत्युवाच ततो ब्रह्मा तां नदीलोकपावनीम् ॥२२

वसूनां कारणाद्देवि ! शप्ता यस्मान्महानदि ! ।

भाव्यर्थं तोयनिधिना तस्माच्छीघ्रं ब्रजाधुना ॥२३

महाकाल वने रम्ये सिद्धगन्धर्वसेविते ।

शिप्राया दक्षिणे भागे विद्यते लिगमुत्तमम् ॥२४

सर्वसिद्धिकरं पुण्य सर्वपातकनाशनम् ।

तमाराधय यत्नेन स ते दास्यति वाञ्छितम् ॥२५

पितामहवचः श्रुत्वा तुष्टा त्रिपथगामिनी ।

गमनं तत्र मेऽभीष्टं विद्यते यत्सखी मम ।

शिप्राऽपि मे प्रिया पुण्यां महापातकनाशिनी ॥२६

इति सञ्चिन्त्य मनसा दिव्यादेवनदीतदा ।

आजगाममहाकाले ह्यपश्यास्तिगमुत्तमम् ॥२७

पूजयामास पयसा दिव्येन विधिनातदा ।

दृष्ट्वा शिप्रां तन्वी तत्र संश्लेषं चाभवत्तयोः ॥२८

इस व्यापक रहने वाले वायु ने प्रमाद से मेरे वस्त्र को अद्धृत कर दिया अर्थात् उठाकर उम और मे कर दिया । इसके पश्चात् उस लोक पावनी नदी से ब्रह्मा—हे देवि ! हे महा नदि ! कारण यह है कि वसुगण के कारण से तुम्हें यह शपथ दिया गया है और भाग्य होने वाले अर्थ में ही तोयनिधि ने ऐसा किया है अतएव अब तुम बहुत ही शीघ्र सिद्ध और गन्धर्वों के द्वारा सेवित परम रम्य महाकाल वन में जाकर पहुँच जाओ । वहाँ पर शिप्रा नदी के दक्षिण भाग में एक उत्तम शिवजी का लिग विद्यमान है । वह समस्त गिद्धियों के करने वाला और सभी पातकों के विनाश करने वाला है । तुम वहाँ जाकर उमी लिग को समाराधना यत्न पूर्वक करो । वह आपकी तुम्हारा वाञ्छित मनोरथ पूरा कर देगा । पितामह ने इस वचन वा श्रवण करके त्रिपथ गामिनी गंगा परम

सन्तुष्ट हो गई। वहाँ का गमन करना तो मुझे परम अभीष्ट है क्योंकि वहाँ पर मेरी सखी विद्यमान है। शिप्रा भी मेरी बहुत प्यारी है और परम पुण्यमयी तथा महान् पातकों के नाश करने वाली है। उस समय मैं उस दिव्य देव नदी ने अपने मन से इस प्रकार से चिन्तन करके वह महाकाल में आगई थी और वहाँ पर उत्तम लिंग का दर्शन किया। उस समय मैं उसने विधि पूर्वक परम दिव्य पय से उनका पूजन किया। वहाँ पर अपनी सखी शिप्रा को देखा और उन दोनों का वहाँ पर संश्लेष हुआ अर्थात् सम्मिलन हो गया था ॥२२-२५॥

ततः प्रभृतिसञ्जाता साशिप्रापूर्ववाहिनी ।

त्रिपुलोकेषुविख्यातोदेवो गगेश्वरः स्वयम् ।

गंगयाऽऽराधितो यस्मात्समीहितफलप्रदः ॥२९

सस्तुता देवगन्धर्वगङ्गा देवनदी तदा ।

ऋषिभिर्वालखिल्यार्धस्तयान्यंभुं निभिमुंदा ॥३०

समुद्रस्तत्र सम्प्राप्तो मानिता सा महानदी ।

लिंगेनोक्ता तदा गंगा कलया स्थीयतामिति ॥३१

तत्समीपे महापुण्ये यावत्तिष्ठति मेदिनी ।

अंगीकृतं समुद्रेण यथोक्तञ्चतथास्त्विति ॥३२

एवमुक्त्वा गता गंगा कलया तत्र संस्थिता ।

गगेश्वरं तु यः पश्येत्स्नात्वा शिप्राभसि प्रिये ॥३३

गौ सहस्रफलं तस्य जायते नात्र सशयः ।

सर्वतीर्थं फलं तस्य सर्वधर्मफलं तथा ॥३४

सर्वयज्ञफलं सम्यक्सर्वदानफलं तथा ।

सर्वयोगफलं देवि ! प्राप्नोत्येव निरन्तरम् ॥३५

तभी से लेकर वह शिप्रा नदी पूर्व की ओर बहना करने वाली हो गई। तीनों तीर्थों में स्वयं देव भी तभी से गगेश्वर नाम से विख्यात हो गये। क्योंकि वह देव गंगा के द्वारा समाराधित हुए अतएव सभी हिन्दु पत्नों के देने वाले हो गये। उस समय मैं देवों और गन्धर्वों के द्वारा वह देव नदी गंगा से गंगानुन हुई और वातसिन्ध आदि ऋषियों ने एवं

मन्म मुनियो ने भी परम हर्ष के साथ गगा का स्तवन किया । वहाँ पर समुद्र भी सम्प्राप्त हो गया और उसके द्वारा भी उस महा नदी का सम्मान किया गया । उस ध्रुवसर पर शिव निग ने कहा कि एक कला से सन्धिपत रहो । महा पुण्यमय उमने समीप में जत्र तक भेदनी स्थित रहा — समुद्र ने जैसा भी कहा गया उसे 'तथास्तु' अर्थात् ऐसा ही होगा—यह कहकर स्वीकार कर लिया । इस प्रकार से कहकर गगा चली गयी और एक कला से वहाँ पर सन्धिपत हो गई । हे शिवे ! विष्णु नदी के जल में स्नान करके जो भी कोई भगवान् गगेश्वर का दर्शन करता है उसको एक सहस्र तीर्थों के दाभ करने का फल प्राप्त होता है—इसमें कुछ भी सशय नहीं है । उस पुण्य को समस्त तीर्थों का पुण्य फल होना है तथा सब तरह के धर्मों का फल मिला करता है । सम्पूर्ण धर्मों के करने का फल और भली भाँति किये गये सब प्रकार के दानों का फल प्राप्त होना है । हे शिवे ! यह मनुष्य सब धर्मों का फल निरन्तर ही अवश्य प्राप्त कर लेता है ॥३६-३५॥

तत्र तीर्थानि सुभगे ! पृथिव्यां यानि कानिचिद् ।

धर्मारण्य फल्गुतीर्थं पुष्कर नमिष गया ॥३६

प्रयागञ्च कुण्डक्षेत्र वेदारममरेश्वरम् ।

चन्द्रभागा विषाना च सरयूर्देविका कुहू ॥३७

गोदायरी दातद्रुक्ष बाहुदा वैप्रवत्पि ।

भर्या एवात्र सरितः सगताः सन्ति ग गया ॥३८

गुप्तानिपुण्यतीर्थानि सिद्धश्राणिनैवहि ।

तत्रमधाणिनिष्टन्ति फलामात्रेणपायानि ॥३९

एतेपाफः उमाप्नोन्वियः पश्यन्निगमाहिनः ।

स्नात्वाग गेश्वर देव सत्यमेतन्मयोदितम् ।

अतः पुण्यतमं स्थानं गोपते गणनिन्दते ! ॥४०

एष ते कथितो देवि प्रभायः पापनाशनः ।

ग गेश्वरस्य देवस्य शृण्वन्गारेदश्वरम् ॥४१

सन्तुष्ट हो गई । वहाँ का गमन करना तो मुझे परम अभीष्ट है क्योंकि वहाँ पर मेरी सखी विद्यमान है । शिप्रा भी मेरी बहुत प्यारी है और परम पुण्यमयी तथा महान् पातकों के नाश करने वाली है । उस समय मैं उस दिव्य देव नदी ने अपने मन से इस प्रकार से चिन्तन करके वह महाकाल में आगई थी और वहाँ पर उत्तम लिंग का दर्शन किया । उस समय मे उसने विधि पूर्वक परम दिव्य पय से उनका पूजन किया । वहाँ पर अपनी सखी शिप्रा को देखा और उन दोनों का वहाँ पर सस्तेप हुआ अर्थात् सम्मिलन हो गया था ॥२२-२८॥

ततः प्रभृतिसञ्जाता साशिप्रापूर्ववाहिनी ।

त्रिपुलोकेषुविख्यातोदेवो गगेश्वरः स्वयम् ।

गंगयाऽऽराधितो यस्मात्समीहितफलप्रदः ॥२९

सस्तुता देवगन्धर्वगंङ्गा देवनदी तदा ।

ऋषिभिर्वालखिल्यार्षस्तथान्यैर्मुनिभिर्मुदा ॥३०

समुद्रस्तत्र सम्प्राप्तो मानिता सा महानदी ।

लिंगेनोक्ता तदा गंगा कलया स्थीयतामिति ॥३१

तत्समीपे महापुण्ये यावत्तिष्ठति मेदिनी ।

अंगीकृतं समुद्रेण यथोक्तञ्च तथास्त्विति ॥३२

एवमुक्त्वा गता गंगा कलया तत्र सस्थिता ।

गगेश्वर तु यः पश्येत्स्नात्वा शिप्रांभ्रति प्रिये । ॥३३

गो सहस्रफलं तस्य जायते नात्र सक्षयः ।

सर्वं तीर्थं फलं तस्य सर्वधर्मफलं तथा ॥३४

सर्वं यज्ञफलं सम्यक्सर्वं दानफलं तथा ।

सर्वं योगफलं देवि ! प्राप्नोत्येव निरन्तरम् ॥३५

तभी से लेकर वह शिप्रा नदी पूर्व की ओर बहती करने जाती हो गई । तीनों तीर्थों में स्वयं देव भी तभी से गणेश्वर नाम से विख्यात हो गये । क्योंकि वह देव गंगा के द्वारा समाराधित हुए अतएव सभी हित कर्मों के देने वाले हो गये । उस समय मैं देवों और गन्धर्वा के द्वारा वह देव नदी गंगा से संस्तुत हुई और वातगित्य आदि ऋषियों ने एवं

मन्म मुनियों ने भी परम हर्ष के साथ गंगा का स्तवन किया। वहीं पर समुद्र भी सम्प्राप्त हो गया और उसके द्वारा भी उस महा नदी का सम्मान किया गया। उस ध्रुवसर पर शिव लिंग ने कहा कि एक कला से संस्थित रहो। महा पुण्यमय उसके समीप में जब तक भेदनी स्थित रहा—समुद्र ने जैसा भी कहा गया उसे 'तथास्तु' अर्थात् ऐसा ही होगा—यह कहकर स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ये कहकर गंगा चली गयी और एक कला से वहाँ पर संस्थित हो गई। हे प्रिये ! शिवा नदी के जल में स्नान करके जो भी कोई भगवान् गणेश्वर का दर्शन करता है उसको एक सहस्र गोमो के दान करने का फल प्राप्त होता है—इसमें कुछ भी शक्य नहीं है। उस पुरुष को समस्त तीर्थों का पुण्य फल होता है तथा सब तरह के पत्तों का फल मिला करता है। मन्मूर्ख यज्ञों के करने, का फल और भली भाँति किसे गये सब प्रकार के दागों का फल प्राप्त होता है। हे देव ! वह मनुष्य सब योगों का फल निरन्तर ही अवश्य प्राप्त कर लेता है ॥२६-३५॥

सत्र तीर्थानि सुभगे ! पृथिव्यां यानि कानिचित् ।

धर्मारण्य फल्गुतीर्थं पुष्कर नैमिष गया ॥३६

प्रयागञ्च मुद्गक्षेत्र केदारगमरेश्वरम् ।

चन्द्रभागा विपाशा च सरयूर्देविका वृहः ॥३७

गोदावरी शतद्रुम्य बाहुदा क्षेत्रवर्यणि ।

भर्षा एवात्र सरितः सगताः सन्ति ग गया ॥३८

गुप्तानिपुण्यतीर्थानि सिद्धभ्राजिषेवहि ।

सत्रमवोषितिहन्नि फलामायेणपावति ॥३९

एतेषां फलमाप्नोति यः पदयतिमाहितः ।

स्नाराग शेश्वरं देव सारमेऽन्मयोदितम् ।

अत्र दुष्कृतम् स्यान् गीयते गणविन्दते ! ॥४०

एष से त्रिषो देवि प्रभायः पापनाशनः ।

गणेश्वरस्य देवस्य शृण्वं गारेदरम्परम् ॥४१

हे मुमगे ! इस पृथिवी में जो कोई भी तीर्थ हैं जैसे घग्मारण्य—
 फल्गुतीर्थ—केदार—अमरेश्वर—चन्द्रभागा—विपाशा—सरयू—देविका
 कुङ्क—गोदावरी—शतद्रु—वाहूदा—वेत्रवती ये सभी सरिताएँ यहाँ पर
 गङ्गा के साथ सङ्गत हुई हैं । जो गुप्त एवं पुण्य तीर्थ हैं तथा सिद्धक्षेत्र हैं
 वहाँ पर वे सभी स्थित रहा करते हैं । हे पार्वति ! कला मात्र से वहाँ पर
 सभी की संस्थिति है जो समाहित होकर दर्शन किया करता है वह इन
 सबका फल प्राप्त किया करता है । पहिले उसे गङ्गाेश्वर देव का स्नान
 करके दर्शन करना चाहिए—सर्वथा सत्य ही मैंने कहा है । हे गण
 धन्विते ! इसी लिए यह परम पुण्यतम स्थान गाया जाता है । हे देवि !
 यह पापों के नाश करने वाला श्री गङ्गाेश्वर देव का प्रभाव मैंने वर्णन कर
 दिया है । अब परम शङ्कारेद्वर का ध्यान करो ॥३६-४१॥

८०—प्रयागेश्वरमाहात्म्यवर्णन

प्रयागेश्वरसञ्ज्ञं तु सर्वकामकरं परम् ।
 अष्टाधिकं विजानीहि पञ्चाशत्तममीश्वरम् ॥१
 आसत्प्रथमकल्पे तु मनुः स्वायम्भुवःपुरा ।
 तस्यप्रियव्रतः पुत्रोयज्वापरमधार्मिकः ॥२
 स चेष्ट्वाबहुभिर्यज्ञैः समाप्तवरदक्षिणेः ।
 मत्तद्वीपेषु सम्प्राप्य भरतादीन्मुनान्प्रिये ॥३
 स्वयं विशाला बदरी गत्वा तेषु महत्तापः ।
 कालेन बहुना तत्रनारदः गमुषस्थितः ॥४
 पूजितो विश्रार्धेण राज्ञा प्रियव्रतेन च ।
 स पृष्टः पूजयित्वा तु किमाश्चर्यं वदस्वमे ॥५
 द्रुपुक्तः कथयामास नारदो मुनिमत्तमः ।
 दक्षे तद्वीपे मया राजन्कन्या दृष्टा मरोवरे ॥६
 सा च पृष्टा विशालाक्षी कस्माद्भवामि निर्जने ।
 कार्जमि भद्रे ! मयं वामि विः या कार्यमिह त्वया ॥७

श्री ईश्वर ने कहा—यह प्रयागेश्वर नाम वाले प्रभु समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले सर्वोपरि देव हैं । इन ईश्वर को अठ्ठावन जानना चाहिए । पहिले प्रथम कल्प में स्वायाम्भुव मनु थे । उनके प्रियव्रत नाम वाला पुत्र था जो यजन करने वाला तथा परम धार्मिक हुआ था । उसने बहुत से यज्ञों का यजन किया था और परम श्रेष्ठ दक्षिणाएं देकर उन्हें सांग समाप्त किया था । हे प्रिये ! सात द्वीपों में भरत आदि सुती की प्राप्ति उसने की थी । फिर वहाँ स्वयं परम विशाल बदरी में जाकर तप-एचर्या करने लग गया था । धार्मिक समय जब व्यतीत होगया तो वहाँ पर देवर्षि नारद जी समागत हो गये थे । राजा प्रियव्रत के द्वारा विष्टर एव मर्ष्य से उनका पूजन किया गया था । पूजा करके राजा ने उनसे पूछा था कि आश्चर्य क्या है—यह मुझे आप बतलाइये । जब इस तरह में कहा गया था तो मुनियों में परम श्रेष्ठ नारद जी ने कहा था—हे राजन् ! मैंने श्वेतद्वीप में सरोवर में एक कन्या को देखा था और मैंने उससे पूछा था कि इस निर्जन वन में आप किस कारण से निवास कर रही हैं । मैंने उस विशाल नेत्रों वाली से यह भी पूछा था—हे भद्रे ! आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे हैं । मुझे आपके लिए क्या सहायता करनी चाहिए ॥१-७॥

कर्तव्यं चारुसर्वाङ्गि तन्ममाचक्ष्व शोभने ! ।

एवमुक्तामयासाहिमादृष्ट्वामीलितेक्षणम् ॥८

स्मृत्वा तूष्णीस्थिता यावतावन्मे ज्ञानमुत्तमम् ।

विस्मृताः सर्ववेदाश्च सर्वंशास्त्राणि च वै हि ॥९

ततोऽहं विस्मयाविष्टश्चिन्तामोहममन्वितः ।

तामेवशरणं गत्वायावत्पश्यामिपाथिव ॥१०

तावद्दिद्व्यःपुमास्तस्याःशरीरेसमदृश्यत ।

तस्यापिपुंसोर्हृदयेद्वितीयस्तस्यचोरन्ति ॥

तस्यापि हृदये चान्यस्तृतीयस्तु व्यवस्थितः ॥११

ततः पृष्टा मया देवी सा कुमारी वथञ्चन ।

वेदा नष्टाममाशेषा भद्रोक्तिवृत्तिकारणम् ॥१२

माताहं सर्ववेदानां सावित्रानाम नामतः ।

मां न जानासियेन त्वमतोवेदा हृतास्तव ॥१३

एवमुक्ते मया पृष्टा विस्मयेन महीपती !

वेदानां त्वं तु माता वैकथयस्वममानधे ॥१४

त्वदीयहृदये देवि ! क एते पुरुषास्त्रया ॥१५

मैंने उससे कहा था—हे घोमने ! आपके तो सभी अंग प्रत्यग परम रम्य हैं । आप स्पष्ट बतलाइये । इस तरह से मेरे द्वारा कही गयी उत्तम मौलित नेत्रों वाले मुझको देखकर वह स्मरण करके तब तक चुप चाप स्थित रह गयी थी जब तक मेरा उत्तम ज्ञान—समस्त वेद और सब वास्त्र विस्मृत हुए थे । इसके अनन्तर मैं परम विस्मय से समाधिष्ट होकर चिन्ता और मोह से समन्वित हो गया था । हे पार्थिव ! जब तक मैं उसी की धरणागति में जाकर देखता हूँ कि तब तक उसके शरीर में एक परम दिव्य पुमान् मुझे दिखलाई दिया था । उस पुरुष के भी हृदय में दूसरा और उस दूसरे के भी उरःस्थान में एक अन्य ही पुमान् था ऐसे षष्ठ तीसरा वही पर व्यवस्थित था । इसके पश्चात् मैंने फिर उस कुमारी देवी से किसी तरह पूछा था—हे भद्र ! मेरे समस्त वेद नष्ट हो गये हैं—इसका क्या कारण है ? आप मुझे कृपा करके बतलाइये । उस कन्या ने कहा—मैं समस्त वेदों की माता हूँ । मेरा नाम सावित्री है । तुम मुझको नहीं जानते हो, इसीलिए आपके समस्त वेद हृत कर लिए गये हैं । हे महीपते ! इस प्रकार से कहने पर मैंने अत्यन्त विस्मय से उससे पूछा था—हे धनये जब आप समस्त वेदों की माता हैं तो मुझे यही प्रशंसाओं कि हे देवि ! आपके हृदय में ये तीन पुरुष क्यों हैं ? ॥१५-१६॥

य एष मच्छरीरस्थः शुभाङ्गश्चारुशोभनः ।

एष ऋग्वेदनामा तु यजुर्वेदो द्वितीयकः ॥१६

सामवेदस्तृतीयस्तु त्रयो वेदा मयि स्थिताः ।

त्रयोऽनपस्त्रयो देवा मच्छरीरे स्थिता द्विज ! ॥१७

इत्युक्त्वा सा तदा कन्या पश्यतो मम भूपते !

अन्तर्दानं गता सखस्ततोऽहं विस्मितोऽभवम् ॥१८

किं करोमि वव गच्छामि शरणं यामि कं प्रभुम् ।
 कथमाविर्भविष्यन्ति वेदाः शास्त्राणि साम्प्रतम् ॥१९
 कामिकस्तीर्थं राजस्तुप्रयागःश्रूयते श्रुती ।
 अहं तत्रगमिष्यामिज्ञानं सम्यग्भविष्यति ॥२०
 नष्टवेदेन रैम्येण प्राप्ता सिद्धिरनुत्तमा ।
 सावित्री श्रूयते तत्र अक्षयवटसन्निधौ ॥२१

इस कन्या ने कहा—जो यह मेरे शरीर में स्थित है जिसके परम धुम अंग हैं और परम चार एवं शोभा वाला है यही ऋग्वेद नाम वाला है । दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद है । ऐसे ये तीनों वेद मुझमें स्थित हैं । हे द्विज ! तीनों अग्नियों—तीनों देव मेरे शरीर में स्थित रहा करते हैं । उसी समय में यह कह कर वह कन्या हे भूते । मेरे देखते-देखते तुरन्त ही अन्तर्धान हो गई थी । तब से मैं परम विस्मित हो गया हूँ । क्या करूँ—वहाँ पर जाऊँ और किस प्रभु की शरण ग्रहण करूँ । मेरे ये सब वेद तथा शास्त्र अब कैसे आविर्भूत होंगे । श्रुति में ऐसा सुना गया है कि तीर्थों का राजा प्रयाग कामनाश्री की पूजा करने वाला है । मैं तो वही पर जाऊँगा जिससे भली भाँति मुझे पुनः ज्ञान हो जायगा । वेदों के नष्ट होने पर रैम्य के द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि भी उत्तमा नहीं होती है । वहाँ पर अक्षय वट की सन्निधि में सावित्री को सुना जाता है अर्थात् वह वहाँ पर विद्यमान रहती हैं ऐसा सुनते हैं ॥१६-२१॥

एवं मनसि सन्ध्यायगतोऽहं नृपसत्तम ।
 प्रयागं कामिकं तीर्थं सर्वदेवनमस्कृतम् ॥२२
 तपस्तीर्थं भया तत्र तप्तं परमदुष्करम् ।
 अथाजगाम राजेन्द्र प्रयागोर्मत्तिमान्स्वयम् ॥२३
 उक्तोऽहं प्रणयात्तेन न मांतापय नारद ।
 ब्रह्मपुत्र! प्रयागोऽहं भीषतस्तपसा तव ॥२४
 भवतः पार्श्वमायातः प्रणयेन तपोधन ! ।
 धन्योऽसि सर्वथा ब्रह्मंस्तपसाच्चविशेषतः ॥२५

मया सार्धं त्वया ब्रह्मन् ! गतिः कार्याऽविकल्पतः ।
 महाकालवने रम्ये तत्र ते ज्ञानमुत्तमम् ॥
 भविष्यति न सन्देहो मम कीर्त्तिश्च सुस्थिरा ॥२६
 एयं हि ब्रुवतस्तस्य प्रयागस्य नृपोत्तम ! ।
 प्रादुर्बभूव सहहा पीतवासा जनादर्दनः ॥२७
 शङ्खचक्रगदापाणिर्गण्डस्यो वियद्गतः ।
 उवाच मेघगन्धीरं वाक्यं स पुरुषोत्तमः ॥२८

हे नृपसत्तम ! इस प्रकार से मैंने मन में अच्छी तरह से ध्यान करके
 मैं सब देव गणों के द्वारा नमस्कार किये हुए कामिक तीर्थ प्रयाग को
 गया था । वहाँ पर मैंने अत्यन्त दुःखर तीव्र तप किया था । हे राजेन्द्र !
 वहाँ पर स्वयं मूर्तिमान् प्रयाग मेरे समक्ष में आ गये थे । उस तीर्थराज
 ने बहुत ही प्रेम के साथ मुझसे कहा था—हे नारद ! मुझको अधिक
 मतस मत करो । हे ब्रह्मपुत्र ! मैं प्रयाग हूँ और आपके इस अत्युत्तम तपस्य
 ने मैं भीषित हो गया हूँ । हे तपोधन ! मैं प्रलय से आपके पास आ गया
 हूँ । हे ब्रह्मन् ! आप सवधा धन्य हैं और इस तपस्वर्या से आप विशेष
 रूप से धन्य हो गये हैं । हे ब्रह्मन् ! मेरे ही साथ आपको बिना किसी
 विकल्प के गमन करना चाहिए । महाकाल वन परम रम्य है वहाँ पर
 आपको उत्तम ज्ञान हो जायगा—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है और मेरी
 कीर्त्ति सुस्थिर है । हे नृपोत्तम ! इस प्रकार से प्रयाग जब बोल ही रहा था
 कि सहमा पीताम्बर धारी भगवान् जनार्दन वहाँ पर प्रादुर्भूत हो गये थे ।
 उन प्रभु के चारों हाथों में शङ्ख—चक्र और गदा आदि धातुय ये—
 वे गण्ड पर समाधीन थे और आकाश में ही स्थित दिखलाई दिने
 थे ॥२२-२८॥

एहि नारद ! गच्छामा प्रयागो यत्र यास्यति ।
 शृण्वन्स्य वचनं श्रुत्वा मया प्रोक्तो जनार्दनः ॥२९
 ज्ञानं मे देहि देवेश ! कथं यास्यामि तद्वनम् ।
 महाकालं जगन्नाय श्रुतज्ञानविवर्जितः ॥३०

इत्युक्तः श्रीधरेणाह महाकालवनं नृप ।

आनीतस्तत्क्षणाञ्छीघ्रं प्रयागसहितस्तदा ॥३१

घण्टेश्वरस्य पूर्वं तु नवनद्यास्तु दक्षिणे ।

तत्र लिङ्गमनादि तु ज्योतीरूपं सनातनम् ॥३२

प्रयागः पूजयामास पश्यतो मम भूपते ।

लिङ्गेनोक्तं प्रसन्नेन किमर्थं त्वमिहागतः ॥३३

प्रयागः प्रयतो भूत्वा प्रसन्नोऽहं सदा तव ।

दर्शनं च मदीयं तुविफलं न भविष्यति ॥३४

इत्युक्तस्तेन लिगेन मदर्थं प्रार्थितस्तदा ।

ज्ञानं देहि द्विजायास्मै नारदाय महात्मने ॥३५

यह पुरुषोत्तम प्रभु भेद्य के समान गम्भीर बचन बोले थे—हे नारद ! आइए, चलते हैं जहाँ पर यह प्रयाग जायगा । भगवान् श्री कृष्ण के इस बचन को सुनकर मैंने भगवान् जनार्दन से कहा था—हे देवेश ! मुझे आप ज्ञान प्रदान करें, मैं उस वन में महाकाल में कैंसे जाऊँगा । हे जगन्नाथ ! मैं तो व्युत् के ज्ञान विवर्जित हो रहा हूँ । हे नृप ! मैंने जब यह कहा तो मैं भगवान् श्रीधर के द्वारा उसी समय में तुरन्त ही प्रयाग के सहित शीघ्र ही महाकाल वन में ले गया था । वहाँ पर घण्टेश्वर के पूर्व में और नव नदी के दक्षिण भाग में अनादि ज्योति रूप सनातन लिग है । हे भूपते ! मेरे देखते ही हुए प्रयाग ने उसकी पूजा की थी । लिग ने उस समय में परम प्रसन्न होकर प्रयाग से कहा था—हे प्रयाग ! तुम यहाँ किसलिए समागत हुए हो ? प्रयत हो जाओ । मैं तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया हूँ । और मेरा यह दर्शन कभी भी विफल नहीं होगा । इस तरह से जब लिग ने कहा तो प्रयाग ने मेरे लिए उसी समय में प्रार्थना की थी कि इस द्विज के लिये जिसका नाम नारद है और जो महान् आत्मा वाला है आप ज्ञान प्रदान कीजिए ॥२९-३५॥

नष्टा वेदाश्च शास्त्राणि साविथ्या दर्शनात्प्रभो! ॥३६

ततो लिगात्समुत्तस्थोब्रह्मा वेदवृत्तस्तदा ।

पठ गै.सरहस्यैश्च पुराणै.सहितस्तदा ॥३७

इत्युक्तोहं तदा देव्या सावित्र्या नृपसत्तम ! ।
 लिगस्यास्य प्रभावेण प्रयागाम्यर्थितस्य व ॥३७
 प्रतिभास्यन्ति ते वेदा धर्मशास्त्राणिनारद ! ।
 इत्युक्ते वचने भूयःप्राप्ता वेदा मया नृप ॥३९
 ज्ञानं षडंगसहितं शास्त्राणिविविधानिच ।
 लब्धज्ञानेन राजेन्द्र मयाप्रोक्तं वचस्तदा ॥४०
 प्रयागेनाचितो देवो मम ज्ञानस्य कारणात् ।
 प्रयागेश्वरसञ्ज्ञस्तु स्याति लोकेषु यास्यति : ४१
 तदाप्रभृति तस्लिगं तीर्थं कोटिशतैर्वृतम् ।
 स्वर्गापवर्गं फलदं तत्र त्वं गन्तुमहसि ॥४२

हे प्रभो ! सावित्री के दर्शन से इसके वेद और शास्त्र सब नष्ट हो गये हैं । तब तो उस लिग से उसी समय मे वेदों से युक्त ब्रह्माजी समुत्पित हुए थे । वे अगों के ऋषा रहस्य के ग्रहित वेदों से युक्त थे और पुराणों से भी समन्वित थे । हे नृप सत्तम ! उस समय में सावित्री देवी ने मुझसे कहा था कि—हे नारद ! इस लिग के प्रभाव से जिसकी प्रार्थना प्रयाग के द्वारा की गई है आपको अब समस्त वेद और धर्म शास्त्र प्रतिभासित हो जायेंगे । हे नृप ! इस वचन के कहने पर मुझे सब वेद पुनः प्राप्त हो गये थे, षडङ्गों के सहित ज्ञान तथा विविध शास्त्र मैंने प्राप्त कर लिये थे । हे राजेन्द्र ! ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले मैंने उस समय मे यह वचन कहा था—मुझे ज्ञान प्राप्त कराने के कारण से प्रयाग के द्वारा देव की धर्चना की गई थी । इसलिए लोको में यह प्रयागेश्वर नाम वाले होकर स्याति की प्राप्त होगी । तभी से लेकर वह लिग संकटो करोड तीर्थों से समावृत हो गये हैं और यह स्वर्ग तथा अपवर्ग के फल को प्रदान करने वाले हैं । वहाँ पर आप गमन करने के योग्य होते हैं ॥३६-४२॥

किमनेनाश्वमेधेन इष्टेन नृपसत्तम ।

अश्वमेधशतफलं जायते तस्य दर्शनात् ॥४३

तपसा किं सुतप्तेन कायनलेशकरेण तु ।

वाञ्छितं समते सद्यः प्रयागेश्वरदर्शनात् ॥४४

नारदस्य वचः श्रुत्वा स्वायंभुवसुतोत्तमः ।
 प्रियव्रतोमहादेवि! महाकालवनं गतः ॥४५
 ददर्श तत्र तल्लिगं नवनद्यास्तु दक्षिणे ।
 दर्शनात्तस्य लिगस्य मत्समीपं समागतः ॥४६
 मया सम्मानितो देवि! गणनामधिपः कृतः ।
 ये पश्यन्ति नरा भक्त्या प्रयागेश्वरमीश्वरम् ॥
 ते धन्या मानुषे लोके विलस्यन्त्यन्ये निरयंकाः ॥४७
 या गतिर्योगयुक्तस्य सत्त्वस्थस्य मनीषिणः ।
 सा गतिर्जायते सम्यक्प्रयागेश्वरदर्शनात् ॥४८
 माघमासे समेष्ट्यन्ति प्रयागेश्वरदर्शनम् ।
 कर्तुं ये मानुषास्तेपामश्वमेधः पदे पदे ॥४९
 एष ते कथितो देवि। प्रभावः पापनाशनः ।
 प्रयागेश्वरदेवस्य शृणु सिद्धेश्वरं परम् ॥५०

इस नृप श्रेष्ठ ! इस यजन किए हुए अश्वमेध से क्या प्रयोजन है ।
 उसके दर्शन मात्र से ही सौ अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है ।
 अपनी काया को बलिदान देने वाले इस सुसज्ज तप से क्या लाभ होगा
 प्रयागेश्वर प्रभु के केवल दर्शन ही से सभी प्रकार के भोगियों की सिद्धि
 पुरस्कृत ही हो जाया करती है । श्री ईश्वर ने कहा—हे महादेवि ! स्वायं-
 भुव मनु के पुत्र प्रिय व्रत ने देवपि श्री नारद जी के इस यजन को सुन
 कर वह महाकाल वन में चला गया था । वहाँ पर नव नदी के दक्षिण
 भाग में उस लिग का दर्शन किया था । उग लिग के दर्शन से यह मेरे
 समीप में आ गया था । हे देवि ! मैंने उसका सम्मान किया था और
 उसे गणों का अधिप बना दिया था । जो मनुष्य भक्ति भाव से प्रयागेश्वर
 ईश्वर का दर्शन किया करते हैं वे मनुष्य इस लोक में परम धन्य हैं अन्य
 लोग तो निरयंक ही बनेश उठाया करते हैं । जो सत्त्व में स्थित योग से
 युक्त मनीषी की गति हुआ करती है वही गति भली भाँति प्रयागेश्वर के
 दर्शन कर लेने से मनुष्यों की हो जाया करती है । माघ मास में जो

प्रयागेश्वर के दर्शन करने के लिये आर्येण वे मनुष्य पद पद मे भद्रमेव यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त किया करेंगे । हे देवि । यह पापों का नाश करने वाला प्रयागेश्वर प्रभु का प्रभाव आपको बतला दिया है अब परम सिद्धेश्वर का श्रयण करो ॥४३-५०॥



* अवन्ती खण्ड समाप्त *

स्कन्द पुराण

रेवा खण्ड

—(*)—

८१—पुराण संहिता वर्णन

योनवेद पुराणं हिनस वेदान्किञ्चन ।

कतमः सहिधर्मोऽस्ति किवाज्ञानंतथा विधम् ॥१॥

अन्यद्वा तत्किमत्राह पुराणे यन्नदृश्यते ।

वेदाः प्रतिष्ठिताः पूर्वं पुराणे नायसंशयः ॥२॥

विभेत्यल्पश्रुताद्देवो मामयं प्रतिरिष्यति ।

इतिहासपुराणंश्च कृतोऽयनिश्चयः पुरा ॥३॥

आत्मापुराणं वेदानां पृथगङ्गानितानिपट् ।

यच्चदृष्टं हि वेदेषु तद्दृष्टं स्मृतिभिः किल ॥४॥

उभाभ्यां यत्तुदृष्टं हि तत्पुराणेपुगीयते ।

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणः स्मृतम् ॥५॥

नैनिघारण्य मे होने वाले सत्र मे वहाँ के कृत्तपति शौनकजी ने पुराणों के महान ब्रह्मा सूतजी से कहा कि मैंने ब्राह्मी और विष्णु सरिताओं के विषय में श्रवण किया है, पर शीरी सरिता (नर्मदाजी) के विषय मे अभी कुछ नहीं सुना है, कृपा करके उसका वर्णन करें । यह सुनकर महामति सूतजी सर्व प्रथम पुराण—संहिता की उत्पत्ति और महत्त्व बतलाते हुये कहने लगे—जो पुराणों को नहीं जानता है वह यहाँ पर कुछ भी नहीं जानना है । वह कौन—सा धर्म ॥ और उस प्रकार का कौन सा ज्ञान है और अन्य भी वह क्या यहाँ पर हो गया है जो पुराण में दिखलाई नहीं देता है । अर्थात् ऐसा कोई भी विषय या ज्ञान एवं धर्म नहीं है जिनको पुराण में नहीं कहा गया हो । पुराण में सब से पूर्व वेदों

की प्रतिष्ठा की गई है—इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥१-२॥ वेद जो प्रल्पधृत पुरुष होता है उससे भय भोत होता है कि यह मुझको प्रतारित करेगा । पहिले ही इतिहास पुराणों के द्वारा यह निश्चय किया गया है ॥३॥ वेदों की आत्मा पुराण है और वे छे अङ्ग शास्त्र पृथक् हैं । और जो वेदों में देखा गया है वही स्मृतियों के द्वारा भी देखा गया है । इन दोनों वेदों और स्मृतियों के द्वारा जो देखा गया है वह सब पुराणों में गाया जाता है । पुराण समस्त शास्त्रों का ब्रह्मा का प्रथम कहा गया है ॥४-५॥

अनन्तरं च वषत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः ।

पुराणमेकमेवासीदस्मिन्कल्पान्तरे मुने ॥६

त्रिवर्गसाधनं पुण्यं क्षतकोटिप्रविस्तरम् ।

स्मृत्याजगादच मुनीन्प्रतिदेवश्चतुर्मुखा ॥७

प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणस्याभवत्ततः ।

कालेनाग्रहणं दृष्ट्वा पुराणस्यततोमुनिः ॥८

व्यासरूपं विभुः कृत्वा संहरेत्स युगेयुगे ।

अष्टलक्षप्रमाणे तु द्वापरेद्वापरे सदा ॥९

तदष्टादशधाकृत्वाभूर्लोकैर्ऽस्मिन्प्रभाष्यते ।

अद्यापिदेवलोकेतच्छतकोटिप्रविस्तरम् ॥१०

इसके उपरान्त उनके मुहों से वेद विनिर्गत हुए । इस कल्पान्तर में एक ही पुराण था ॥६॥ चतुर्मुख ब्रह्माजी ने त्रिवर्ग का साधन स्वरूप—परम पुण्यमय और सौ करोड़ के प्रकृष्ट विस्तार वाला स्मरण करके देव ने मुनियों के प्रति कहा था ॥७॥ इसके अनन्तर समस्त शास्त्रों की प्रवृत्ति पुराण की ही गई । इसके उपरान्त कुछ काल में मुनि ने पुराण का ग्रहण न करना देखकर विभु ने व्यास का स्वरूप धारण किया और वह युग-युग में संहार करते थे । सदा द्वापरे-द्वापरे में आठ लाख प्रमाण होने पर इस भू लोक में अठारह प्रकार से करके प्रभावित किया जाता है । आज भी देवों के लोक में वह सौ करोड़ के विस्तार वाला है ॥८-१०॥

तदथात्र चतुर्लक्षं संक्षेपेण निवेशितम् ।
 पुराणानि दशाष्टी चसाम्प्रतं तदिहोच्यते ।
 नामतस्तानि वक्ष्यामि शृणु त्वमृषिसत्तम ! ॥११॥
 सर्गश्च प्रतिसर्गश्च चंशो मन्वन्तराणि च ।
 वशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥१२॥
 ब्राह्मं पुराणं तथाद्य संहितायां विभूयितम् ।
 षलोकानां दशसाहस्रं नानापुण्यकथायुतम् ॥१३॥
 पाद्यं च पञ्चपञ्चाशत्सहस्राणि निगद्यते ।
 तृतीयं ब्रह्मण्यं नामधयोर्विद्यतिसंस्थया ॥१४॥
 चतुर्थं वायुना प्रोक्तं वायवोयमिति स्मृतम् ।
 शिवभक्तिसमायोगाच्छैव तच्चापराख्यया ॥१५॥
 चतुर्विंशतिसख्यातं सहस्राणितुशोनक ! ।
 चतुर्भिः पर्वभिः प्रोक्तं भविष्यं पञ्चमंतया ॥१६॥
 चतुर्दशसहस्राणि तथा पञ्चशतानितत् ।
 मार्कण्डेय नव साहस्रं षष्ठं तत्परिकीर्तितम् ॥१७॥

यह यहाँ पर चार साल मन्वेप से निवेशित किया है । पुराण षट्-
 रह हैं । इस गमय वह यहाँ पर कहा जाता है । है थोड़ा अपिबर ! मैं
 नामाल्लेख करके उनको बनलाता हूँ । पाप उनका धखण करिए ॥११॥
 पुराण के पाँच लक्षण हुआ करते हैं—सर्ग—प्रतिसर्ग—वश—मन्वन्तर
 और वशों का अनुचरित पुराण में धखित हुआ करते हैं ॥१२॥ उन
 पुराणों में एक से पृथक् आदि से होने वाला ब्राह्म पुराण है जो कि संहिता
 में विभूयित है । इसमें दश सहस्र श्लोक हैं और यह धनेश परम पुण्यमयी
 कथाओं से युक्त है ॥१३॥ फिर पाप अर्थात् पद्य पुराण है जिसमें श्लोकों
 की (यहाँ सर्वत्र अनुपुय छन्द से तात्पर्य है) पचपन सहस्र बहो जाती
 हैं । तीसरा बिष्णु पुराण है जिसमें श्लोकों की संख्या वेदिस सहस्र है ॥१४॥
 चौथा वायुदेव के द्वारा बलिग वायवोय अर्थात् वायु पुराण कहा गया
 है । तिस की भक्ति के समायोग से इनका दूसरा नाम त्रिवपुराण भी
 होगा है ॥१५॥ है चौथक ! यह चौबीस सहस्र की संख्या जाता है ।

पाचवीं पुराण भविष्य है जो चार पर्वों के द्वारा कहा गया है ॥१६॥
इसके श्लोकों की संख्या साढ़े चार सहस्र ॥ । छठवीं मार्कण्डेय
पुराण है जिसके श्लोकों की संख्या नौ सहस्र है ॥१७॥

आग्नेयं सप्तमं प्रोक्तं सहस्राणि तुषोडश ।

अष्टमं नारदीयं तु प्रोक्तं वै पञ्चविंशतिः ॥१८

नवमं भगवन्नाम भागद्वयविभूषितम् ।

तदष्टादशसाहस्रं प्रोच्यते ग्रन्थसंख्यया ॥१९

दशमं ब्रह्मवैवर्तं तावत्संख्यमिहोच्यते ।

लङ्गमेकादशं ज्ञेयं तथैकादशसंख्यया ॥२०

भागद्वयं विरचितं तल्लिगमृषिपुंगव ।

चतुर्विंशतिसाहस्रं वाराहं द्वादशं विदुः ॥२१

विभक्तं सप्तभिः खण्डैः स्कान्दं भाग्यवताम्बर ! ।

तदेकाशीतिसाहस्रं संख्यया वै निरूपितम् ॥२२

ततस्तु वामनं नाम चतुर्दशतमं स्मृतम् ।

संख्यया द्वादशसाहस्रं प्रोक्तं कुलपते ! पुरा ॥२३

कीर्मं पञ्चदशं प्राहुर्भागद्वयविभूषितम् ।

दशसप्तसहस्राणिपुरा सांख्यपते कलौ ॥२४

आग्नेय घर्षात् अग्निपुराण सातवीं पुराण बताया गया है जिसके
श्लोकों की संख्या सोलह हजार है । आठवीं नारदीय अर्थात् नारद पुराण
है जिसके श्लोकों की संख्या पच्चीस सहस्र होती है ॥१८॥ नवम भागवत
महापुराण है जो भगवान् के नाम से प्रसिद्ध है और दो भागों से विभूषित
है, इस ग्रन्थ के श्लोकों की संख्या अठारह सहस्र है ऐसा कहा जाता है
॥१९॥ दशमं ब्रह्मवैवर्तं पुराण है । इसके श्लोकों की संख्या भी सतह
हो घर्षात् अठारह हजार कही गई है । ग्यारहवीं लिग पुराण है । इनकी
ग्यारह सहस्र संख्या है ॥२०॥ हे ऋषि श्रेष्ठ ! वह लिग दो भागों में
विरचित है । बारहवीं पुराण वाराह है जिसके श्लोकों की संख्या चौबीस
सहस्र होती है ॥२१॥ हे भाग्यवानो मे परम श्रेष्ठ ! स्कन्द पुराण सात
खण्डों में विभक्त है और इनके श्लोकों की संख्या इबयासो हजार है । यह

। सभ्या मे' सवने षठा है ॥२२॥ इसके पश्चात् चौदहवां पुराण यामन है । इसके श्रुतियों की संख्या है कुलपते । पहिले दश सहस्र कही गयी है ॥२३॥ पन्द्रहवां कूर्म पुराण है । यह भी दो भागों में भूषित है । पहिले पालि में यह सत्रह सहस्र श्लोकों का है ॥२४॥

मात्स्य मत्स्येनयत्प्रोक्तं मनवेपोदशंक्रमात् ।

तच्चतुर्दशसाहस्रं संखयावदताम्बर ॥२५॥

गारुडं सप्तदशमं स्मृतं चैकोनविंशतिः ।

अष्टादशं तु ब्रह्माण्डं भागद्वयविभूषितम् ॥२६॥

तच्च द्वादशसाहस्रं दातमष्टममन्यतम् ।

तथैवोपपुराणानि यानि चोक्तानिवेधसा ॥२७॥

इदं ब्रह्मपुराणस्य सुलभं सौरमुत्तमम् ।

सहिताद्वयसंयुक्तं पुण्यं शिवकथाश्रयम् ॥२८॥

आद्या सनत्कुमारोक्ता द्वितीया सूर्यभाषिता ।

सनत्कुमारनाम्ना हि तद्विख्यातं महामुने ! ॥२९॥

द्वितीयं नारसिंहं च पुराणे पापसंशिते ।

शौकेयं हि तृतीयं तु पुराणे वैष्णवेमतम् ॥३०॥

बार्हस्पत्यं चतुर्थं च वायव्यं समनंसदा ।

दौर्वाससं पञ्चमं च स्मृतं भागवतेसदा ॥३१॥

गौतमहर्षी पुराण मात्स्य है त्रिमयी भगवान् मात्स्य ने मनु से कहा है ।

हे भोवने वालों मे परम श्रेष्ठ ! इनने श्रुतियों की संख्या चौदह सहस्र है

॥२५॥ गारुड दशम सहस्र पुराण है त्रिमयी संख्या उपलब्ध हजार है । अष्टा-

दशवां ब्रह्माण्ड पुराण है जो दो भागों से विभूषित है ॥२६॥ इनने श्रुतियों

की संख्या बारह हजार साठ थी है । उगी प्रकार मे उपपुराण भी है वे

वेदा के द्वारा उक्त है ॥२७॥ यह ब्रह्म पुराण की सुलभ उगार और दो

अध्यायों के गुरुज है । यह इत्यं पुण्यश्रयं कथा शिव की कथा का

आश्रय का है ॥२८॥ इन में पहली सनत्कुमार के द्वारा कथित है और

दूसरी सूर्य के द्वारा कथित है । हे महामुने ! यह सनत्कुमार के

नाम से ही विख्यात है ॥२९॥ द्वितीय पाप संशय करने पुराण में नारसिंह

है और तीसरा शीशैय है जो वैष्णव पुराण में माना गया है ॥३०॥
चौथा बाहस्पत्य है जो सदा वायव्य सम्मत है । पञ्चम दीर्घसप्त है जो
सदा भागवत में कहा गया है ॥३१॥

भविष्ये नारदोक्तं च सूरिभिः कथितं पुरा ।

कापिलं मानवं चैवतथैवोशनसेरितम् ॥३२

ब्रह्माण्डं वारुणं चाथकालिकाद्वयमेव च ।

माहेश्वरं तथात्ताम्बं सौरं सर्वार्थसञ्चयम् ॥३३

पाराशरं भागवतं कौर्मं चाष्टादशक्रमात् ।

एतान्युपपुराणानिमयोक्तानियथाक्रमम् ॥३४

पुराणसंहितामेतांयः पठेद्ब्राह्मणोति च ।

सोऽनन्तपुण्यभागीस्यान्मृतो ब्रह्मपुरं व्रजेत् ॥३५

भविष्य में नारद के द्वारा उक्त है और पहिले सूरियों के द्वारा कथित
है । ये कपिल के द्वारा—मनु के द्वारा और उशना के द्वारा कथित है
॥३२॥ ब्रह्माण्ड वारुण है । इसके अनन्तर कालिकाद्वय है । माहेश्वर
—साम्ब—सौर सब ऋषियों का सञ्चय है ॥३३॥ पाराशर भागवत है
और क्रम से कौर्म है ऐसे ये अष्टादश हैं मने ये यथा क्रम उपपुराणों को
बता दिया है ॥३४॥ इस पुराण संहिता को जो कोई पढ़ता है अथवा
श्रवण करता है वह अनन्त पुण्य का भागी होता है और मृत होकर वह
ब्रह्मपुर को गमन किया करता है ॥३५॥

८२—रेवा माहात्म्य वर्णन

नमंदायास्तु माहात्म्यं कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत् ।

तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि यत्त्वया परिपृच्छितम् ॥१

विस्तरं नमंदायास्तु तीर्थानां मुनिसत्तम ! ।

कोऽन्यः शक्तोऽस्ति व वक्नुमृते ब्रह्माणभोश्वरम् ॥२

एतमेव पुरा प्रश्नं पृष्ट्वाब्जनमेजयः ।

वैशम्पायनसञ्ज्ञन्तु शिष्यं द्वैपायनस्य ह ॥३

रेवातीर्थाश्रितं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि शौनक ! ।

पुरा परीक्षितो राजा यज्ञदीक्षासु दीक्षितः ॥४

सम्भृते तु हविद्रव्ये वर्तमानेषु कर्मसु ।

आसीनेषु द्विजाग्र्येषु ह्यमाने हुताशने ॥५

वर्तमानासु सर्वत्र तथा धर्मकथासु च ।

श्रूयमाणे तथा शब्दे जने रुक्तु त्वहर्निशम् ॥६

यज्ञभूमौ कुलपसेदीयताशुज्यत्तामिति ।

विधिधाञ्चविनोदान्वंकुर्वणिषु विनोदिषु ॥७

एवमिदधे वर्तमाने यज्ञे स्वर्गसदा समे ।

वंशम्पायनमासीनं पप्रच्छ जनमेजय ॥८

महामुनि श्रीकृष्ण द्वंपायन ने नमदा के माहात्म्य को कहा । जो तुमने पूछा है उसको मैं तुमको बतलाता हूँ ॥१॥ हे मुनिश्रेष्ठ । ब्रह्मा-जी के भक्तिरिक्त अन्य किस में ऐसी शक्ति है जो नमंदा के तीर्थों के माहा-त्म्य का विस्तार बणन कर सके ॥२॥ इसी प्रश्न को पहिले जनमेजय ने पूछा और यह प्रश्न द्वंपायन के शिष्य वंशम्पायनजी से पूछा गया था ॥३॥ हे शौनक ! रेवा तीर्थ का आश्रित जो पुण्य होता है उसे तुमको बतलाता हूँ । पुराने समय में पारीक्षित राजा यज्ञ की दीक्षाओं में दीक्षित हुआ था ॥४॥ वर्तमान कर्मों में हविद्रव्य के सम्भृत होने पर श्रेष्ठ द्विजों के समासीन होने पर—हुताशन के ह्यमान होने पर—वर्तमान धर्म पयाओं के सर्वत्र श्रूयमाण होने पर तथा अहर्निश जनों के द्वारा शब्द के कहने पर, यज्ञ भूमि में हे कुलपते । दी—भोग करो—इत घनेक विनोदों को विनोदी लोगों के द्वारा किये जाने पर इस प्रकार से यज्ञ के वर्तमान होने पर स्वर्ग वासियों के समान होने पर—जनमेजय ने समासीन वंश-म्पायनजी से पूछा था ॥५॥

द्वंपायनप्रसादेनज्ञानवानसिमेमत ।

वंशपायनतस्मात्त्वा पृच्छामिऋषिसन्निधौ ॥९

ब्रूहि मे त्वं पुरामृत्त पितृणा तीर्थसेवनम् ।

चिरं नानाविधान्वलेशान्प्राप्तास्तदिति मे श्रुतम् ॥१०

कथं द्यूतजिताःपार्थाममपूर्वपितामहाः ।

आसमुद्रां महीविप्रभ्रमन्तस्तीर्थलोभतः ॥११

केन ते सहितास्तात भूमिभागाननेकशः ।

चेरुः कथयतत्सर्वं सर्वं ज्ञोऽसि मतोमम ॥१२

कथयिष्यामिभूनाय! यत्पृष्टं तु त्वया जघ ।

नमस्कृत्य विरूपाक्षं वेदव्यासं महाकविम् ॥१३

पितामहास्तु ते पञ्चपाण्डवाः सहकृष्णया ।

उपित्वा ब्राह्मणैः साह्यं काम्यकेवन उत्तमे ॥१४

जनमेजय ने कहा—मेरा ऐसा मत है कि आप भगवान् द्रुपद्यजुषी की कृपा से ही ज्ञानवान् हैं । हे वैशम्पायनजी ! ऋषियों की सन्निधि में आप से पूछता हूँ ॥११॥ आप कृपया मुझे पहिले पितृगण के तीर्थों का सेवन का वृत्त बतलाइए । मैंने ऐसा ध्वषण किया है कि बहुत समय तक उन्होंने अनेक प्रकार के बलेशो को भोगा था ॥१०॥ मेरे पूर्व पितामह किस प्रकार से द्यूत में जीत लिये गये और वे तीर्थों के लोभ से समुद्र पर्यन्त भूमि में भ्रमण कर रहे थे ॥११॥ हे तात ! वे किस के सहित थे जिस समय में अनेक भूमि के भागों में उनमें विचरण किया । यह सभी आप मुझको बतलाइए क्योंकि मेरे मत से आप सभी कुछ के पूर्ण ज्ञाता हैं ॥१२॥ वैशम्पायनजी ने कहा—हे भूनाय ! आप तो निष्पाप हैं । जो भी कुछ आपने पूछा है वह मैं सभी कुछ आपको बतलाऊंगा । उन्होंने फिर महा कवि विरूपाक्ष वेदव्यास को नमस्कार किया था ॥१३॥ वैशम्पायन जी ने कहा—तुम्हारे पितामह पाँच पाण्डव थे जो कृष्ण के साथ में थे । उन्होंने परमोत्तम काम्यक वन में ब्राह्मणों के साथ निवास किया था ॥१४॥

प्रधानोद्दालके तत्र कश्यपोऽथमहामतिः ।

विभाण्डकश्चराजेन्द्र गुरुश्चैव महामुनिः ॥१५

पुत्रस्तयो लोमशश्चैव तथाज्ये पुत्रपौत्रिणः ।

स्नात्वा निःशेषतीर्थेषु गतास्ते विन्ध्यपर्वतम् ॥१६

ते च तस्मात्प्रमं पुण्यं सर्ववृक्षाः समाकुलम् ।

चम्पकः कण्ठकारेदच पुन्नार्गं नागकेसरैः ॥१७

बकुलः कोविदारदच दाहिमैरुपशोभितम् ।

पुष्पितं रजुं न श्वं च वित्स्वपाटलकेतकः ॥१८

फदम्बाभ्रमधूकंदच निम्बजम्बीरतिन्दुर्कः ।

नालिकेरैः कपित्थैश्च खजूं रपनसंस्तया ॥१९

नानाद्रुमलताकीर्णं नानावल्लीभिरावृतम् ।

सपुष्पं फलितं कान्तं वनं चं प्ररथं यया ॥२०

जलाश्रयंस्तु विपुलैः पद्मिनीसण्डमण्डितम् ।

सितोत्पलैश्च सञ्छन्नं नीलपीतं सितारणैः ॥२१

वहाँ पर प्रधानोद्दातक में, महामतिमान् चम्पक पे । हे राजेन्द्र !

महा मुनि गुह विभाण्डक पे ॥१५॥ पृत्तस्य घोर सोमश ऋषा अग्य पुत्र

एवं पौत्रो यासे ये गव समस्त लोपो मे स्नान करं विष्ण्य पर्वत मे गये

ये ॥१६॥ उन्होंने वहाँ पर परम पुण्यलय आश्रम देखा जो गव प्रवार के

पृष्ठों मे घिरा हुआ था । वहाँ पर चम्पक—खजूंवार—पुन्नार्ग—नागकेसर

—बकुल—कोविदार—दाहिम के वृक्षों मे उम आश्रम की घासपत्त सांभा

ही रही थी । वहाँ वृक्षों से युक्त अजुंन के वृक्ष—वित्स्व—पाटल—कैडर—

चम्पक—आभ्र—मधूक—निम्ब—जम्बीर—तिन्दुर्क—नालिकेर—कपित्थ

—खजूंर—रपन आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का समुदाय और गण्डाएँ

थीं । यह आश्रम नागवहिनियों से सम्राट्ठ था । वृक्षों मे गमविष—कपां

यामा—गुग्गुलु खैत्ररथ वन के समान वहाँ का वन था ॥१७-२०॥

बट्ट मे वहाँ गमाशय पहल करने वालों से बट्ट मंत्रुत था तथा पद्मिनी

के गण्ड मे भी यह आश्रम विभूषित था । वहाँ पर स्वैर चम्पक—नीलो-

ताम—वीरगिणित छट्ठा गभी वरुणो वाने चम्पक गिने हुए थे ॥२१॥

हृंगशरण्डवाकीर्णं शकटाकोशशोभितम् ।

धाटोकाशकलाशभिः सेवितं पौकिनादिभिः ॥२२

गिरेर्णाशं वराहैश्च गजैश्च महोदरैः ।

महोपदं च महाबाह्यैः कुरङ्गैश्चित्रैः गजैः ॥२३

गण्डकेश्वरं च खड्गेश्वरं च गोमायुसुरभीयुतम् ।
 सारंगमल्लकेश्वरं च द्विपदं च चतुष्पदं ॥२४
 तथा च कोकिलाकीर्णं मनः कान्तं सुशोभितम् ।
 जीवं जीवकसङ्घं च नानापक्षिसमायुतम् ॥२५
 दुःखशोकविनिर्मुक्तं सत्वोत्कटमनोरमम् ।
 क्षुत्तृपारहितं कान्तं सर्वव्याधिविर्वाजितम् ॥२६
 सिंहीस्तनं पिबन्त्यत्र कुरङ्गाः स्नेहसंयुतम् ।
 मार्जारमूपकोचोभाववलेहतउन्मुखो ॥२७
 पञ्चास्याः पोतकेभाश्चभोगिनस्तुकलापिना ।
 दृष्ट्वातद्विपिनं रभ्यं प्रविष्टाः पाण्डुनन्दनाः ॥२८

वह परम रम्य आश्रम अनेक तरह के पक्षियों से सुशोभित था । हंस
 और कारण्डवीं से वह आश्रम एवं वन समाकीर्ण था तथा चक्रवाकों की
 शोभा वाला था । आड़ी—काक—इलाकामों तथा कोयल आदि के द्वारा
 वह आश्रम सेवित था ॥२२॥ वहाँ बहुत प्रकार के पशु भी सञ्चारण
 किया करते थे—सिंह—व्याघ्र—बराह—गज—महीस्कट महिष—महा
 काया घाले कुरङ्ग—चित्रक—शय—गण्डक—खड्ग—गोमायु—घोर
 सुरभी से वह वन युक्त था । सारङ्ग—मल्लक—द्विपद और चतुष्पदों से
 भी वह समाकीर्ण ही रहा था ॥२३-२४॥ चारों ओर कोयलों से
 समन्वित मन को सुन्दर लगने वाला और शोभा से सम्पन्न था । जीवकों
 के सङ्घों से तथा नाना पक्षियों से समायुत था वहाँ पर किसी भी प्रकार
 का दुःख तथा शोक नहीं था । इस तरह की वावाधों से वह फुटबाध
 पाया हुआ और अतीव उत्कट सत्त्व गुण के कारण परम सुन्दर प्रतीत
 होता था । भूख—प्यास—जैसी बाधाएँ वहाँ नहीं सताया करती थीं ।
 वह परम सुन्दर एवं सभी तरह की व्याधियों से रहित था ॥२५-२६॥
 उस आश्रम के वन में स्वाभाविक धैर भी नाम मात्र को नहीं था
 और कुरंग के बच्चे बड़े ही स्नेह से सिंहनी के स्तन को पीया करते थे ।
 मार्जार और मूपक दोनों परस्पर में उन्मुख होकर भवलेहन किया करते
 थे ॥२७॥ सिंहनी के पुत्रों के गज स्नेह करते और मयूर एवं शंभी

एक दूसरे के साथ बड़े ही स्नेह से रहने । उस परमोत्तम एवं अतीव सुन्दर उस विपिन को देखकर वाण्डु के पृथो ने उसमें प्रवेश किया था ॥२८॥

मार्कं षडं दृष्ट्वांस्तत्रतल्पादित्यसन्निभम् ।
 ऋषिभिर्मेव्यमानं तु नानाशास्त्रविदारदैः ॥२८॥
 कुलीनैः मत्सम्पन्नैः शौचाचारमन्वितैः ।
 धीसङ्गतैः क्षमायुक्तैस्त्रिद्व्यजपतरपरैः ॥२९॥
 ऋषयुःसामविहितं मन्त्रं ह्येव परायणं ।
 केचित्पुरुषाग्निमध्यस्थाः केचिदेकान्तसस्थिताः ॥३०॥
 ऊर्ध्वं वाहूनिरालंबा आदित्यभ्रमणाः परे ।
 सायं प्रातस्सुंजदचान्ये एकहारास्थापरे ॥३१॥
 द्वादशाहात्तापचान्ये अन्ये मासाद्धं भोजनाः ।
 दशोदशोत्तापचान्ये अन्ये शंखालभोजनाः ॥३२॥
 पिण्याकमपरेऽमुञ्जन्वेचित्पालाशभोजनाः ।
 अपरेनियताहाराण्युभयाम्बुभोजनाः ॥३३॥
 एवम्भूतैस्तथा वृद्धैः सेव्यते मुनिपुङ्गवैः ।
 ततो घर्मस्तुतः श्रीमानाश्रम त प्रविश्य नः ॥३४॥

वहाँ पर वाण्डुओं ने अनेक तापों के महात्न पवित्र ऋषियों के द्वारा देखमान क्या तदन सूर्य के गमान तेज से समन्वित मार्कण्ड मुनि का दर्शन किया था । २८॥ ये ऋषि गण वरम कुलीन—सरसगुण से युक्त एवं शीघ्र और आचार से गुंण थे । वे भी ने गङ्गा—क्षमागुण से युक्त और तीव्र बातों में अत्योग्यता एवं मन्त्रों के जाप करने में परायण रहा करते । उनमें कुछ तो वायु अग्निओं के मध्य में स्थित होकर तप करने वाले और कुछ ऐसे थे जो बिन्दुत एकांत में स्थित रहकर गापना किया करते थे ॥३०-३१॥ कुछ लोग ऊर्ध्व होकर तिरास्र तरपयी करने वाले थे । दूसरे आश्रित्य की परिश्रमा किया करते । कुछ मार्ग प्रातः भोजन किया करने और अन्य एक ही बार आहार करने वाले थे । कुछ बारह दिव में भोजन करने और अन्य पाण में आधा भोजन करने

घाले थे । दशों—दशों में कुछ भोजन किया करते और कुछ केवल शैवाल का ही आहार करते । कुछ पिण्याक का आहार करते तो अन्य पालाश भोजी थे । दूसरे लोग नियत आहार वाले थे । कुछ केवल वायु तथा जल का ही आहार किया करते । इस प्रकार के परम वृद्ध थे। मुनियों के द्वारा उस आश्रम एवं वन का सेवन किया जाता था । इसके पश्चात् धर्म के पुत्र श्रीमान् युधिष्ठिर ने उस आश्रम में प्रवेश किया था ॥३२-३५॥

दृष्ट्वा मुनिवरं शान्तं ध्यायमानं परं पदम् ।
 प्रादक्षिण्येनसहसादण्डवत्पतितोऽग्रतः ॥३६
 भक्त्यानुपतितं दृष्ट्वा चिरादादायलोचनम् ।
 कोभवानित्युवाचेदं धर्मं धीमानपृच्छत ॥३७
 तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दारकस्तत्समीपगः ।
 आहाऽयं धर्मं राजस्तेदशं नार्थं समागतः ॥३८
 तच्छ्रुत्वा दारकेणोक्तं वचनं प्राह सादरः ।
 एह्येहिं वत्सवत्सेति किञ्चित्स्थानाञ्चलन्मुनिः ।
 तं तु स्नेहादुपाघ्राय आसने उपवेशयत् ॥३९
 उपविष्टे सभायांतु पूजाकृत्वायथाविधि ।
 वन्यं धान्यं फलं मूलं रसं चैव पृथग्विधैः ॥४०
 पाण्डवाब्राह्मणं साद्वैयथायोग्यम्प्रपूजिताः ।
 मूहूर्त्तादिथविश्रम्यधर्मं पुत्रोयुधिष्ठिरः ॥४१
 पृच्छति स्म मुनिश्रेष्ठं कौतूहलसमन्वितम् ।
 भगवन्सर्वलोकानां दीर्घायुस्त्वं मतो मम ॥४२

वहाँ पर परम पद का ध्यान करने वाले परम शान्तमय मुनि का दर्शन करके युधिष्ठिर सहसा प्रादक्षिण्य से उनके प्रागे खरखो में दण्ड के समान गिर गये थे ॥३६॥ भक्ति भाव से अपने खरखों में पड़े हुए राजा को देखकर चिरकाल में उन पर अपनी दृष्टि डालकर परम धीमान् मुनि ने धर्म पुत्र से पूछा—आप कौन हैं ॥३७॥ उन मुनिवर के इस वचन का श्रवण करके उनके समीप में स्थित दारक ने कहा—यह धर्मराज है,

इस समय मे यहाँ आपके दर्शन के लिये समागत हुए हैं ॥३८॥ दारक के द्वारा कथित वचन को सुनकर मुनि ने बहुत ही आदर के साथ कहा— हे वरस ! हे वरस ! यहाँ पर आओ—आगे चले आओ, मुनि अपने स्थान से कुछ चलित हो गये । उसको बड़े स्नेह से सूँघकर उनको आसन पर बिठा दिया था ॥३९॥ उस सभा मे भली भाँति बँठ जाने पर यथा विधि पूजा करके वन्य धान्य—फल—मूल और विभिन्न प्रकार के रसो के द्वारा सत्कार किया था ॥४०॥ ब्राह्मणों के साथ पाण्डव यथा योग्य पूजित हुए ? मुहूर्त मात्र विधाम करके धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने शीतूहन से समन्वित उन श्रेष्ठ मुनि से पूछा—हे भगवन् ! आप मेरे मत से समस्त लोको मे दीर्घ आयु वाले हैं । हे भगव ! आप मेरे सामने अब सात कल्पों का पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए और कल्प क क्षय मे भी स्थावर तथा जङ्गम लोक का वर्णन कीजिए ॥४१-४२॥

सप्तकल्पानशेषेण कथयस्वममाज्जघ ।

कल्पक्षयेऽपि लोकस्यस्यावरस्येतरस्य च ॥४३

न विनष्टोऽसि विप्रेन्द्र । नथ वाकेनहेतुना ।

गङ्गाया सरित सर्वा समुद्राताश्चयामुने ॥४४

तासा मध्ये स्थिताः का. स्वित्वाश्चैव प्रलय गता. ।

का नु पुण्यजला नित्यं वा नु न क्षयमागता ॥४५

एतत्कथयमेतातप्रसन्नेनान्तरात्मना ।

श्रोतुमिच्छाम्यशेषेष्वृषिभिःसहबान्धवैः ॥४६

साधु साधु महाप्राज्ञ ! धर्मपुत्रयुधिष्ठिर ।

कथयामियथान्याय यत्पृच्छसिममानघ ॥४७

सचपापहर पुण्यं पुराणं रद्रभाषितम् ।

यःशृणोतिनरोमनस्या तस्यपुण्यफल शृणु ॥४८

अश्वमेघसहस्रेण वाजपेयशतेन च ।

तत्फलं समवाप्नोति राजन्नास्त्यत्र सशयः ॥४९

हे विप्रेन्द्र ! किस प्रकार से और किस हेतु से विनष्ट नहीं हुए हो ?

हे मुने ! गङ्गा आदि समस्त सरिताएँ जो समुद्र के घन्ट तक हैं उनसे

मध्य में कौन स्थित हैं और कौन प्रलय को प्राप्त हो गयी हैं ? कौनसी पुण्य जल वाली हैं और कौनसी क्षय को नहीं प्राप्त हुई हैं ॥४१-४५॥ हे तात ! यह सब आप अपने परम प्रसन्न अन्तःकरण से मेरे प्रागे कहिए । मैं पूर्णतया सुनने का इच्छुक हूँ । मेरे साथ मेरे बान्धव और ऋषि गण भी इच्छुक हैं ॥४६॥ श्रीमान्ण्डेयजी ने कहा—हे धर्म के पुत्र युधिष्ठिर ! आप तो महाप्राज्ञ हैं । बहुत अच्छी बात है आपका प्रश्न अच्छा है । मैं न्याय पूर्वक सब कहता हूँ । हे अनघ ! आप जो भी पूछ रहे हैं वह सभी बताता हूँ ॥४७॥ समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला परम पुण्यमय पुराण वही है जिस को भगवान् रुद्र ने कहा है । इस पुराण को जो मनुष्य भक्तिभाव से युक्त होकर श्रवण किया करता है । उसका जो पुण्य—फल होता है उसका श्रवण करो ॥४८॥ हे राजन् ! एक सहस्रा अश्वमेध यज्ञ और सी बाणपेय यज्ञ के समान ही उसका पुण्य फल होता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥४९॥

ब्रह्मघ्नश्च सुरापी च स्तेयी गोघ्नश्च यो नरः ।

मुच्यतेसर्वपापेभ्यो रुद्रस्यवचनं यथा ॥५०

गंगा तु सरिता श्रेष्ठा तथा चैव सरस्वती ।

कावेरी देविका चैव सिन्धुः सालकुटी तथा ॥५१

सरयूः शतरुद्रा च मही चमिलया सह ।

गोदावरी तथा पुष्पा तथैव यमुना नदी ॥५२

पयोष्णीचा शतद्रुश्च तथाधर्मनदीशुभा ।

एताश्चान्याश्चसरितःसर्वपापहराः स्मृताः ॥५३

किं तु ते कारणं तात ! वक्ष्यामि नृपसत्तम ! ।

समुद्राः सरितः सर्वाः कल्पे कल्पे क्षयं गताः ॥५४

सप्तकल्पक्षये क्षीणे न स्मृता तेन गर्भदा ।

नमदंकेव राजेन्द्र ! परतिष्ठेत्सरिद्वरा ॥५५

तीर्थपूर्णा भग्नाभाग ! मृनिषड्धरभिष्टुता ।

गंगाद्याः सरितश्चान्याः कल्पेकल्पे क्षयं गताः ॥५६

एषा देवी पुरा दृष्टा तेन वदयामि तेऽनघ ॥५७

आश्चर्यभूता राजेन्द्र! त्रिपु लोकेषु विश्रुता ॥५८

ब्राह्मण की हत्या करने वाला—मुरा का पान करने वाला—चोरी का कर्म करने वाला—गाय का वच करने वाला जो मनुष्य होता है भगवान् रुद्र के ऐसे ही वचन हैं कि वह इस पुराण के ध्वण से सब पापों से मुक्त हो जाया करता है ॥५०॥ गङ्गा सब सरिताओं में श्रेष्ठ है उसी प्रकार से सरस्वती—कावेरी—देविका—सिन्धु—सालकुटी—सरयू—शतद्रा—वर्मिता के साथ मही—गोदावरी ये भी सब नदियाँ परम पुण्यमयी हैं यमुना नदी—पयोष्णी—शतद्रु—शुभा धर्म नदी—ये तथा इनके प्रतिरिक्त अन्य भी सरिताएँ हैं जो सब पापों के हरण करने वाली कही गयी हैं ॥५१-५३॥ हे नृप श्रेष्ठ ! क्या कारण है कि ये सब समुद्र भीर सरिताएँ कल्प—कल्प में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं—इसे भी वतलाङ्गा ॥५४॥ सात कल्पों के क्षय के क्षीण होने पर यह नर्मदा कभी मृत भर्षात् विनष्ट नहीं होती है । यही एक नर्मदा ऐसी श्रेष्ठ सरिता है जो स्थिर रहा करती है ॥५५॥ हे महाभाग ! यह जल से भरी हुई भीर मुनियों के सङ्घ के द्वारा अभिष्टुत होती हुई स्थिर रहती है तथा अन्य गङ्गा आदि सब कल्प के क्षय होने पर क्षय को प्राप्त हो जाया करती हैं ॥५६॥ हे निष्पाप ! यह देवी पहिले उसके द्वारा दृष्ट है उसको वतला-ऊँगा । हे राजेन्द्र ! यह आश्चर्य स्वरूप वाली है भीर तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ॥५७-५८॥

८३—नर्मदापञ्चदशनामवर्णन

ततोर्णवात्समुत्तीर्य त्रिकूटशिसरे स्थितम् ।
 महाकनकवर्णाभे नानावर्णशिलाचिते ॥१
 महाशृङ्गे समासीर्न रुद्रकोटिसमन्वितम् ।
 महादेवं महात्मानमीशानमजमव्यम् ॥२
 सर्वभूतमयं तात ! मनुना सह सुव्रत ! ।
 भूयो वचन्दे चरणो सर्वदेवनमस्कृतौ ॥३

मध्य में कौन स्थित हैं और कौन प्रलय की प्राप्त हो गयी हैं ? कौनसी पुण्य जल वाली हैं और कौनसी क्षय को नहीं प्राप्त हुई हैं ॥४१-४५॥ हे तात ! यह सब आप अपने परम प्रसन्न अन्तःकरण से मेरे भागे कहिए । मैं पूर्णतया सुनने का इच्छुक हूँ । मेरे साथ मेरे बान्धव और ऋषि गण भी इच्छुक हैं ॥४६॥ श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा—हे धर्म के पुत्र युधिष्ठिर ! आप तो महाप्राज्ञ हैं । बहुत अच्छी बात है आपका प्रश्न अच्छा है । मैं न्याय पूर्वक सब कहता हूँ । हे धनय ! आप जो भी पूछ रहे हैं वह सभी बताता हूँ ॥४७॥ समस्त प्रकार के पापों का हरण करने वाला परम पुण्यमय पुराण वही है जिस को भगवान् रुद्र ने कहा है । इस पुराण को जो मनुष्य भास्विभाव से युक्त होकर ध्वज किया करता है । उसका जो पुण्य—फल होता है उसका ध्वज करो ॥४८॥ हे राजन् ! एक सहस्रा अश्वमेध यज्ञ और सौ वाजपेय यज्ञ के समान ही उसका पुण्य फल होता है—इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥४९॥

ब्रह्मघ्नश्च सुरापी च स्तेयी गोघ्नश्च यो नरः ।

मुच्यतेसर्वपापेभ्यो रुद्रस्यवचनं यथा ॥५०

गंगा तु सरिता श्रेष्ठा तथा चैव सरस्वती ।

कावेरी देविका चैव सिन्धुः सालकुटी तथा ॥५१

सरयूः शतरुद्रा च मही चर्मिलया सह ।

गोदावरी तथा पुण्या तथैव यमुना नदी ॥५२

पयोऽशीषा शतरुद्रश्च तथाघमं नदीशुभा ।

एताश्चान्याश्चसरितःसर्वपापहराः स्मृताः ॥५३

किं तु ते कारणं तात ! वक्ष्यामि नृपसत्तम ! ।

समुद्राः सरितः सर्वाः कल्पे कल्पे क्षयं गताः ॥५४

सप्तकल्पक्षये क्षीणे न स्मृता तेन नर्मदा । .

नमर्दकैव राजेन्द्र ! परतिष्ठेत्सरिद्वरा ॥५५

तोयपूर्णा मसाभाग ! मुनिसङ्घं रमिष्युता ।

गंगाद्याः सरितश्चान्याः कल्पेकल्पे क्षयं गताः ॥५६

एषा देवी पुरा दृष्टा तेन वक्ष्यामि तेऽनघ ॥५७

वाश्चर्यभूता राजेन्द्र! त्रिपु लोकेषु विश्रुता ॥५८

ब्राह्मण की हत्या करने वाला—सुरा का पान करने वाला—चोरी का कर्म करने वाला—गाय का वचन करने वाला जो मनुष्य होता है भगवान् रुद्र के ऐसे ही वचन हैं कि वह इस पुराण के ध्वण से सब पापों से मुक्त हो जाया करता है ॥५०॥ गङ्गा सब सरिताओं में श्रेष्ठ है उसी प्रकार से सरस्वती—कावेरी—देविका—सिन्धु—सालकुटी—सरयू—शतद्रा—धर्मिला के साथ मही—गोदावरी ये भी सब नदियाँ परम पुण्यमयी हैं यमुना नदी—पयोष्णी—शतद्रु—शुभा धर्म नदी—ये तथा इनके प्रतिरिक्त अन्य भी सरिताएँ हैं जो सब पापों के हरण करने वाली कही गयी हैं ॥५१-५३॥ हे नृप श्रेष्ठ ! क्या कारण है कि ये सब समुद्र और सरिताएँ कल्प—कल्प में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं—इसे भी घतलाकंगा ॥५४॥ सात कल्पों के क्षय के क्षीण होने पर यह नर्मदा कभी मृत अर्थात् बिनष्ट नहीं होती है । यही एक नर्मदा ऐसी श्रेष्ठ सरिता है जो स्थिर रहती है ॥५५॥ हे महाभाग ! यह जल से भरी हुई और मुनियों के सङ्घ के द्वारा अभिष्टुत होती हुई स्थिर रहती है तथा अन्य गङ्गा आदि सब कल्प के क्षय होने पर क्षय को प्राप्त हो जाया करती हैं ॥५६॥ हे निष्पाप ! यह देवी पहिले उसके द्वारा रक्षित है उसको घतलाकंगा । हे राजेन्द्र ! यह आश्चर्य स्वरूप वाली है और तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ॥५७-५८॥

८३—नर्मदापञ्चदशनामवर्णन

सतोष्णवात्समुत्तीर्यं त्रिकूटशिखरे स्थितम् ।
महाकनकवर्णाभि नानावर्णशिलाचिते ॥१॥
महाशृङ्गे समासीनं रुद्रकोटिसमन्वितम् ।
महादेवं महात्मानमीशानमजमव्यम् ॥२॥
सर्वभूतमयं तात ! मनुना सह सुव्रत । ।
भूयो वचन्दे चरणी सर्वदेवनमस्कृती ॥३॥

आश्चर्यभूता राजेन्द्र! त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥५८

ब्राह्मण की हत्या करने वाला—मुरा का पान करने वाला—चोरी का कर्म करने वाला—गाय का वध करने वाला जो मनुष्य होता है भगवान् रुद्र के ऐसे ही वचन हैं कि वह इस पुराण के ध्वज से सब पापों से मुक्त हो जाया करता है ॥५०॥ गङ्गा सब सरिताओं में श्रेष्ठ है उसी प्रकार से सरस्वती—कावेरी—देविका—सिन्धु—सातकुटी—सरयू—घातरुद्रा—वर्मिला के साथ मही—गोदावरी ये भी सब नदियाँ परम पुण्यमयी हैं यमुना नदी—पयोष्णी—शतद्रु—शुभा धर्म नदी—ये तथा इनके प्रतिरिक्त अन्य भी सरिताएँ हैं जो सब पापों के हरण करने वाली कही गयी है ॥५१-५३॥ हे नृप श्रेष्ठ ! क्या कारण है कि ये सब समुद्र घोर सरिताएँ कल्प—कल्प में क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं—इसे भी घतलाङ्गा ॥५४॥ सात कल्पों के क्षय के क्षीण होने पर यह नर्मदा कर्मो मृत अर्थात् विनष्ट नहीं होती है । यही एक नर्मदा ऐसी श्रेष्ठ सरिता है जो स्थित रहा करती है ॥५५॥ हे महाभाग ! यह जल से भरी हुई घोर मुनियों के सङ्घ के द्वारा धमिप्युत होती हुई स्थित रहती है तथा अन्य गङ्गा आदि सब कल्प के क्षय होने पर क्षय को प्राप्त हो जाया करती हैं ॥५६॥ हे निम्पाप ! यह देवी पहिले उसके द्वारा दृष्ट है उसके घतला-ङ्गा । हे राजेन्द्र ! यह आश्चर्य स्वरूप वाली है घोर तीनो लोको में प्रसिद्ध है ॥५७-५८॥

८३—नर्मदापञ्चदशनामवर्णन

सतोष्णवात्समुत्तीर्म्यं त्रिकूटशिखरे स्थितम् ।
 महाकनकवर्णाभि नानावर्णशिलाचिते ॥१
 महाशृङ्गे समासीनं रुद्रकोटिसमन्वितम् ।
 महादेवं महात्मानमीशानमजमव्ययम् ॥२
 सर्वभूतमयं तात ! मनुना सह सुव्रत ! ।
 भूयो यवन्दे चरणो सर्वदेवनमस्कृतो ॥३

तपतस्तस्य देवस्य स्वेदः समभवत्किल ।
 तंगिरिप्लावयामास सस्वेदोरुद्रसंभवः ॥१६
 तस्मादात्तीत्समुद्भूता महापुण्या सरिद्धरा ।
 या सा त्वयाऽर्णं वे दृष्ट्वा पद्मपत्रायतेक्षणा ॥१७
 स्यौरूपं समवस्थाय रुद्रमाराधयत्पुरा ।
 आद्ये कृतयुगे तस्मिन्समानामयुतं नृप ॥१८
 ततस्तुष्टो महादेव उमया सह शङ्करः ।
 ब्रूहि त्वं तु महाभागे यत्तं मनसि वसंतं ॥१९
 प्रलये समनुप्राप्ते नष्टे स्यावरजङ्गमे ।
 प्रसादात्तव देवेश अक्षयाहं भवे प्रभो ! ॥२०
 सरित्सु सागरेष्वेव पर्वतेषु क्षपिष्वपि ।
 तव प्रसादाद्देवेश ! पुण्याक्षय्याभवे प्रभो ! ॥२१

ऋक्ष शैलपर समारोहण करके सर्वभूतात्म बशी शिवजी ने समस्त
 भूतो से अदृश होकर परम दाखण तप किया । तपस्या करते हुए उन देव
 के स्वेद हो गया । उस रुद्र से उत्पन्न होने वाले स्वेद ने उस गिरि का
 प्लावित कर दिया था ॥१५-१६॥ उससे यह महान् पुण्य वाली धँड
 सरिता समुत्पन्न हुई थी यह वही है जिसको तुमने पद्मदल के समान
 मुन्दर नेत्रों वाली अर्णव में देखा था ॥१७॥ पहले समय में स्त्री के
 स्वरूप में समास्थित होकर इसने भगवान् रुद्र की धाराप्रना की थी ।
 धारा सत्पुत्र में हे नृप ! उसने दश हजार वर्ष तक यह धाराप्रना की
 इसके पश्चात् भगवान् शङ्कर उमादेवी के सहित परम प्रसन्न एवं सन्तुष्ट
 हो गये । भगवान् शङ्कर ने उससे कहा—हे महाभागे ! तू बतला दे जो
 कुछ भी कामना तेरे मन में हो ॥१८-१९॥ सरिता ने कहा—हे प्रभो !
 हे देवेश ! प्रलय के प्राप्त होने पर जब कि स्यावर और जंगम सभी नष्ट
 हो जायें न रहे हैं क्षणिके अन्तर्द से उल्ल तनव में भी मैं इस जगत् में दृश्य
 होकर रहूँ । जब सब नदियाँ—सागर घोर पर्वतों के भी क्षयी हो
 जाने पर हे देवेश्वर ! मैं आपके ही प्रसाद से भव में पुण्या और धारा
 रहूँ ॥२०-२१॥

पापोपपापकंयुं क्ता महापातकिनोऽपि ये ।
 मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो भक्त्या स्नात्वा तु शङ्कर ! ॥२२
 उत्तरे जाह्नवी देशे महापातकनाशिनी ।
 भवामि दक्षिणेमार्गेयज्ञेवं सुरपूजिता ॥२३
 स्वर्गादागम्यगङ्गे तियथास्थ्याताक्षितोविभो ।
 तथादक्षिणगङ्गे निभवेय त्रिदशेश्वर ॥२४
 पृथिव्या सर्वतोर्थेषु स्नात्वा यत्नभते फलम् ।
 तत्फलं लभते मर्त्यो भव या स्नात्वा महेश्वर ! ॥२५
 ब्रह्महत्यादिकं पापं यदास्ते सञ्चितं क्वचित् ।
 मास मात्रेण तद्देवक्षययात्प्रवगाहनात् । २६
 यत्फलं सर्ववेदेषु सर्वयज्ञेषु शङ्कर ।
 अवगाहेन तत्सर्वं भवत्विति मतिर्मम ॥२७
 सर्वदानोपवापेषु सर्वमीर्थावगाहने ।
 तत्फलं मम तोयेन जायतामिति शङ्कर ! ॥२८

हे शङ्कर ! पापों, उपवासकों से मुक्त तथा जो महापापको भी हो वे सब भक्ति से मुक्त में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो जायें । उत्तर देश में जाह्नवी महान् पातकों से विनाश करने वाली है । उगी प्रवार से गुरो के द्वारा पूजित मैं दक्षिण मार्ग में ही जाऊ । हे विभो ! स्वर्ग से वापर गंगा जिग तरह से भूमि में विस्तार हो गयी है । हे त्रिदशेश्वर ! उगी भक्ति मैं भी दक्षिण गंगा की प्रगतिद्वि यामी हो जाऊ । पृथिवी में समस्त तीर्थों में स्नान करके जो पत्र प्राप्त किया जाता है उगी पुण्य— पत्र को मनुष्य हे महेश्वर ! भक्ति भाव से मुक्त में स्नान करके प्राप्त कर लेंगे ॥२२-२४॥ यह दृष्टा आदि पाप जो भी कुछ वहीं पर सञ्चित हों वे हे देव ! एव मास पर्यन्त मुक्त में अवगाहन करने से यह सब सब को प्राप्त हो जावे ॥२५॥ हे शङ्कर ! जो फल सब वेदों में और सब यज्ञों में होता है । वह सभी पत्र मुक्त में अवगाहन करने से ही जावे—परी मेरी मति है ॥२६॥ सब प्रवार से दात तथा उपवासों में तथा सब तीर्थों

के प्रवगाहन मे जो फल होता है वही पूर्ण फल मेरे अल से हो जावे-
यही मेरी कामना है ॥२७-२८॥

मम तीरे नरा ये तु अर्चयन्तिमहेश्वरम् ।
ते गतास्तव लोक स्युरेतदेवभवेच्छिव ॥२९॥
मम कूले महेशान उमया सह देवतः ।
यस नित्य जगन्नाथ एष एव वरो मम ॥३०॥
सुकर्मा वा विकर्मा वा शान्तो दान्तो जितेन्द्रिया ।
मृतो जन्तुर्मम जले गच्छतादमरावतीम् ॥३१॥
त्रिषु लोकेषु विख्याता महापातकनाशिनी ।
भवामि देवदेवेश प्रसन्नो यदिमन्यसे ॥३२॥
एताश्चान्यान्विरान्दिब्यान्प्राथिनो नृप सत्तम ।
नमंदया ततः प्राह प्रसन्नो वृषवाहनः ॥३३॥
एव भवतुकल्याणि यत्त्वयोक्तमनिन्दिते ।
नान्यावराहल्लोकेषुमुक्त्वात्वा कमलेक्षणे ॥३४॥
यदेव मम देहात्त्व समुद्भूता वरानने ! ।
तदेव सर्वपापना मोचिनी त्व न सशय ॥३५॥

मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान् महेश्वर का अर्पण किया करते हैं ।
हे शिव ! मैं यही चाहती हूँ कि वे सब आपके लोक मे चले जाया करे
॥२९॥ हे महेशान ! उमादेवी और देववृन्द के साथ आप मेरे ही तट
पर नित्य निवास करे—यही मेरे लिये अभीष्ट वरदान है ॥३०॥ चाहे
कोई सुन्दर कर्मों के करने वाला हो प्रथवा कोई कर्म रहित हो—शान्त
—दान्त—जितेन्द्रिय—कैसा ही हो जो जन्तु मृत होकर मेरे जल मे
भावे वह सीवा अमरावती को चला जाया करे ॥३१॥ हे देव देवेश !
यदि आप अपने को मुझ पर प्रसन्न हुए मानते हैं तो यह वरदान प्रदान
करिये कि मैं तीनों लोकों मे महा पातकों के विनाश करने वाली विख्यात
हो जाऊ ॥३२॥ हे नृप श्रेष्ठ ! नर्मदा के द्वारा भगवान् धरु से मे
तथा अन्य दिव्य वरदानों की प्राप्ति की प्रार्थना की थी । इसके पदवात्
भगवान् वृषभ के वाहन वाले शिव प्रसन्न हो गये थे ॥३३॥ आग्रह से

कहा—हे प्रनिन्दित कल्याणि ! जो भी तूने याचित किया है वह ऐसा ही सब हो जायेगा । हे कमल के समान सोचनों वाली ! तुझको छोड़कर लोकों में अन्य कोई वरों के योग्य भी नहीं है ॥३४॥ हे वरानने ! जिस समय में तू मेरे शरीर से समुत्पन्न हुई उसी समय मे तू समस्त पापों के मोचन कर देने वाली हो गयी थी—इस में तो कुछ भी संशय है ही नहीं ॥३५॥

कल्पस्यफरे काले काले धारे विशेषतः ।

उत्तरं कूलमाश्रित्य निवसन्ति चयेनराः ॥३६

अपिकोटपतंगाश्च वृक्षगुल्मलतादयः ।

आदेहपतनाद्देवि ! तेऽपियास्यन्तिसद्गतिम् ॥३७

दक्षिणं कूलमाश्रित्य ये द्विजा घर्भवत्सलाः ।

आमृतवोनिवसिष्यन्ति ते गताः पितृमन्दिरे ॥३८

अहं हि तद्यथावयेन कस्मिंश्चित्कारणान्तरे ।

त्वत्तीरे निवसिष्यामि सदैव ह्य मया समम् ॥३९

एव देवि ! महादेवि ! एवमेव न संशयः ।

ग्रहोन्द्रचन्द्रवरुणैः सार्धं दक्ष सह विष्णुना ॥४०

उत्तरेदेवि ! ते कूलेवसिष्यन्तिमगाजया ।

दक्षिणे पितृभिः सार्धं तथाऽन्येसुरसुन्दरि ॥४१

वसिष्यन्ति मया सार्धं मेप ते वर उत्तमः ।

गच्छ गच्छ महाभागे ! मर्त्यान्पापादिमोचय ॥४२

सहिता ऋषिसंघैश्च तथासिद्धगुरामुरैः ।

एवमुक्त्वा महादेवउमयासहितोविभुः ॥४३

वन्दमानोऽप्य मनुना मया चादर्शनं गतः ।

तेन चंपा महापुण्यामहापातकनाशिनी ॥४४

बलों के दाय करने वाले शाल से जोर विशेष रूप से महान् पीर कास में तेरे उत्तर छट वा आश्रय ग्रहण करके जो वर निवास करते हैं तथा मनुष्य ही गही—बीट-प्राग-पृथ-गुल्म पीर सता आदि भी अपने देह के पाव होने पर हे देवि ! वे सब भी मर्त्या को प्राप्त हो जायेंगे

॥३६-३७॥ जो धर्म प्रिय मनुष्य (द्विज) दक्षिण तट का धाम्रय ग्रहण कर मृत्यु पर्यन्त निवास करते हैं वे पितृ मन्दिर में गये हैं ॥३८॥ मैं तो तेरे वचन से किसी अन्य कारण में तेरे तीर पर सदा ही उमादेवी के सहित निवास करूंगा ॥३९॥ हे देवि ! हे महादेवि ! ऐसा ही है—इसमें संशय नहीं है । प्रह्ला—इन्द्र—चन्द्र—वरुण और साध्यगण देव वृन्द भगवान् विष्णु के साथ हे देवि ! उत्तर तट पर तेरे समीप में ही मेरी आज्ञा से निवास करेंगे । हे सुर सुन्दरि ! तेरे दक्षिण तट पर उसी प्रकार से पितृगण के साथ अन्य देव गण वास करेंगे । तथा सिद्ध सुर और असुरों के सहित एवं ऋषिगण के समुदायों के साथ वहाँ पर सभी निवास करेंगे । इस प्रकार से कहकर विप्र धी महादेव उमा के महित मेरे द्वारा और मनु के द्वारा वन्द्यमान होते हुये मन्तर्धान हो गए थे । इसी से यह महान् पुण्यवासी महान पातकों के विनाश करने वाली है ॥४०-४४॥

कथिता पृच्छघते यां ते मा ते भवतु विस्मयः ।

एषा गंगा महापुण्या त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥४५

दशभिः पञ्चभिः स्रोतैः प्लावयन्ती दिशो दश ।

शोणोमहानदश्चैव नर्मदा सुरसाकृता ॥४६

मन्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथैव च ।

तमसाविदशा चैव करभायमुना तथा । ७

चित्रोत्पलाविपाशा च रञ्जनावालुवाहिनी ।

ऋक्षपादप्रसूतास्ताः सर्वा वै रुद्रसंभवाः ॥ ८

सर्वपापहरा, पुण्याः सर्वमंगलदाः शिवाः ।

इत्येतैर्नामिभिर्दिव्यैः स्तूयते वेदपारगैः ॥४९

पुराणज्ञैर्महागं राज्यपैः सोमपैस्तथा ।

इत्येतत्सर्वमाख्यातं महाभाग्यं नरोत्तम ॥५०

मनुनाोक्तं पुराणमह्यममृततायाः समुद्भवम् ।

पुण्यं पवित्रमतुलं रुद्रोद्गीतमिदं शुभम् ॥५१

ये नराः कीर्त्तयिष्यन्ति भक्त्या शृण्वन्ति येष्वपि च ।

प्रातरःस्थाय नामानि दश पञ्च च भारत ! ॥५२

ते नराः सकलंपुण्यंलभिष्यन्त्यवगाहजम् ।

विमानेनार्कघर्षेणघण्टाशतनिनादिना ॥५३

र्यक्त्वा मानुष्यकं भाव यास्यन्ति परमां गतिम् ॥५४

जो आपके द्वारा पूछा जाता है वह सब ही कह दी गई है । इसमें आपको विस्मय नहीं करना चाहिये । यह महान् पुण्यशालिनी गंगा है जो तीनों लोको में प्रसिद्ध है । ४५॥ पन्द्रह स्रोतो के द्वारा दशो दिशामो का प्लावन करती हुई यह नर्मदा है । महानद धोण—नर्मदा विदिता—करमा—धमुना—चित्रोत्पला—विवासा—रञ्जना—वामु वाहिनी और ऋक्षपाद प्रसूता वे सभी श्री रुद्रदेव से सम्भूत होने वाली हैं ॥४६-४८॥ ये समस्त पापों के हरण करने वाली सन्निध्य हैं—परम पुण्यमयो—सभी मंगलों के प्रदान करने वाली—सिवा हैं । इस दिव्य नामों के द्वारा वेदों के पारगामी विद्वानों के द्वारा सदा स्तुति की जाया करती है । इसका उत्पन्न पुराणों के ज्ञाता—महाभाग राज्यों के स्वामी तथा सोम पान करने वालों के द्वारा किया जाता है । हे नरोत्तम ! यह सब महाभाग्य कह दिया गया है । इस भ्रमृता का उद्भव पहिले मनु देव ने मुझसे कहा था । यह परम पुण्यमय—सत्तुल—पवित्र—गुण धीर रुद्र के द्वारा समुदागीत है । जो मनुष्य इसका कीर्तन करेगे और जो भक्ति भाव से श्रवण करेंगे और हे भारत ! प्रायः उठकर इन दश और वीष नामों का स्मरण करेंगे । ये मनुष्य अथवाहन से उत्पन्न सम्पूर्ण पुण्य को प्राप्त करेंगे । सी घण्टाओं की ध्वनि लाल गूँथ के समान विमान के द्वारा इस मनुष्यत्व के भाव का परिष्कार कर के वे परम गति को प्राप्त करेंगे ॥४९-५४॥

८४—नर्मदा स्तोत्र वर्णन

एनच्छ्रुत्या यत्रो राजन्संहृष्टा ऋषयोऽभवन् ।

नर्मदा स्तोत्रुमारब्धाः शृताञ्जलिपुटा द्विजाः ॥१

नमोऽस्तु ते पुण्यजसे नमोमकरगामिनी ।

नमस्ते, पापमोचिन्यं नमो देवि । वरानने । ॥२

नमोऽस्तु ते पुण्यजलाश्रये ! शुभे !

विशुद्धसत्त्वे ! सुरसिद्धसेविते ।

नमोऽस्तु ते तीर्थगणनिषेविते

नमोऽस्तु रुद्रांगसमुद्भव ! वरे ॥३

नमोऽस्तु ते देवि ! समृद्धगामिनि !

नमोनतु ते देवि वरप्रदेऽस्सिवे ।

नमोऽस्तु लोकद्वयसौख्यदायिनि !

एतेकभूतीर्घसमाश्रितेऽनघे ॥४

सरिद्धरे ! पापहरे ! विचित्रिने !

गन्धर्वयक्षोरगसेवितान्ज्जे ।

सनातनि ! प्राणिगणानुकम्पिनि !

मोक्षप्रदे ! देवि ! विधेहि शं नः ॥५

महागजौघैर्महियैर्वराहैः ससेविते देवि महोर्मिमाले ! ।

मताः स्म सर्वे वरदे ! सुखप्रदे !

विमोक्षयास्मान्पशुपाशबन्धात् ॥६

पार्परनेकरंशुभैर्विवद्धा भ्रमन्ति तावन्तरकेषु मर्याः ।

महानिलोद्भूतनरंगमृत

यावत्तवाम्भो हि न सस्पृशन्ति ॥७

महामुनि धी मार्कण्डेयजी ने कहा—हे राजन् । इस वचन या श्रवण कर श्रेयिगण परम हर्षित हुए थे । द्विजगण हाथ जोड़कर नमंदा की स्तुति करने लगे थे । १॥ हे परम पुण्य जल वाली ! आपकी सेवा में हमारा नमस्कार है । मकर गामिनी आपके लिए हमारा नमस्कार है । हे देवि ! पापों के मोचन करने वाली आपको नमस्कार है । हे वरानने ! आपको हमारा प्रणाम है ॥२॥ हे पुण्य जल के आश्रय वाली ! हे परम शुभे ! आपको नमस्कार है । आप विशुद्ध सत्त्व वाली और सुरों के द्वारा सेवित हैं । समस्त तीर्थों के समुदाय के द्वारा सेवित और विशुद्ध सत्त्व सम्पन्न आपको नमस्कार है । आप सुरों और सिद्धों के द्वारा सदा सेवित हैं । पाप भगवान् रुद्र के भंग से परम वरिष्ठ हैं । आपको हमारा नमस्कार

है ॥३॥ हे वरों के प्रदान करने वाली देवि ! हे शिवे ! आपको प्रणाम है । दोनों लोको मे सौख्य के प्रदान करने वाली देवि ! आप तो अनेकी भूतो के समुदायो को समाश्रय देने वाली और अनप हैं आपको हमारा नमस्कार है ॥४॥ आप समस्त सरितायो मे श्रेष्ठ हैं । हे पाप हरे ! हे विचित्रिते । आप गन्धर्व—राक्षस—उरगों के द्वारा सेवित मङ्ग वाली हैं । हे सनातनि ! समस्त प्राणियो के गणों पर कृपा करने वाली हैं और मोक्ष के प्रदान करने वाली हैं । हे देवि ! आप हमारा कल्याण करें ॥५॥ हे महान् उमियों की माला वाली ! हे देवि । आप महान् गजों के समुदाय—महिष और वराहों के द्वारा भली भाँति सेवित हैं । हे वरदे ! हे मुक्तप्रदे ! हम सब नत हैं हमरी पशुपाद के बन्ध से विमुक्त कराइये ॥६॥ अनेक अधुम पापों से विशेष रूप से बद्ध मनुष्य अभी तक नरको मे भ्रमण किया करते हैं जब तक महा निलोद्भूत आपने जल का ये स्पर्श नहीं करते हैं ॥७॥

अनेकदुःखोपभयादिताना पापैरनेकैरभिवेष्टितानाम् ।
 गतिस्त्वमम्भोजसमानवस्त्रे द्वन्द्वैरनेकैरपि सम्बृजानाम् ॥८
 नद्यश्च पूता विमला भवन्ति
 त्वा देवि सम्प्राप्य न सशयोऽत्र ।
 तु खानुराणामभय ददासि
 शिष्टैरनेकैरभिपूजिताऽसि ॥९
 स्पृष्ट करैश्चन्द्रमनो रवेश्च
 तदं व दद्यात्परमं पदं तु ।
 यत्रोपला । पृण्यजलाप्लुतास्ते ।
 शिवत्वमायान्ति किमत्र चित्रम् ॥१०
 भ्रमन्ति तावन्नस्त्रेषु मर्त्या दुःखानुराः पापपरोतदेहाः ।
 महानिलोद्भूततरङ्गमङ्ग यावत्तवाम्भो न हि संश्रयन्ति ॥११

अनेक दुःखों और भयों से पीडित और अनेक पापों से परिवेष्टित मानवों की आर ही गति है । हे अम्भोज के समान मुग्ध वाली ! मनुष्य

संसार में अनेक दुन्दुओं से सम्मृत हैं उन सबका उद्धार आप ही करते वाली हैं ॥८॥ हे देवि ! आपको सम्प्राप्त करके नदियाँ विमल और पूव हो जाती हैं—इसमें कुछ भी संशय नहीं है । जो दुःख से आतुर हैं उनकी आप अभय दिया करती है और आप अनेक शिष्टों के द्वारा अभिपूजित हैं ॥९॥ चन्द्रमा के चरो से तथा सूर्य के चरों से स्पृष्ट आपका जल उसी समय में परम पद प्रदान किया करता है जहाँ पर पुण्य जल में प्लुत हुए शिवरत्न को प्रदान किया करते हैं—इसमे क्या विचित्र बात है ॥१०॥ तभी तक मनुष्य पापों से परीत देहों वाले नरकों में दुःखों से आतुर होते हुए भ्रमण किया करते हैं जब तक महा निलोद्भूत तरङ्गों के भङ्ग वाले आपके जल का समाश्रय ग्रहण नहीं किया करते हैं ॥११॥

श्लेच्छाः पुलिन्दास्त्वथ यातुधानाः .

पिबन्ति येऽभस्तव देवि पुण्यम् ।

मुक्ता भवन्तीह भयात्तु चोरात्

निःसंशयं तेऽपि किमत्र चित्रम् ॥१२

सरांसि नद्यः क्षयमभ्युपेता

घोरे युगेऽस्मिन्हि कलौ प्रदूयिते ।

त्वमं भ्राजसे देवि जलौघपूर्णा

दिवीच नक्षत्रपथे च गङ्गा । १३

तव प्रसादाद्वरदे वरिष्ठे

क्षालं यथेमं परिपालयित्वा ।

यामोऽथ रुद्रं तव सुप्रसादा

द्वयं तथा त्वं कुरु वै प्रसादम् ॥१४

आपके परम पुण्यमय जल को श्लेच्छपुलिन्द-यातुधान सब पान करते हैं वे भी घोरभय से मुक्त हो जाया करते हैं—इसमें कुछ भी संशय नहीं है और इसमे विचित्रता ही क्या है ॥१२॥ इस प्रदूयित कलियुग में जो परम घोर है सभी सर और नदियाँ क्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं । हे देवि ! आप तो जल के मोक्ष से परिपूर्ण हुई भ्राजमान रहती हैं जैसे दिवलोक में और नक्षत्र पथ में गङ्गा रहा करती हैं ॥१३॥ हे

वरिष्ठे ! हे वरदे ! इस काल का परिपालन कर के आपके सुप्रसाद से हम रुद्र के समीप में प्राप्त हो जावे उसी प्रकार का घ्राण हमारे ऊपर प्रसाद करिए ॥१४॥

गतिस्त्वमम्बेव पितेव पुत्रां
स्त्वं पाहि नो यावदिमं युगान्तम् ।
काले त्वनावृष्टिहतं सुघोरं
यावत्तरामस्तव सुप्रसादात् ॥१५
पठन्ति ये स्तोत्रमिदं द्विजेन्द्राः
शृण्वन्ति ये चापि नराः प्रशान्ताः ।
ते यान्ति रुद्रं वृषसंयुतेन
यानेन दिव्याम्बरभूषिताश्च ॥१६
ये स्तोत्रनेतस्सततं पठन्ति
स्नात्वा तु तोये खलु नर्मदायाः ।
अन्ते हि तेषां सरिद्रुत्तमेयं
गतिं विशुद्धामचिराद्दाति ॥१७
प्रातः समुत्थाय तथा शयानो
यः कीर्तयेत्तानुदिनं स्तवं च ।
स मुक्तपापः सूविशुद्धदेहः
समाश्रयं याति महेश्वरस्य ॥१८

अम्बा की भाँति आप ही गति हैं और घ्राण पिना के समान जब तक इस युग का अन्त ही हमारी रक्षा करिए । वास में घनावृष्टि से हत सुघोर को हम तरण करें यह घ्राणवा ही सुप्रसाद है ॥१५॥ जो द्विजेन्द्र इस स्तोत्र को पढ़ने हैं और जा परम प्रशान्त होकर मनुष्य इसका ध्यान किया करते हैं वे वृष से समन्वित यान के द्वारा दिव्य यस्त्रादि से विभूषित होते हुए यान के द्वारा रुद्र के समीप गमन किया करते हैं ॥१६॥ जो मनुष्य नर्मदा के जल में स्नान करके इस स्तोत्र को निरन्तर पढ़ा करते हैं अन्त में शीघ्र ही यह उत्तमा सरित उनको विनुद्ध गति प्रदान किया करती है ॥१७॥ प्रातः उठकर या शयन करता हुआ ही प्रति

दिन इस सब का कीर्त्तन किया करता है । वह पापों से छुटकारा पाकर विदाह देह वाला होते हुए भगवान् महेश्वर का समाश्रय ग्रहण किया करता है ॥१८॥

८४—कावेरीसङ्गममाहात्म्यवर्णन

कावेरीति च विख्याता त्रिषु लोकेषु सत्तम ।
 माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तस्या मार्कण्ड तत्त्वतः ॥१॥
 कीदृशं दर्शनं तस्याः फलं स्पर्शेऽथवाविभो ।
 स्नानेऽप्येऽथवादान उपवासे तथा मुने ॥२॥
 कथयस्व महाभाग कावेरीसङ्गमे फलम् ।
 धर्मः श्रुतोऽथ दृष्टो वा कथितो वा कृतोऽर्पित्वा ॥३॥
 अनुमोदितो वा विभ्रेन्द्र पुनातीति श्रुतं मया ।
 यथा धर्मं प्रसङ्गं तु मुनि धर्मोऽपि जायते ॥४॥
 स्वर्गं च नरकं च इत्येवं वैदिकी श्रुतिः ॥५॥
 साधुसाधुमहाभाग यत्पृष्टोऽहं त्वयाऽधुना ।
 शृणुष्वं कर्मनाभूत्वा कावेरीफलमुत्तमम् ॥६॥
 अस्ति यक्षो महासस्वः कुबेरो नाम विश्रुतः ।
 सोऽपि तीर्थं प्रभावेण राजन्यक्षाधिपोऽभवत् ॥७॥

राजा युधिष्ठिर ने कहा—हे श्रेष्ठतम ! तीनों लोकों में कावेरी विख्यात है । हे मार्कण्ड ! तात्त्विक रूप से उसके माहात्म्य का ध्वण करना चाहता हूँ । हे विभो ! उसका दर्शन कैसे है अथवा स्पर्श करने में क्या फल होता है ? हे मुने ! स्नान—घ्राप्य—अथवा दान तथा उपवास में क्या फल होता है ॥१-२॥ हे मुनिवर ! आप तो महान् भाग्य वाले हैं । इस कावेरी के सङ्गम में जो भी फल होता है उसे कहिए । धर्म चाहे श्रुत हो—दृष्ट हो—कथित हो—श्रुत हो—अनुमोदिन हो, हे विभ्रेन्द्र ! वह पवित्र कर दिया करता है—ऐसा मैंने सुना है । हे मुने ! धर्म की प्रमग में जैसे धर्म भी होता है वैसे ही स्वर्ग और नरक भी है—इस

प्रकार की वैदिकी धृति है ॥३-५॥ श्री मार्कण्डेयजी ने कहा—हे महा-
भाग ! बहुत ही अच्छा है जो कि आपने इस समय में मुझसे पूछा है ।
अब आप एक मन होकर कावेरी के उत्तम फल का व्यवस्था करिये । एक
महान सत्व वाला यक्ष जो कि कुवेर—इस नाम से प्रसिद्ध था, हुआ था ।
वह भी तीर्थ के प्रभाव से हे राजन् ! यक्षों का राजा हो गया था
॥६-७॥

तच्छृणुष्व विधानेन भक्त्यापरमयानुष ।
सिद्धिं प्राप्तोमहाभागकावेरीसङ्गमेन तु ॥६
कावेर्या नमं दायास्तुसङ्गमेलोकविश्रुते ।
तदस्नात्वाशुचिभू त्वाकुयेरामत्त्वविक्रमः ॥९
विधियन्तियमं कृत्वा शास्त्रयुक्त्या नरोत्तम ।
आराधयन्महादेवमेकचित्तः सनातनम् ॥१०
एकाहारोवसान्मासं तथापष्टाह्नकालिकः ।
पक्षीपवासंन्यवसत्कञ्चित्कालंनृपोत्तम ॥११
मूलशाकफलंश्चान्यं कालं नयति बुद्धिमान् ।
किञ्चित्कालं वसंस्तत्र तीर्थे शैवालभोजनः ॥१२
पराकेमानयत्कालं कृच्छ्रेणापिचमानद ।
धान्द्रायणेनचाप्यन्यमन्यवाप्यम्युभोजनः ॥१३
एव तत्र नर श्रेष्ठ कामरागविवर्जितः ।
स्थितोवर्षदातं साग्नं कर्षयन्त्वं तथा वजुः ॥१४

हे गृध्र ! परम भक्ति के भाव से विधान से उमका आप धरण
करिए । हे महामाग ! कावेरी के संगम से तो सिद्धि भी प्राप्त हो गया
था ॥६॥ लोक में परम प्रसिद्ध कावेरी और नर्मदा का संगम है । उनमें
स्नान करके और पवित्र होकर कुवेर सत्य विग्रह वाला हो गया था
॥६॥ कुवेर ने विधिपूर्वक नियम धारण करने हे नरोत्तम ! तास्नेक्त
रीति से एक निश्च हाथर स्नानन महादेव की आराधना की थी । वह
शुद्ध समय तक एक ही बार आहार करने वाला रहा था । फिर एक मास
के पीछे छठवें दिन आहार लेने वाला और दसवें पक्षान् पक्ष में एक बार

भोजन करने वाला होकर कुछ समय तक वहाँ उसने वास किया था ॥१०-११॥ उस बुद्धिमान ने अन्य काल को मूल-फल और शाक के आहार में व्यतीत किया था । कुछ समय तक केवल शैवाल का ही आहार करके वह वहाँ पर निवास करने वाला हुआ था ॥१२॥ हे मानद ! उस क्रुवेर ने कुछ समय पराक—कृच्छ्र और चाण्ड्रायण श्रुतों के द्वारा व्यतीत किया था और कुछ समय तक केवल जलपान को ही भोजन रखकर तपस्या की थी ॥१३॥ हे नर श्रेष्ठ ! इस रीति से वहाँ पर काम और राग से विवर्जित होकर अपने शरीर को क्षुब्ध करता हुआ वहाँ में सौ वर्ष तक स्थित रहा था ॥१४॥

ततो वर्यदातस्यान्ते देवदेवो महेश्वरः ।

तुष्टस्तु परया भक्त्या तमुवाच हसन्निव ॥१५

भो भो यक्ष महासत्त्व वरं वरय सुव्रत ।

परितुष्टोऽस्मि ते भक्त्या तव दास्ये तथेप्सितम् ॥१६

यदि तुष्टोऽसि देवेश उमय सह शङ्कर ।

अद्यप्रभृति सर्वेषां यक्षाणामधिपो भवे ॥१७

अक्षयश्चाव्ययश्चैव तव भक्तिपुरस्सरः ।

धर्मं मतिं च मे नित्यं ददस्व परमेश्वर ॥१८

यत्त्वया प्रार्थितं सर्वं फल धर्मस्य तत्तथा ।

इत्येवमुक्त्वा तं तत्र जगामादर्शनं हरः ॥१९

सोऽपि स्नात्वा विधानेन सन्तर्प्य पितृदेवताः ।

आमन्त्रयित्वा तत्तीर्थं कृतार्थंश्च गृहं ययौ ॥२०

पूजितस्तत्र यक्षस्तु सोऽभिपिक्तो विधानतः ।

चकार विपुलं तत्र राज्यभीप्सितमुत्तमम् ॥२१

इसके उपरान्त जब कि सौ वर्ष समाप्त हो गये थे तो उनके घन मे देवों के भी देव आगवान महेश्वर प्रसन्न हुए थे और उसकी परामर्श से तुष्ट होकर हँपते हुए उससे बोले थे ॥१५॥ हे यक्ष ! हे महात् सत्त्व वाले ! हे सुखा ! वरदान की याचना करो मैं तेरी भक्ति से परितुष्ट हो गया हूँ और तुम्हो जो भी तेरा अभीष्ट वर होगा उसे दे दूँगा ॥१६॥

यद्य ने कहा—हे देवेश ! यदि प्राण भुक्त पर परम तुष्ट हैं तो हे उमादेवी के सहित भगवान् शङ्कर ! मैं प्राण ही से लेकर समस्त यशों का स्वामी हो जाऊँ और अव्यय तथा अव्यय हो जाऊँ जिसमे प्राणकी भक्ति भरी हुई हो । हे परमेश्वर ! धर्म में नित्य ही मेरी भक्ति आप प्रदान कीजिए ॥१७-१८॥ ईश्वर ने कहा—तूने जो भी प्रार्थना की है वह उसी भाँति धर्म का फल होगा—बस इतना ही कहकर भगवान् हर वही पर श्रुतार्थान हो गए थे ॥१९॥ वह भी स्नान करके विधिपूर्वक पितृगण और देवों का भली भाँति तर्पण करके उस तीर्थ को प्रामन्त्रित करके वृत्तार्थ होता हुआ अपने घर को चला गया था ॥२०॥ वहाँ पर वह समस्त यशों के द्वारा पूजित हुआ और उसका विग्रह के साथ अभिवेक किया गया था । वहाँ पर उसने उत्तम और बहुत अपना इच्छित राज्य किया था ॥२१॥

तत्र चान्ये सुराः सिद्धायक्षगन्धर्वकिन्नराः ।

गणाश्चाप्सरसांतत्रशृपयश्चतयाञ्जय ॥२२

कावेरीसङ्गमं तेन सर्वपापहारं विदुः ।

स्वर्गागामपि सर्वेषां द्वारमेतद्युधिष्ठिर ॥२३

ते घन्यास्ते महात्मानस्तेषां जन्म सुजीवितम् ।

कावेरीसंगमे स्नात्वा यदंत्तं हि तिलोदकम् ॥२४

दश पूर्वे परे तात मातृतः पितृतस्तया ।

पितरः पितामहास्तेन उद्धृतानरकार्णवात् ॥२५

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तत्र स्नायीतमानवः ।

अर्चयेदीश्वरं देवयदीच्छेच्छाश्वतीगतिम् ॥२६

कावेरीसंगमे राजन्स्नानदानार्चनं नरैः ।

श्रुतं भवत्या नरश्रेष्ठ अश्वमेधाधिकफलम् ॥२७

होमेन चाक्षयः स्वर्गो जपादायुषिवर्धते ।

ध्यानतो नित्यमायाति पदं शिवकलात्मकम् ॥२८

हे मनप ! वहाँ पर अन्य सुर—गिद्ध—यक्ष—गन्धर्व—किन्नर—

अप्सरार्यों के गण तथा श्रुपितृन्द भी थे । इनसे यह कावेरी का संगम

समस्त पापों का हरण करने वाला जाना गया है। हे युधिष्ठिर ! यह स्वर्गों का और अन्य समस्त लोकों का द्वार है ॥२२-२३॥ वे महाद्व आत्मा वाले पुरुष परम धन्य हैं और उनका जीवन प्रति सुन्दर जीवन है जिन्होंने कावेरी के संगम में स्नान करके तिलोदक समर्पित किया है ॥२४॥ हे तात ! उसने माता और पिता दोनों के दश पूर्व के और दश पर के पितरों पितामहों को नरक के घोर अण्डों से उद्धार कर दिया है ॥२५॥ इसलिये सब प्रकार के प्रयत्नों से मनुष्य को, वहाँ पर अवश्य ही स्नान करना चाहिए । यदि शाश्वत गति की इच्छा रखता है तो वहाँ पर देव ईश्वर की अर्चना करनी चाहिए ॥२६॥ हे राजन् ! कावेरी के संगम में जिन मनुष्यों ने भक्ति की भावना से स्नान दान और अर्चना किया है हे नर श्रेष्ठ ! उनको अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है ॥२७॥ होम से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जाप करने से वायु की वृद्धि हुआ करती है तथा ध्यान करने से निरय ही शिष के कलात्मक पद की प्राप्ति किया करता है ॥२८॥

अग्निप्रवेश यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नरेश्वर ।

अग्निलोकेवसेत्तावद्यावदाभूतसप्लवम् ॥२९

अनाशकं तु यः कुर्यात्तस्मिस्तीर्थे नराधिप ।

तस्य पुण्यफलं यद्वै तच्छृणुष्व नरोत्तम ॥३०

गन्धर्वांसरसङ्कीर्णं विमाने सूर्यसन्निभे ।

वीज्यमानो वरस्त्रीभिर्देवतैः सह मोदते ॥३१

पष्टिवर्षसहस्राणि पष्टिद्वर्षशतानि च ।

क्रीडते रुद्रलोकस्थस्तदन्ते भुवि चागतः ॥३२

भोगवान्दानशीलश्च जायते पृथिवीपतिः ।

आधिशोकविनिर्मुक्तो जीवन्न शरदा शतम् ॥३३

एवगुणगणाकीर्णा कावेरी सा सरिन्नृप ।

त्रिपु लोकेषुविरूपाज्ञानमदा सगमेसदा ॥३४

जितवाक्कायचित्ताश्च ध्येयध्यानरतास्तथा ।

कावेरीसगमे तात तेषपि मोक्षमवाप्नुयुः ॥३५

हे नरेन्दर ! उस तीर्थ में जो कोई अग्नि में प्रवेश किया करता है वह जब तक भूत सप्तव अर्थात् महा प्रलय होता है अग्नि लोक में निवास प्राप्त किया करता है ॥२६॥ हे नराधिप ! उस तीर्थ में जो कोई अनायास करे उसको जो भी पुण्य-फल होता है उसको मुनिये ॥२७॥ वह व्यक्ति अश्रयं और अस्त्राग्रे के द्वारा सङ्कीर्ण विमान में जो कि सूर्य के समान होता है परम श्रेष्ठ स्त्रियो के द्वारा सौज्यमान होता हुआ देवी के साथ आनन्द प्राप्त किया करता है ॥२८॥ वह साठ हजार साठ सौ वर्ष पर्यन्त एत लोक में स्थित होकर क्रीडा किया करता है । इतने समय के पश्चात् ही वह इस भूलोक में आता है ॥२९॥ यहाँ पर भी अत्यन्त अधिक भोगों से समन्वित होकर तथा परम दान देने वाला हाता हुआ राजा हो जाता है । वह मानसिक व्यथा और शोक प्रादि से रहित होकर सौ वर्ष तक ज्योतिष रहता है ॥३०॥ हे नृप ! इस प्रकार से अनेक गुणगण से वह कावेरी सरित युक्त है और तीनों लक्षों में सदा नर्मदा के सगम में विद्यमान है ॥३१॥ हे तात ! उस कावेरी व सगम में अपने बचन-श्रवाण और चित्त के ऊपर विजय प्राप्त करके ध्येय के ध्यान में रत होने हुए निवास किया करते हैं वे सभी मोक्ष को प्राप्त कर लिया करते हैं ॥३२॥

शृणु सेऽन्यत्प्रवक्ष्यामिआश्रयंनृपसप्तम ।

त्रिपुलोकेपुकात्यन्यादृश्यमेतस्त्रितातमा ॥३३॥

एतथ यंनर्मदातोय ये चाकुमुं प्रदक्षिणम् ।

ये पितन्ति जलं तत्र ते पुण्यानात्रसद्य ॥३४॥

न तोषा सन्ततिच्छेदो दश जन्मानि पञ्च च ।

तोषा पाप विलोपेत हिमं सूर्योदये यथा ॥३५॥

ग गायमुनसगे यं यत्फलं सप्तत नरः ।

तत्फलं लभते भर्त्यः कावरीरनानमानरन् ॥३६॥

भोगे तु भूवज्रायोगे कृत्नीपाते वसकमे ।

राट्टगोमनायोगेतदेवाट्टगुणं स्मृतम् ॥३७॥

अशीतिश्च यवाः प्रोक्ता गंगायामुनसंगमे ।

कावेरीनर्मदायोमेतदेवाष्टगुणं स्मृतम् ॥४१

गंगा पष्टिसहस्रं स्तु क्षेत्रपालः प्रपूज्यते ।

तदद्ध रन्यतीर्थानि रक्षन्ते नाऽत्र सशयः ॥४२

हे रूप सत्तय ! आप अवण करिए मैं आपको एक अन्य अश्चर्य बन-
लाता हूँ, तीनों लोकों में इस सरिता के समान अन्य कौन सी है धर्यानि
कोई भी नहीं है । जिन्हो ने नर्मदा का जल प्राप्त कर लिया है और जो
इसकी परिक्रमा करते हैं । जो वहाँ पर हमके जल का पान किया
करते हैं वे परम पुण्यशालो हैं—इसमे कुछ भी संशय नहीं है ॥३६-३७॥
पन्द्रह जन्मों तक उनको सन्तति का छेद नहीं होता है सूर्योदय के होने पर
हिम के समान ही उनके सब पाप विलीन हो जाया करते है ॥३८॥ गंगा
और यमुना के संगम मे जो फन मनुष्य प्राप्त करता है उसी पुण्य-फल
को मनुष्य कावेरी के स्नान से प्राप्त करता है ॥३९॥ भोम मे भूतजा
योग के होने पर-ध्यतीपात में-भूम्यं के सक्रम गु मे तथा राहु मौर सोम
के योग होने पर वही पुण्य-फल अठगुना बताया गया है ॥४०॥ गंगा
और यमुना के संगम मे अशीति यव कहे गये है वही कावेरी और नर्मदा
के संगम मे आठ गुना बताया गया है ॥४१॥ गंगा साठ हजार क्षेत्रपालों
के द्वारा प्रकर्ष रूप से पूजी जाया करती है उनके धाधो के द्वारा अग्न्य
तीर्थ रक्षित किये जाया करते हैं—इसमे तनिक भी सशय नहीं है
॥४२॥

अमरेश्वरे तु सरिता ये योगाः परिकीर्तिताः ।

ते त्वशीतिसहस्रं स्तु क्षेत्रपालंस्तु रक्षिताः ॥४३

तथामरेश्वरे याम्ये लिगं चंचपलेश्वरम् ।

द्वितीयं चण्डहस्ताख्यं द्वेलिगेतीर्थं रक्षके ॥४४

शिवेन स्थापिते पूर्वं कावेर्याद्यभिरक्षके ।

लक्षेण रक्षिता देवी नर्मदा बहुकल्पगा ॥४५

धनुषां पष्ट्यभियुतैः पुरुषंरोशयोजितैः ।

अकारशतसाहस्रैः पर्वतश्रामिरक्षितः ॥४६

अन्यदेशकृतं पापमस्मिन्क्षेत्रे विनश्यति ।

अस्मिन्स्तीर्थे कृतं पापं व्रजलेपो भविष्यति ॥४७

एषा ते कथिता तात कावेरी सरितां वरा ।

रुद्रदेहसमुत्पन्ना तेन पुण्यासरिद्वरा ॥४८

सरिताओ के अमरेश्वर योग में जो योग कर्तित किये गये हैं वे भस्ती हज़ार क्षेत्रपालों के द्वारा रक्षित होते हैं ॥४३॥ उसी प्रकार से अमरेश्वर के याम्य में चण्डेश्वर लिंग है और दूसरा चण्डहस्त नामक लिंग है । ये दोनों लिंग तीर्थ संज्ञा वाले हैं ॥४४॥ पहिले ही भगवान् शिव के द्वारा कावेरी—आदि के अभिरक्षक ये स्थापित किये गये । यह देवी नर्मदालक्ष के द्वारा रक्षित हुई है जो कि बहुत कल्पों में गमन करने वाली है ॥४५॥ साठ धनुषों से अभियुक्त पुरुषों के द्वारा जो कि भगवान् ईश के द्वारा योजित हैं और सौ सहस्र ओङ्कारों से पर्वत अभिरक्षित होता है । अन्य स्थल में किया हुआ पाप इस क्षेत्र में विनष्ट हो जाया करता है ॥४६॥ इस तीर्थ में समागत होकर जो भी पप किया जाता है वह वज्र लेप हो जाया करता है ॥४७॥ हे तात ! तुम्हारे प्रागे यह समस्त सरिताओ में परम श्रेष्ठ नदी कावेरी का वर्णन किया गया है । यह कावेरी शाक्षात् भगवान् रुद्र के देह से समुत्पन्न हुई है उसी से यह परम पुण्यमयी सरिता परम श्रेष्ठ है ॥४८॥

८६— शूलभेदप्रशंसावर्णन

तीर्थानां परम तीर्थं तच्छृणुष्वनराधिप ।

रेवाया दक्षिणेकूले निर्मितं शूलपाणिना ॥१

भोक्षार्थं मानवेन्द्राणां निर्मितं नृपसत्तम ।

श्रुत्या मे विविधा घर्मास्तीर्थानि विविधानि च ।

दानधर्माः समस्ताश्च त्वत्प्रसादाद् द्विजोत्तम ॥२

अन्यच्च श्रोतुमिच्छामि संसारश्छिद्यते यथा ।

पुनरागमनं नास्ति मोक्षप्राप्तिभवेद्यथा ॥३

एतदाख्याहि मे सर्वं प्रसादाद् द्विजसत्तम ॥४
 शृणुष्वैकमना भूत्वा तीर्यात्तीर्यान्तरं महत् ।
 श्रुते यस्य प्रभावे तु मुच्यते चाब्दिकादघात् ॥५
 वाचिकमनिसर्वापि शारीरेश्च विशेषतः ।
 कीर्तनात्तस्य तीर्थस्य मुच्यते सर्वपातकैः । ६
 पञ्चक्रोशप्रमाणं तु तच्च तीर्थमहीपते ।
 भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं प्राणिनां पापकर्मिणाम् ॥७

महर्षि प्रवर श्रीमार्कण्डेय जी ने कहा हे नराधिप समस्त तीर्थों में जो परम क्षीरोमणि तीर्थ है उसके विषय में अब सावधान होकर श्रवण करिए । इस तीर्थ को साक्षात् भगवान् घूलपाणि ने रेवा नदी के दाहिने तट पर निर्मित किया है ॥१॥ हे नृपों में परम श्रेष्ठ ! इस तीर्थ का निर्माण मानवों के भोजन का सम्पादन करने के लिये ही किया गया है । पुष्यिष्ठिर ने कहा—हे द्विजों में परमोत्तम ! आपकी कृपा से मैंने अनेक धर्म और नाना प्रकार के तीर्थों का ध्वण किया है—तथा समस्त दानों के धर्म भी सुन लिये हैं ॥२॥ हे भगवन् ! अब मैं और भी कुछ ध्वण करने की इच्छा रखता हूँ जिससे इस संसार के जन्म—मरण और वरावर लगे रहने वाले आवागमन का छेदन हो जावे और मरकर पुनः यहाँ पर जन्म ग्रहण कर आगमन न होवे तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करे ॥३॥ हे द्विजों में परम श्रेष्ठ ! आप अपने प्रसाद के रूप में यह सब कुछ मेरे समक्ष में वर्णन कीजिए ॥४॥ श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा— अब आप एकमन होकर तीर्थ से अन्य तीर्थ का ध्वण करिए जो कि परम महान् तीर्थ है जिसके प्रभाव के ध्रुत मात्र से ही वर्ष के अन्ध से मुक्ति प्राप्त करली जाया करती है ॥५॥ वाचिक—मानसिक और शारीरिक समस्त पातकों से विशेष रूप से तीर्थ के कीर्तन करने से छुटकारा पा लिया जाता है ॥६॥ हे महोपते वह तीर्थ पाँच कोश के प्रमाण वाला है । यह तीर्थ पाप कर्मों के करने वाले प्राणियों को समस्त सांसारिक सुखों के उपभोग और मोक्ष दोनों का ही प्रदान करने वाला दिव्य तीर्थ है ॥७॥

रेवाया दक्षिणेकूलेपर्वतोभृगुसञ्जितः ।
 तस्यमूर्ध्नि च तस्तीर्थं स्थापितं चंद्रशम्भुना ॥८
 शूलभेदेतिविख्यातं त्रिपुल्लोकेषुभूपते ।
 तत्रस्थिताश्रये वृक्षास्तोर्याच्च वचतुर्ह्रियम् ॥९
 पतितानीलयं यान्ति रुद्रस्यनाश्रयशयः ।
 मृतास्तत्रैवयेकेचिज्जन्तवो भुवि पक्षिणः ॥१०
 ते यान्तिपरमं लोकं तत्रतीर्थं नशयः ।
 पातालान्निःसृता गंगाभोगवतीतिसञ्जिता ॥११
 निष्क्रान्ता शूलभेदाच्च सर्वपापलयङ्करी ।
 या सा गीर्वाणनाम्नयन्या बहेष्पुण्या महानदी ॥१२
 पतिता कुण्डमध्ये तु यत्र भिन्नं त्रिशूलिना ।
 शम्भुना च पुरा तात उत्पाद्य च सरस्वती ॥१३
 सा तत्र पतिता राज्ञं प्राचीनाघविमोचिनी ।
 भास्वत्या त्रितयं यत्र शिला गीर्वाणसञ्जिता ॥१४

रेवा के दक्षिण तट पर एक भृगु सत्ता वाला पर्वत है । उसके शिखर पर भगवान् शम्भु ने उस तीर्थ की स्थापना की है ॥८॥ हे भूपते ! वह शूलभेद इस नाम से विख्यात है और तीनों लोकों में वेद प्रसिद्ध है । उसमें जा वृक्ष है जो कि उस तीर्थ के चारों दिशाओं में है । वे जब गिरते हैं तो नीचे छत्र के निसर्ग में जाकर प्राप्त हुआ करते हैं—इसमें शयन नहीं है वहाँ पर भूमि में जो भी कोई जंतु एवं पक्षी मृत होते हैं वे सब परम लोक को गमन किया करते हैं उस तीर्थ का यह प्रभाव है— इस में कुछ भी शयन नहीं है । पाताल से निकली हुई गंगा भोगवती— इस सत्ता वाली है ॥९-११॥ यह शूलभेद से निष्क्रान्त हुई है जो कि समस्त पापों के शय करने वाली है । जो अन्य गीर्वाण नाम वाली है वह परम पुण्यमयी महानदी है ॥१२॥ वह कुण्ड के मध्य में पतिता हुई है जहाँ पर शूलपाणि के द्वारा भिन्न की गई है । हे तात ! भगवान् शम्भु ने पहिले सरस्वती सरिता का उत्पादन किया था ॥१३॥ हे राजन् ! यह वहाँ पर पतिता हुई थी जो पुराने—से भी पुराने जमानों में

मुक्त कर देने वाली है । जहाँ पर मीर्वाण सजा वाली शिला है वहाँ सरस्वती के तीर्थ रूप हैं ॥१४॥

सत्र तीर्थं च तत्तीर्थं न भूतं न भविष्यति ।
 केदारञ्च प्रयागञ्च कुरुक्षेत्रं गया तथा । १५
 अन्यानि च सुतीर्थानि कलां नाहन्ति षोडशोम् ।
 पञ्च स्थानानि तीर्थानि पृथग्भूतानि यानि च ॥१६
 वक्ष्यामि च समासेन एकैकं च पृथक्पृथक् ।
 गया नाम्ना यथा पुण्यां चक्रतीर्थं च तत्समम् ॥१७
 धर्मरिष्ये यथा कूप शूलभेदं च तत्समम् ।
 ब्रह्मरूपं यथा पुण्यं देवनद्यास्तथैव च ॥१८
 यथा गयाशिरः पुण्यं सुराणां च यथा शिला ।
 यथा च पुष्करं स्थानं माकण्डहृद् एव च ॥१९
 दत्त्वा पिण्डोदकं तत्र पितृणां च तथाक्षयम् ।
 यस्तत्र कुरुते श्राद्धं तोयं पिवति नित्यशः ॥२०
 मुच्यते सर्वपापैस्तु उरगः कञ्चुकैरिव ।
 अनिन्द्यान्पूजयेद्विप्रान्दम्भक्रोधविवर्जितान् ॥२१

उस तीर्थ में वह तीर्थ ऐसा है जो कभी न हुआ और न भविष्य में होगा । केदार—प्रयाग—कुरुक्षेत्र और गया हैं । अन्य जो सुतीर्थ हैं वे सोलहवीं कला के भी योग्य नहीं हैं । जो पञ्च स्थान तीर्थ हैं और जो प्रथग्भूत हैं उनको एक-एक को पृथक्-पृथक् संक्षेप में बतलाऊंगा । नाभि में गया जिस प्रकार का पुण्यमय तीर्थ है उसी के समान चक्रतीर्थ तीर्थ है ॥१५-१७॥ धर्मरिष्य में जैसा कूप है उसी के समान शूलभेद है । ब्रह्मरूप जैसा पुण्यमय है उसी प्रकार का देवनदी का भी है । जिस प्रकार का गया का शिर पुण्यमय है और सुरों का जिला है । जैसा पुष्कर स्थल है और माकण्ड हृद भी वैसा ही है ॥१८-१९॥ वहाँ पर पितृपण के पिण्डोदक देकर जो वहाँ पर श्राद्ध करता है वह नित्य ही जल का पान किया करता है ॥२०॥ जैसे सर्प अपनी बँजुली से मुक्त हो जाता करता है वैसे ही वह मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता करता

है । जो विप्र निन्दा करने के योग्य न होवे और दम्भ तथा क्रोध से रहित होवे उनकी पूजा करनी चाहिए ॥२१॥

त्रयोदशदिनं दानं त्रयोदशगुणम्भवेत् ।

अर्घ्यचित्तं मुरं दृष्ट्वा गणनायं गजाननम् ॥२२

सर्वे विघ्नाविनश्यन्ति दृष्ट्वा कम्बलक्षेत्रपम् ।

पूजयेत्परया भक्त्या शूलपाणिमहेश्वरम् ॥२३

देवस्य पूर्वभागे तु उमा पूजया प्रयत्नतः ।

साकण्डेशं ततो भक्त्या पूजयेद् गुह्वातिनम् ॥२४

मृच्यन्तेपातके सर्वैरज्ञानज्ञानमञ्चितैः ।

गुहामध्ये प्रविष्टस्तु जपेत्सूक्तं तु ज्यक्षरम् ॥२५

नीलपर्यंतजं पुण्यं पद्मंशिन सभेत सः ।

त्रिनरास्तत्र तिष्ठन्ति सादित्यमर्कतः सह ॥२६

सर्वं देवमयं स्यात्तुंकोटिलिङ्गममुत्तमम् ।

पद्यानदीनदा सर्वे सागरे यान्ति गच्छयन् ॥२७

तथा पाषाणि नश्यन्ति दूतभेदस्य दर्शनात् ।

प्रत्यक्षो दृश्यनेश्यापि प्रलयो ह्यवनीपते ॥२८

पर्व दस दिन का दिया हुआ दान केरु गुवा ही जाया करना है । अर्घ्यपत्रों की विधि हुए गण नाथ गल के समान मुग काने गुरका दर्शन करके तथा कमलेशण प्रभु का देवदेव सभी विघ्न विघ्नोप ह्य से गट हो जाया करते हैं । परमापिब भक्ति की भावना में महेश्वर पूजयापि भक्त्या ही पूजा करनी चाहिए ॥२२-२३॥ देवदेव के पूर्व भाग में प्रयत्न पूर्वक जगदम्बा उमादेवी की पूजा करनी चाहिए । इनके समस्त भक्ति भाव में गुह्यांगी साकण्डेश की अर्पण करे ॥२४॥ दस पूजन के करने में सात तथा अज्ञान के द्वारा मञ्चित गणना पाशों में मानव मुग हो जाया करी है । गुहा के मध्य में प्रविष्ट होकर भयान शूल का जाप करना चाहिए ॥२५॥ यह स्थिति तीन पर्वण से मनुष्य दुःख को पहाग में प्राप्त किया करता है । वही पर साक्षात् करती के साव तीन पर विपद रता करी है ॥२६॥ सा तथा सा पूर्ण देवदेव है और सा विघ्नोप विघ्नो

से युक्त है । जिस प्रकार से सभी नदी और नद सागर में सक्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं उसी भाँति भगवान् शूलभेद के दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाया करते हैं । हे धवनोपते ! आज भी वह प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं और प्रत्यय होता है ॥२७-२८॥

विस्फुलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः ।

द्वितीयःप्रस्थयस्तत्रतैलविन्दुर्न सर्पति । २९

एवं हि प्रस्थयस्तत्र शूलभेदप्रभावजः ।

यः स्मरेच्छूलभेदं तु त्रिकालं नित्यमेव च ॥३०

सपूतश्चभवेत्साक्षात्सवाह्याभ्यन्तरोनृप ।

नकस्यचिन्मयाख्यातं पृष्टोऽहन्निदर्शरपि ॥३१

गुह्याद्गुह्यातरं तीर्थं सदा गोप्यं कृतं मया ।

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदोषघ्नमुत्तमम् ॥३२

सर्वतीर्थंमयं तीर्थं शूलभेदं जनेश्वर ।

श्रुते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसर्वपातकैः ॥३३

शूलभेदं मयातातसक्षेपात्कथितं तव ।

यः शृणोतिनरोभक्त्या मुच्यते सर्वपातकैः ॥३४

स्नान के योग से लिंग के मध्य में विस्फुलिग स्पन्द किया करते हैं ।

दूसरा प्रत्यय है कि वहाँ पर तैल का विन्दु सर्पण नहीं किया करता है

॥२९॥ इस प्रकार से वहाँ पर शूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्न प्रत्यय

होता है । जो पुरुष तीनों कालों में नित्य ही भगवान् शूलभेद का स्मरण

किया करता है हे नृप ! वह बाहिर और भीतर से साक्षात् पूत हो जाया

करता है । यह बात मैंने किसी से भी कही थी यद्यपि देवों के द्वारा भी

मुझ से पूछा गया था ॥३०-३१॥ यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है

अतः मैंने इस तीर्थ को गुप्त ही रखा था । यह सभी प्रकार के पापों का

हरण करने वाला—पुण्यमय—उत्तम और सभी दोषों का हनन करने

वाला ॥ ३२॥ हे जनेश्वर । शूलभेद तीर्थं समस्त तीर्थों से परिपूर्ण

तीर्थ है । इसके प्रभाव का ध्वस्त करने पर ही समस्त पापों से छुटकारा

पा जाया करता है । हे ताव ! यह शूलभेद तीर्थं का वर्णन मैंने तुम्हारे

सामने संक्षिप्त से कर दिया है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़कर करता है वह सभी पातको से मुक्त हो जाया करता है ॥३४॥

८७—कालरात्रिकृतजगत्संहारवर्णन

ततस्त ऋषयः सर्वमहाभागास्तपोधनाः ।

गतास्तुपरमं लोकं ततः किञ्चातमद्भुतम् ॥१

ततस्तेषु प्रयातेषु नर्मदातीरवासिषु ।

यभूव रौद्रसंहार सर्वभूतक्षयकर ॥२

कलासशिखरस्थं तु महादेवं सनातनम् ।

ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृग्यजुः सामभिः शिवम् ॥३

सहरत्वं जगद्देव ! सदेवासुरमानुषम् ।

प्राप्तोयुगसहस्रान्तः कालः संहारप्रथमः ॥४

मद्रूप तु समास्थाय त्वया चतुर्दिनिर्मितम् ।

वैष्णवी मूर्तिमास्थाय त्वयैतत्परिपालितम् ॥५

एका मूर्तिस्थिता जाता ब्राह्मी शैवी च वैष्णवी ।

सृष्टिसंहाररक्षार्थं भवेदेव महेश्वर ! ॥६

एतच्छ्रुत्वावचस्तथ्यविष्णोश्चरपरमेष्ठिनः ।

सगणः सपरीवारा सहताभ्यासहोमया ॥७

सप्तलोकान्धिभिद्येमान्भगवान्नीललोहितः ।

भूराधन्नह्यलोकान्तं भिस्वाऽण्ड परतः परम् ॥८

मुनिष्ठिर ने कहा—इसके अनन्तर महान् नाय्य काले तब ही जिनका धन था वे समस्त ऋषिगण परम लोक को चले गये थे। इसके पश्चात् क्या भद्रभुत घटना हुई थी ? श्री मार्कण्डेय जी ने कहा—इसके धनन्तर उन नर्मदा के तट पर निवास करने वाले लोगों के प्रयाण कर जाने पर फिर समस्त प्राणियों का भयंकर क्षय करने वाला रौद्र संहार हुआ था। प्रह्ला आदि समस्त देवों ने कलास पर्वत की शिखर पर संववस्थित सनातन शिव महादेव का ऋकु, यजु और सामवेदों के द्वारा स्तवन किया

से युक्त है । जिस प्रकार से सभी नदी और नद सागर में सशय को प्राप्त हो जाया करते हैं उसी भाँति भगवान् शूलभेद ने दर्शन करने से सब पाप मष्ट हो जाया करते हैं । हे भवनोपते ! आज भी वह प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं और प्रत्यय होता है ॥२७-२८॥

विस्फुलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः ।

द्वितीयःप्रत्ययस्तत्रतलविन्दुर्न सर्पति । २९

एवं हि प्रत्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः ।

यः स्मरेच्छूलभेदं तु त्रिकालं नित्यमेव च ॥३०

सपूतश्चभवेत्साक्षात्सवाह्याम्यन्तरोनुप ।

नकस्यचिन्मयाख्यातं पृष्टोऽह्निदशोरपि ॥३१

गुह्याद्गुह्यतरं तीर्थं सदा गोप्यं कृतं मया ।

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदोषघ्नमुत्तमम् ॥३२

सर्वतीर्थमयं तीर्थं शूलभेदं जनेश्वर ।

श्रुते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसर्वपातकैः ॥३३

शूलभेदं मयातातसक्षेपात्कथितं तव ।

यः श्रुणोतिनरोभवत्या मुच्यते सर्वपातकैः ॥३४

स्नान के योग से लिंग के मध्य में विस्फुलिंग स्पन्द किया करते हैं । दूसरा प्रत्यय है कि वहाँ पर तल का विन्दु सर्पण नहीं किया करता है ॥२९॥ इस प्रकार से वहाँ पर शूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्न प्रत्यय होता है । जो पुण्य तीनों कालों में नित्य ही भगवान् शूलभेद का स्मरण किया करता है हे नृप ! वह बाहिर और भीतर से साक्षात् पूत हो जाया करता है । यह बात मैंने किसी से भी कही थी यद्यपि देवों के द्वारा भी मुझ से पूछा गया था ॥३०-३१॥ यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है अतः मैंने इस तीर्थ को गुप्त ही रक्खा था । यह सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाला—पुण्यमय—उत्तम और सभी दोषों का हनन करने वाला है ॥३२॥ हे जनेश्वर । शूलभेद तीर्थ समस्त तीर्थों से परिपूर्ण तीर्थ है । इसके प्रभाव का ध्वरण करने पर ही समस्त पापों से छुटकारा पा जाया करता है । हे तात ! यह शूलभेद तीर्थ का वर्णन मैंने तुम्हारे

‘सामने संक्षेप से कर दिया है। जो भी कोई मनुष्य भक्ति भाव से इसे प्रयत्न करता है वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता करता है ॥३४॥

८७—कालरात्रिकृतजगत्संहारवर्णन

ततस्त ऋषयः सर्वमहाभागास्तपोधनाः ।

गतास्तुपरमं लोकं ततः किजातमद्भुतम् ॥१

ततस्तेषु प्रयातेषु नमं वातीरवासिषु ।

बभूव रौद्रसंहार सर्वभूतक्षयकरः ॥२

कैलासशिखरस्थं तु महादेवं सनातनम् ।

ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृग्यन्तुः सामभिः शिवम् ॥३

संहारत्वं जगद्देव ! सदेवासुरमानुषम् ।

प्राप्तोयुगसहस्रान्तः कालः संहारणक्षमः ॥४

मद्रूपं तु समास्थाय स्वया चतद्विनिमित्तम् ।

वैष्णवी मूर्तिभास्थाय त्वयंतत्परिपालितम् ॥५

एका मूर्तिस्त्रिधा जाता ब्राह्मी शंवी च वैष्णवी ।

सृष्टिसंहारश्चार्थं भवेदेवं महेश्वर ! ॥६

एतच्छ्रुत्वावचस्तथ्यविष्णोश्चरपरमेष्ठिनः ।

सगणः सपरीवारः सहताभ्यांसहोमया ॥७

सप्तलोकान्विभिक्ष्येमान्भगवान्नीललोहितः ।

भूराद्यब्रह्मलोकान्तं भित्वाऽण्डं परतः परम् ॥८

मुग्धविर ने कहा—इसके बनन्तर महान् भाग्य वाले तप ही जिनका पन था वे समस्त ऋषियग परम लोक को घले गये थे। इसके पदपान् पया मद्भुत घटना हुई थी ? श्री मार्कण्डेय जी ने कहा—इसके बनन्तर उन नर्मदा के तट पर निवास करने वाले लोगों के प्रयाण कर जाने पर फिर समस्त प्राणियों का भयंकर क्षय करने वाला रौद्र संहार हुआ था। ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने कैलास पर्वत की निम्न पर समवर्षित सनातन निय महादेव वा ऋषु, यन्तु और सामवेदों के द्वारा स्तवन किया

से युक्त है। जिस प्रकार से सभी नदी और नद सागर में सक्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं उसी भाँति भगवान् शूलभेद के दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाया करते हैं। हे धवनोपते ! आज भी वह प्रत्यक्ष दिखलाई देते हैं और प्रत्यय होता है ॥२७-२९॥

विस्फुलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः ।

द्वितीयःप्रत्ययस्तत्रतैलविन्दुन्नं सर्पति ॥२९॥

एवं हि प्रत्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः ।

यः स्मरेच्छूलभेदं तु त्रिकालं नित्यमेव च ॥३०॥

सपूतश्चभवेत्साक्षात्सबाह्याभ्यन्तरोनृप ।

नकस्यचिन्मयाख्यातं पृष्टोऽहन्निदशैरपि ॥३१॥

गुह्याद्गुह्यतरं तीर्थं सदा गोप्यं कृतं मया ।

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदोषघ्नमृत्तमम् ॥३२॥

सर्वतीर्थं मघं तीर्थं शूलभेदं जनेश्वर ।

श्रुते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसर्वपातकैः ॥३३॥

शूलभेदं मयातातसक्षेपात्कथितं तव ।

यः शृणोतिनरोभक्त्या मुच्यते सर्वपातकैः ॥३४॥

स्नान के योग से लिंग के मध्य में विस्फुलिंग स्पन्द किया करते हैं । दूसरा प्रत्यय है कि वहाँ पर तैल का विन्दु सर्पण नहीं किया करता है ॥२९॥ इस प्रकार से वहाँ पर शूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्न प्रत्यय होता है। जो पुरुष तीनों कालों में नित्य ही भगवान् शूलभेद का स्मरण किया करता है हे नृप ! वह बाहिर और भीतर से साक्षात् पूत हो जाया करता है। यह बात मैंने किसी से भी कही थी यद्यपि देवों के द्वारा भी मुझ से पूछा गया था ॥३०-३१॥ यह गोपनीय से भी अविश गोपनीय है अतः मैंने इस तीर्थ को गुप्त ही रखा था। यह सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाला—पुण्यमय—उत्तम और सभी दोषों का हनन करने वाला है ॥३२॥ हे जनेश्वर ! शूलभेद तीर्थं सर्वदोषघ्नं कृतं मे परिपूर्णं तीर्थं है। इसके प्रभाव का ध्वण करने पर ही समस्त पापों से छुटकारा पा जाया करता है। हे तात ! यह शूलभेद तीर्थ का वर्णन मैंने तुम्हारे

सामने संशय से कर दिया है । जो भी कोई मनुष्य भक्ति भाव से इसे ध्वण करता है वह सभी पातको से मुक्त हो जाया करता है ॥३४॥

८७—कालरात्रिकृतजगत्संहारवर्णन

ततस्त ऋषयः सर्वमहाभागास्तपोधनाः ।
 गतास्तुपरमं लोकं ततः किष्णातमद्भुतम् ॥१
 ततस्नेपु प्रयातेषु नमं वातीरवासिषु ।
 बभूव रौद्रसंहार सर्वभूतक्षयकरः ॥२
 कैलासशिखरस्थं तु महादेवं सनातनम् ।
 ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृग्यजुः सामभिः शिवम् ॥३
 सहरत्वं जगद्देव ! सदेवासुरमानुषम् ।
 प्राप्तोद्युगसहस्रान्तः कालः संहारक्षमः ॥४
 मद्रूप तु समास्थाय त्वया चंतद्विनिमित्तम् ।
 वैष्णवी मूर्तिमास्थाय त्वयैतत्परिपालितम् ॥५
 एका मूर्तिस्त्रिधा जाता ब्राह्मी शंवी च वैष्णवी ।
 सृष्टिसंहारक्षयार्थं भवेदेव महेश्वर ! ॥६
 एतच्छ्रुत्वावचस्तथ्यविष्णोश्चरपरमेष्ठिनः ।
 सगणः सपरीवारः सहनाम्यासहोमया ॥७
 सप्तलोकान्विभिद्येमान्भगवान्नीललोहितः ।
 भूराद्यब्रह्मलोकान्तं भित्वाऽण्डं परतः परम् ॥८

मुघिष्ठिर ने कहा—इसके अनन्तर महान् भाग्य वाले तप ही जिनका धन था वे समस्त ऋषिगण परम लोक को चले गये थे । इसके पश्चात् यथा अद्भुत घटना हुई थी ? श्री मार्कण्डेय जी ने कहा—इसके अनन्तर उन नर्मदा के तट पर निवास करने वाले लोगों के प्रयाण कर जाने पर फिर समस्त प्राणियों का भयंकर क्षय करने वाला रौद्र संहार हुआ था । ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने कैलास पर्वत की शिखर पर समवस्थित सनातन शिव महादेव का ऋक्, यजु और सामवेदों के द्वारा स्तवन किया

से युक्त है । जिस प्रकार से सभी नदी और नद सागर में सक्षय को प्राप्त हो जाया करते हैं उसी भाँति भगवान् शूलभेद के दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाया करते हैं । हे भवनोपते ! आज भी वह पर्यक्ष दिखलाई देते हैं और प्रत्यय होता है ॥२७-२८॥

विस्फुलिगालिगमध्येस्पन्दन्तेस्नानयोगतः ।

द्वितीयःप्रत्ययस्तत्रतलविन्दुन्नं सर्पति ॥२९

एवं हि प्रत्ययस्तत्र शूलभेदप्रभावजः ।

यः स्मरेच्छूलभेद तु त्रिकालं नित्यमेव च ॥३०

सपूतश्चभवेत्साक्षात्सबाह्याभ्यन्तरोनुप ।

नकस्यचिन्मयाख्यातं पृष्टोऽह्निदशोरपि ॥३१

गुह्याद्गुह्यतरं तीर्थं सदा गोप्यं कृतं भया ।

सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदोषघ्नमृत्तमम् ॥३२

सर्वतीर्थं मयं तीर्थं शूलभेदं जनेश्वर ।

श्रुते यस्य प्रभावेतुमुच्यतेसर्वपातकैः ॥३३

शूलभेदं मयातातसक्षेपात्कथितं तव ।

यः श्रुणोतिनरोभक्त्या मुच्यते सर्वपातकैः ॥३४

स्नान के योग से लिंग के मध्य में विस्फुलिग स्पन्द किया करते हैं । दूसरा प्रत्यय है कि वहाँ पर तैल का बिन्दु साँण नहीं किया करता है ॥२९॥ इस प्रकार से वहाँ पर शूलभेद के प्रभाव से समुत्पन्न प्रत्यय होता है । जो पुरुष तीनों कालों में नित्य ही भगवान् शूलभेद का स्मरण किया करता है हे नृप ! वह बाहिर और भीतर से साक्षात् पूत हो जाया करता है । यह बात मैंने किसी से भी कही थी यद्यपि देवों के द्वारा भी मुझ से पूछा गया था ॥३०-३१॥ यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है अतः मैंने इस तीर्थ को गुप्त ही रक्खा था । यह सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाला—पुण्यमय—उत्तम और सभी दोषों का हनन करने वाला है ॥३२॥ हे जनेश्वर ! शूलभेद तीर्थं समस्त तीर्थों से परिपूर्ण तीर्थ है । इसके प्रभाव का श्रवण करने पर ही समस्त पापों से छुटकारा पा जाया करता है । हे तप्त ! यह शूलभेद तीर्थं का वर्णन मैंने तुम्हारे

सामने सशेष से कर दिया है । जो भी कोई मनुष्य भक्ति भाव से इसे ध्वण करता है वह सभी पातको से मुक्त हो जाता करता है ॥३४॥

८७—कालरात्रिकृतजगत्संहारवर्णन

ततस्त ऋषयः सर्वे महाभागास्तपोधनाः ।
 गतास्तु परमं लोकं ततः किंजातमद्भुतम् ॥१
 ततस्नेपु प्रयातेषु नमंदातीरवासिषु ।
 वभूव रौद्रसंहार सर्वभूतक्षयकरः ॥२
 कैलासशिखरस्थं तु महादेवं सनातनम् ।
 ब्रह्माद्याः प्रास्तुतन्देवमृग्यजुः सामभिः शिवम् ॥३
 सहरत्वं जगद्देव ! सदेवासुरमानुषम् ।
 प्राप्तीयुगसहस्रान्तः काला संहारशक्षमः ॥४
 मद्रूप तु समास्थाय त्वया चंतद्विनिर्मितम् ।
 वंष्णवी मूर्तिमास्थाय त्वर्यंतत्परिपालितम् ॥५
 एका मूर्तिस्त्रिधा जाता ब्राह्मी शंवी च वंष्णवी ।
 सृष्टिसंहारकृतार्थं भवेदेव महेश्वर ! ॥६
 एतच्छ्रुत्वावचस्तथ्याविष्णोश्चरपरमेष्ठिनः ।
 सगणः सपरीवारः सहनाभ्यासहोमया ॥७
 सप्तलोकान्विमिद्येमान्भगवान्नीललोहितः ।
 भूराद्यब्रह्मलोकान्तं भित्वाऽण्डं परतः परम् ॥८

मुनिगिरी ने कहा—इसके अनन्तर महाद् प्राग्य वाले तप ही जिनका धन था वे समस्त ऋषिगण परम लोक को चले गये थे । इसके पश्चात् क्या अद्भुत घटना हुई थी ? श्री मार्कण्डेय जी ने कहा—इसके अनन्तर उन नमंदा के तट पर निवास करने वाले लोगों के प्रयाण कर जाने पर फिर समस्त प्राणियों का भयंकर क्षय करने वाला रौद्र संहार हुआ था । ब्रह्मा आदि समस्त देवों ने कैलास पर्वत की शिखर पर समवस्थित सनातन दिव्य महादेव का ऋचु, यजु और सामवेदों ने द्वारा स्तवन किया

था । हे देव ! आप इस सम्पूर्ण जगत् का जिसमे देव—प्रसुर और मनुष्य सभा हैं संहार कीजिए क्योंकि अब एक सहस्र युगो का अन्तकाल प्राप्त हो गया है जो कि संहार करने मे समर्थ है । आपने ही मेरे स्वरूप को धारण करके इस जगत् का सृजन किया था फिर वैष्णवी मूर्ति को धारण करके अर्थात् विष्णु के स्वरूप से इस जगत् का आपने ही परिपालन किया था । आप ही ही एक मूर्ति ब्राह्मी वैष्णवी और शैवी तीन प्रकार की हो गई थी । हे महेश्वर ! आपने जगत् की सृष्टि, रक्षा और संहार करने के ही लिए ऐसा किया है । इस परमेशी और भगवान् विष्णु के तथ्य वचन का श्रवण करके अपने गणो के साथ तथा उन दोनों के सहित और उमा देवी के साथ नील लोहित भगवान् ने इन सातों लोको का विभेद किया था । भू से आदि लेकर ब्रह्म लोको के अन्त तक पर से पर अण्ड का विभेदन कर दिया था ॥१-८॥

शैव पदमज दिव्यमात्रिशत्सह तैविभुः ।

न तत्र वायुर्नाकाशनाग्निस्तत्र न भूतलम् ॥६

यत्र सतिष्ठते देव उमया सह शंकरः ।

न सूर्यो न ग्रहास्तत्र न ऋक्षाणिदिशस्तथा ॥१०

न लोकपाला न सुख न च दुःख नृपोत्तम ! ॥११

ब्राह्मं पदं यत्कवयो वदन्तिशर्वं पदं यत्कवयो वदन्ति ।

क्षेत्रजमीशप्रवदन्तिन्नान्येसारयाश्चगायन्तिकिलादिमोक्षम् ॥१२

यद्ब्रह्म भाद्यं प्रवदन्ति केचिद्य सर्वंभीशःनमजं पुराणम् ।

तमेकरूपं तमनेकरूपमरूपमाद्यं परमव्ययाख्यम् ॥१३

अवर्णमप्यर्थमनामगोत्रं तुर्यं पदं यत्कवयो वदन्ति ।

ध्यानाय विज्ञानमयं सुसूक्ष्ममात्मस्थमीशानवर वरेण्यम् ॥१४

यह विष्णु परम दिव्य—अज शैव पद मे उनके साथ प्रवेश कर गये ।

यहाँ पर न वायु है—न आकाश है और न अग्नि तथा भू तल ही है

जहाँ पर न सूर्य देव होकर उमादेवी के साथ स्थित रहा करते हैं । यहाँ सूर्य

ग्रह ऋदा और दिशाएँ कुछ भी नहीं है । हे नृपोत्तम ! यहाँ पर न तो

कोई लोकपाल ही है और न कोई गुण एवं दुःख ही है । जितना कवि-

गण ब्राह्म पद कहा करते हैं और कवि उसे शैव पद भी कहते हैं । अन्य लोग उसी को क्षेत्रज्ञ ईश कहते हैं तथा साध्य लोग उसी को आदि मोक्ष कहकर पुकारा करते हैं । कुछ लोग उसको आद्य ब्रह्म कहते हैं जिसको सर्व—ईशान—भज और पुराण भी कहते हैं । उसको एक ही रूप वाला—अनेक रूपों से युक्त—बिना रूप वाला—आद्य—परम और अव्यय नाम वाला—भक्तों भी अर्थ—अनाम—अगोत्र—तुल्य पद कवि लोग कहते हैं । ध्यान के लिए विज्ञानमय—सुसूक्ष्मस्थ—ईशान वर और वरेण्य भी कहते हैं ॥९-१४॥

ततस्त्रयस्ते भगवन्ततोशं सम्प्राप्य सक्षिप्य भवन्त्यर्थकम् ।
 पृथक्स्वरूपंस्तु पुनस्त एव जगत्समस्तं परिपालयन्ति ॥१५
 सहारं सर्वभूतानां ह्रदस्वे कुरुते प्रभुः ।
 विष्णुत्वे पालयेत्लोकान्ब्रह्मत्वे सृष्टिकारकः ॥१६
 प्रकृत्या सह संयुक्तः कालो भूत्वा महेश्वरः ।
 विश्वरूपा महाभागा तस्य पार्श्वे व्यवस्थिता ॥१७
 यामाहुः प्रकृतिं तज्ज्ञाः पदार्थानाविचक्षणाः ।
 पुरुषत्वेप्रकृतित्वे च कारणं परमेश्वरः । १८
 तस्मादेतज्जगत्सर्वं तद्गुद्भूतं चराचरम् ।
 तस्मिन्नेवलयं याति युगान्ते समुपस्थिते ॥१९
 भगलिङ्गाकितं सर्वं व्याप्तं च परमेष्ठिना ।
 भगरूपो मवेद्विष्णुलिङ्गरूपो महेश्वरः ॥२०
 भाति सर्वं पु लोकेषु गीयते भूर्भुवादिषु ।
 प्रविष्टः सर्वभूतेषुतेनविष्णुभग स्मृतः ॥२१

इसके उपरान्त वे तीनों देव एक ही ईश भगवान् को प्राप्त करके और मिलकर सक्षिप्त हो जाते हैं । वे ही फिर पृथक् स्वरूपों से युक्त होकर इस सम्पूर्ण जगत का परिपालन किया करते हैं । प्रभु सर्वभूतों के सहार को ह्रदत्व में करते हैं । विष्णुत्व के रूप में लोकों का पालन करते हैं और ब्रह्मत्व रूप में सृजन का कार्य किया करते हैं । प्रकृति के माय संयुक्त महेश्वर बाल होकर स्थित रहते हैं । विश्वरूपा महाभागा उसी के पार्श्व

में व्यवस्थित रहा करती है। उसके ज्ञाता विचक्षण लोग पदार्थों के जानने वाले जिसको प्रकृति कहते हैं। पुरुषत्व के स्वरूप में तथा प्रकृतित्व के रूप में परमेश्वर ही एक कारण है। उससे ही यह सम्पूर्ण चर और अचर जगत् उत्पन्न हुआ है और युग के अन्त के उपस्थित होने उसी में परलय होजाता है। परमेष्ठी के द्वारा यह समस्त भगलिंग से अकित व्याप्त हो रहा है। भगरूप भगवान् विष्णु हैं और लिंग रूप महेश्वर हैं सब लोकों में ही दीप्तिमान् होते हैं और भूभुवादि में गान किये आते हैं। समस्त भूतो में प्रविष्ट हैं इसी कारण से विष्णु भग कहे गये हैं ॥१५-२१॥

विशनाद्विष्णुरित्युक्तः सर्वदेवमयो महाम् ।

भासनाद्गमनाञ्चवभगसञ्जाप्रकीर्तिता ॥२२

ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं यस्मिन्नेतिलयं जगत् ।

एकभावं समापन्नं लिंगं तस्माद्विदुर्बुधाः ॥२३

महादेवस्ततो देवीमाह पार्श्वं स्थितां तदा ।

सहरस्व जगत्सर्वं मा विलम्बस्व शोभने ! ॥२४

त्यज सौम्यमिदं रूपं सितचन्द्रांशुनिर्मलम् ।

रौद्ररूपं समास्थायसंहरस्व चराचरम् । २५

रौद्रं भूतगणैर्घोरैर्देवि त्वं परिवारिता ।

जीवलीकमिमं सर्वं भक्षयस्वाम्बुजेक्षणे ॥२६

ततोऽहं मदं विष्यामि प्लावयिष्ये तथा जगत् ।

कृत्वा चंकारणं वं भूयः सुखं स्वप्स्ये त्वया सह ॥२७

सर्व देवों से परिपूर्ण विष्णु विशान होने से ही विष्णु इस तरह नाम से कहे गये हैं। भासन होने और गमन होने से ही "भग" यह संज्ञा कीर्तित हुई है। ब्रह्मा से आदि लेकर स्तम्ब पर्यन्त यह जगत् जिसमें लय का प्राप्त होता है। एक भाव को समापन्न हो गया है इसीलिये बुध लोग इसे लिंग कहा करते हैं। इसके अनन्तर उस समय में महादेव ने पार्श्व भाग में स्थित देवी में कहा था—हे शोभने ! इस सम्पूर्ण जगत् का संहार करो और अब विलम्ब मत करो। अब सित चन्द्र की किरणों से निर्मल इस सौम्य स्वरूप का त्याग कर दो और महान् रौद्र स्वरूप से समास्थित

होकर इस जड़-जङ्गम चराचर जगत् का संहार कर डालो । हे देवि ! परम घोर रौद्र रूप वाले भूतो के गणों से आप परिवारित होती हुई हे अम्बुजेक्षणो । इस समस्त जगत् का भक्षण कर डालो । इसके पश्चात् मैं मर्दन कर डालूँगा और इस सम्पूर्ण जगत् को प्लावित कर डालूँगा सबको एकाएक व से युक्त करके फिर तुम्हारे साथ मे सुखपूर्वक शयन करूँगा ॥२२-२७॥

नाहं देवजगच्चैतत्संहरामि महाद्युते ।

अम्बा भूत्वा विचेष्टं न भक्षयामिभृशतुरम् ॥२८

स्त्रीस्वभावेन कारुण्यं करोति हृदय मम ।

कथं वै निदहिष्यामिजगदेतज्जगत्पते ॥२९

तस्मात्त्वं स्वयमेवेदं जगत्संहर शंकर ! ।

अथैवमुक्तस्तां देवी धूर्जटिर्नीललोहितः ॥३०

क्रुद्धो निर्भत्संयामास हु कारेण महेश्वरोम् ।

ॐ हुंफट् त्वं स इत्याह कोपाविष्टैर्येक्षणैः ॥३१

हुंकारिताविशालाक्षीपीनोरुजघनस्यला ।

तत्क्षणाच्चामभवद्रौद्राकालरात्रीवभारत ॥३२

हुं कुर्वती महानादैर्नादयन्ती दिशोदश ।

व्यवर्धतमहारीद्रा विद्युत्सोदामिनीयथा ॥३३

विद्युत्सम्पातदुष्प्रेक्ष्या विद्युत्संघातचञ्चला ।

विद्युज्ज्वालाकुला रीद्रा विद्युदग्निनिभेक्षणा ॥३४

मुक्तकेशी विशालाक्षीकृशश्रीवा कृशोदरी ।

व्याघ्रचर्माम्बरधराव्यालयज्ञोपवीतिनी ॥३५

श्री देवी ने कहा—हे महाद्युते ! हे देव ! मैं इस सम्पूर्ण जगत् का संहार नहीं करती हूँ । मैं अम्बा होकर विगत चेष्टा वाले और घट्यन्त घातुर का भक्षण कभी नहीं कर सकती हूँ । मैं स्त्री स्वभाव वाली हूँ मेरे हृदय मे कारुण्य होना है । हे जगत्पते ! मैं कैसे जगत् की अम्बा होती हुई इस जगत् का निदहन करूँगी । इसलिए आप ही स्वयं हे शङ्कर ! इस समस्त जगत् के संहार का कार्यं कीजिये । इसके अनन्तर इस प्रकार से

देवी के द्वारा कहे हुए घूर्जटि नीललोहित प्रभु ने अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस देवी को निभस्सित किया था और महेश्वरी को हुंकार के द्वारा फटकार दी थी । उनसे 'तुम्हें हुंकार'—यह कहा था । कोप से समाविष्ट नेत्रों के दृष्टि वालों के द्वारा वह पीन रुद्र और जघन स्थल वाली विशालाक्षी देवी हुंकारित हुई थी । हे भारत ! उसी क्षण में वह परम रौद्रा काल रात्रि के समान हो गई थी । वह देवी महान् नादों से हुम् हुम् करती हुई घोर दशों दिशाओं को घ्वनित करने वाली विद्युत् सौदामिनी की भाँति महारौद्र रूप वाली होकर बढ गई थी । विद्युत् के सम्पात के ही समान वह दुष्प्रेक्षणोय थी तथा विद्युत् के संघात के समान क्षणला थी । विद्युत् के समान ही ज्वालामुखी से समाकुल और विद्युत् की अग्नि के तुल्य नेत्रों वाली रौद्र रूप वाली हो गई थी । युक्त केशों वाला उसका स्वरूप था । उस देवी के नेत्र परण विशाल थे—प्रोवा कृश थी और वह कृश उदर वाली थी । वह उस समय में व्याघ्र के घर्म की अम्बर वाली थी तथा व्यालो के यज्ञोपवीत को धारण करने वाली थी ॥२८-३५॥

वृश्चिकैरग्निपुञ्जाभैर्गोनसैश्च विभूषिता ।
 त्रैलोक्यपूरयामासविस्तरेणोच्छ्रयेण च ॥३६॥
 भासुराङ्गा तु सम्वृत्ता कृष्णसर्पैककुण्डला ।
 चित्रदण्डोद्यतकरा व्याघ्रचर्मोपसेविता ॥३७॥
 व्यषर्धनमहारौद्राजगत्सहारकारिणी ।
 सृक्लिणीलेलिहानाचक्रूरफूत्कारकारिणी ॥३८॥
 व्यात्तास्या घुर्षुरारावा जगत्सङ्क्षोभकारिणी ।
 सेलद्भूतानुगा क्रूरा निश्रामोच्छ्रासकारिणी ; ३९॥
 जाताट्टहासादुर्नासावह्लिकुण्डसमेक्षणा ।
 प्रोद्यत्किलकिलारावाददाहसकलजगत् ॥४०॥
 दह्यमानाः सुरास्तत्र पतन्ति घरणीवले ।
 पतन्ति यक्षगन्धर्वाः सकिन्नरमहोरगाः ॥४१॥

पतन्ति भूतङ्क्षपाश्च हाहाहैहैविराविणः ।

बुभ्यापार्तः सनिर्घातैरुदितातंस्वरंरपि ॥४२

अग्नि के पुत्र के समान आभा वाले वृश्चिकों (विन्दुभो) से घोर गौनगो से विभूषित थी । उस देवी ने अपने विस्तार से घोर उन्मुक्त से सम्पूर्ण त्र लोभय को पूरित कर दिया था । वृष्ण सर्पों के कुण्डलों को धारण करने वाली वह भामुर घड़ों वाली ही गई थी । कर में चित्र दण्ड धारण कर उद्यत हुई व्याघ्र के चर्म से सम्पुणेवित थी । वह देवी महारौद्र स्वरूप वाली समस्त जगत के संहार करने वाली बड़ गई थी । उस समय में वह देवी जीभ से मृक्कण्डियों (मुग के दोनों किनारों की) घाटती हुई और बहुत क्रूरता से प्रस्वार करने वाली थी । देवी ने अपने मुक्त को फँसा लिया था—पुष्टं राय करने वाली—मन्मूर्छं जगत् के सदाभ को करने वाली थी घोर उसके अनुग भुव उसके पीछे गेन कर रहे थे—बहुत ही क्रूर स्वभाव वाली तथा निःश्वासी और उन्मुक्तगों की करने वाली थी । वह अट्टहास करने वाली—बहुत घुरी नासिका से मुक्त घोर अग्नि के मुष्ट के तुम्ब जाज्वलमान नेत्रों वाली थी । बिन्दु किला धारण करती हुई वह घड़ी ही अधिक ध्वनि के साथ मन्मूर्छं जगत् को दण्ड कर रही थी । तमरक गुरगण दक्षमान होकर परती तन पर गिर गये थे । मश-गर्भ-विन्दर और महोरम गमो दण्ड होजे हुए भूमि तन पर गिर रहे थे । हा हा-है है—ध्वनि करते हुए भूतों के संप भी पतित हो रहे थे जो कि बुभ्यापारत—निर्घात—रुदिता घोर घातं स्वरो से मुक्त थे ॥३९-४२॥

व्याप्तमासीत्तदा विश्वं त्रैलोक्यं मनराचरम् ।

मन्मूर्च्छादिभः पनर्दिभश्च ज्वलद्भूतगर्भमंही ॥४३

जातैरुदन्तवटानन्दैः पादिभिर्गिरिसानुभिः ।

तत रोद्रोत्पत्ते जातारुद्रानन्दविवर्धिनी ॥४४

विहिगमानाम्भूतानिचवंमानाचरानपि ।

उत्तद्गन्धमुपादाय गिरारावविराविणो ॥४५

गलच्छोणितघाराभिमुखादिग्धकलेवरा ।

चण्डशीलाऽभवच्चण्डीजगतसंहारकर्मणि ॥४६

येऽपि प्राप्ता महर्लोकं भृग्वाद्याश्च महर्षयः ।

तेऽपि नश्यन्ति शतशो ब्रह्मक्षत्रविशादयः ॥४७

देवासुराभयत्रस्ताः सयक्षोरगराक्षसाः ।

विशन्तिकेऽपिपातालं लीयन्ते चगुहादिषु ॥४८

सा च देवी दिशः सर्वा व्याप्य मृत्युरिव स्थिता ।

युगक्षयकरे काले देवेन विनियोजिता ॥४९

उस समय मे सम्पूर्ण दिश्व और चर अचर से युक्त समस्त त्रैलोक्य व्याप्त था । यह महीतल जलते हुए गिरते हुए और सम्पतन झील भूत-गणों से व्याप्त हो गया था । 'चर चर' ध्वनि के साथ गिरकर टूटने वाली पर्वतों की शिखरों से पूर्ण यह मही उस रौद्रोत्सव मे भगवान् रुद्र के आनन्द को बढ़ाने वाली हो गई थी । समस्त भूतों की विशेष रूप से हिंसा करती हुई और चर जीवों का चर्वण करने वाली उस गन्ध को प्राप्त कर रावा विराविणौ अर्थात् भयंकर ध्वनि करने वालों—फैले हुए खदिर की धाराओं से युक्त मुख वाली तथा समस्त दिग्ध कलेवर वाली वह शिवा चण्डख' भाष से युक्त इस जगत के सहार कर्म मे साक्षात् चण्डी हो गई थी । जो भृगु आदि महर्षि गण महालोक को प्राप्त हो गए थे वे भी सँकड़ो ही ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य आदि सब नष्ट भ्रष्ट हो रहे थे । महान् भय से डरे हुए देव और असुर यक्ष—उरग और राक्षसों के सहित कुछ ठो पाताल लोक मे प्रवेश करने लगते हैं और कुछ गुफा आदि स्थलों मे जाकर छिप रहे थे । वह देवी समस्त दिशाओं मे व्याप्त होकर साक्षात् मृत्यु की ही भाँति स्थित हो गई थी । उस युग के क्षय करने वाले काल मे वह देवी महादेवजी के द्वारा विशेष रूप से नियोजित की गई थी ॥४३-४९॥

एकापि नवधा जाता दशधा दशधा तथा ।

चतु पष्टिस्वरूपा च शतरूपाट्टहासिनी ॥५०

जज्ञे सहस्ररूपाचलक्षकोटितनुः शिवा ।
 नानारूपायुधाकारानानावादानचारिणी ॥५१
 एवंरूपाऽभवद्देवीशिवस्यानुज्ञया नृप ! ।
 दिधु सर्वासु गगने विकटायुषशीलिनः ॥५२
 रुन्धन्तो नश्यमानास्तान्गणा माहेश्वराः स्थिताः ।
 विचरन्ति तथा साद्धं शूलपट्टिशपाणयः ॥५३
 ततो मातृगणाः केचिद्विनायकगणैः सह ।
 व्यवधन्त महारौद्राजगत्संहारकारिणः ॥५४
 ततस्तस्या व्यवधन्त दष्ट्राः कुन्देन्दुमन्त्रिभा ।
 योजनानां सहस्राणि अयुतान्यर्बुदानि च ॥५५
 दष्ट्रावलिः कररुहाः क्रूरास्तीक्ष्णाश्च कर्कशाः ।
 वियददिशो लिखन्त्येव सप्तद्वीपा यमुन्धराम् ॥५६

वह एक ही देवी नौ प्रकार की बन गई थी और वह एक-एक दश-दश-दश रूपों में हो गई थी । चौपठ स्वरूपों वाली वह क्षत्ररूपा और अट्टहाम करने वाली थी । फिर वह सहस्र स्वरूपों वाली हो गई और वह शिवा लक्ष कोटि शरीरों के धारण करने वाली बन गई थी । उस महादेवी के अनेक रूपों वाले आयुध थे जिनके विविध प्रकार थे तथा वह नाना भाँति से वादनो के करने वाली हो रही थी । हे नृप ! उस समय मे भगवान् शिव अनुज्ञा से इस प्रकार के विचित्र रूपों वाली बन गई थी । आकाश में सभी दिशाओं में निकट आयुधों के धारण करने वाले महेश्वर के गण नश्यमान उन सबको रुन्धित करते हुए स्थित थे । शूल-पट्टिश हथियारों को ग्रहण करके उसी देवी के साथ वे सब गए विचरण पर रहे थे । इसके अनन्तर कुछ मातृगण विनायक के गणों के सहित महान् रौद्र रूप वाले इस जगत के संहार करने वाले बढ़ गये थे । इसके पश्चान् उस देवी की दाढ़ें बढ़ गई थीं जो कुन्द के पुष्प और चन्द्र के तुल्य श्वेत थीं । वे इतनी अधिक बढ़कर हो गई थीं जो सहस्रो—अयुतों और अर्बुदों योजन सम्बन्धी थीं । उस देवी की दाढ़ों की पंक्ति और

नाखून महान् क्रूर—तीक्ष्ण तथा कर्कश ये जो आकाश—दिशाएँ तथा सात द्वीपों वाली पृथ्वी पर मानो लेखन-सा कर रहे हों ॥१०-५६॥

तस्यादंष्ट्राभिसम्पातैश्चूर्णितावनपर्वताः ।

शिलासञ्चयसंघाताविशीर्यन्तेसहस्रशः ॥५७

हिमवान्हेमकूटश्च निषधो गन्वमादनः ।

माल्यवांश्चैवनीलश्च श्वेतश्चैव महागिरिः ॥५८

मेरुमध्यमिलापीठं सप्तद्वीपं च साणं वम् ।

लोकालोकेन सहितं प्राकम्पत नृपोत्तम ! ॥५९

दंष्ट्राशनिविस्पृष्टाश्च विशीर्यन्ते महाद्रुमाः ।

उत्पातैश्च दिशो व्याप्ताघोररूपैः समन्ततः ॥६०

तारा ग्रहगणाः सर्वे ये च चैमानिका गणाः ।

शिवासहस्रं राकीर्णां महामातृगणैस्त्वया ॥६१

सा चचार जगत्कृत्स्नं युगान्ते सद्युपस्थिते ।

भ्रमद्भिश्च त्रुब्दिभश्च क्रोशद्भिश्च समन्ततः ॥६२

प्रमथद्भिर्ज्वलद्भिश्च रौद्रैर्व्याप्तादिशोदश ।

विस्तीर्णं शैलसंघातं विघूर्णितगिद्भिर्द्रुमम् ॥६३

प्रभिन्नगोपुरद्वारं केशशुष्कास्थिसंकुलम् ।

प्रदग्धग्रामनगरं भस्मपुञ्जाभिसम्भृतम् ॥६४

चिताधूमाकुलं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् ।

हाहाकाराकुलं सर्वं महह्रस्वननिस्वनम् ॥६५

जगदेतदभूत्सर्वं मशरप्यं निराधयम् ॥६६

उस चण्डी देवी की दाढ़ों के अभि सम्पातों के समस्त वन—पर्वत एक दम चूर्णित हो गये थे । सहस्रो शिलाओं के संघात जो कि संचित स्वरूप मे एकत्रित थे विशीर्यं हो गये थे । हे नृपोत्तम ! वह ऐसा भीषण संहार का काल होता है कि उसमे हिमवान्—हेमकूट—निषध—गन्व मादन—माल्यवापन—श्वेतगिरि—स्वेट गिरि—महागिरि—मेरु पर्वत मध्य—रत्नापीठ और अणुर्वीं सहित साम द्वीप तथा लोकालोक के सहित समके सब प्रकाशित हो गये थे । दाढ़ ह्यी भयनि (बच्च) से स्पर्श होते

ही महान् द्रुम भी विशील हो जाते थे । चारों ओर में घोर हूपो वाले उत्पातो से सभी दिशाएँ व्याप्त हो गई थी । तारा मण्डल-ग्रहगण और जो समस्त वैमानिक गण थे अर्थात् विमानो पर स्थित रहने वाले थे वे सब सहस्रो शिवाघो और मातृगणो से समाकीर्ण हो गये थे । उस युग के अन्त काल के समुपस्थित होने पर सम्पूर्ण जगत में वह विचरण करती थी । दश दिशायें भ्रमणशोल—घोलने वाले—चीखने वाले—प्रमथन करने वाले और जन्ते हुए रौद्रो से व्याप्त हो गई थी । शैलो का सधान जहाँ पर विस्तीर्ण हो रहा था—गिरि—और द्रुम जिसमें विचूर्णित हो गए थे—गो पुर द्वार जिसमें विबीर्ण हो गये थे—जो केश एव शुष्क अस्थियो से सकुल हो गया था—जिसमें ग्राम और नगर जल भुनकण नष्ट हो गये थे—जो राक्ष के डेरो से अभिसकृत था, जहाँ पर चिताघो की धू धाँ भरी हुई थी ऐमा सम्पूर्ण चराचर त्रैलोक्य हो गया था । सर्वत्र हा हाकार से आकुनता थी और सभी जगह 'अहह' इस ध्वनि की परिपूणता थी । इस प्रकार से सम्पूर्ण जगत निराश्रय अरण्य के ही तुल्य बन गया था ॥५७-६६॥

८८ —सृष्टिसंहरणसंरम्भवर्णन

ततो मातृसहस्रंश्च रौद्रंश्च परिवारिता ।
 कालरात्रिर्जगत्सर्वं हरते दीप्तलोचना ॥१॥
 ततस्ता मातरो घोरा ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाः ।
 वाय्विन्द्रानलकीवेरा यमनीयेशशक्तयः ॥२॥
 स्कन्दक्रोडनृसिंहाना विचरन्त्यो भयानकाः ।
 चक्रशूलगदाखड्गवज्रशक्त्यष्टिपट्टिशाः ॥३॥
 खट्वाङ्गस्त्रिपुङ्गुर्दीप्तव्यचरन्मातरक्षये ।
 उमासंनोदिताःसर्वाप्रधावन्त्योदिशोदश ॥४॥
 तासाचरणविक्षेपेर्हुङ्कासोद्गारनिस्वनः ।
 त्रैलोक्यभेतस्तकल विप्रदग्ध समन्ततः ॥५॥

हाहारवाक्रन्दितनिस्वनैश्च प्रमिन्नरथ्यागृहगोपुरैश्च ।
 वभूव घोरा धरणी समन्तात्कपालकेशाकुलकबुं राज्ञी ॥६॥
 यदेतच्छतसाहस्रं जम्बूद्वीपं-निगद्यते ।
 सर्वमेव तदुच्छन्नं समाघृश्य नृपोत्तम ॥७॥

श्री मार्कण्डेयजी ने कहा—इसके पश्चात् सहस्री मातृगणों के तथा रौद्रों से परिवारित उस काल रात्रि ने जिसके बहुत ही प्रलोचन थे सम्पूर्ण जगत् का संहरण किया । इसके पश्चात् उन परम घोर रूपों वाली मातृकामों ने जो ब्रह्मा—विष्णु और शिव के स्वरूप वाली थीं तथा वायु—इन्द्र—मनल और कुबेर के रूप वाली थीं तथा यम और वरुण को गरित से सम्पन्न थी एव स्कन्द क्रोध और नृसिंहों के रूप में स्थित थी बहुत ही भयानक विचरण करती हुई चक्र—दग्न—गदा—खड्ग—वज्र—शक्ति—ऋषि और पट्टिशों से तथा खटवाङ्ग और दीप्त उल्मुखी युक्त होकर मातृगण छाय करने में विचरण कर रहे थे । ये सब माताएँ उमा देवी के द्वारा भली भाँति प्रेरणा प्राप्त की हुई थी और वक्षो दिशाओं के प्रधावन (दोड़) करने वाली थी । उनके चरणों के विक्षेपों से तथा हुंकारों के उद्धार की ध्वनियों से यह सम्पूर्ण त्रैलोक्य सभी ओर से विप्रदग्ध हो गया था । हा हाकार और आक्रन्दन के परम घोर शब्दों से—प्रकृष्ट रूप से खिन्न-भिष्ट रथ्या, गृह और गोपुरों से यह सम्पूर्ण पृथ्वी सभी ओर में कपाल, केशों से समाकुल होती हुई विचित्र ही भङ्गी वाली हो गई थी । हे नृपोत्तम ! जो यह जम्बू द्वीप एक ही सहस्र परिमाण वाला कहा जाता है वह सब समर्पित होकर उत्पन्न हो गया था ॥१०७॥

जम्बु शाकं कुशं क्रीञ्चं गोमेदं शात्मलिस्तथा ।

पुष्करद्वीपसहिता ये च पर्वतवासिनः ॥८॥

ते ग्रह्ता मृत्युना सर्वे भूतमृतृगणस्तथा ।

महासुरकपालैश्च मासमेदोवसोत्वटैः ॥९॥

महानादपर घोरैर्वारुषीगन्धमोहितैः ।

ज्वाला सहस्रसम्बीताविद्युज्ज्वलितकुण्डला ॥१०॥

रुधिरोद्गारशोणाङ्गीमहामायासुभीषणा ।
 पिवन्ती रुधिरं तत्रमहामासवसात्रिया ॥११
 कपालहस्ता विकटा भक्षयन्ती सुरामुरान् ।
 नृत्यन्ती च हसन्ती च विपरीता महारवा ॥१२
 त्रैलोक्यसन्श्रातकरी विद्युत्सफोटहार्सिनी ।
 सप्तद्वीपसमुद्रान्ता भक्षयित्वा च मेदिनीम् ॥१३
 ततः स्वस्थानमगमद्यत्र देवो महेश्वरः ।
 नर्मदातीरमाश्रित्यावसन्मानृगणैः सह ॥१४

जन्म-शाक-कृश-क्रौञ्च-गोमेद-शात्मनि और पुष्कर द्वीपी के सहित जो भी पर्वत वासी थे वे सभी मृत्यु के द्वारा प्रस्त हो गये थे । तदा भूतगण-मातृगण-जो कि महामुरों के कपाल-समूह-मांस, मेद, वसा से उत्कट, महान् घोष में तत्पर, परम घोर और वाष्णी की गन्ध से मोहित थे, इनके सहित सहस्रों ज्वालामुखी से सम्बोधित विद्युत् के समान ज्वलित कुण्डली वाली-रुधिर क उद्धारों से लाल अणु वाली अत्यन्त भीषण स्वरूप वाली महा माया महा मांस घोर वसा से प्यार करने वाली रुधिर का पान कर रही थी । उस महामाया के हाथों में कपाल था और वह अत्यन्त विकट स्वरूप वाली थी । समस्त सुरों और असुरों का भक्षण करती हुई-नृत्य करने वाली, अट्टहास करती हुई, परम विपरीत और महान् घोष करने वाली थी । सम्पूर्ण त्रैलोक्य को नास देती हुई-विद्युत् के स्फोट के समान भीषण हास्य करने वाली उसने सातों द्वीप और समुद्र के अन्त तक सम्पूर्ण मेदिनी का भक्षण कर लिया था । इसके उपरान्त वह अपने स्थान पर आ गई थी जहाँ पर साक्षात् देव महेश्वर विराजमान थे । नर्मदा के तट का समाधाय ग्रहण करके वह समस्त मातृगणों के सहित निवास करने लगी थी ॥५-१४॥

अमराणा कटे तुङ्गे नृत्यन्ती हसितानना ।
 अमरा देवताः प्रोक्ताः शरीर कटमुच्यते ॥१५
 तैः कटे रावृतो यस्मात्पर्वतोऽयं नृपोत्तम ।
 छिन्तभिन्नास्थिनिकरं वंसाग्नेदोस्त्रविलुप्तैः ॥१६

अमरंकट इत्येवं तेन प्रोक्तो मनीषिभिः ।
 महापवित्रो लोकेषुसम्भुना सविनिर्मितः ॥१७
 नित्यं सन्निहिस्तत्रशङ्करोह्यमयासह ।
 ततोऽहं नियतस्तत्र तस्य पादाग्रसंस्थितः ॥१८
 प्रह्वः प्रणतभावेन स्तोमि तं नीललोहितम् ।
 ततस्तालकसंपालं गणं मर्तृगणैः सह ॥१९
 सम्प्रनृत्यति संहृष्टो मृत्युना सह शङ्करः ।
 खट्वाङ्गं रुमुकंश्च व पट्टिशैः परिधंस्तथा ॥२०
 मांसमेदोवसाहस्ताहृष्टानृत्यन्तिसंधशः ।
 वामनाजटिलामुष्डालम्बग्रीवोष्ठमूढंजा ॥२१
 महाशिशुनोदरभुजा नृत्यन्ति च हसन्ति च ।
 विकृतं राननं घोरं भुजोत्क्षेपणमुखादिभिः ॥ २

अमरों के तुङ्ग (उग्रत) बट में नृत्य करती हुई और हसित मुख वाली देवी थी। अमर देवों को कहा गया है और शरीर का कहा जाता है। हे नृपोत्तम ! यह पर्वत उन्हीं कणों से समावृत है जो कि वसा-मेह और रक्त से विप्लुत छिन्न-भिन्न अस्थियों के समूहों वाले थे। इसी कारण से महर्षियों ने इसका नाम अमरकट, यह कहा है। समस्त लोक के बल्याण चाहने वाले शम्भु देव ने यह महान् पवित्र निमित्त किया है। वहाँ पर भगवान् शम्भु जगज्जननी उमा देवी के साथ नित्य ही सन्निहित रहते हैं। तभी से मैं भी वहाँ पर ही उनके चरणों के अग्रभाग में सन्निहित रहना हूँ। मैं परम विनीत होकर अत्यन्त विनम्र भाव से उन भगवान् नील मोहित प्रभु का स्तवन किया करता हूँ। फिर ताल के वृक्षों के सम्पात के समान सब मातृगणों के साथ भगवान् शंकर मृत्यु के साथ परम प्रसन्न होते हुए भली भाँति नृत्य किया करते हैं। खट्वाङ्ग, उल्मुक, पट्टिश, परिधो से युक्त, मसि, मेदा घोर घना हाथों में लिए हुए, परम हर्षित सभ में मातृगण नृत्य किया करते हैं। अन्य गण भी जिनमें वामन (बीना), जटाधारी, मुण्डित, सम्भी गरदन धारण, लम्बे होठ और बेशीं वाले वे भी महान् शिशु, उदर और भुजाओं

वाले नृत्य करते हैं तथा हंमते हैं जिनके घट्ट हाँ विकृत घोर मुख थे और उत्त्रण भुजाएँ तथा मुखो से वे युक्त थे । विपरीत काल के प्राप्त होने पर अमर को कण्टक उन्होंने कर दिया था ॥१५-२२॥

अमरं कण्टकं चक्रुः प्राप्तेकालविपर्यये ।

तेषां मध्ये महाघोरं जगत्सन्त्रासकारणम् ॥२३

मृत्युं पश्यामि नृत्यन्तं तडित्पङ्गलमूर्द्धजम् ।

तस्य पार्श्वे स्थितां देवीं विमलाम्बरभूषिताम् ॥२४

कुण्डलोद्घुष्टगण्डां तां नागयज्ञोपवीतिनीम् ।

विचित्रं रूपहारंश्च पूजयन्ती महेश्वरम् ॥२५

अपश्यं नर्मदां तत्र मातरं विश्ववन्दिताम् ।

नानातरङ्गां श्रावतीं सुत्रेलाणं वरान्निभाय् ॥२६

महासरः सरितापातं रदृश्यां दृश्यरूपिणीम् ।

वन्द्यमानां सुरैः सिद्धं मुनि सङ्घंश्च भारत ॥२७

एतस्मिन्नन्तरे घोरां सप्तमस्तकसञ्ज्ञिताम् ।

महावीच्योघफेनाढघा कुवन्ती सजलं जगत् ॥२८

उन्ही सबके मध्य महान घोर और जगत के सन्त्रास का धारण रूप, विद्युत् के तुल्य पिगल वर्ण वाले केशो से युक्त कृत्य करते हुए मृत्यु को देखता है । उसी के पार्श्व भाग में स्थित परम स्वच्छ वस्त्रों से विभूषित, कुण्डलो से उद्घुष्ट गण्ड स्थलो वाली-नागो के यज्ञोपवीत धारण करती हुई—विचित्र उपहारो के द्वारा महेश्वर भगवान को पूजती हुई विश्व के द्वारा वन्दित नर्मदा माता को भी वहाँ पर मीने देखा था जिसमें नाना भाँति को तरंगें समुत्थित हो रही थीं, श्रावती से युक्त थी तथा सुत्रेला में अर्णव (समुद्र) के तुल्य थी । महान् सर और सरिताघो के पातो से दृश्या, दृश्य रूप वाली सुरगणो से वन्द्यमान तथा सिद्ध और मुनियो के सघो द्वारा हे भारत ! वन्दनीय थी । इसी अन्तर में सप्त सप्तक सज्ञा (नाम) वाला, परम घोर महान् वोचो (लहर) के घोघ (समुदाय) और फौजो से समन्वित नर्मदा देवी को देखा था । जो सम्पूर्ण जगत को जल से युक्त कर रही थी ॥२९-२८॥

दृष्टवान्ममंदां देवीं मृगकृष्णाम्बरां पुनः ।

सधूमाशनिनिहृदिर्वतन्ती सप्तदा तदा ॥३९

इति संहारमत्तुलं दृष्टवाभ्राजसत्तम ।

नष्टचन्द्रार्ककिरणमभूदेतच्चराचरम् ॥३०

महोत्पातसमुद्भूतनष्टनक्षत्रमण्डलम् ।

अलातचक्रवत्तूर्णमशेषंभ्रामयस्ततः ॥३१

विमातकोटिसकीर्णःसकिन्नरमहोरगः ।

महावातःसनिर्घातोयेनाकम्पच्चराचरम् ॥३२

रुद्रध्वजात्समुद्भूतःसम्बर्तौनामविश्रुतः ।

वायुसंशोपयामासविततन्सप्तसागरान् ॥३३

उद्घूलिताङ्गःकपिलाक्षमूर्द्धजो जटाकलापैरवबद्धमूर्द्धजः ।

महारवोदीप्तविशालशूलध्रुवसपातुमुष्माश्रदिनेदिनेहरः ॥३४

शूलीधनुष्मान्कवचीकिरीटीश्मशानभस्मीक्षितसवगात्रः ।

कपालमालकुलाकण्ठनालो महाहिसूर्धैरवबद्धमौलिः ॥३५

यह देवी नमंदा मृग का कृष्ण वर्ण वासा अम्बर धारण कर रही थी । उस समय मे धूम और धशनि (बज्र) के निहर्ताओं के सहित सात भेदों से बहने कर रही थी । हे राजसन्तम ! इस तरह से मैंने धतुलित संहार देखा था जिसमे चन्द्र और सूर्य की किरणों भी नष्ट हो गई थी ऐसा यह चराचर जगत् हो गया था । महान् उत्पात से समुत्पन्न विनाश से सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल विनष्ट हो गया था । इसके उपरान्त इस सम्पूर्ण विश्व को अलात (जलती हुई लकड़ी वा अङ्गारा) के चक्र के समान घूर्णता से भ्रामित करते हुई विन्नर और महान् उरगों के सहित बराहों विमानों से सङ्कीर्ण आर निर्घातों से युक्त महावात चलने लगा था जिनने इस चराचर जगत् को प्रकम्पित कर दिया था । यह रुद्र देव के मुखा से समुत्पन्न हुआ था और सम्बर्त इत का नाम प्रसिद्ध था । इस वायु ने जैसे हुए विशाल सागरो सागरों को प्रच्छेदी तरह से शोषित कर दिया था । जिनके अङ्ग भस्म से उद्घूलित हो रहे हैं—कपिलवर्ण के नेत्र और जिन के वेश हैं, जिन्होंने जटाओं के बन्धनों से बेशो की बाँध रक्ता है—

महान् घोष से युक्त घोर परम दीप्त एवं विशाल त्रिगुल को धारण करने वाले वह भगवान् हर दिन प्रतिदिन आपको रक्षा करे । भगवान् दूध के धारण करने वाले हैं—धनुष भी धारण किये हुए हैं—कवच धारी मस्तक पर किरौट पहिनने वाले हैं । इमशान की मम्म से जिनके समस्त अङ्ग उक्षित हैं । जिन्होंने कपालों (नर मुण्डों) की माला से अपने कण्ठ नाल को सगाकीएँ कर रक्खा है और वे भगवान् शिव महान् सर्पों के मूत्र से अपने मस्तक को बद्ध करने वाले हैं ॥२६-३५॥

स गोनसौधैः परिवेष्टिताङ्गो विपाग्निचन्द्रामरसिन्धुमौलिः ।

पिनाकखट्वांगकरालपाणिः स कृत्तिवासा डमरुप्रणादः ॥३६

स सप्तलोकान्तरनिःसृतात्मा महाभुजावेष्टितसर्वगात्रः ।

नेत्रेण सूर्योदयसन्निभेन प्रवालकाङ्कुरनिभोदरेणः ॥३७

सन्ध्याभ्ररक्तोत्पलपद्ममागतिन्दूरविद्युत्प्रकरारूपेण ।

तप्तेन लिंगेन च लोचनेन चिक्रीडमानःसयुगान्तकाले ॥३८

हिरण्यमेनैव समुत्सृजन्सदण्डेन यद्वदभगवान्समेघः ।

पादाग्रविक्षेपविशारणशैलः कुर्वञ्जगत्सोऽपि जगाम तत्र ॥३९

सहस्रं कामस्त्रिदिवं त्वशेषं प्रमुञ्चमानो विकृताद्गृहाणम् ।

जहार सर्वं त्रिदिवं महात्मा संक्षोभयन्वै जगदीश एकः ॥४०

तं देवमीशानमज वरेण्यं हृष्ट्वा जगत्संहरणं महेशम् ।

सा कालरात्रिः सहमातृभिश्चगणाश्चसर्वेशिवमर्चयन्ति ॥४१

मन्दी च भृङ्गी च गणादयश्च तं सर्वभूतं प्रणमन्ति देवम् ।

जगद्वरं सर्वजनस्य कारणं हर स्मरारातिमहनिशं ते ॥४२

सृष्टि के संहरण काल में भगवान् शम्भु के स्वरूप का वर्णन किया

जाता है कि वे जो नसों के समूह से परिवेष्टित अङ्गों वाले हैं । मस्तक में जिनके विप को अग्नि—चन्द्रदेव और अमर सिन्धु (मङ्गा) विराजमान हैं । हाथों में भगवान् शम्भु पिनाक धनुष और खट्वांग धारण करने वाले हैं । गज चर्म के बसन धारण करने वाले तथा डमरु के प्रणाद युक्त हैं । वह प्रमु सात लोकों के अनन्तर निःसृत आत्मा वाले हैं तथा वह भुजाओं से वेष्टित गात्र वाले हैं । प्रवालाङ्कुर सहस्र मध्य भाग वाले सूर्योदय ६

तुल्य नेत्र से उपलक्षित है । युगान्त काल में वह प्रभु सन्ध्या कालीन मेघ—रक्तवमल—पद्मराग—सिन्दूर घोर विद्युत् के प्रखर समान अक्षयु तप्त त्रिग से और लोचन के द्वारा क्रीडा करने वाले थे । भगवान् की ही भक्ति मेघ हिरण्मय दण्ड से ही समुत्सृजन करता हुआ वह भी पाशो के अप्रमाण शैली की विशेषण करता हुआ वहीं पर खना गया था । महान् धारणा वाले वह एक ही जगदीश सम्पूर्ण त्रिदिव के संहार करने की कामना वाले अत्यन्त विचार युक्त ब्रह्महास की छान्दने हुए समस्त त्रिदिव को मुक्त करते हुए उहीने सबका हरण किया था । उन ईशान—अज—बरेष्य देव का जो महेश इस जगत् के गहार करने वाले हैं, दर्शन करके वह वासरात्रि मातृगणो के साथ तथा समस्त धन्य गण सभी भगवान् शिव का समर्पण किया करते हैं । नन्दी—शृंगी और ये सब अग्य गण अहनिश उन सब भूत देव की प्रणाम किया करते हैं जो इस जगत् में परम ध्येष्ठ है—सभी जनों के वारण्य हैं—कामदेव के भजन करने वाले हर हैं ॥३१-४२॥

८६ — ब्रह्माकृतशिवस्तुतिवर्णन

ममानुभिर्नूतगणंश्च घोरैर्वृत्तः गमन्तास्य मनसं शूनी ।
 गजेन्द्रचमावरणे चसानः संहर्तुं कामञ्ज जगत्समस्तम् ॥१॥
 महेश्वरःशर्वगुरेश्वराना मन्त्र रनेकंरयवदमाली ।
 मेदीवगारतपिपिबिनाङ्गुलीवदाहे प्रजनन गम्भूः ॥२॥
 म मात्तराया महितोमहात्माकामे विभोरा मन्वा जारः ।
 मन्वर्तकायः गमतागुनाय सम्भ्रमंताया जगतो वरिष्ठः ॥३॥
 म विष्णुसिन्धोरकरभूमिभ्रं महोरकवसाननिगत्तुल्यम् ।
 ततोऽट्टासं प्रभुमोष घोरं विवृणुव नर्त वदतामुत्तामम् ॥४॥
 सायवयाननिगन्निभेन सेनाऽट्टामेन हरोद्गनेन ।
 आपूरितायत्र दिशोदशैवगतीभिः शर्मन्तायेताम् ॥५॥
 म प्राणमोर्षं प्रशमान करणे ब्रह्माष्टमाष्टं प्रपथाः मयम् ।
 विमोदितातुम्भेजनाहे विप्रमन्ता जगतो शङ्कुः ॥६॥

प्रणम्य सर्वे सहस्रैव भीता ब्रह्माण्मूचुः परमेश्वरेशम् ।

भीताश्च सर्वे ऋषयस्ततस्ते सुरासुरैश्चैव महोरगैश्च ॥७

महामहर्षिवर श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा—वह भगवान् शूलधारी परम घोर भूतगणों तथा मातृगणों से चारों ओर समावृत्त हाकर उस समय में ताण्डव नृत्य बहुत ही प्रसन्न होकर किया करते हैं, उस नृत्य के समय में वे गजेन्द्र के चर्म का आवरण लिये हुए इस सम्पूर्ण सृष्टि जगत् का संहार करने की इच्छा रखते हुए अपने नियत कर्त्तव्य के परिपालन समय को पाकर आनन्द मग्न हो नृत्य किया करते हैं ॥१॥ सब सुरों के भी ईश्वरों के प्रनेक मन्त्रों से भव बद्धमाली भगवान् महेश्वर शम्भु इस प्रलोक्य के दाह करने में मेदा—वसा—रक्त से श्वचित अगो वाले नृत्य किया करते थे ॥२॥ उन प्रभु महात्मा ने उस कालरात्रि की सहायता से युक्त होकर उस समय में इस समस्त त्रिलोकी का सहार कर दिया था । सम्बर्त नामधारी—इस जगत् के सर्व श्रेष्ठ महानुभाव—महान् आत्मा वाले शम्भु ने त्रिस्तुलिंगों के समुदाय और धूम से मिश्रित—महोत्का वज्र शनि और घात के तुल्य प्रत्यन्त घोर सर्व प्रथम अपने बड़वा के मुख की आभा वाले समान प्राभा वाले मुख को फँलाकर अट्टहास किया था । वह उनका समुत्पन्न परम भीषण अट्टहास सहस्री वज्रपात और अशिन सम्पात के सदृश था । उससे दशो दिशाएं भर गई थी और समस्त मागर सक्षोभ युक्त हो गये थे । सर्वत्र एक दम अट्टहास से हनचल मचाई थी । वह उनके अट्टहास का शब्द ब्रह्मलोक तो पहुँच गया था और उनमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड भाण्ड को विचलित कर दिया था । यह क्या परम धार ध्वनि है जिसका इतना प्रबल प्रभाव छा गया है—इस स्वयं समन्वित विचार में धुँडि और चेतना को खो बैठने वाले समस्त ऋषिभोग भयभीत हो गये थे । भय से अतिशय डरे हुए सबने सहसा ही परमेश्वरेश श्रीब्रह्माजी से प्रणाम करके कहा क्योंकि उस समय में सुर अमुर और महोरगों के सहित सभी ऋषिगण भय से परम विव्रस्त हो रहे थे ॥३-७॥

त्रिद्युत्प्रभाभासुर भोगणांगः क एष चिक्रीडति भूतलस्थः ।

कालानलं गात्रमिदं दधानो यस्याट्टहासेन जगद्धिमूढम् ॥८

वित्रस्तरूपं प्रथमौ क्षणेन संहर्तुं भिच्छेत्किमप्य त्रिलोकीम् ।
 सार्धं त्वया सप्तभिरर्णवंश्च जनस्तपः सत्यमभिप्रयाति ॥१७
 संहर्तुं कामो हि क एष देव एतत्सनस्तं कथयाऽप्रमेय ।
 न दृष्टमेतद्विषमं कदापि जानासि तत्त्वं परमो मतो नः ॥१८
 निशम्य तद्वाक्यमथावभाषे ।

ब्रह्मा समाश्रास्य सुरादिसंघान् ॥१९

स एष कालस्त्रिदिवं त्वशेषं
 संहर्तुं कामोजगदक्षयात्मा ।
 पूर्णं च जते परिवत्सराणां
 भविष्यतीशानविभुर्न मित्रम् ॥१२

सम्बत्सरोऽयं परिवत्सरश्च
 उद्वत्सरो वत्सरएष देवः ।

दृष्टोऽप्यदृष्टः प्रहुतः प्रकाशी
 स्थूलश्च सूक्ष्मः परमाणुर्गुणः ॥२३

नातः परं किञ्चिदिहाऽस्ति लोके
 परापरोऽयं प्रभुरात्मवादी ।

तुष्येत मे कालसमानरूप
 इत्येवमुक्त्वा भगवान्मुरेशः ॥२४

तानत्कुमारप्रमुग्धैः समेतः ।

तन्तोपयामाग तनो यतात्मा ॥२५

हे ब्रह्मा ! विष्णु की प्रभा के गहन भागुर एवं महान् भीरुगु मंग
 वाता भूतल में समस्तदिव यह जोन है जो देगी छोटा कर रहा है ?
 यह तो बागानन शरीर की धारण करने जाया है जिनके केहन दग
 महान् अद्भुतग से ही यह मन्मूर्त जगत् विभु हो गया है ॥२॥ यह धरा
 परम विगत रूप से गुण, शोभित हो रहा है । क्या यह दग ममय में
 गगहन त्रिलोकी के गहार करने की इच्छा कर रहा है । धारने ही माप
 घोर गाने धर्तुओं के गति जनगोश और गरखोश गजगोश को पा रहे
 है । यह दग प्रचार के दग नैर्गोश के गहार करने की इच्छा जाया है

देव ! कौन है । हे अग्रमेय ! आप कृपा करके यह 'सम्पूर्ण' वृत्तान्त हमको बतलाइये हम लोगों ने ऐसी विपमता अभी तक पहिले कभी भी नहीं देखी थी—आप तो इसका पूर्णतत्त्व जानते ही है । हमतो आपकी ही सर्वोपरि समझते हैं । देवियों के इस वृच्छावाक्य को मुनकर ब्रह्माग्नी ने सुर भादि के पूरे सपुंदाय को समावसासन देते हुए कहा था—श्रीब्रह्माजी ने कहा— यह वह ही काल है जिसमें अक्षय आत्मा वाले प्रभु इस सम्पूर्ण जगत् को और त्रिदिव को सहार करने की इच्छा वाले हुआ करते हैं । परिवत्सरों के अर्थात् दिव्य वर्षों के पूरे सौ हो जाने पर यह ईशान विभु इसी प्रकार के स्वरूप वाले हो जायेंगे—इसमें कोई भी विधिय बात नहीं है । ऐसा तो हुआ ही करता है । यह सम्प्रस्मर है—परिवत्सर है—उद्धस्मर है और यह देव वत्सर है । यह दृष्ट भी अदृष्ट है—प्रहृत—प्रकाशी—स्यूत—सूक्ष्म और यह परणु है । यहाँ पर इससे पर कुछ भी नहीं है । लोक में यह परापर आत्मवादी प्रभु है । काल के समान रूप मुझे सन्तुष्ट करता है । इतना इस प्रकार से कहकर भगवान् सुरों के ईश सनत्कुमार जिनमें प्रमुख है उनके समेत तब वह यतात्मा सन्तोषित हुआ था ॥५-१५॥

नमोऽस्तु सर्वाय सुशान्तमूर्तये
ह्यधोरूपाय नमोनमस्ते ।

सर्वात्मने सव नमोनमस्ते

महात्मने भूतपते नमस्ते ॥१६

ओंकारहंकारपरिष्कृताय

स्वधावपट्कार नमोनमस्ते ।

गुणत्रयेशाय महेश्वराय ते

त्रयीभयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥१७

त्वं शंकरस्त्वहं हि महेश्वरोऽसि

प्रधानमग्रथं त्वमसि प्रविष्टः ।

त्वं विष्णुरीशः प्रपितामहश्च

त्वं सप्तजिह्वस्त्वमनन्तजिह्वा ॥१८

स्रष्टाऽसिं सृष्टिश्च विभो त्वमेव
 विश्वस्य वेद्यं च परं निधानम् ।
 आर्हुद्विजा वेदविदो वरेण्यं
 परात्परस्त्वं परतः परोऽसि ॥१५
 सूक्ष्मातिसूक्ष्मं प्रवदन्ति यच्च ।
 वाचो निवर्तन्ति मनो यतश्च ॥२०

श्रीब्रह्माजी ने कहा—परम शान्ति भूति वाले सर्व के लिये नमस्कार है । अघोर स्वरूप वाले के लिये वारम्बार नमस्कार है । हे सर्व ! सबकी आत्मा आपके लिये वारम्बार नमस्कार है । हे समस्त भूतों के स्वामिन् महान् आत्मा वाले आपके लिये नमस्कार है । हे स्वाहा-स्वधा और वदत्कार स्वरूप वाले ! आपकी सेवा में मेरा वारम्बार नमस्कार है । तीनों गुणों के स्वामी-त्रयीमय-त्रिगुणात्म्य महेश्वर आपके लिये नमस्कार है । आप शङ्कर हैं अर्थात् कल्याण करने वाले हैं । आप महेश्वर हैं—सर्वोत्तम प्रधान भी आप ही हैं और प्रविष्ट हैं । आप ही विष्णु हैं—ईश हैं और आप ही प्रपितामह हैं । आप सप्तजिह्व और अनन्त जिह्व हैं । हे विभो ! आप ही इस विश्व के जानने के योग्य परम निधान हैं । वेदों के ज्ञाता द्विज आप को वरेण्य कहते हैं । आप पर से भी पर हैं जिसको सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहते हैं और जिससे मन और वाणी भी निवृत्त हो जाया करते हैं ॥१५-२०॥

त्वया स्तुतोऽहं विविधंश्च मन्त्रैः
 पुष्णामि शान्तिं तव पद्मशोने ।
 ईक्षस्व मां लोकमिमं ज्वलन्तं
 वक्त्रैरनेकैः प्रसभं हरन्तम् ॥२१

एवमुक्त्वा स देवेशो देव्या सह जगत्पतिः ।
 पितामहं समाश्वास्य तत्रैवाऽन्तरधीयत ॥२२

इदं महत्पुण्यतमं वरिष्ठंस्तोत्रं निशम्येह गतिं लभन्ते ।
 पापैरनेकैःपरिवेष्टिता ये प्रयान्ति रुद्रं विमलविमानैः ॥२३

भयं च तेषां न भवेत्कदाचित्
पठन्ति ये तान् इदं द्विजाप्रथाः ।
मह्यग्रामचौराग्निवने तथाऽग्नौ
तेषां शिवस्त्राति न संजयोऽत्र ॥२४

धीमहादेयजी ने कहा—हे पचयोने ! आपने अनेक मन्त्रों के द्वारा सत्वयन किया है । मैं आपकी क्षान्ति का पोषण करता हूँ । अनेक मुर्गों के द्वारा पलातु संहरण करने वाले मुम्बो और जने हुए सोह की देखो । इस प्रकार से यह समस्त जगत् पति ईश्वर देवी के साथ कहकर पितामह की समाश्वामन देकर वही पर प्रतहित होगय थे । यह महान् तम और अस्मिन् स्तोत्र है । इस सोह में इतना ध्यान करके मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं । जो मनुष्य अनेक पापों से परिपेष्टि रहता करते हैं वे भी परम पितामह पर ममारु होकर उाते द्वारा रत्न मोक्ष में गमा किया करते हैं । हे तात ! जो श्रेष्ठ द्विजगण इतना पाठ किया करते हैं । किसी भी गण्य में कोई भी भय नहीं हुआ करता है । मग्राम स्वयं में—गौरी के द्वारा उग्रस्थित भय में—क्षान्ति बाण्ड में—यन में तथा ममुद्र में इत इतान के पाठ करने वालों की मगवान् शिव स्वयं परित्राल करते हैं—इसमें बिन्दुन भी मगय करने का कोई धयगर ही नहीं है ॥२१-२४॥

६०—द्वादशादित्यरूपेण जगत्पहरणवर्णन

एष सत्सूयमानस्तु ब्रह्माधमुनिपुङ्गवः ।
ब्रह्मलोभिनस्तत्र मञ्जहार जगत्प्रभु ॥१
स तद्वीर्यमंगारोद्भूतं दक्षिण वायव्यध्वजम् ।
महाद ह्यो तटारावपागल्लननिभम् ॥२
विषज्ज्वलनपिगाः भेरवः लोमहर्षणम् ।
महार्जुनं महाद ह्यं महागर्भं गिरोधरम् ॥३
महानुरगिरामानं महाप्रलयकारणम् ।
प्रमत्तदुःखनिहितावायाग्निवर्णं हरिः ॥४

वडवामुखसङ्काशं महादेवस्य तन्मुखम् ।
 जिह्वाग्रेण जगत्सर्वं लेलिहानमपश्यत् ॥५॥
 योजनानांसहस्राणिसहस्राणाशतानिच ।
 दिशोदशमहाघोराभांसमेदोवसोत्कटाः । ६॥
 तस्य दंष्ट्राव्यवर्धन्तशतशोऽथ सहस्रशः
 सामुरान्मुरगन्धं वान्सयक्षोरगराक्षसान् ।
 यस्य दंष्ट्राग्रसंलग्नान्स ददर्श पितामहः
 दन्तयन्त्रान्तसम्बिष्टं विचूर्णितशिरोधरम् ॥७॥

महर्षि प्रवर श्रीमान्ण्डेयत्री ने कहा—इस प्रकार से सस्तवन किये गये प्रभु ने जो कि ब्रह्मा आदि मुनि धर्मियों ने ब्रह्मलोक में समुपस्थित होकर शिव की बहुत स्तुति की थी सब सम्पूर्ण जगत् का संहार कर दिया था ॥१॥ उस संहार करने के अवसर पर सबने भगवान् शिव का महान् रौद्र स्वरूप का दर्शन किया था वह रुद्र का स्वरूप अत्यन्त भयानक, दक्षिण वक्त्र, अध्वय, बड़ी दाढ़ी वाला, उत्कट घोष से संयुत और पाताल तल के तुल्य था ॥२॥ विद्युत् और अग्नि के सदृश तीन नेत्रों वाला महान् भ्रूव एव रोमाञ्च खड़े कर देने वाला वह स्वरूप था । महान् जिह्वा से युक्त—महा विकराल दाढ़ी वाला और बड़े २ विशाल सर्पों की शिर पर धारण करने वाला शिव का स्वरूप था ॥३॥ बड़े २ असुरों के झुण्डों की माला की धारण किये हुए, महा प्रलय का कारण स्वरूप, प्रसृते हुए समुद्र में निहित वायु और जल से परिपूर्ण देवि, बड-धाग्नि के मुख के तुल्य मुख वाला श्रीमहादेव का मुख था । उस मुख की जिह्वा के अग्रभाग से इस समस्त जगत् को चाटते हुए देखा था । भगवान् पितामह ने देखा था कि सैकड़ों और सहस्रों योजन दशों दिशाएं जो महान् घोर थी और मांस, मेदा और वसा से उत्कट थी तथा सुर, असुर, गन्धर्व, यक्ष, उरग और राक्षस सहस्रों की सख्या में महादेव की दाढ़ी के अग्रभाग में सलग्न हो रहे थे । सम्पूर्ण यह जगत् उनके दाँतों के मन्थ में अन्दर प्रविष्ट होता हुआ शिरोधरो से युक्त चूर्णित हो रहा था ॥४-७॥

जगत्पश्यामि राजेन्द्रविशन्तं व्यादिते मुखे ।
 नानातरंगमंगांगामहाफेनौघमंकुलाः ॥६
 यथा नद्यो लयं यान्ति समुद्रं प्राप्य सस्वनाः ॥९
 तथा ततं विश्वमिदं समस्तमनेकजीवाणवदुर्विगाह्यम् ।
 विवेश रुद्रस्य मुखं विशालज्वलत्तदुग्रघननादघोरम् ॥१०
 ज्वालास्ततस्तस्य मुखात्सुधोराः
 सविस्फुलिगा बहुलाः सधूमाः ।
 अनेकरूपा ज्वलनप्रकाराः
 प्रदीपयन्तोऽपि दिशोऽखिलाश्च ॥११
 ततो रविज्वालसहस्रमालि
 वभूववक्त्रं चलजिह्वादंशुम् ।
 महेश्वरस्याद्भुतरूपिणस्तदा
 स द्वादशात्मा प्रवभूव एकः ॥१२
 ततस्ते द्वादशादित्या रुद्रवक्त्राद्विनिर्गताः ।
 आश्रित्य दक्षिणामाशा निदंहन्तो वसुन्धराम् ॥१३

हे राजेन्द्र ! इस सम्पूर्ण जगत् को भगवान् शिव के फैलाये हुए मुख में प्रवेश करते हुए देखता हूँ । अनेक लहरों के भङ्गाङ्गों वाली और महान् फेनों के समुदाय से मनुल ध्वनियुक्त नदियाँ जिन प्रकार से समुद्र में प्राप्त होकर लय को प्राप्त हुआ करती हैं उन्हीं भाँति अनेक जीवों के सागर से दुर्विगाह्य (न पार होने के योग्य) यह परम विशाल समस्त विश्व मेघ के समान परम घोर घननाद वाला जनने हुए अत्यन्त उग्र रुद्र के विशाल मुख में प्रवेश कर गया था । उन भगवान् रुद्र के मुख की ज्वालाएँ अत्यन्त घोर रूप वाली—धूम से और अग्नि कणों से युक्त विशाल रूप में निकल रही थी । उन ज्वालाओं के नाना भाँति के स्वरूप थे और वे अग्नि के ही तुल्य प्रकाश वाली थीं जो कि सभी दिशाओं को प्रदीप्त—भी कर रही थीं । इसके अन्दर उन अद्भुत रूप वाले महेश्वर प्रभु का मुख मूर्ध्नी सहस्रां ज्वालाओं की माला घाला हो गया था जिनमें जिह्वा और दाढ़ें चल रही थीं उस समय में बारह स्वरूपों वाले भी शिव एक ही रूप वाले हो गये

थे । इसके पश्चात् रुद्र के मुख से द्वादश आदित्य विनिर्गंत हुए थे जो दक्षिण दिशा का समथय ग्रहण करके इस सम्पूर्ण भूमि का निर्दहन करने वाले थे ॥८-१३॥

भोमं यज्जीवनंकिञ्चिन्नानावृक्षतृणालयम् ।

शुष्कं पूर्वं मनावृष्ट्यासकलाकुलभूतलम् ॥१४

तद्दीप्यमानं सहसा सूर्येस्तं रुद्रसम्भवैः ।

धूमाकुलमभूत्सर्वं प्रणष्टग्रहतारकम् ॥१५

ज्वाला सहसा दीप्तं भूमण्डलमशेषतः ।

ज्वालामालाकुलं सर्वमभूदेतच्चराचरम् ॥१६

सप्तद्वीपसमुद्रेषु सरित्सु च सरस्सु च ।

अग्निरस्तिजगत्सर्वमाज्याहुतिमिवाध्वरे ॥१७

विशालतेजसा दीप्तामहाज्वालासमाकुला ।

ददहुर्वजगत्सर्वमादित्यारुद्रसम्भवाः ॥१८

आदित्यानां चक्रमयश्चसंस्पृष्टा वं परस्परम् ।

एवं ददाहभगवांस्त्रैलोक्यं सचराचरम् ॥१९

सप्तद्वीपप्रमाणस्तुसोऽग्निभूत्वामहेस्वरः ।

सप्तद्वीपसमुद्रान्तानिर्ददाह वसुन्धराम् ॥२०

सुमेरुमन्दरान्तां च निर्दह्वं सुधातदा ।

भिरवा तु सप्तपातालानागलोकंततोऽदहत् ॥२१

इस भूमि पर रहने वालों का जो भी जीवन था जिनका कि बनेक वृक्ष, लृण आदि निवास स्थान थे वह पहिले तो अनावृष्टि होने से शुष्क हो गया था और समस्त भूतल सूखा से समाकृत हो उठा था फिर यह सम्पूर्ण पृथ्वी तल प्द्र से सप्तपुन्न उन सूर्यों से सहसा दीप्यमान हो गया था समस्त भूमि भाग धूँआ से गमानुत्त हो गया था और सम्पूर्ण यह तथा तारागण नष्ट हो गये थे । सहसा पूरा मण्डल दीप्त होकर जल गया था और यह समस्त चराचर ज्वालाओं की माताओं से आकृत हो गया था । सातों द्वीपों वाले समुद्रों में—सय सरिताओं में और शरोवरों में है सम्पूर्ण

जगत् को अग्नि यज्ञ में घृन की आहुति के समान भक्षण कर रहा था । परम विशाल तेज से प्रदीप्त—महान् ज्वालाधो से समाकुल—रुद्रदेव से समुत्पन्न आदित्यो ने इस सम्पूर्ण जगत् को दग्ध कर दिया था । भगवान् ने इस जड़—जङ्गम त्रैलोक्य को इस प्रकार से जला दिया था कि आदित्यो की किरणों परस्पर में भली भाँति स्पष्ट हो गई थी अर्थात् एक दूसरे से मिल गयी थी । वह महेश्वर भगवान् सात द्वीपों के प्रमाण वाला अग्नि स्वरूप हो हो गया था । या सात द्वीप और समुद्रों के अन्त पर्यन्त इस सत्र समुद्रों को जलाकर दग्ध कर दिया था । उस समय में सुमेरु पर्वत से लेकर मन्दराचन पर्यन्त इस भूमि को दग्ध कर दिया था फिर सात पातालो का भेदन करके नागलोक को भी दग्ध कर दिया था ॥१४-२१॥

भूम्यधःसप्तपातालान्निर्दहं स्तारकं : सह
 चचाराग्निः समन्तात्तु निर्दहन्व्युधिष्ठिर ॥२२
 धम्यमानश्वागारं लोहराग्निरिव ज्वलन् ।
 तथा तत्प्राज्ज्वलत्सर्वं सम्प्रत्ताग्निप्रदीपितम् ॥२३
 निवृक्षा निस्तृणा भूमिर्निर्निर्भरसरःसरिव् ।
 विशीर्णैर्लभृ गौषा कूर्मपृष्ठोपमाऽभवत् ॥२४
 ज्वालामालाकुल कृत्वा जगत्सर्वं चिदात्मकम् ।
 महारूपधरो रुद्रो व्यतिष्ठत महेश्वरः ॥२५
 समातृगणभूयिष्ठा सयक्षीरगराक्षसा ।
 ततो देवी महादेवं विवेश हरिलोचना ॥२६
 निर्वाण परमापन्ना शान्तेव शिखिनःशिक्षा ।
 जगत्सर्वं हि निर्दग्धं त्रिभिर्लोकैः सहाऽनघ ॥२७
 रुद्रप्रसादान्मृत्वा मा नर्मदा चाप्ययोनिजाम् ।
 युगानामयुतं देवो मया चाद्य बुभुक्षणात् ॥२८

हे युधिष्ठिर ! ताराधो के सहित भूमि और अधोभाग में सातों पातालो को निर्दग्ध करते हुए चारों ओर दाह करते हुए वह अग्नि संचरण करने लगा था । अगारों से घायमान का भाँति लोहराग्नि की

तरह जलते हुए उसने सम्बर्त्तानि से प्रदीपित सबको प्रज्वलित कर दिया था । उस समय में इस भूमि की ऐसी दशा हो गई थी जैसे किमी वृष (क्युआ) की पीठ हो । भूमि पर एक भी कहीं वृक्ष नहीं रहा था—वृण नाम माथ की नहीं था । न कोई भरना—सर झोर सरिता हो थी । सब पर्वतों की धोटियाँ टूट-पूटकर गिर गई थी । इस सम्पूर्ण जगत को जो कि चिदात्मक था ज्वालाओं की आलाओं से समाकुल करके महान् रूप के धारण करने वाले महेश्वर समास्थित हो गये थे । बहुत-सी मातृगणों की पंक्तियों से युक्त और यक्ष उरण तथा राक्षसों के सहित हरिलोचना देवी ने महादेव में ही प्रवेश कर लिया था । हे अतथ ! तीनों लोकों के सहित सम्पूर्ण जगत को निर्दग्ध कर दिया था और फिर शिवी की शिखा की तरह शान्त होती हुई परम निर्वाण को प्राप्त हो गई थी । अपोनिजा नर्मदा मुझको रुद्र के प्रसाद से मुक्त करके आज वृभुक्षण से मेरे द्वारा दश सहस्र युगों तक देव शूली की पहिले आराधना की गई थी ॥२२-२८॥

पुरा ह्याराधितः शूली तेनाहमजरामरः ।

अधमर्षणघोरं च धामदेवं च त्र्यम्बकम् ॥२९

ऋषभं त्रिसृपणं च दृगां सावित्रमेव च ।

वृहदारण्यकं चैव वृहत्साम तयोत्तरम् ॥३०

रौद्रीं परमगायत्री शिवोपनिषदं तथा ।

यथा प्रतिरयं सूक्तं जप्त्वा मृत्युञ्जयंतथा ॥३१

सरित्सागरपर्यन्ता चतुर्धा भस्मसारकृता ।

वर्जयित्वा महाभागां नर्मदांमृतोपमाम् ॥३२

महेन्द्रो मलयः सहोहेमकूटोऽयमाल्यवान् ।

विन्ध्यश्चपारियात्रश्चसप्ततेकुलपर्वताः ॥३३

द्वादशानित्यनिर्दग्धाः शैलाः शीर्णशिलाः पृथक् ।

भस्मोशतास्तु दृश्यन्ते न नष्टा नर्मदा तदा ॥३४

हिमवान्हेमकूटश्च निपद्यो गन्धमादनः ।

माल्यवांश्च गिरिश्रेष्ठो नीलः श्वेतोऽथ शृंगवान् ॥३५

एते पर्वतराजानोदेवगन्धर्वसेविताः ।

युगान्ताग्निविनिर्दग्धाःसर्वेशीर्णमहाशिलाः ॥३६

एवं मया पुरा दृष्टो युगान्ते सर्वसङ्क्षयः ।

वर्जयित्वा महापुण्यां नर्मदां नृपसत्तम ॥३७

भगवान् दूली की आराधना से मैं अजर-अमर हो गया । अपमर्षण घोर, वामदेव, शम्भुक, ऋषभ, त्रिभुपर्ता, दुर्गा, सावित्र, बृहदारण्यक, बृहत्साम, उत्तर, रीद्री, परम गायत्री, शिवोपनिषद—वतिरथ सूक्त और उमी भाति मृत्युञ्जय का जाप करके मैं अजर अमर हो गया था । सरिता और सागर पर्यन्त सम्पूर्ण वसुधा भस्म कर दी गई थी बसल परम महा भाग वाली प्रमृत्तोपमा नर्मदा का वर्णन कर दिया था । महेंद्र, मलय, साह्य, हेमकूट, माल्यवान्, विन्ध्य, पारियात्र, मैं सात कुल पर्वत कहे गये हैं । द्वादश आदित्यो के द्वारा निर्दग्ध हुए दौलो की सब चिताएँ धोली होकर पृथक् हो गई थी । ये सब भस्मी भूत होकर बिललाई दे रहे थे किन्तु उम समय में भी नर्मदा का नाश नहीं हुआ था । हिमवान् (हिमालय), हेम कूट, निषध, गन्धमादन, माल्यवान्, गिरियो में परम श्रेष्ठ नील गिरि, श्वेन और शृङ्गवान्, ये सब पर्वत राज हैं जो कि देवो और गन्धर्षो के द्वारा सेवित हैं । जब युगान्त की अग्नि प्रज्वलित हुई तो ये सब निर्दग्ध हो गये थे और इनकी समस्त महा शिलाएँ टूट-पूट गई थी । इस प्रकार से मैंने युग के अन्त में पहिले समय का सशय घालो से देता था । हे नृपसत्तम ! सबका तो सशय हुआ था किन्तु महान् पुण्य वाली नर्मदा का उत समय में भी विनाश भर्षान् क्षय नहीं हुआ था ॥३६-३७॥

६१ — नर्मदामाहात्म्यवर्णन

निर्दग्धेऽग्निस्ततो लोवेसूर्योरीश्वरगम्भवैः ।

सप्तभिश्चाणवैः शुक्रं द्वीपैः सप्तभिरेवच ॥६१

ततो मुगत्तस्य घना महोत्पन्ना निश्चै ररिन्द्राशुधनुत्यस्थाः ।

घोराः पयोदा जगदन्धकारं कुर्वन्त ईशानवरप्रयुक्ताः ॥६२

नीलोत्पलाभा श्वचिदब्जनाभागोक्षीरकुन्देन्दुनिभाश्च केचित् ।

मयूरचन्द्राकृतयस्तथाऽन्ये केचिद्विष्णुमानलसप्रभाश्च ॥३॥

केचिन्महापद्मंतकस्वरूपाः ।

केचिन्महामीनकुलोपमाश्च ।

केचिद्गजेन्द्राकृतयः सुरूपाः

केचिन्महाकूटनिभाः पयोदाः ॥४॥

श्वत्तरङ्गोमिसमानरूपा

महापुरीषानभिभाश्च केचित् ।

सगोपुराट्टालकसन्निकाशाः

सविद्युदुल्काशनिमण्डितान्ताः ॥५॥

समावृतागः स बभूव देवः मम्बर्तकोनाम गणा सरौद्रः ।

प्रवर्षमाणो जगदप्रमाणमेकाणव' सर्वमिदं चकार ॥६॥

सतो महामेघविवर्द्धमानमीशानमिन्द्राशनिभिवु'ताङ्गम् ।

दददं नाहं भयविवृलाङ्गो गङ्गाजलोर्षेस्व समावृतागः ॥७॥

महर्षि पर शो मार्कण्डेयजी ने कहा—ईश्वर से सधुत्पन्न हुए सूर्यों के द्वारा इस सम्पूर्ण लोक के निर्दग्ध ही जाने पर और सातो समुद्रों के उतस होकर सूख जाने पर तथा सातो द्वीपों के शुष्क होकर तट हा जाने पर फिर उनके मुख से इन्द्रदेव के आमुषों के तुल्य रूप वाले महाद् उन्वण वन निकलकर संघरण करने लगे थे । परम श्रेष्ठ ईशान देव के द्वारा प्रयुक्त उन परम घोर पयोदों ने इस जगत् में अन्धकार फैला दिया था ॥१-२॥ ये श्रेष्ठ विशिष्ट रूप और आकार वाले थे । कही तो ये मेघ नील कमल की आभा वाले थे । कहीं पर अम्बुज की आभा के तुल्य घामा वाले थे—और कुछ शो के दूध, कुन्द पुष्प और चन्द्र के समान थे । अन्य मीर और चन्द्रमा की आकृति वाले थे और कुछ विष्णु अर्थात् युष्म से रहित अग्नि की प्रभा के तुल्य थे । कुछ मेघ तो विशाल पर्वतों के ही विस्फुल सदृश रूप वाले थे और कुछ महामोघ (विशाल मछली) के कुल के समान थे । कुछ गजेन्द्र के समान आकृति वाले थे तथा कुछ मेघ महान

घोटी के तुल्य सुन्दर रूप वाले थे ॥३-४॥ कुछ मेष चलती, हुई तरंगों के समान रूप वाले थे और कुछ महा पुरोघान के तुल्य थे । कुछ गोपुर, घट्टालक के तुल्य थे जिनमे विद्युत, उल्का, ग्रहानि से मण्डित अन्त वाले थे ॥५॥ वह देख सम्पृत घंगो वाला हो गया था, सम्बर्त्तिक नाम वाला वह रोद्र गण प्रवर्षण करता हुआ इस समस्त जगत को अप्रमाण एक क्षणव वाला कर दिया था । इसके अनन्तर भय से विह्वल भङ्ग वाले मीने गङ्गा के जल के ओषों से समावृत घंगों वाला महान् मेषों से निवद्धमान और इन्द्र के वज्र से वृत अंगों वाले ईक्षान की देखा ॥६-७॥

गजाःपुनश्चैव पुनः पिवन्तो
जगत्समन्तात्परिदह्यमानम् ।
आपूरितं चैव जगत्समन्तात्
सर्वं श्व तैर्जगत्पुरदशनं च ते ।८

महार्णवाः सप्त सरांसि द्वीपा
नद्योऽथ सर्वा अथ भूमिवश्च ।
आपूर्यमाणाः सलिलोषजालं
रेकार्णवं सर्वं मिदं वभूव ॥९
न दृश्यते किञ्चिदहो चराचरे
निरग्निचन्द्रार्कमयेऽपि लोके ।

प्रणष्टनक्षत्रतमोऽन्वकारे
प्रशान्तवातास्तमितकनीडे ॥१०
महाजलीधेऽस्य विशुद्धसत्त्वा
स्तुतिर्मया भूप । कृता तदानीम् ।
ततोऽहमित्येव विचिन्तयानः

शरण्यमेकं वयं नु यामि शान्तम् ॥११
स्मरामि देवं हृदि चिन्तयित्वा प्रभुं शरण्यं जलसन्निविष्टम् ।
नमामि देवं शरणं प्रपद्ये ध्यानं च तस्येति कृत्तं मया च ॥१२
ध्यात्वा ततोऽहं सलिलं ततार तस्य प्रसादादविमूढचेताम् ।
ग्लानिः श्रमदचैव मम भ्रगष्टी देव्याः प्रसादेन नरेन्द्रपुत्र ॥१३

धारों ओर से परिदृश्यमान इस जगत् को पुनः पुनः गज पी रहे थे । सभी ओर से यह जगत् उनके द्वारा अपूर्ण रहता हुआ था और फिर वे अदर्शन को प्राप्त हो गये थे ॥८॥ सातों महाखंड—सब सर—सात द्वीप—समस्त नदियाँ और भूभुवः स्वः जलों के ओषो के जालों से अपूर्ण-मण होते हुए यह सब एकाखंड (समस्त समुद्रमय) हो गया था ॥९॥ भ्रमो ! अर्क—चन्द्र और अग्नि से रहित इस चराचर लोक में जो कि मक्षत्रों के नष्ट होने से अन्धकार पूर्ण और तमोमय था और वायु के भी प्रशान्त होने एक अस्तमित नीड हो रहा था कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था ॥१०॥ हे भूष ! उस महान् जलोप में उस समय में मैंने इनकी विशुद्ध सत्त्व वाली स्तुति की थी । इसके पश्चात् मैं ही हूँ, ऐसी चिन्ता करता हुआ कि एक परम शान्त शरण्य की शरणागति मे कहाँ जाऊँ ? ॥११॥ जल में सन्निविष्ट मैं अपने हृदय में परम शरण्य, देव प्रभु का चिन्तन करके स्मरण करता था । मैं देव को नमस्कार करता हूँ, शरण में जाता हूँ—इस तरह से मैंने उनका ध्यान किया था । इसके अनन्तर ध्यान करके उनके प्रसाद से अविमूढ़ चित्त वाला होकर सलिल में उरण किया था । ग्लानि और भ्रम हे नरेन्द्र पुत्र ! देवी के प्रसाद से मेरा सब नष्ट हो गया था ॥१२-१३॥

६२—याराहकल्पवृत्तान्तवर्णन

ततस्त्रैकाणं वै तस्मिन्भूर्परहमातुरः ।
 कावूच्छ्वासस्तरस्त्रोयं बाहुभ्यां नृपसत्तम ! ॥१॥
 शृणोम्यर्णवमध्य स्थो निःशब्दस्तिमितं तदा ।
 अम्भोरवमनोपम्यं दिशोदशविनादिनम् ॥२॥
 हंसमुदेन्दुसङ्काशां हारगोक्षीरपाण्डुराम् ।
 नानारत्नविचित्राङ्गीं स्वर्णशृङ्गां मनोरमाम् ॥३॥
 गुरुरप्रयासकमयेर्लाङ्गुलध्वजशोभिताम् ।
 प्रलम्बघोषां नदन्तीगुरुरर्णयगाहिनीम् ॥४॥

गा ददशाहमुद्विग्नो मामेवाऽभिसुखी स्थिताम् ।
 किङ्किणीजालमुक्ताभिः स्वर्णं घटासमावृताम् ॥५॥
 तस्याश्चरणविक्षेपैः सर्वमेकार्णवजलम् ।
 विक्षिप्तफेनपुञ्जोघैर्नृत्यन्तीव समन्ततः ॥६॥
 ररास सलिलोत्क्षेपं क्षोभयन्ती महार्णवम् ।
 सा मामाह महाभाग । श्लक्ष्णगम्भीरया गिरा ॥७॥

महर्षि प्रवर श्री मार्कण्डेयजी ने कहा—इसके उपरान्त उस एक मात्र सागर मे हे नृप सत्तम । मैं अत्यन्त घातुर और काबूच्छ्वास होता हुआ अपनी बाहुओं से जल को तैर रहा था । अर्णव के मध्य मे स्थित मैं शब्द रहित सीमित काल मे उस समय मे अनुपम और दशो दिशाओ मे विशेष ध्वनि करने वाले जल के शब्द को सुनता हूँ ॥१-२॥ हस, कुन्द, (एक श्वेत रंग का पुष्प) हन्दु (बन्दूक) के सदृश अर्थात् एक दम सकेव, हार, गाय का दूध के समान पाण्डुर, अनेक रंगों से विचित्र ब गों वाली, सुनहले सींगों से युक्त अतीव सुन्दर, प्रवालों से परिपूर्ण खुरों से युक्त, लागल (पूछ) और ध्वज से घोभा वाली, लम्बो नासिका वाली खुरों से अर्णव का ग्राहन करती हुई तथा नदन करने वाली गाय को मैंने अतीव उद्विग्न होते हुए देखा था जो कि मेरे ही सामने स्थित थी और किङ्किणी जाल मुक्ताओं से स्वर्ण के घटा से वह समावृता थी ॥३-५॥ उस चरणों के विक्षेपों से वह समस्त एकार्णव का जल विक्षिप्त फेनों के पुञ्जों व समूह से सभी ओर नाच सा रहा था । जल को उपर की ओर उत्क्षेपों से उस महार्णव मे क्षोभ करती हुई वह रास करती थी । वह मुझसे बोली— हे महाभाग । उसकी बाणी उस समय मे बहुत ही श्लक्ष्ण और गम्भीर थी ॥६-७॥

मा भंपोर्वत्सवत्सेति मृत्युस्तव न विद्यते ।

महादेवप्रसादेन न मृत्युस्तेमप्यापिच ॥८॥

ममाश्रयस्वलामूल त्वामतस्तारयाम्यहम् ।

घोरादस्माद्भयाद्विप्रयावत्सप्लवतजगत् ॥९॥

धुत्तृपाप्रतिधाताथं स्तनो मे त्वं पिबस्व ह ।
पयोऽमृताश्रयं दिव्यं तत्पीत्वा निवृत्तो भव ॥१०

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा हर्षात्पीतो मया स्तनः ।
न धुत्तृपा पीतमात्रे स्तने मह्यं तदाऽभवत् ॥११

दिव्यं प्राणबलं जज्ञे समुद्रप्लवनक्षमम् ।
ततस्ता प्रत्युवाचेदं का त्वमेकार्णवीकृते ॥१२

भ्रमसे ब्रूहि तत्त्वेन विस्मयो मे महान्हुदि ।
भ्रमतोऽप्रममात्स्य मुर्ध्नीः प्रहतस्यह ॥१३
त्वं हि मे क्षरणं जाता भाग्यशेषेण सुव्रते ! ॥१४

हे बत्स ! हे बत्स ! डरो मत, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । महादेव का प्रसाद ऐसा ही है कि उससे न तो तुम्हारी मृत्यु है और न मेरी ही । तुम मेरी पूँछ को पकड़ लो, मैं तुमको तार दूँगी । हे विप्र ! जब तक यह जगत में सञ्चल होता है मैं तब तक इस अति घोर भय से मैं उद्धार करती हूँ । अपनी क्षुधा घोर पिपासा के प्रतिधान करने के लिए तुम मेरे स्तनो का पान करो । यह मेरा अमृताश्रय परम दिव्य पय है उसको पीकर निवृत्त हो जाओ । उसके इस वचन का अवलम्ब करके मैंने बहुत ही हर्ष से उसका स्तन पिया था । उस समय मे उस स्तन के पीने ही भर से मुझे क्षुधा और तृषा नहीं रही थी । मुझमें उस समय मे परम दिव्य प्राण बल समुत्पन्न हो गया था जो कि समुद्र के प्लवन की सामर्थ्य रखने वाला था । इस ६ पश्चात् मैंने उससे कहा था—घ्राप कौन हैं ? जो इस एकार्णवी भूत हुए जल मे इस तरह से भ्रमण कर रही हैं । घ्राप इसको तात्त्विक रूप से मुझे बतलाइये । मेरे हृदय मे इस बात का बड़ा भारी विस्मय हो रहा है । यहा पर परम आर्त भ्रमण करते हुए मेरी, जो कि प्रहत और मरने वाला हो रहा हूँ हे सुव्रते ! मेरे भाग्य की शेषता होने से हाँ घ्राप संरक्षण करने वाली हो गई हैं ॥८-१४॥

किमहं विस्मृता तुभ्यं विश्वरूपामहेश्वरी ।
नर्मदाघर्मदानृणास्वर्गशर्मबलप्रदा ॥१५

दृष्ट्वा त्वां सीदमानं तु रुद्रेणाऽहं विसर्जितां ।
 तं द्विजं तारयस्वार्थे मा प्राणास्त्यजतां जले ॥१६
 गोरूपेण विभोर्वाक्यास्वत्सकाशमिहागता ।
 मा मृपावचनः शम्भुर्भवेदिति च सत्त्वरा ॥१७
 एवमुक्तस्तयाऽहं तु इन्द्रायुधानिभंशुभम् ।
 लांगूलमव्ययं ज्ञात्वा भुजाभ्यामवलम्बितः ॥१८
 ततोऽन्तरं तं जलधिनागूलध्वजमाश्रितः ।
 असी देवो महादेव इति मां प्रत्यभाषत ॥१९
 ततो युगसहस्रान्तमहं कालं तथा सह ।
 व्यचरं वै तमोभूते सर्वं तः सलिलावृते ॥२०
 महार्णवे ततस्तस्मिन् भ्रमन्गोः पुच्छमाश्रितः ।
 निर्वाते चान्धकारे च निरालोके निरामये ॥२१

गौ ने कहा—क्या आपने मुझको भुला दिया है ? मैं विश्वरूप वाली महेश्वरी हूँ । मेरा नाम नर्मदा है और मैं मनुष्यों को धर्म के देने वाली तथा स्वर्ग कल्याण और बल प्रदान करने वाली हूँ । तुमको अत्यन्त पीड़ित होते हुए देखकर भगवान् रुद्र ने मुझे छोड़ दिया है और उन्होंने मुझे यहाँ भेजते हुए आज्ञा दी थी कि हे आर्ये ! उस द्विज का तारण करो । यह इस जल में अपने प्राणों का परित्याग न कर देवे । विभु के ही इस वचन से मैं गौ के रूप में तुम्हारे समीप में यहाँ पर समागत हुई हूँ कि भगवान् शम्भु का वचन मिथ्या न होने पावे । इसीलिए मैंने बड़ी शीघ्रता से आगमन किया है । इस प्रकार से उसके द्वारा कहे हुए मैंने इन्द्र के आयुध के तुल्य परम शुभ एवं अव्यय समझकर उसको पूछ को दोनों बाहुओं में पकड़ लिया था । इसके अनन्तर लांगूल ध्वज उस जलधि के आश्रित यह देव महादेव है यह मुझसे कहा था । इसके पश्चात् मैं उसके साथ एक सहस्र युग के अन्त तक समय में सब ओर से जल से समावृत उस अन्धकार पूर्ण में विचरण करता रहा था । इसके उपरान्त उस महार्णव में गौ की पूँछ का आश्रय ग्रहण करने वाला मैं बिना वायु वाले आलोक रहित निरामय अन्धकार में भ्रमण कर रहा था ॥१५-२१॥

अकस्मात्सलिले तस्मिन्नतसीपुष्पसन्निभम् ।
 विभिन्नांठजनसंकाशमाकाशमिव निर्मलम् ॥२२
 नीलोत्पलदलश्यामं पीतवाससमव्ययम् ।
 किरीटेनार्कवर्णेनविद्युद्विद्योतकारिणा ॥२३
 भ्राजमानेनशिरमास्त्रमिवात्यन्तरूपिणम् ।
 कुण्डोद्घटगुलं तुहारोद्घयोत्तितवक्षसम् ॥२४
 जाम्बूनदमयं दिव्यं भूषणं रूपगोभितम् ।
 नागोपधानशयनं सहस्रादित्य वर्चसम् ॥२५
 अनेकबाहूरुधरं नैकवक्त्रं मनोरमम् ।
 सुप्तमेकार्णवं वीरं सहस्राक्षशिरोधरम् ॥२६
 जटाजूटेन महतास्फुरद्विद्युत्समाचिपा ।
 एकार्णवं जगत्सर्वं व्याप्य देवव्यवस्थितम् ॥२७
 प्रसित्वा शंकरं सर्वं सदेवामुरमानवम् ।
 प्रपश्याम्यहमीशानं सुप्तमेकार्णवं प्रभुम् ॥२८

अचानक उस जल झल में अलसी के पुष्प, के सदृश, विभिन्न भ्रंजन के तुल्य, आकाश के समान निर्मल, नीलकमल के सदृश श्याम, पीत वस्त्र धारी अव्यय, विद्युत् के तुल्य विद्योतकारी, सूर्य के समान किरीट से शोभित भ्राजमान, शिर से आकाश की भाँति अत्यन्त रूप वाले उस एकार्णव ने शयन करने वाले ईशान प्रभु को मँने देखा था । जो कुण्डलो से उद्घुष्ट गाली वाले थे । सुवर्ण मय दिव्य भ्राभूषणों से वह शोभित थे । जिनको शय्या पर नागों का ही उपधान (तकिया) था और जो सहस्रों आदित्यों के तुल्य वर्चस धाले थे । उनके अनेक बाहु और ऊरु थे तथा अनेक मुखों से युक्त वे अत्यन्त ही मनोरम थे । सहस्रों नेत्र एक मस्तक के धारण करने वाले वह वीर उस एकार्णव में सुप्त थे । विद्युत् के समान अचियो वाले अर्थात् ज्योति की ज्वालाओं से युक्त महान् जटाजूटों से समुपलक्षित थे । उस एकार्णव सम्पूर्ण जगत् को व्याप्त करके वे देव अवस्थित थे । सबका प्राप्त करके जिस विश्व में देव अमुर और मानव सभी थे ऐसे शरर प्रभु का मँने दर्शन किया था ॥२२-२८॥

सर्वव्यापिनमव्यक्तमनन्तं विश्वतोमुखम् ।
 तस्यपादतलाम्याशेष्वर्णकेयूरमण्डिताम् ॥२९
 विश्वरूपां महाभागां विश्वमायावधारिणीम् ।
 श्रीमयी ह्रीमयी देवी धीमयी वाड मयी शिवाम् ॥३०
 सिद्धि कीर्ति रति ब्राह्मी कालरात्रिमयोनिजाम् ।
 तामेवाहं तदात्यन्तमीश्वरान्तिकमास्थिताम् ॥३१
 अद्राक्षं चन्द्रवदनां घृतिं सर्वेश्वरीमुमाम् ॥३२
 शान्तं प्रमुप्तं नवहेमवर्णं गुमासहायं भगवन्तमीशम् ।
 तमोद्युतं पुण्यतमं वरिष्ठं प्रदक्षिणीकृत्य नमस्करोमि ॥३३
 ततः प्रसुप्तः सहसा विबुद्धो
 रात्रिक्षये देववरः स्वभावात् ।
 विक्षोभयन्बाहुभिरणं वाम्भो
 जगत्प्रणष्टं सलिले विमृश्य ॥३४
 किं कार्यमित्येव विञ्चिन्तयित्वा
 वाराहरूपोऽभवदद्भुताङ्ग ।
 महाघनाम्भोधरनुल्यवर्चाः
 प्रलम्बमालाम्बरनिष्कमाली ॥३५

यह भगवान् सर्वव्यापी—अव्यक्त और अनन्त तथा विश्वतो मुख थे उनके चरण तलों के समीप में ही सुवर्ण के रचित केयूरो से मण्डित—विश्वरूप वाली—महाभागा विश्वमाया की अवधारिणी—श्रीमयी—ह्रीमयी—धीमयी—वाड मयाशिवी—देवी—सिद्धि—कीर्ति—रति—ब्राह्मी—मयोनिजा—कालर त्रि उसी की मैंने ईश्वर के अत्यन्त समीप में समास्थित उस समय में देखा था जो कि चन्द्रमा के तुल्य मुख वाली—घृति और सर्वेश्वरी उमा थी । परम शान्त—सोये हुए—नूतन हेम के सहस्र धर्ण वाले—उमा की सहायता वाले—तम में आवृत्त—पुण्यतम—वरिष्ठ—भगवान् ईश की प्रदक्षिणा करके मैंने नमस्कार किया था । इसके अनन्तर सोये हुए थे देववर सहसा रात्रि के क्षय होने पर विबुद्ध हो गये थे अर्थात् जाग गये थे । स्वभाव से बाहुओं से उस अर्णव के जन को विशुद्ध

कर रहे थे । उस जल में सम्पूर्ण जगत् को नष्ट हुआ सोचकर अब क्या करना चाहिए—यही विशेष रूप से चिन्तन करके प्रद्युम्न अङ्ग एवं रूप वाले वे वाराह रूप वाले हो गये थे । जो महान् घन घम्भोर्धर के समान वचंस वाले श्रीर प्रलम्ब माला श्रीर अम्बर तथा निष्क (मले का भूषण) की माला के धारण करने वाले थे ॥२६-३५॥

सशंखचक्रासिधरः किरीटी सवेदवेदाङ्गमयो महात्मा ।

त्रैलोक्यनिर्माणकरः पुराणो देवत्रयीरूपधरश्च कार्यः ॥३६॥

स एव हद्रः स जगज्जहार

सृष्टयर्थं मीशः प्रपितामहोऽभूत् ।

सरक्षणार्थं जगतः स एव

हरिः मुचक्रासिगदाब्जपाणिः ॥३७॥

तेषां विभागो न हि कर्तुमर्हो

महात्मनामेकशरीरभाजाम् ।

मीमासहेत्वर्थं विशेषतर्कं

यंस्तेषु कुर्यात्प्रविभेदमज्ञः ॥३८॥

स याति घोरं नरकं क्रमेण

विभागकृद्द्वेषमतिदुःरात्मा ।

या यस्य भक्तिः स तयैव नूनं

देहं त्यजन्स्वं ह्यमृतत्वमेति ॥३९॥

सम्मोहयन्मूर्तिभिरत्र लोकं

स्रष्टा च गोप्ता क्षयकृत्स देवः ।

तस्मान्न भोहात्मकमाविशेत्

द्वेषं न कुर्यात्प्रविभिन्नमूर्तिः ॥४०॥

वाराहमीशानवरोऽप्यतोऽसौ

रूपं तत्रास्थाप्य जगद्धिशाह्वान् ।

नष्टे त्रिलोकेऽणं वतोयमग्ने

विमार्गितो यो घमयेऽन्तरात्मा ॥४१॥

वह देव शंख—चक्र और शसि (खड्ग) के धारण किये हुए थे—
किरीटधारी—वेदों और वेदाङ्गों से परिपूर्ण—महात्मा वाले—
त्रिलोकी के निर्माण को करने वाले—पुराण और कार्य में, तीन देवों के
रूप धारण करने वाले हैं । वही रुद्रदेव इस जगत् का हरण करने वाले हुए
थे । वह ही सृष्टि की रचना करने के लिये ईश प्रपितामह हुए थे । इस
जगत् की रक्षा करने के लिये वह ही चक्र, गदा, खड्ग और पकज को धारण
करने वाले श्रीहरि हुए हैं । एक ही शरीर को धारण करने वाले उन
महात्माओं का विभाग नहीं करने योग्य है । मीमांसा—हेतु—अर्थ विशेष
और तर्कों के द्वारा जो कोई उन में विभाग करता है या प्रभेद मानता है
वह बहुत ही अज्ञानी एक मूढ़ है ॥३६-३८॥ इस प्रकार से विभाग करने
वाला द्वेष बुद्धि से युक्त दुष्टात्मा क्रम से घोर नरक में गमन किया करता
है । जिस पुरुष को उस देवी की भक्ति होती है वह उसी के प्रभाव से
निश्चय ही अपने देह का त्याग करता हुआ अमृतत्व को प्राप्त होता है
॥३९॥ यहाँ पर इन मूर्तियों के द्वारा लोक को सम्मोहित करते हुए
वही सृजन करने वाले—संरक्षण करने वाले और क्षय करने वाले हैं ।
इसीलिए यह भिन्न २ मूर्तिधारी है—ऐसा मोहात्मक द्वेष नहीं करना
चाहिए । यह ईशान वर नाराह के स्वरूप में समास्थित होकर इस जगत्
के विधाता हैं । इस त्रिलोक्य के नष्ट हो जाने पर और अर्णव के जल में
निमग्न होने पर विमार्गी जल के समूह से पूर्ण में अन्नरात्मा अर्णव के
जल का भेदन करके अन्तर में स्थित पाताल में क्षणभर में प्रवेश कर गये
थे । जल में डूबी हुई कमल के दल के तुल्यनेत्रों वाली इस सम्पूर्ण धरणी
का स्पर्श किया था ॥४०-४१॥

भित्त्वारणं वं तोयमथान्तरस्थं
विवेश पातालतलं क्षणेन ।
जले निमग्नां धरणीं समस्तां
समस्पृशत्पद्भुजपक्षनेत्राम् ॥४२
विशीर्णं शैलोत्पलशृङ्गकूटां
वसुन्धरां तां प्रलये प्रलीनाम् ।

दंष्ट्रकया विष्णुरतुल्यसाहसः
 समुद्धार स्वयमेव देवः ॥४३
 सा तस्य दंष्ट्राग्रविलम्बिताङ्गी
 कैलासशृङ्गाग्रगतेव ज्योत्स्ना ।
 विभ्राजते साप्यसमानमूर्तिः
 शशाङ्कशृङ्गे च तडित्विलम्बा ॥४४
 तामुज्जहारानं वतोयमनां
 फरी निमग्नामिव हस्तिनी हठात् ।
 नावं विशीर्णामिव तोयमध्या
 दुशीर्णसत्त्वोनुपमप्रभावः ॥४५
 स तां समुत्तार्य महाजलोपात्
 समुद्रमार्यो भ्यभजत्समस्तम् ।
 महार्णवेऽथैव महार्णवाम्भो
 निक्षेपयामास पुननं दीपु ॥४६
 शीर्णाश्च शैलान्स चकार भूयो
 द्वीपान्समस्ताश्च तथार्णवाश्च ।
 शैलोपलैर्ये विचिताः समन्ता
 च्छिलोच्चयास्तान्स चकार कल्पे ॥४७

अनेककल्पं प्रविभज्य देहं चकार देवेन्द्रगणान्समस्तान् ।
 मुखाच्च वह्निर्मनसश्च चन्द्रश्चक्षीश्च सूर्यः सहसा बभूव ॥४८
 जज्ञेऽथ तस्येश्वरयोगमूर्तेः प्रध्यायमानस्य सुरेन्द्रसंपः ।
 वेदाश्चयज्ञाश्चतथैव वर्गास्तथा हि सर्वोपधयोरसाश्च ॥४९

विशीर्ण हुए फीलों के उत्पन्न शृंगकूटों वाली—प्रलय में प्रलीन उस
 वसुंधरा को अतुल्य साहस वाले देव विष्णु ने स्वयं ही एक दंष्ट्रा से उठा
 लिया था ॥४३॥ वह धरणी उनकी दाढ़ के अग्र भाग में लटके हुए अर्गों
 वाली कैलास पर्वत की चोटी के अग्रभाग में फँसी हुई ज्योत्स्ना के समान
 शोभित हो रही थी । असमान मूर्ति वाली वह भी शशाङ्क के शृंग में
 मिलान ठटिर् जैसी थी ॥४४॥ उस धरणी को जो कि अर्णव के अत

में निमग्न थी जल में हूवी हुई हविनी को हर पूर्वक उद्धार करने वाले हाथी की भाँति वाराह भगवान् ऊपर उठा लिया था । उदीर्ण सत्व वाले तथा अनुपम प्रभाव से समन्वित उन देव ने जल के मध्य से विसीर्ण हुई नौका की भाँति उस भूमि को महान् जल के समूह से ऊपर उठाकर उनसे सम्पूर्ण समुद्र का विभाग कर दिया था । महार्णव के जल को महान् भ्रमणों में और फिर नदियों में निक्षिप्त कर दिया था । शीर्ण हुए पर्वतों को उगहोने पुनः कर दिया था । उसी तरह से समस्त द्वीपों को घोर भ्रमणों को भी प्रयासित कर दिया था । उन्होंने जो शैलों के उपलों से चारों ओर में विक्षिप्त थे उन शैलोच्चयों को कल्प में कर दिया था । अपने देह को अनेक स्वरूपों में विभक्त करके फिर समस्त देवेन्द्र गणों को कर दिया था । उनके मुख से अग्नि समुत्पन्न हुई—पन से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई—वधु से सहसा सूर्य देव समुत्पन्न हुए थे ॥४५०-४५॥ प्रकृष्ट रूप से ध्यान करने वाले योगभूति उन ईश्वर से सुरेन्द्रों का संघ समुत्पन्न हुआ था । समस्त वेद-यज्ञ-वर्ण-सर्वापधियाँ और समस्त रस उत्पन्न हुए थे ॥४६॥

जगत्समस्तं मनसा वभूव
यस्स्यावरं किञ्चिदिहाऽण्डजं वा ।
जरायुजं स्वेदजमुद्भिजं वा
यत्किञ्चिदाकोटिपिपीलकाद्यम् ॥५०

ततो विजज्ञे मनसा क्षणेन
अनेकरूपाः सहसा महेशः ।
अकार यन्मूर्तिभिरव्ययात्मा
अष्टाभिराविश्य पुनः स तत्र ॥५१

श्रीलां चकाराऽथ समृद्धतेजा अतोऽत्र मे पश्यत एव विप्राः ।
तेषां मया दक्षं नमेव सर्वं यावन्मुहूर्तत्समकारि भूप ॥५२
कृत्वा त्वशेषं किल लोलयैव स देवदेवो जगतां विधाता ।
सर्वत्रहृक्तवंग एव देवो जगाम चाऽदशानमाधिकर्ता ॥५३

यत्तन्मुहूर्तविह नामरूपं तावत्प्रपश्यामि जगत्तथैव ।
 द्वीपं समुद्रैरभिसम्भृतं हि नक्षत्रतारादिविमानकीर्णम् ॥५४
 वियत्पयोदग्रहंचक्रचित्रं
 नानाविधैः प्राणिगणैर्वृतं च ।
 तां वं न पश्यामि महानुभावां
 गोरूपिणीं सर्वसुरेश्वरीं च ॥५५
 क्व साम्प्रतं सेति विचिन्त्य राजन्
 विभ्रान्तचित्तस्त्वभवं तद्वैव ।
 दिशो विभागानवलोकयान्
 श्रुते पुनस्तां कयमीश्वरांगीम् ॥५६

यह सम्पूर्ण जगत् मन से ही हुआ था जो भी स्थावर वृक्ष है पथवा
 यहाँ प्रण्डत्र है । कोट—पिपीलिका आदि से लेकर जो वृक्ष भी जरापुत्र—
 स्वेदज और उदिमज सृष्ट है । इसके उपरान्त भगवान् महेश ने दाएँभर
 में सहस्रांशनेक रूपों वाली सृष्टि का मृजन मन से ही किया था । वह
 अक्षय आरमा वाले ने वहाँ पर पुनः आठ मूर्तियों में आविष्ट होकर यह
 सब किया था । हे विप्रो ! मेरे देखते हुए ही समुद्र तैल वाले प्रभु ने इन
 के पश्चात् लोला की थी । हे भूष ! मुहूर्त मात्र तक मैंने उनके समस्त
 दर्शन जब तक किये थे । जगत् के विघाता देवी के देव ने यह सब
 लोला ही से करके सर्वत्र विशालाई देने वाले और सभी जगह गमन करने
 वाले बहु देव आदिकर्ता बदरसन को प्राप्त हो गये थे । यहाँ पर मुहूर्त
 मात्र में ही यह नाम और रूप वाला जगत् उगी प्रकार का समस्तान्त
 हुआ मैं देखया हूँ जो कि समस्त द्वीपों और समुद्रों से अग्नि संश्रुतया
 तथा नक्षत्र और तारादि विमानों से भी संकीर्ण हो रहा था । यह घन-
 रिक्त पयोद (मेघ)—इहो के पत्र से पिण्ड था और माना प्रकार के
 प्राणियों के समुदाय से भी समावीर्ण था । फिर मैं उन महापुष्पावा गाय
 रवस्व नामी गर्वेश्वरी को नहीं देखता था । हे राजन् ! उन समय में
 यह शून्य थी—शुद्ध विचिन्तन करने में विभ्रान्तचित्त वाला हो गया

या । फिर ईश्वरान्गी उसके अभाव में कैसे दिशाओं के विभागों को देखने वाला होता ॥१०-१६॥

पश्यामि तामत्र पुनश्च शुभ्रां

महाभ्रनीलां शुचिशुभ्रतोयाम् ।

वृक्षरनेकरूपशोभितांगी

गजस्तुरङ्गविहगवृतां च ॥५७

यथा पुरा तीरमुपेत्य देव्याः

समास्थितश्चाप्यमरकण्टके तु ।

तथैव पश्यामि सुखोपविष्ट

आत्मानमव्यग्रमवाप्तसौख्यम् ॥५८

तथैव पुण्यामलतोयवाहां

दृष्ट्वा पुनः कल्पपरिक्षयेऽपि ।

अम्बामिदार्यामनुकम्पमाना

मक्षीणतोयां विरुजां विशोकः ॥५९

एवं महत्पुण्यतमं च कल्पं

पठन्ति शृण्वन्ति च ये द्विजेन्द्राः ।

महावराहस्य महेश्वरस्य

दिने दिने ते विमला भवन्ति ॥६०

अशुभशतसहस्रं ते विधूय प्रपन्ना

स्त्रिदिवममरजुष्टं सिद्धगन्धर्वयुक्तम् ।

विमलशशितिभाभिःसर्वैवाप्सरोभिः

सहृदिविघविलासंस्त्वर्गसौख्यं लभन्ते ॥६१

मैं फिर यहाँ पर उसको महान् अन्न के (भेष के) समान मोल परण वाली—शुचि एवं शुभ्र जल वाली और परम शुभ्र उसका दर्शन करता हूँ । वह अनेक वृत्तों से उपरोमित अंगों वाली तथा गज, अश्व और विहगों से समावृत्त थी । जिस प्रकार से पहिले तीर को प्राप्त होकर देवों के समीप में अमर कण्टक में समास्थित हो गया और उसी भाँति अल्प प्राण हुए गौरव वाले आत्मा को गुण पूर्वक उपविष्ट होकर देखा

हैं। उसी प्रकार से परम पुण्यमय एवं जमल जल के बहन करने वाली को देखकर फिर कल्प के परिक्षय में भी शम्बा की भाँति अनुकम्पा करती हुए क्षीणता रहित जल वाली विहङ्गा भार्या को शोक रहित होकर देखता है। जो द्विजेन्द्र इमं प्रकार से इमं महाद् पुण्यतम महा वराह महेश्वर के कल्प को पढते हैं और ध्वज करते हैं वे दिन—दिन में विमल हो जाया करते हैं। वे सैकड़ों और सहस्रों भ्रशुभों का विनाश करके प्रपन्न हुए देवों से सेवित्र और विद्वत् तथा गन्धर्वों से ममश्वित स्वर्ग के परम सुख का उपभोग किया करते हैं जो स्वच्छ चन्द्र के तुल्य धर्मस-रामो के साथ विविध प्रकार के विनाशों से युक्त होता है ॥५७-६१॥

८३—मेघनादतीर्थमाहात्म्यवर्णनं

जलमध्ये महादेवः केनतिष्ठति हेतुना ।
 उत्तरं दक्षिणं कूलं वर्जयित्वा द्विजोत्तम ॥१॥
 एतदास्थानमतुलं पुण्यं श्रुतिसुखावहम् ।
 पुराणे यच्छ्रुतं तात तत्तं वक्ष्याम्यशेषतः ॥२॥
 त्रेतायुगे महाभाग रावणो देवकण्ठकः ।
 श्रंलोक्यविजयी रौद्रः सुरासुरभयङ्करः ॥३॥
 देवदानवगन्धर्वैश्च पिभिश्च तपोधनेः ।
 अवध्योऽयं विमानेन यावत्पयंटेतेमहीम् ॥४॥
 तावद्विन्ध्यगिरेर्मध्येदानवोबलदपितः ।
 मयोनामेतिविस्थातो गुहावासी तपश्चरन् ॥५॥
 तस्य पार्श्वं गतो रक्षो विनयादवनिगतः ।
 पूजितो दानसन्मानं रिद वचनमब्रवीत् ॥६॥
 कस्येयं पद्मपत्राक्षी पूर्णचन्द्रनिभानना ।
 किनामधेया तपति तप उग्रं कथं विभो ॥७॥

युधिष्ठिर ने कहा—हे द्विजोत्तम ! महादेव जल के मध्य में उत्तर और दक्षिण कूल को बर्जित करके किस हेतु से स्थिर रहा करते हैं ? धीमार्क-

ण्डेयजी ने कहा—यह आर्याण तो बहुत ही अनुपम है और परम पुण्य पूर्ण है तथा श्रवणो को मुख प्रदान करने वाला है । हे वास ! पुराण में मैंने जो कुछ भी सुना है उस सबको मैं आपको बतलाता हूँ । हे महा-भाग ! भेतापुग में देवों के लिये बृष्टक रावण हुआ था जो पिलोकी को पराजित कर विजय प्राप्त करने वाला, महान् रौद्र और मुर, असुर सबके लिये बहुत ही भयकर था । वह देवों, दानवों, गन्धर्वों, ऋषियों और तपोधनों के द्वारा बध करने के योग्य नहीं था । वह विमान के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन किया करता था । जैसे ही वह पर्यटन कर रहा था वैसे ही विन्ध्य गिरि के मध्य में एक बल के द्वीप वाला मय नाम वाला दानव था जो परम प्रसिद्ध था और गुफाओं में निवास करते हुए तपश्चर्या कर रहा था । उसके समीप में जाकर राक्षस ने विनय से प्रव-नत होकर भूमि में अवस्थिति की थी । दान और सम्मानों के द्वारा उसकी पूजा की थी और अन्त में उसने मय से यह वचन कहा था—यह कमल दल के समान नेत्रों वाली तथा पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य मुख वाली यह क्या नाम वाली है, हे विभी ! यह क्यों ऐसी उग्र तपश्चर्या कर रही है ?

॥१-७॥

दानवाना पतिः श्रेष्ठो मयोऽहं नाम नामतः ।
 भार्या तेजोवती नाम तस्यास्तु तमया शुभा ॥८
 मन्दोदरीतिविख्यातातपते भर्तृकारणात् ।
 धाराधयन्ती भर्तारमुमयादयितं शुभम् ॥९॥
 तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य रावणो मदमोहितः ।
 प्रमृत् प्रणतो भूत्वा मयम्यचनमद्रवीत् ।
 पोलस्त्यानवयसञ्जातो देवदानवदर्पहा ।
 प्राथयामिमहाभागमुता त्वं दानुमहं सि ॥११
 शात्वापंतामहं वृत्त मयेनाऽपि महात्मना ।
 रावणायमुनादत्ता पूजयित्वाविधानतः ॥१२
 गृहीत्वा ता तदा रक्षोऽभ्यर्च्यमानो निशाचरः ।
 देवोद्याने विमानंश्च कीदृते न तथा मह ॥१३

हूँ । उसी प्रकार से परम पुण्यमय एवं अमल जल के बहन करने वाली को देखकर फिर कल्प के परिक्षय में भी अम्बा को भीति अनुकम्पा करती हुए क्षीणता रहित जल वाली विध्वज आर्या को शोक रहित होकर देखता हूँ । जो द्विजेन्द्र इस प्रकार से इस महान् पुण्यतम महा वराह महेश्वर के कल्प को पढ़ते हैं और ध्वज करते हैं वे दिन—दिन में विमल हो जाया करते हैं । वे सैकड़ों और सहस्रों अर्जुनों का विनाश करके प्रपन्न हुए देवों से सेविन और विद्व तया गन्धर्वों से ममत्वित स्वयं के परम सुख का उपभोग किया करते हैं जो स्वच्छ चन्द्र के तुल्य प्रत्स-रामो के साथ विविध प्रकार के विनासों से युक्त होता है ॥५७-६१॥

८३—मेघनादतीर्थमाहात्म्यवर्णन'

जलमध्ये महादेवः केनतिष्ठति हेतुना ।
 उत्तरं दक्षिणं कूलं वर्जयित्वा द्विजोत्तम ॥१
 एतदाख्यानमतुलं पुण्यं धृतिमुखाबहसु ।
 पुराणे यच्छ्रुतं तात तत्तं वक्ष्याम्यशेषतः ॥२
 त्रेतायुगे महाभाग रावणो देवकण्ठकः ।
 त्रलोक्यविजयी रौद्रः सुरासुरभयङ्करः ॥३
 देवदानवगन्धर्वैश्च पिभिश्च तपोधनैः ।
 अवध्योऽप्य विमानेन यावत्पर्यटतेमहीम् ॥४
 तावद्विन्वपिगिरेर्मध्येदानवोबलदर्पिनः ।
 मयोनामेतिविख्यातो गुहावासी तपश्चरन् ॥५
 तस्य पार्श्वगतो रक्षो विनयादवनिगतः ।
 पूजितो दानसन्मानं रिदं वचनमब्रवीत् ॥६
 कस्येयं पद्मपत्राक्षी पूर्णचन्द्रनिभानना ।
 किनामधेया तपति तप उग्रं कथं विभो ॥७

युधिष्ठिर ने कहा—हे द्विजोत्तम ! महादेव जल के मध्य में उत्तर और दक्षिण कूल को वर्जित करके किस हेतु से स्थित रहा करते हैं ? धोमार्क-

ण्डेयजी ने कहा—यह आर्याण तो बहूँ ही अनुपम है और परम पुण्य पूर्ण है तथा श्रवणो को सुख प्रदान करने वाला है । हे तात ! पुराण में मैंने जो कुछ भी सुना है उस सबको मैं आपको बतलाता हूँ । हे महाभाग ! त्रेतायुग में देवों के लिये बृष्टक रावण द्रुमा या जो त्रिलोकी को पराजित कर विजय प्राप्त करने वाला, महान् रौद्र और सुर, असुर सबके लिये बहुत ही भयकर था । वह देवों, दानवों, गन्धर्वों, प्रहृषिणों और तपोधनों के द्वारा बध करने के योग्य नहीं था । वह विमान के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी पर पर्यटन किया करता था । जैसे ही यह पर्यटन कर रहा था वैसे ही विण्ध्य गिरि के मध्य में एक बल के दर्पण वाला मय नाम वाला दानव था जो परम प्रसिद्ध था और गुफाओं में निवास करते हुए तपश्चर्या कर रहा था । उसके समीप में जाकर राक्षस ने विनय से प्रवृत्त होकर भूमि में अवस्थिति की थी । दान और सम्मानों के द्वारा उसकी पूजा की थी और अन्त में उसने मय से यह वचन कहा था—यह कमल दल के समान नेत्रों वाली तथा पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य मुख वाली यह क्या नाम वाली है, हे विभो ! यह क्यों ऐसी उग्र तपश्चर्या कर रही है ?

॥१-७॥

दानवाना पतिः श्रेष्ठो मयोऽहं नाम नामतः ।

भार्या तेजोवती नाम तस्य।स्तु तमया शुभा ॥८

मन्दोदरीतिविख्यातातपते भर्तृकारणात् ।

आराधयन्ती भर्तारमुभयादयितं शुभम् ॥९१०

तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य रावणो मदमोहितः ।

प्रसृतः प्रणतो भूत्वा मयम्बचनमब्रवीत् ।

पौलस्त्यान्वयसञ्जातो देवदानवदर्पहा ।

प्राथयाभि महाभागसुता त्वं दातुमर्हसि ॥११

ज्ञात्वापि तामहं वृत्तं मयेनाऽपि महात्मना ।

रावणायसुतादत्ता पूजयित्वा विधानतः ॥१२

गृहीत्वा ता तदा रक्षोऽभ्यर्च्यमानो निशाचरैः ।

देवोद्याने विमानंश्च क्रीडते स तथा सह ॥१३

केनचित्त्वथ कालेन रावणो लोकरावणः ।

पुत्रवता श्रेष्ठो जनयामास भारत ॥१४

मय ने कहा—दानवों का परम श्रेष्ठ पति नाम से मय नाम वाला है । मेरी भार्या तेजोवती नाम वाली है और उसकी यह शुभा पुत्री है । उसका नाम मन्दोदरी प्रसिद्ध है और यह अपने स्वामी की प्राप्ति के लिये ही तपस्या कर रही है । जमा देवी के परम सुभ स्वामी की आराधना करती हुई अपने भर्ता की कामना करती है । मद् से मोहित रावण उसके इस वचन का श्रवण करके परम प्रसृत एवं प्रसूत होकर मय से यह वचन बोला था—मैं पीलस्त्य वरा में समुत्पन्न हुआ हूँ और मैंने देवों तथा दानवों के दर्प का भ्रंश भी किया है । हे महाभाग ! मैं यह प्राथना करता हूँ कि इस अपनी सुता को प्राय मुझे देने के योग्य हूँ । महात्मा मय ने भी पितामह (पुतस्त्य) के वृत्त का समझकर उस मन्दोदरी अपनी पुत्री को विधि पूजक पूजकर रावण के लिये दे दिया था । उस समय मे निशाचरों के द्वारा अमृत्य मान होता हुआ वह राक्षस रावण उस समय मे उस मन्दोदरी को पहण करके फिर देवोद्यान मे विमानों के द्वारा उस मन्दोदरी के साथ क्रोडा किया करता था । हे भारत ! कुछ समय व्यतीत होते हुए उस लोको को मयभीत करने वाले उस रावण ने जो पुत्रवाली मे परम श्रेष्ठ था, पुत्र समुत्पन्न दिया था ॥८-१४॥

तेनैवजातमात्रेणरावो मुक्तोमहात्मना ।

सम्बर्त्तकस्यमेघस्य तेन लोकाजडीकृताः ॥१५

श्रुत्वातन्नदित घोर ब्रह्मालोकवितामहः ।

नाम चक्रे तदा तस्य मेघनादोभविष्यति ॥१६

एवंनामा कृतसोऽपि परमं व्रतमास्थितः ।

तोषयापस्त देत्रेशमुपया मह शङ्करम् ॥१७

यतैन्नियमदानैश्च होमजाप्यविधानतः ।

कृच्छ्रचान्द्रायणानित्यं कृशं कुर्वन्कलेवरम् ॥१८

एवमन्यद्दिने तात ! कैलासं धरणीधरम् ।
 गत्वार्लिङ्गद्वयंगृह्यप्रस्थितोदक्षिणामुखः ॥१५
 नर्मदातटमाश्रित्य स्नातुकामो मेहावलः ।
 निक्षिप्य पूजयन् देवं कृतजाप्यो नरेश्वर ! ॥२०
 तत्रायतनवासेन स्नातो हुतहुताशनः ।
 कृतकृत्यमिवात्मानं मानयित्वा निशाचरः ॥२१

महात्मा उस पुत्र ने समुत्पन्न होते ही एक परम भयानक राव अर्थात्
 षडनि की थी । वह राव सम्बलक मेघ का-का था और उससे समस्त लोको
 जडोभूत बना दिया था । उस परम घोर मदित को सुनकर लोको के
 पितामह ब्रह्माजी ने उस समय में यह मेघनाद होया—ऐसा नाम कर
 दिया था । इस प्रकार का नाम प्राप्त करने वाला वह भी परम व्रत में
 समास्थित हो गया था । उसने भी उमादेवी के सहित देवेश्वर शङ्कर को
 अपने तपश्चर्या से तोषित कर दिया था । व्रत—नियम—दान—होम
 —आप्य—और कृच्छ्र चान्द्रायणों के विधि विधान से करते हुए उसने
 अपने कलेवर को बहुत ही कृश कर दिया था । हे तात ! इस प्रकार से
 अन्य दिन में धरणीधर कैलास पर जाकर लिङ्ग द्वय की ग्रहण करके वह
 दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख होकर प्रस्थान कर गया था । नर्मदा नदी
 के तट पर हे नरेश्वर ! वह पहुँच कर महान् बलवान् स्नान करने की
 इच्छा वाला हो गया था । वहीं पर देव को स्थापित कर उनकी पूजा
 करता हुआ जाप करने लगा था । वहीं पर आयतन वास के द्वारा स्नान
 करने वाला तथा अग्नि में हवन करता हुआ वह निशाचर अपने आपको
 कृत कृत्य मानकर हे नृप श्रेष्ठ ! वह जड़का में परम मार्ग से गमन करने
 की इच्छा वाला हो गया था ॥१५-२१॥

गन्तुकाम. पर मार्गं लंकाया नृपसत्तम ! ।
 एकमुद्धरतो लिङ्गं प्रणतः सव्यप्राणिना ॥२२
 द्वितीयं तु द्वितीयेन भक्त्या पोलस्त्यनन्दनः ।
 तावदेव महालिङ्गं पतितं नर्मदास्मभसि ॥२३

याहियाहीति चेत्युक्त्वा जलमध्ये प्रतिष्ठितः ।

नमित्वा रावणिस्तस्य देवस्य परमेष्ठिनः ॥२४

जगामाकाशमाविश्य पूज्यमानोनिशाचरः ।

तदाप्रभृतिनतीर्थमेघनादेतिविश्रुतम् ॥२५

पूर्वं तु गर्जनं नाम सर्वपापक्षयकरम् ।

तस्मिंस्तीर्थे तु राजेन्द्र ! यस्तु स्नानं समाचरेत् ॥२६

अहोरात्रोपितोभूत्वाअश्वमेधफललभेत् ।

पिण्डदानं तु यः कुर्यात्तस्मिंस्तीर्थे नराधिप ॥२७

यत्फल सत्रयज्ञेन तद्भूवेन्नाऽत्र सशयः ।

तेन द्वादशवर्षाणि पितरः सम्प्रतपिताः ॥२८

वह पीलस्य मन्दन एक लिङ्ग को प्रणत होते हुए सम्प्रसादि से उद्धृत कर रहा था और दूसरे को भक्ति पूर्वक दूसरे हाथ से उतार रहा था । उतने ही में वह महालिङ्ग नर्मदा के जल में गिर गया था । "जामो — जामो" — यह कहकर जल के मध्य में उसकी प्रतिष्ठा करदी था । रावण के पुत्र मेघनाद ने उस परमेशी देव को प्रणाम करके फिर वह निशाचरो के द्वारा पूज्यमान होता हुआ आकाश में प्रविष्ट होकर चला गया था तभी से लेकर यह तीर्थ 'मेघनाद तीर्थ' — इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था । पहिले तो गर्जन नाम था जो सब पापों के क्षय करने वाला था । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में जो कोई स्नान करता है और अहोरात्र उपोषित होता है वह अश्वमेध यज्ञ का पुष्प-फल प्राप्त किया करता है । हे नराधिप ! जो कोई उन तीर्थ में पिण्ड दान किया करता है उसका फल सत्र यज्ञ व'तुल्य होता है — इसमें लेशमात्र भी सशय नहीं है । इस के करने से पितृगण बारह वर्ष तक सन्तप्त हो जाया करते हैं ॥२२-२८॥

यस्तु भोजयते विप्रं यद्भूसाऽन्नेनभारत ! ।

अक्षयं पुण्यमाप्नोति तत्र तीर्थे नरोत्तम ॥२९

प्राणत्यागं तु यः कुर्याद्भ्रातृवितो भावितात्मना ।

स वसेच्छाकरे लोके यावदामृतमम्लवम् ॥३०

एषा ते नरशादू ल ! गर्जनोत्पत्तिरुत्तमा ।

कथिता स्नेहबन्धेन सर्वपापक्षयंकरि ॥३१

हे भारत जो कोई वहाँ पर घट्टरसो वाले अन्न से विप्र को भोजन कराता है हे नरोत्तम ! उस तीर्थ मे वह अक्षय पुण्य प्राप्त किया करता है । भावित आत्मा के द्वारा भावित होते हुए जो वहाँ पर प्राणों का त्याग किया करता है वह मनुष्य जब तक समस्त भूनों का सम्प्लव होता है तब तक भगवान् शङ्कर के लोक मे निवास किया करता है । हे नरशादू ल ! यह इस गर्जनोत्पत्ति नामक तीर्थ को उत्तम उत्पत्ति आपकी बडलादी है । मैंने स्नेह के बन्धन के कारण ही यह यत्नादी है । यह सम्पूर्ण प्रकार के पापों का क्षय कर देने वाली है ॥२६-३१॥

६४—भीमेश्वरतीर्थमाहात्म्यवर्णन

भीमेश्वरं ततो गच्छेत्सर्वपापक्षयकरम् ।

सेवितं ऋषिसर्षभभीमव्रतधरैः शुभैः ॥१

तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा सोपवासो जितेन्द्रियः ।

जपेदेकाक्षर मन्त्रमूर्ध्वबाहुदिवाकरे ॥२

सक्षयजन्माजितं पापतत्क्षणादेव नश्यति ।

सप्तजन्माजितं पापगायश्वानश्यतेध्रुवम् ॥३

दशभिर्जन्मभिर्जातं जन्तेनतुपुराष्टृतम् ।

महर्षेण त्रिजन्मात्यं गायत्रीहन्तिबित्त्रिपम् ॥४

बंदिकं लौकिकं वापिजाप्यं जप्यं नरेश्वर ।

सत्क्षणाद्दहते सर्वं तृणन्तुज्वलनामथा ॥५

न देवदसमाश्रित्य कदाचित्पापमाचरेत् ।

अज्ञानान्दश्यतेक्षिप्रं नोत्तरं तु कदाचन ॥६

तत्र तीर्थे तु यो दानं पतिमाश्रित्य चाचरेत् ।

जशब्दपत्नं गर्वो वायते पाण्डुनन्दन ! ॥७

श्रीमार्कण्डेय महर्षि ने कहा—इसमें अनन्तर भीम व्रतों के धारण करने वाले परम शुभ ऋषियों के मणों के द्वारा सेवित भीमेश्वर नाम

वाले तीर्थ पर गमन करना चाहिए जो समस्त पापों के क्षय करने वाला है । उस तीर्थ पर जो भी कोई स्नान करके अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण रखते हुए उपवास करता है और सूर्य की ओर बाहुओं को ऊंचा उठाकर एकाक्षर मन्त्र का जाप किया करता है उस मनुष्य के पूर्व जन्मों में अर्जित किये हुए समस्त पाप उसी क्षण में नष्ट हो जाते हैं । गायत्री के जाप से तो सात जन्मों के पापों का निश्चय ही विनाश हो जाता करता है । दश बार गायत्री का जाप करने से इसी जन्म में जो पाप किये हैं उनका नाश होता है—सो बार जप करने से पूर्व में किये हुए पापों का क्षय हुआ करता है और एक सहस्र बार जप करने से तीन जन्मों के किये हुए पापों का विनाश गायत्री कर दिया करता है । हे नरेश्वर ! वैदिक ऋषयों लौकिक जाप्य का किया हुआ जप उसी क्षण में तिनको वे डेर को अग्नि के समान समस्त पापों को नष्ट कर देता है । देव का बल प्राप्त करके कभी भी पाप का समाचरण नहीं करना चाहिए । जो पाप अज्ञान वश बन गया है वह तो तुरन्त ही नष्ट हो जाता करता है और ज्ञान प्राप्त जान बूझकर किया जाता है वह कभी नष्ट नहीं करता है । उस तीर्थ में जो मनुष्य अपनी शक्ति क अनुसार दान करता है हे पाण्डु मन्दन ! उस दान का भी अक्षय्य फल हुआ करता है जो कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं हुआ करता है ॥१-७॥

८५—नरादेश्वरतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्रनारदेश्वरमुत्तमम् ।
 तीर्थानां परमं तीर्थं निर्मितं नारदेन तु ॥१
 नारदेन मुनिश्रेष्ठ कस्मात्तीर्थं विनिर्मितम् ।
 एतदास्याहिमे सर्वप्रसन्नोयदिसत्तम ! ॥२
 परमेषिसुतः पार्थ ! नारदो मुनिसत्तमः ।
 रेवामाश्रोतरे कुले उपस्तेन पुरा कृतम् ॥३
 नवनाडीनिरोधेन काष्ठावरया गतेन च ।
 तोषितः पशुभर्ता वै नारदेन युधिष्ठिर ! ॥४

तुष्टोऽहं तव विभ्रेन्द्र ! योगिनाथ अयोनिज ! ।

वरंप्रार्थय मे वत्स यत्ते मनसि वत्तंते ॥५

त्वत्प्रसादेन मे शम्भो योगश्चैव प्रसिध्यतु ।

अचलातेभवेद्भक्तिः सर्वकालं भमैव तु ॥६

स्वेच्छाचारी भवे देव वेदवेदाङ्गपारगः ।

त्रिकालशो जगन्नाथगीतशोऽहं सदा भवे ॥७

श्री महापि माकण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र ! इसके उपरान्त परमोत्तम नारदेश्वर नामक तीर्थ पर गमन करना चाहिये । यह सभी अन्य तीर्थों में अति श्रेष्ठ तीर्थ है और इसको स्वयं देवपि श्री नारदजी ने ही बनाया था । युधिष्ठिर ने कहा—ये मुनिश्रेष्ठ ! यदि आप मेरे ऊपर प्ररुध हैं तो हे सत्तम ! मुझे यह सभी बतलाइये कि नारदजी ने इस तीर्थ का निर्माण किस कारण से किया था । श्री माकण्डेयजी ने कहा—उन परमेशी ब्रह्माजी के पुत्र मुनियों में परम श्रेष्ठ नारदजी ने हे पार्व ! रेवा नदी के उत्तर तीर पर पहिले तपस्या की थी । हे युधिष्ठिर ! नव नादियों के निरोध करने से काष्ठान्तो में प्राप्त हुए थी नारद ने पशुपति प्रभु को परम तोषित कर दिया था । श्री ईश्वर ने कहा—हे विभ्रेन्द्र ! आप तो योगियों के भी स्वामी हैं । हे अयोनिज ! मैं आपसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया हूँ । हे वत्स ! अब जो भी कुछ आपके मन को सुहाता हो वही वरदान मुझमें प्राप्त कर लो । देवपि श्री नारद ने कहा—हे शम्भो ! आपके प्रसाद से मेरा योग प्रसिद्ध हो जावे और सर्वदा मेरे हृदय में आपका चरणों में अविचन भक्ति हो जावे । समस्त वेदों और वेदों के सम्पूर्ण अंग शास्त्रों का पारगामी होकर मैं स्वेच्छया जहाँ भी चार्हूँ वहाँ भ्रमण करने वाला हो जाऊँ । त्रिकाल की बातों का ज्ञाता और सदा जगत के स्वामी वा गुण गान करने वाला हो जाऊँ ॥१-७॥

दिनेदिने यथा युद्धं देवदानवमानुषं ।

पातालेमर्त्यलोके वा स्वर्गं वार्षि महेश्वर ॥८

पश्येपं त्वत्प्रसादेन भवन्तं पार्वती तथा ।

तीर्थलोकेपुविद्यातं सर्वपापक्षयंकरम् ॥९

एवं नारद ! सधं तु भविष्यति न संशयः ।
 चिन्तितं मत्प्रसादेन सिद्धिं धत्ते नात्र संशयः ॥१०
 स्वेच्छाचारो भवेत्स स्वर्गं पातालगोचरे ।
 मर्त्ये वा भ्रमं वै योगिन् केनाऽपि निवार्यसे ॥११
 सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्च्छनाश्चर्कविशतिः ।
 ताना एकोनपञ्चाशत्प्रसादान्मे तव ध्रुवम् ॥१२
 मम प्रियं करं दिव्यं नृत्यगीतं भविष्यति ।
 कलिं च पश्यसे नित्यं देवदानवकिन्नरं ॥१३
 त्वत्तीर्थं भूतले पुण्यं मत्प्रसादाद्भविष्यति ।
 वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो ह्यशेषज्ञानकोविदः ।
 एकस्त्वमसि निःसङ्गो मत्प्रसादेन नारदः ॥१४

हे महेश्वर ! पाताल में—स्वर्ग में और मनुष्य लोक में जो आये
 दिन देवों के, दानवों के और मनुष्यों के गुड़ हो वे सब मैं आपके प्रसाद
 ही देख लिया करूँ तथा रुदा आपको और जगदम्बा पार्वती का भी दर्शन
 प्राप्त किया करूँ । यह लोको में अति विख्यात तीर्थ हो जावे जो सभी
 पापों का क्षय करने वाला बन जावे । श्री ईश्वर ने कहा—हे नारद !
 इसी प्रकार से मेरे प्रसाद से यह आपके द्वारा सोचा हुआ सभी कुछ हो
 जायगा—इसमें कुछ भी संशय नहीं है । यह सभी सिद्ध होगा—इसमें
 नशम का कोई भी भ्रमसर नहीं आयेगा । हे बरस ! आप स्वेच्छा से
 समाचरण करने वाले हो जाओगे चाहे जहाँ भी स्वर्ग-पाताल और गो
 चर स्थल एवं मनुष्य लोक में भ्रमण करो । हे योगिन् ! आपका निवारण
 किसी के भी द्वारा नहीं किया जायगा । यहत्र आदि सातों स्वर—तीनों
 ग्राम—इषकीम मूर्च्छनाएँ और उनचास तान ये सभी मेरे प्रसाद से आपको
 प्राप्त ही जायेंगे—यह परम निश्चित है ॥१०-१२॥ आपका नृत्य और
 गीत मेरी दिव्य श्रुति के करने वाला होगा । देव दानवों तथा किन्नरों
 के द्वारा होने वाले कलह को आप नित्य ही देखा करेंगे । यह आपके
 नाम से प्रसिद्ध तीर्थ भी मेरी कृपा से परम विख्यात बन जायगा । हे
 नारद ! आप वेदों और वेदांगों के तत्त्वों के ज्ञाता तथा अशेष ज्ञान के

महा मनीषी ज्ञाता ही जायेंगे । आप एक ही सङ्ग रहित होकर मेरे प्रगाढ से विचरण करने वाले होंगे ॥१३-१४॥

इत्युक्त्वान्तदंधे देवो नारदस्तत्र शूलिनम् ।

स्थापयामास राजेन्द्र नवसत्त्रोपकारकम् ॥१५

पृथिव्यामुत्तमं तीर्थं निर्मितं नारदेन तु ।

तत्र तीर्थं नृपश्रेष्ठ यो गच्छेद्विजितेन्द्रियः ॥१६

मासि भाद्रपदे पार्थ ! कृष्णपक्षे चतुर्दशी ।

उपोष्य परया भक्त्या रात्रौ कुर्वीत जागरम् ॥१७

छत्रं तत्र प्रदातव्यं ब्राह्मणे शुभलक्षणे ।

शस्त्रेणतु हता येवै तेषां श्राद्धं प्रदापयेत् ।

ते यान्ति परमं लोकं पिण्डदानप्रभावतः ॥१८

कपिलातप्रदातव्यापितृनुदिश्यभारत ! ।

इत्युच्चार्यं द्विजेदेव्यायान्तु ते परमांगतिम् ॥१९

अस्य श्राद्धस्य भावेन ब्राह्मणस्यप्रतादतः ।

नमं दातोयभावेनन्यायार्जितधनस्यच ।

तेषां चैव प्रभावेण प्रेता यान्तु परा गतिम् ॥२०

इत्युच्चार्यं द्विजे देया दक्षिणा च स्वशक्तिनः ।

हृविष्यान्नं विशालाक्ष ! द्विजानां चैव दापयेत् ॥२१

देवेश्वर भगवान् शम्भु इतना कहकर वहीं पर घनहित हो गये थे और वहाँ पर फिर देवर्षि श्री नारदजी ने इस घरातल में यह परम उत्तम तीर्थ निर्मित किया था । हे नृप श्रेष्ठ ! उस तीर्थ में जो भी कोई गमन किया करता है और इन्द्रियो को जीत लेने वाला होता है । हे पार्थ ! इन उत्तम तीर्थ में गमन करने का श्रेष्ठ समय भाद्रपद मास होता है । भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में वहाँ पहुँचकर उपवास कर और परम उत्कृष्ट भक्ति की भावना से रात्रि में जागरण करना चाहिए । किसी शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को छत्र का दान करे । जो कोई भी शस्त्रों द्वारा निहित हुए हो उनके लिए वहाँ पर श्राद्ध देना चाहिये । वहाँ पर पिण्डदान करने का ऐसा प्रभाव होता है कि वे सब परमोत्तम लोक

को चले जाया करते हैं । हे भारत ! वहाँ पर अपने पितरों का उद्देश्य लेकर कपिला गौ का दान करना चाहिये । उस समय मेरा सा उच्चारण भी करे कि मेरे पितृगण इस कपिला के दान के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हों । इस थाढ़ के प्रभाव से—ब्राह्मण की कृपा से—नर्मदा के जल के भाव से न्याय से उपाजित धन से किया हुआ दान-पुण्य और उनके प्रभाव से सभी प्रेत परम गति को प्राप्त करें—ऐसा उच्चारण करके अपनी शक्ति अनुषार द्विज को दक्षिणा देनी चाहिये । हे विशालाक्ष ! द्विजो को हविष्यान्न देना चाहिए ॥१५-२१॥

दीपं भक्त्या प्रदातव्यं नृत्यं गीतं च कारयेत् ।

अवाप्तं तेन वै सर्वं यः करोतीश्वरालये ॥२२

स याति रुद्रसाम्निष्यमिति रुद्रः स्वयं जगौ ।

विद्यादानेन चंकेन अक्षयां गतिमाप्नुयात् ॥२३

धूर्वंहास्तत्रदातव्याभूमिः सस्यवती नृप ।

त्रिभानुं शुर्मर्मन्त्रैः प्रीणयेत्तत्रभक्तितः ॥२४

अप्येन सुप्रभूतेन होमद्रव्येणभारत ।

ये यजन्ति सदा भक्त्या त्रिकालं नृत्यमेव च ॥२५

तीर्थं नारदनामाख्ये रेवायाश्चोत्तरे तटे ।

त्रिभानुमुखादेवाः सर्वदेवमयो ऋषिः ॥२६

ऋषिणा प्रीणिताः सर्वे तस्मात्प्रीत्योहुताशनः ।

पूजितो ह्यव्यवाहे तु दारिद्र्यं नैव जायते ॥२७

धनेन विपुला प्रीतिर्जायते प्रतिजन्मनि ।

कुलीनाश्च सुवेपाश्च सर्वकालं धनेन तु ॥२८

परम भक्ति की भावना से दीप दान करे, नृत्य और गान भी करना चाहिए । उस ईश्वर के आलय में जो भी कोई ऐसा करता है उसने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है । यह अन्त समय में भगवान् रुद्र की सन्निधि प्राप्त किया करता है, ऐसा भगवान् रुद्र ने स्वयं कहा था । एक विद्या के दान से मनुष्य प्रथम गति को प्राप्त किया करता है । हे नृप ! वहाँ पर सस्य-वती धूर्वंहा भूमि का दान करना चाहिये । वहाँ पर भक्ति के भाव से

शुभ मन्त्रों के द्वारा चित्रभानु को प्रसन्न करना चाहिए । घृत से, प्रभूत होम के द्रव्य के द्वारा हे भारत । जो लोग सदा यजन किया करते हैं और त्रिकाल में नृत्य करते हैं । रेवा नदी के उत्तर तट पर नारद नाम वाले तीर्थ में चित्रभानु जिनमें प्रधान हैं ऐसे सब शैवता हैं और सर्व देवों से परिपूर्ण ऋषि हैं । ऋषि के द्वारा समस्त देवों को प्रसन्न किया गया था । इससे हुताशन को अर्थात् अग्नि देव को प्रसन्न करना चाहिये । हृष्य वाह के (अग्नि के) पूजित करने पर मनुष्य को दरिद्रता कभी नहीं हुआ करती है । धन से प्रति जन्म में बहुत अधिक प्रीति हुआ करती है । धन से कुलीन और सभी कालों में सुन्दर वेधों वाले होते हैं ॥२०-२८॥

प्लवो नदीना पनिरङ्गनाना राजा च सद्वृत्तरतः प्रजानाम् ।

धनं नराणामृतवस्तरूपा गतं गतं यौवनमानयन्ति ॥२९

धनदत्तं धनेशेन तस्मिंस्तीर्थं ह्युपाजितम् ।

यमेनच यमत्वं हि इन्द्रत्वं चैववज्रिणा ॥३०

अन्यं रवि महीपालः पाथिवत्वमुपाजितम् ।

नारदेश्वरमहात्म्याद्घ्रुवो निश्चलता गतः ॥३१

सर्वं तीर्थं वर तीर्थं निर्मितं नारदेन तु ।

पृथिव्या सागरान्ताया रेवायाश्चोत्तरे तटे ।

तद्वरं सर्व तीर्थाना महापातकनाशनम् ॥३२

नदियों का प्लव—अ गनामो का पति, प्रजामो का सद्वृत्त में रमण करने वाला राजा—मनुष्यों का धन तक्षकों की ऋतुएं गत-गत यौवन को प्राप्त किया करते हैं । धनेश कुवेर ने धन दत्त का पद उसी तीर्थ में उपाजित किया था—यमराज ने यमत्व होने का पद तथा बज्रों ने इन्द्रत्व का यह तथा अन्य महीपालों ने भी पाथिव होने का पद उपाजित किया था । नारदेश्वर प्रभु के माहात्म्य ही से घ्रुव निश्चल पद को प्राप्त हुआ था इस प्रकार से देवशि श्री नारदजी ने यह तीर्थ समस्त अन्य तीर्थों में परम श्रेष्ठ निर्मित किया है । इस सागरों का समाप्ति वाली पृथिवी में रेवा नदी के उत्तर दिशा वाले तट पर इस तीर्थ को प्रतिष्ठा हुई है जो

सब तीर्थों में प्रथम है और सभी महापातकों के भी विनाश करने वाला है ॥२६-३२॥

६६ — दधिस्कन्धमधुस्कन्दतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! तीर्थं द्वयमतुत्तमम् ।
 दधिस्कन्दं मधुस्कन्दं सर्वपापक्षयं करम् ॥१॥
 दधिस्कन्दे नरः स्नात्वा यस्तु दद्याद् द्विजे दधि ।
 उपतिष्ठेत्ततस्तस्य सप्तजन्मनि भारत ! ॥२॥
 न व्याधिर्न जरा तस्य च शोको नैव मरत्सरः ॥३॥
 मधु स्कन्देऽपि मधुना मिश्रितान्यस्तिलान्ददेत् ॥४॥
 मधुनासह सस्मिन्नपिण्डं यस्तु प्रदापयेत् ।
 तस्यपौत्रप्रपौत्रेभ्योदारिद्र्यघनं वजायते ॥५॥
 दधिभिः सहसं मिश्रं पिण्डं यस्तु प्रदापयेत् ।
 तस्मिंस्तीर्थे नरः स्नात्वा विधिवद्दक्षिणामुखः ॥६॥
 पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।
 द्वादशाब्दानि तद्ध्यन्ति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥७॥

श्री माकण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र ! इसके धनन्तर दधिस्कन्द और मधुस्कन्द नामक तीर्थद्वय को गमन करे । यह दोनों तीर्थ सभी पापों का क्षय करने वाले हैं । प्रथम मनुष्य दधि स्कन्द में स्नान करे, ब्राह्मणों को दही का दान दे । उस जगह उपतिष्ठ रहने पर हे भारत ! सात जन्मों तक कोई व्याधि, वृद्धावस्था, शोक एवं मरत्सर की व्याप्ति नहीं होगी ॥१-३॥ फिर मधुस्कन्द में मधु में तिल मिलाकर दान दान दे । तथा मधु से मिश्रित पिण्ड प्रदान करे तो उसके पौत्र-प्रपौत्र भी दरिद्रों नहीं होते । यदि दही मिलाकर पिण्ड दे और स्नान कर विधिवत् दक्षिणा दे तो उसके पिता, पितामह और प्रपितामह आदि बारह वर्ष तक तृप्त रहते हैं इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है ॥४-७॥

६७—सुवर्णशिलातीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततोगच्छेन्महीपाल सौवर्णं शिलमुत्तमम् ।
 प्रक्ष्यातमुत्तरे कूले सर्वपापक्षयंकरम् ॥१
 समन्ताच्छतपातेन मुनिसंघः पुराकृतम् ।
 रेवायां दुर्लभंस्थानं सङ्गमस्यसमीपतः ॥२
 विभक्तं हस्तमात्रं च पुण्यक्षेत्रं नराधिप ।
 सुवर्णशिलकेस्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम् ॥३
 नत्वा तु भास्करं देवं होतव्यं च हुताशने ! ।
 विल्वेनाऽऽज्यविमिश्रेण विल्वपत्रैरणाऽपि वा ॥४
 प्रीयतां मे जगन्नाथो व्याधिर्नश्यतु मे ध्रुवम् ।
 द्विजाय काञ्चने दत्ते यत्फलं तच्छृणुष्व मे ॥५
 बहुस्वर्णस्य यत्प्रोक्तं यागस्यफलमुत्तमम् ।
 तथाऽशीलभते सर्वकाञ्चनयः प्रयच्छति ॥६
 तैन दानेन पूतात्मा मृतः स्वर्गमवाप्नुयात् ।
 रुद्रस्तानुचरस्तावद्यावदिन्द्राश्चतुर्दश ॥७
 ततः स्वर्गाद्वितीणंस्तु जायते विशदे कुले ।
 धनधान्यसमोपेतः पुनः स्मरति तज्जलम् ॥८

श्री मार्कण्डेय महर्षि ने कहा—हे महीपाल ! इसके उपरान्त बतित्तम सौवर्णशिल नाम वाले तीर्थ में गमन करना चाहिये जा उत्तर कूल में प्रक्ष्यात है और सब पापों के क्षय करने वाला है । मुनियों के संघ ने पहले आरों और शत पात के द्वारा रिया था । रेवा नदी में यह परम दुर्लभ स्थान है जो कि संगम के समीप में है । हे नराधिप ! एक हाथ परिमाण वाला पुण्य क्षेत्र विभक्त है । इस सुवर्ण शिल नामक तीर्थ में स्नान करके और महेश्वर प्रभु का अभ्यर्चन करके, भास्कर देव को नमन करके हुताशन में हवन करना चाहिए । होम घृत से मिश्रित विल्व पत्रों से अथवा केवल विल्व पत्रों से ही करे ॥१-४॥ यह कहना चाहिये—जगन्नाथ प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों और मेरी व्याधि निश्चित

रूप से नष्ट हो जावे । द्विज के लिये सुवर्ण के दान करने पर जो फल होता है उस फल का मुझसे श्रवण करो ॥१॥ बहुत स्वर्ण वाले याग को जो उत्तम फल कहा गया है उसी भाँति यह प्राप्त किया करता है जो सम्पूर्ण काञ्चन दिया करता है । उस दान से पवित्र आत्मा वाला मृत होकर स्वर्ग की प्राप्ति किया करता है । वह उस समय तक भगवान् रुद्र का अनुचर रहा करता है जब तक चौदह इन्द्र अपना कार्य सम्पादन किया करते हैं अर्थात् चौदह इन्द्र परिवर्तित हुआ करते हैं । फिर वह अविष्य पुण्य फल की समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से अवतीर्ण होकर यहाँ लोक में किमी परम उत्तम कुल में वह समुत्पन्न हुआ करता है । धन और धान्य से समन्वित हुआ वह पुनः उस जल का स्मरण किया करता है ॥६-८॥

८८—करञ्जतीर्थमाहात्म्यवर्णन

करञ्जालये ततो गच्छेत्सोपवासो जितेन्द्रियः ।

तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र ! सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१

अर्चयित्वा महादेवं दस्वादानं तु भक्तितः ।

सुवर्णं रजतं वाऽपि मणिमौक्तिकविद्रुमान् ॥२

पादुकोपानहो छत्रं शय्यां प्रावरणानि च ।

कोटि कोटिगुणं सर्वं जायते नानसंशयः ॥३

मार्कण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र ! फिर करञ्ज संज्ञक तीर्थ में उपवासपूर्वक जाकर स्नान करे तो सभी पापों से मुक्त हो जाता है । वहाँ भगवान् महादेवजी का पूजन करके भक्ति सहित स्वर्ण, चाँदी, मण्डि, मुक्ता आदि का दान दे धौर पादुका, जूते, छत्री, शय्या आदि वस्तुएँ प्रवर-पुरुषों को दे तो यह सभी वस्तुएँ करोड़ों गुनी होकर प्राप्त होती हैं, इसमें संशय नहीं है ॥१-३॥

८९—कामदतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेन्महीपाल तीर्थं परमशोभनम् ।

सौभाग्यकरणं दिव्यं नरनारीमनोरमम् ॥१

तत्रयादुभंगानारीनरोवा नृपसत्तम ।
 स्नात्वाऽहं येदुमारुद्रौसौभाग्यं तस्यजायते ॥२
 तृतीयायामहोरात्र सोपवामोजितेन्द्रियः ।
 निमन्त्रयेद् द्विजं भक्त्या सपत्नीकं सुरूपिणम् ॥३
 गन्धमाल्यैरलङ्कृत्य वस्त्रधूपदिवासितम् ।
 भोजयेत्पापसान्नेन कृसरेणाऽय भक्तिनः ॥४
 भोजयित्त्रायद्यान्यायं प्रदक्षिणमुदाहरेत् ।
 प्रीयता मे महादेयः सपत्नीकोवृषध्वजः ॥५
 यथा ते देवदेवेश ! न वियोगः यदाचन ।
 ममाऽपि करुणा कृत्वा तयाऽस्त्विति विचिन्तयेत् ॥६
 एवं कृते ततस्तस्य यत्पुण्यं समुदाहृतम् ।
 तत्तेसव्यं प्रदद्यामि यथाऽदेवेनभाषितम् ॥७

हे महीपाल ! इसका धनगर परम धोखा सम्पन्न कामरतोयं परम मन करना चाहिये जो मति 'दम्ब सौभाग्य का करने वाला और नरो सपा नारियों के लिए बहुत ही मनोरम है । हे नृप सत्तम ! वहाँ पर उस तीर्थ में चाहे नर हो या दुर्भगा नारी हो स्नान करके उमा देवी और रुद्रदेव का धर्मचर्चन किया करता है उनका परमोत्तम सौभाग्य सम्पन्न हो पाया करता है । तृतीया त्रिषु में एक पूरे अहोरात्र उपवास करने इन्द्रिय जीन रहे और भक्ति के भाव से गुन्दर रूप सम्पन्न पत्नी के सहित एक द्विज को निमन्त्रित करे । उग दम्पती को गन्ध माना आदि में मम-लङ्कन करके वस्त्र धूपादि से सुवासित करे और पापमाल्य में धमका कृत्वा ते भक्ति के साथ भोजन कराये । भोजन कराकर म्यादानुसार उस दम्पती की प्रदक्षिणा करनी चाहिये और प्रार्थना करे—परन्तु क सहित वृषध्वज भगवान् महादेय मुझ पर प्रमत्त होंगे । हे देव देवेश ! मेरे उपर परम करुणा करो हुए ऐसा ही कीजिये कि त्रिगमे हम दोनों का कभी भी वियोग न होवे । ऐसा ही होवे—ऐसा विश्वास करता चाहिये । ऐसा करने पर वा उनका पुण्य फल होता है वह भी भावना बजाता है या कि दरदर में स्वयं धनन मुझ से कहा या ॥१-७॥

दोर्भाग्यं दुर्गतिश्चैव दारिद्र्यं शोकवन्धनम् ।
 बन्ध्यत्वं सप्तजन्मानि जायते न युधिष्ठिर ! ॥८
 ज्येष्ठमासे सिते पक्षे तृतीयायां विशेषतः ।
 तत्र गत्वा यो भक्त्या पञ्चाग्निं साधयेत्ततः ॥९
 सोऽपि पापैरशेषैस्तमुच्यते नाऽप्रसंशयः ।
 गुग्गुलं देहते यस्तु द्विधा चित्ताविवर्जितः ॥१०
 शरीरं भेदयेद्यस्तु गौर्याश्चैव समीपतः ।
 तस्मिन्कर्मप्रविष्टस्य उत्क्रान्तिर्जायते यदि ॥११
 देहपाते ब्रजेत्स्वर्गमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत् ।
 सितरक्तस्तथा पीतं वस्त्रैश्च विविधैः शुभैः ॥१२
 ब्राह्मणी ब्राह्मणं चैव पूजयित्वा यथाविधि ।
 पुष्पैर्नानातिग्धैश्चैव गन्धपुष्पैः सुशोभनैः ॥१३
 कण्ठसूत्रकसिन्दूरैः कुंकुमेन विलेपयेत् ।
 कल्पयेत् स्त्रियं गौरी ब्राह्मणं शिवरूपिणम् ॥१४

हे युधिष्ठिर ! उस मनुष्य को सात जन्मों तक दोर्भाग्य—दुर्गति—
 दरिद्रता—शोक बन्धन—बन्ध्यात्व दीप आदि नहीं हुआ करते हैं । ज्येष्ठ
 मास में—शुक्ल पक्ष में विशेष करके तृतीया तिथि में वहाँ पर जाकर जो
 भी कोई भक्ति की भावना से पञ्चाग्नि का साधन किया करता है वह
 समस्त पापों से मुक्त हो जाता करता है—इसमें लेश मात्र भी सगय नहीं
 है । जो दुविधा युक्त चित्त से रहित होकर गुग्गुल का होम किया करता
 है और जो गौरी के समीप में शरीर का भेदन किया करता है उसमें कर्म
 में प्रविष्ट हुए की यदि उत्क्रान्ति होती है तो वह उस देह के पान हो जाने
 पर स्वर्ग में गमन किया करता है—इस प्रकार से यह भगवान् शङ्कर ने
 कहा था । सफेद—लाल और पीले अनेक प्रकार के परम शुभ धत्तों से
 ब्राह्मण और ब्राह्मणी का विधि के अनुसार पूजन करके उनको अनेक
 प्रकार के सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से समलकृत कर कण्ठ सूत्र धारण करावे
 और सिन्दूर एवं कुंकुम से विलेपन करे । उस ब्राह्मणी को साक्षात् गौरी

तथा ब्राह्मण को साक्षात् शिव स्वरूप मनमे कल्पना करवे ही प्रभ्यर्चन करना चाहिए ॥८-१४॥

तेषा तद्रूपकं कृत्वा दानमुत्सृज्यते ततः ।

क कणं कणं वेष्टं च कण्ठिका मुद्रिका तथा ॥१५॥

सप्तधान्यं तथा चैव भोजनं नृपसत्तम ।

शान्दान्यपि च दानानि तस्मिंस्तीर्थं वदाति यः ॥१६॥

सर्वदानंश्च यत्पुण्यं प्राप्नुयान्नात्र सशयः ।

सहस्रगुणित सर्वं नात्र कार्या विचारणा ॥१७॥

शङ्करेण समं तस्माद्भोगं भुङ्क्तं ह्यनुत्तमम् ।

सौभाग्यं तस्य विपुलं जायते नाऽत्र सशयः ॥१८॥

अपुत्रो लभते पुत्रमधनो घनमाप्नुयात् ।

राजेन्द्र ! कामद तीर्थं नर्मदाया व्यवस्थितम् ॥१९॥

उन दोनों (ब्राह्मण-ब्राह्मणी) का ऐसा रूपक करके फिर दान का उत्सृजन करना चाहिए । ककण, कणवेष्ट, कण्ठिका, मुद्रिका, सात प्रकार के धान्य और हे नृप सत्तम । भोजन-इनका दान करे । इनके प्रतिरिक्त अन्य भी जो दान उस महातीर्थ में देता है वह समस्त प्रकार के दानों से जो पुण्य—फल होता है उसे प्राप्त कर लेता है—इसमें तनिक भी सशय नहीं है ॥१५-१६॥ यहाँ पर दिया हुआ दान सहस्र गुना हो जाता करता है—इसमें कुछ भी विचार नहीं करना चाहिए ॥१७॥ इससे यह भगवान् शङ्कर के ही माथ में पूर्वोक्त भागों का उपभोग किया करता है । उसका महान् सौभाग्य होता है—इसमें भी कुछ सशय नहीं है । जिस मनुष्य के पुत्र नहीं है वह पुत्र होने की प्राप्ति कर लिया करता है । जो निर्धन पुरुष हो वह विपुल धन का लाभ लिया करता है । हे राजेन्द्र ! इस तीर्थ का नाम 'कामद' है अर्थात् सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और यह तीर्थ नर्मदा में व्यवस्थित है ॥१८-१९॥

१०० — भण्डारीतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत राजेन्द्र ! भण्डारीतीर्थं मुत्तमम् ।
 दरिद्रच्छेदकरणं युगान्येकोनविंशतिः ॥१
 धनदेनतपस्तस्तप्त्वा प्रसन्ने पद्मसम्भवे ।
 तत्रैव स्वल्पदानेन प्राप्तं वित्तस्यरक्षणम् ॥२
 तत्र गत्वा तु यो भक्त्या स्नात्वा वित्तं प्रयच्छति ।
 तस्य वित्तपरिच्छेदो न कदाचिद्भविष्यति ॥३

धीमार्कण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र ! इसके उपरान्त श्रेष्ठ भण्डारी तीर्थ में गमन करे । यह तीर्थ द्वाकीस युगों तक की दरिद्रता का उच्छेद करने वाला है । वहाँ कुबेर का तप करता हुआ पद्मसंभव ब्रह्माजी को प्रमग्न करे तो थोड़ा-सा दिया हुआ दान ही धन की रक्षा प्राप्त कराने वाला होता है । वहाँ जाकर भक्ति पूर्वक स्नान और धन-दान करे तो भविष्य में कभी भी उसका धन से विच्छेद नहीं होता अर्थात् वह कभी रंक नहीं हो पाता ॥१-३॥

१०१—स्कन्दतीर्थमाहात्म्यवर्णन

नमं दादक्षिणेकूले तीर्थं परमशोभनम् ।
 स्कन्देन निर्मितं पूर्वं तपः कृत्वासुदारुणम् ॥१
 स्कन्दस्यचरितं सर्वं माजन्मद्विजसत्तम ।
 तीर्थस्यचविधिपुण्यं कथयस्वयथार्थतः ॥२
 देवदेवेन वै तप्तं तपः पूर्वं युधिष्ठिर ।
 वित्तप्तेन सुरैः सर्वैरुमादेवी विवाहिता ॥३
 नास्ति सेनापतिः कश्चिद्देवानां सुरसत्तम ! ।
 नीयन्ते दानवर्घोरैः सर्वे देवाः सवासवाः ॥४
 यथा निशा बिना चन्द्रं दिवसो भास्करं विना ।
 न शोभते मूर्हतं वै तथा सेना निनायका ॥५

एवं ज्ञात्वा महादेव परया दययाविभो ।

सेनानीर्दीयतां कश्चित्त्रिपुलांकेपुषिश्रुतः ॥६

एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं देवानां परमेश्वरः ।

कामयान उमा देवो सस्मार मनसा स्मरम् ॥७

महामर्हि श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा—नर्मदा महानदी के दक्षिण तट पर एक अत्यन्त शोभा से सम्पन्न तीर्थ है जिसको पहिले परम दारुण तपस्या करके भगवान् स्कन्द ने निर्मित किया था। युधिष्ठिर ने कहा—हे द्विजो में परम श्रेष्ठ ! भगवान् स्कन्द का जन्म से लेकर पूरा चरित और उस तीर्थ की विधि तथा पुण्य-फल यह सभी कुछ यथार्थ रूप से कहिए। श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा—हे युधिष्ठिर ! पहिले देवी के भी देव ने अतिघोर तप का वहाँ पर तपन किया था और समस्त सुरगणों के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर उन्होंने उमादेवी के साथ विवाह कर लिया था। देवी ने उन देवेश्वर की प्रार्थना की थी कि हे सुरो मे परम श्रेष्ठ ! इस समय मे देवगणो मे कोई भी सेना का स्वामी नहीं है। परम घोर दानवी के द्वारा इन्द्र के सहित सब देवगण पकड़कर ले जाये जाते हैं। जिस प्रकार से रात्रि चन्द्रमा के बिना शोभित नहीं होती है और दिन भगवान् भास्कर के बिना शोभा हीन रहता है और थोड़ी देर तक भी शोभा नहीं दिया करते हैं उसी तरह से बिना किसी नायक के सेना होती है। इस तरह से समझकर हे महादेव ! हे विभो ! परम दया करके आप कोई लोकी मे परम प्रसिद्ध सेनानी हमको प्रदान कीजिए। देवो के इस वचन का श्रवण करके परमेश्वर ने उमादेवी की वामना करते हुए मन से कामदेव का स्मरण किया था ॥१-७॥

तेन मूर्च्छितसर्वाङ्गः कामरूपो जगद्गुरुः ।

कामयामास रुद्राणी दिव्यं वर्षशतं किल ॥८

देवराजस्ततो ज्ञात्वा महामैथुनगं हरम् ।

सम्मन्थ्य दैवतैः साढं प्रैपयज्जातयेदसम् ॥९

तेन गत्वा महादेव ! परमानन्दसस्थितः ।

सहमा तेन दृशोऽग्नौ हाहेत्युक्त्वा समुत्थितः ॥१०

ततः क्रुद्धा महादेवी शापवाचमुवाच ह ।
 वेपमाना महाराज शृणुयस्त्वेवदाम्यहम् ॥११
 अहं यस्मात्सुरैः सर्वैर्याचितापुत्रजन्मनि ।
 कृतारतिश्च विफलासम्प्रेष्यजातवेदसम् ॥१२
 तस्मात्सर्वं पुत्रहीनाभविष्यन्ति न संशयः ।
 हरेणोक्तस्ततो वह्नि रस्माकं बीजमावह ॥१३
 यथा भवति लोकेषु तथा त्वं कर्तुं महंसि ।
 मम तेजस्त्वया शक्यं गृहीतुं सुरसत्तम ।
 देवकार्यार्थं सिद्धयर्थं नाश्रयः शक्तो जगत्त्रये ॥१४

समसे सर्वांगो मे मूर्च्छित होने वाले कामरूप जगद्गुरु ने दिव्य सी
 वर्ष तक रुद्राणी की कामना की थी इसके अनन्तर देवराज ने यह जान कर
 कि इस समय मे भगवान् हर महा मधुन मे प्रवृत्त हो रहे हैं । देवराज ने
 देवगणों के साथ मन्त्रणा करके जातवदा (अग्नि) को वहाँ पर भेज
 दिया था । उसने वहाँ जाकर कहा—हे महादेव । इन समय मे आप तो
 कामन्द मे राक्षित हो रहे हैं । सहसा महादेवजी ने उस अग्नि को देखा
 तो, "हा-हा"—यह कहकर वे रतिक्रिया छोड़कर उठ खड़े हुए थे ।
 इसके पश्चात् महादेवी अत्यन्त क्रुद्ध हो गई थी और उन्होंने शाप दे
 दिया था । कांपते हुए महादेवी ने कहा—हे महाराज ! आप भ्रवण
 कीजिए मैं आप से कहती हूँ क्यों कि मुझसे समस्त सुरो ने याचना की
 थी कि मैं पुत्र को जन्म दू । अब इस जातवेदा को प्रेषित करके मेरी
 रति विफल करदी है । इसलिये ये सब देवगण पुत्र हीन हो जायेंगे—इसमे
 कुछ भी शक्य नहीं है । इसके पश्चात् भगवान् हर ने अग्नि से कहा—
 हमारे बीज को धारण करो । जैसा लोको मे होता है वंसा ही तुम करने
 के योग्य होते हो । यह मेरा तेज हे सुरसत्तम ! तुम ही ग्रहण कर सकने
 हो और देवों के कार्य की सिद्धि भी हो सकेगी । तुम्हारे प्रतिरिक्त
 अन्य इन तीनों लोको मे कोई भी समर्थ नहीं है ॥५-१४॥

तेजस्स्तव मे देवकाशक्तिधारणेविभो ।

करोति भस्मसात्सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरम् ॥१५

उदरस्येन वीजेन यदि ते जायते रुजा ।
 तदा क्षिपस्व तत्तेजो गङ्गातोये हुताशन ॥१६
 एवमुक्त्वा महादेवो अमोघं बीजमुत्तमम् ।
 हव्यवाहमुखे सर्वं प्रक्षिप्यान्तरधीयत ॥१७
 गते चादर्शनं देवं दह्यमानो हुताशनः ।
 गङ्गातोये विनिक्षिप्य जगामस्व निवेशनम् ॥१८
 असहन्ती तु तत्तेजो गङ्गाऽपि सरिताम्बरा ।
 शरस्तम्बे विनिक्षिप्य जगामाऽऽशु यथागतम् ॥१९
 तत्र जातं तु तद् दृष्ट्वा सर्वे देवाः सवासवाः ।
 कृत्तिका प्रेषयामासुः स्तन्यं पाययितु तत्रा ॥२०
 दृष्ट्वा ता आगताः सर्वा गङ्गागर्भं महामतेः ।
 पण्मुखैः पण्मुखो भूत्वा पिपासुरपिवत्स्तनम् ॥२१

अग्नि ने कहा—हे विभो ! हे देव ! आपके तेज को धारण करने की मुझमें क्या शक्ति है । आपका तेज सा इस सम्पूर्ण जगत् और त्रैलोक्य तथा चराचर सबको भस्तसात् कर दिया करता है । ईश्वर ने कहा— हे हुताशन ! यदि मेरे इस बीज के तुम्हारे उदर में स्थित होने पर कोई पीडा होती उसी समय में उस तेज को गंगा के जल में प्रक्षिप्त कर देना । इस प्रकार में कहकर महादेवजी ने यह अपना अत्युत्तम एवं अमोघ बीज सम्पूर्ण उस अग्नि के गुण में डाल कर वे वही पर अस्तर्धान हो गये थे । देवेश्वर के अन्तर्हित होने पर हुताशन दह्यमान हो गया था और उसने उस महादेव के बीज को गंगा के जल में फेंककर यह अपने निवास स्थान पर चला गया था । सरिताजी में परम अष्ट यह गंगा भी उस तेज को सहन नहीं करती हुई उसको उसने भी शरस्तम्ब में निक्षिप्त कर दिया था और जहाँ से वह आई थी वही पर शोच्य चलोगई थी । वहाँ पर समुत्पन्न हुए उसको देखकर इन्द्र के सहित समस्त देवों ने उस समय में स्तन पिलाने के लिये वहाँ पर कृत्तिका को प्रेषित किया था । उन सबको आई हुई इन्होंने महामति के गंगा गर्भ को देखा था कि यह स्तन पान करने की इच्छा वाला था और फिर यह पण्मुख होकर

अर्थात् छँ मुखो वाला होकर उसने छँ मुखो से स्तन का पान किया था
॥१५-२१॥

जातकर्मादिसंस्कारान्त्रेदोक्तान्पद्मसम्भवः ।

चकारसर्वान्राजेन्द्रविधिदृष्टेनकर्मणा ॥२२

पद्ममुखात्पद्ममुखो नाम कार्तिकेयस्तु कृतिकात् ।

कुमारश्च कुमारत्वाद्गंगागर्भोऽग्निजोऽपरः ॥२३

एवं कुमारः सम्भूतो ह्यनघोऽस्य स वेदवित् ।

शास्त्राण्यनेकानि वेद चचार विपुलं तपः ॥२४

देवारण्येषु सर्वेषु नदीषु च नदेषु च ।

पृथिव्यां यानितीर्थानि समुद्राद्यानिभारत ॥२५

ततः पर्याययोगेन नर्मदातटमाश्रितः ।

नर्मदादक्षिणे कूले चचार विपुलं तपः । २६

ऋग्जुःसामविहितं जपञ्जाप्यमर्हन्नशम् ।

ध्यायमानो महादेवं शुचिर्धमनिसन्ततः ॥७

ततो वर्षसहस्रान्ते पूर्णो देवो महेश्वरः ।

उमया सहितः काले तदा वचनमब्रवीत् ॥२८

हे राजेन्द्र । पद्म सम्भव (ब्रह्माजी) ने विधि दृष्ट कर्म के द्वारा वेदोक्त जात कर्मादि सम्पूर्ण संस्कार किये थे । छँ मुख होने से इनका पद्ममुख— यह नाम पढ गया था और कृतिका से पोषण प्राप्त करने के कारण इनका नाम कार्तिकेय हो गया था । कुमारत्व होने से इनका नाम कुमार हुआ और गङ्गा गर्भ अग्निज ये भी दूसरे नाम थे । इस प्रकार से कुमार समुत्पन्न हुए थे । वे कुछ भी अध्ययन न करके वेदों के ज्ञाता थे वे अनेक शास्त्रों को जानते थे और उन्होंने विपुल तपस्या की थी । हे भारत ! समस्त देवारण्यो मे— नदियों में, नदों में और इस पृथिवी में समुद्रादि जो भी तीर्थ हैं उन सबमें होकर फिर पर्याय (पारी) के योग से नर्मदा के तट के समाश्रित हुए थे । नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर विपुल तपश्चर्या की थी । ऋग्-यजु और सामवेदों में विहित जाप्य वा जप करते हुए घृनिश श्री महादेवजी का ध्यान करने वाले परम शुचि एवं धमनि

सन्तत हो गये थे । इसके अनेक सहस्र वर्षों के पूर्ण होने पर अन्त में महाेश्वर देव उमादेवी के साथ वहाँ पर समागत हुए और उस समय में यह वचन बोले—॥२२-२८॥

अहं ते वरदस्तात गौरी माता पिता ह्यहम् ।
 वरं वृषीष्व यच्चेष्टं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम् ॥२९
 यदि तुष्टो महादेव उमया सह शङ्कर ।
 वृणोमि मातापितरौ भान्यागतिर्मतिर्मम । ३०
 एतच्छ्रुत्वा शुभं वाक्यं पुत्रस्य वदनाच्च्युतम् ।
 तथेत्युक्त्वा तु स्नेहेन प्रेम्णा तं परिपस्वजे ॥३१
 ततस्तं मूढ्युं पात्राय ह्यभयोवाच शङ्करः ॥३२
 अक्षयश्चाव्ययश्चैव सेनानीस्त्वं भविष्यासि ॥३३
 शिखी च ते वाहनं दिव्यरूपो
 दत्तो मया शक्तिधरस्य सङ्ग ह्ये ।
 सुरासुरादीश्च जयेति चोक्त्वा
 जगाम कैलासवरं महात्मा ॥३४
 गते चाऽदर्शनं देवे तथा स शिखिवाहनः ।
 स्थापयित्वा महादेवं जगाम सुरसन्निधौ ॥३५

ईश्वर ने कहा—हे तात ! मैं आपको वरदान देने वाला था गया हूँ । आपकी यह गौरी माता हैं और मैं आपका पिता हूँ । जो भी आप चाहते हैं वरदान का वरण कर लो जो तीनो लोकों में भी दुर्लभ हो पणमुख ने कहा—हे महादेव ! यदि आप मुझ पर परम सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हैं तो हे शङ्कर ! उमादेवी के साथ मैं आपको माता-पिता धरण करता हूँ । इसके अतिरिक्त अन्य मेरी मति और गति नहीं है । इस अतीव शुभ वाक्य को जो कि अपने पुत्र के मुख से निकला था 'तथास्तु' अर्थात् ऐसा ही होवे—यह कहकर बड़े ही प्रेम से उनका समालिङ्गन किया था । इसके उपरान्त उमा के साथ उसके मस्तरु का उपघ्राण करके भगवान् शंकर उससे बोले—ईश्वर ने कहा—आप अक्षय-अव्यय और सेनानी होंगे । शिखी (मोर) आपका वाहन होगा । युद्ध में शक्ति के धारण करने वाले

घातको शिष्य रूप पदान किया है । मन्वान गुरों कीर ऋगुरों पर विषय प्राप्त करो—यह महाभय श्रेष्ठ परम ईनाम पर भो गणे दे । देवेन्द्र के भो प्राने पर दर्शन न होने पर उगमे भय से यह शिषि वाहन महादेवजी को स्नान करके गुरों के महीन भो गणे दे ॥२६-३५॥

तदाप्रभृति तस्यैव स्कन्दतीर्थं मिति श्रुतम् ।
 सर्वपापहरं पुण्यं महर्षिणां भुवि दुस्संभम् ॥३६
 तत्र तीर्थं तु यो राज्ञश्चतुःशो स्नात्वाऽनं संच्छिद्यम् ।
 गन्धमास्तनाभिपैर्यज्ञं याजिकं न लभेत्कर्मम् ॥३७
 स्कन्दतीर्थं तु यः स्नात्वा पूजयेत्स्वगृहेवताः ।
 निम्नमिथ्रणं तोयेन तस्य पुण्यफलं शृणु ॥३८
 पिण्डदानेनर्षकेन विधिमुक्तेन भारत ।
 द्वादशाष्टशानुष्यन्तिपितरोनाऽप्रगंभवः ॥३९
 तत्र तीर्थं तु राजेन्द्र शुभं वा यदि वा शुभम् ।
 इहोषेपदेपेशतरुणं जायतेऽक्षयम् ॥४०
 तत्र तीर्थं तु यः कदिपस्त्राणत्यागं करिष्यति ।
 शास्त्रमुक्तेन विधिना स गच्छेच्छिद्यमन्दिरम् ॥४१
 वल्गमेकं यस्मिन्वा तु देवगन्धर्वपूजितः ।
 अत्र भारतवर्षे तु जायते विमले कृत्ने ॥४२
 वेदवेदागतस्वज्ञः सर्वव्याधिविषयितः ।
 जीवेद्वयंशतं माघं पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥४३
 इदं ते कथितं राजन्स्कन्दतीर्थस्य मम्भवम् ।
 धन्यं यदास्यमायुष्यं सर्वदुःखघ्नमुत्तमम् ।
 सर्वपापहरं पुण्यं देवदेवेन भाषितम् ॥४४

सभी से यह तीर्थ 'स्कन्द तीर्थ'—इस नाम से सिद्ध हुआ है । यह तीर्थ तमस्त्र पापी के हरण करने वाला है और परम पुण्य स्वरूप तथा इस भूमण्डल में अत्यन्त ही दुर्लभ है । हे राजन् ! उस तीर्थ में जो भी कोई भक्ति भाव से स्नान करके भगवान् शिव का अर्घ्यर्चन किया

करता है तथा गन्ध माल्य आदि उपचारों के द्वारा अभिषेक करता है वह मनुष्य यज्ञ से समुत्पन्न फल को प्राप्त करता है । उस स्कन्द तीर्थ में जो स्नान करके पितृगण और देवों का यजन करता है तथा तिनो से मिश्रित जल से सन्तर्पण करता है उसका जो पुण्य फल होता है उसे सुनो । हे भारत ! विधि से युक्त एक ही पिण्ड के दान से पितृगण बारह वर्ष तक वै लिए तृप्त एवं तुष्ट हो जाया करते हैं—इस कथन में बिल्कुल भी संशय नहीं है । हे राजेन्द्र ! उस तीर्थ में शुभ कर्म हो या अशुभ हो वह इस लोक में और परलोक में सभी अक्षय हो जाया करता है । उस तीर्थ में जो भी कोई अपने प्राणों का परिश्रम करता है और शास्त्रोक्त विधि से किया करता है वह सोचा भगवान् शिव के मन्दिर में चला जाया करता है । वहाँ पर एक कल्प पर्यन्त निवास करके देवों और गन्धर्वों के द्वारा पूजित होता है । अवधि के समाप्त होने पर वह फिर भारत में किसी परम विमल कुल में समुत्पन्न होता है । यहाँ जन्म ग्रहण करके वह वेदों और वेदांग शास्त्रों के तत्त्वों का ज्ञाता होता है तथा सभी व्याधियों से रहित होता है । वह यहाँ पर सात सौ वर्ष तक जीवित रहा करता है तथा पुत्र-पौत्रादि से युक्त रहता है । हे राजन् ! यह आपको हमने स्कन्द तीर्थ की उत्पत्ति बतला दी है । यह परम धन्य—यज्ञ देने वाला—प्रायु वर्षक समस्त दुःखों का नाशक—अ युत्तन—पुण्यमय और सभी पापों के हरण करने वाला है—ऐसा देवों के भी देव ने स्वयं अपने मुख से बतलाया है ॥३६-४४॥

१०२—अङ्गिरसतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र तीर्थं मागिरसस्य तु ।

उत्तरे नमं दाकूले सर्वपापविनाशनम् ॥१॥

पुराऽऽभीदगिरानाम ब्राह्मणो वेदपारगः ।

पुत्रहेतोर्युगस्याऽदोचचारविपुलं तपः ॥२॥

नित्यं त्रिपयणस्नायी जपन्देव सनातनम् ।

पूजयंश्च महादेवं वृच्छचान्द्रायणादिभिः ॥३॥

द्वादशाब्दे ततः पूर्णं तृतीये परमेश्वरः ।
 वरेण च्छन्दयामास द्विजमांगिरसं वरम् ॥४॥
 वरे स तु महादेवं पुत्रं पुत्रवतां वरम् ।
 वेदविद्यान्नतस्नातं सर्वशास्त्रविशारदम् ॥५॥
 देवानां मन्त्रिणं राजन्सर्वलोकेषु पूजितम् ।
 ब्रह्मलक्ष्म्याः सदावासमक्षयं चाव्ययं सुतम् ॥६॥

श्री मार्कण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र ! इसके पश्चात् फिर मांगिरस तीर्थ को गमन करना चाहिए जो नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित है और समस्त पापों के विनाश करने वाला है । पुरातन समय में मांगिरा नाम वाला एक वेदों का पारगामी ब्राह्मण था । युग के आदि काल में उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत भारी उग्र तप किया था । वह नित्य ही तीनों कालों में स्नान करने वाला होकर सनातन देव का जाप किया करता था । जब बारह वर्ष पूर्ण हो गये थे तब परमेश्वर प्रभु प्रमत्त हुए थे । तब उम मांगिरस द्विज को वरदान प्रदान करने के लिये कहा था ॥१-४॥ उसने महादेवजी से पुत्रवानों में भी परम श्रेष्ठ पुत्र होने का वरदान माँगा था जो कि वेद विद्या के ब्रत में स्नात हो और समस्त शास्त्रों का विद्वान् हो । ऐसा पुत्र होना चाहिये जो देवों का मन्त्री हो और हे राजन् ! उस मांगिरा ने समस्त लोको में पूजित—महालक्ष्मी का सदा वास स्थान—अक्षय—अव्यय सुत की याचना की थी ॥१-६॥

तथाभिलषितः पुत्रः सर्वविद्याविशारदः ।
 भविष्यति न सन्देहश्च वमुक्त्वाद्यथोहरः ॥७॥
 वर्गैरङ्गिरसश्चापि बृहस्पतिरजायत ।
 यथाऽभिलषितः पुत्रो वेदवेदांगपारगः ॥८॥
 जाते पुत्रेऽङ्गिरास्तत्र स्थापयामास शंकरम् ।
 दृष्टुं दृष्ट्वा श्रुत्वा जगामोत्तरपन्नतम् ॥९॥
 तत्र चांगिरसे तीर्थे यः स्नात्वा पूजयेच्छिवम् ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तो रुद्रलोकं स गच्छति ॥१०॥

अपुत्रो लभते पुत्रमघनो धनमाप्नुयात् ।

इच्छते यश्च यं कामं स तं लभतिमानवः ॥११

उसी प्रकार तेरा चाहा हुआ पुत्र जो समस्त विद्याओं का विशारद होगा तुझे मिलेगा—इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है—ऐसा कहकर भगवान् शम्भु वहाँ से चले गये थे । इन शम्भु के दिये हुये वरदानों से अंगिरस के गृहस्पति पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था जो कि जैसा उनको अभिप्रेत था वैसे ही वेद-वेदांगों का पारगामी विद्वान् पुत्र उत्पन्न हुआ था । उस पुत्र के उत्पन्न होने पर अंगिरस मुनि ने वहाँ पर भगवान् शंकर की स्थापना की थी । फिर वह परम हृष्ट और सन्तुष्ट मन वाला होकर उत्तर पर्वत पर चला गया था । वहाँ पर उस अंगिरस तीर्थ में जो भी कोई स्नान करके भगवान् शिव का पूजन किया करता है वह सम्पूर्ण पापों से विमुक्त होकर उदरलोक को गमन किया करता है और निर्जन मनुष्य इस तीर्थ को पुण्य-प्रदान से अतुल्य धन की प्राप्ति कर लेता है । मनुष्य वहाँ पर जाकर जो भी कामना करता है उसी को पा लेता है ॥७-११॥

१०३—कोटितीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत्पुराजेन्द्रकोटितीर्थं मनुत्तमम् ।

ऋषिकोटिर्गता तत्र परासिद्धिमुपागता ॥११

तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा भोजयेद्ब्राह्मणाञ्छुचिः ।

एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिर्भवति भोजिता ॥२

तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत्तृदेवताः ।

पूजिते तु महादेवे वाजपेयफलं लभेत् ॥३

श्री मार्कण्डेयजी ने कहा—हे राजेन्द्र । इसके बाद अति उत्तम कोटि तीर्थ को गमन करे । वहाँ ऋषिकोटि में जाने पर परम सिद्धि की उपलब्धि होनी है । उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करावे । यहाँ विप्रगण जिनका एक बार भोजन करते हैं वह करोड़ गुना हो जाता है । उस तीर्थ में स्नान करके पितृ देवता का पूजन करे और

महादेवजी का भी पूजन करे तो वाञ्छेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है ॥१-१॥

१०४ वेदारेष्वरमाहात्म्यवर्णन

मत्पण्डितकण्डुयाकं वेदारेष्वरसञ्ज्ञकम् ।
 देवं शृणु वरारोहे दर्शनात्पापनाशनम् ॥१
 मृष्टिगले पुरादेवि देवा ध्याप्ताहिमनहि ।
 गीतातर्तविह्वला गवै ब्रह्माणं धारणं गताः ॥२
 हिमाद्रिणाऽदिताः सर्वे यय देवजगत्पते ।
 प्राहिभीताश्चतुष्वन्नपितामहनमोऽनुते ॥३
 देवानां यघनं श्रुत्वा प्रोक्तं यं ब्रह्मणा प्रिये ।
 पीडिता हिमसंसेन दारुणश्चतुरेग च ॥४
 नाहं यानुं समर्षोऽस्मि मरत्यमेतन्मयोदितम् ।
 महादेवमृतेदेवागतिरन्या न विद्यते ॥५
 स एव धारणं देवः सर्वेषां नो भविष्यति ।
 तस्याज्ञया मया सर्वे पर्वतारचिताः पुरा ॥६
 कृतामृष्टिविचित्रा च हिमाद्रिश्चमयाकृतः ।
 अश्रेय्यःसर्वजन्तूनामधुष्योदुर्गमोगिरिः ॥७

ईश्वर ने कहा हे वर (शंभु) वारोह (चन्द्र गठन) वाची ! सङ्-
 गत संस्था वाले वेदारेष्वर नाम से युक्त प्रभु हैं । उन देव के विषय में
 आप ध्यान करो । अिनके केवल दर्शन से ही समस्त पापों का विनाश ही
 प्राप्ता करता है ॥१॥ हे देवि ! प्राचीन समय में पहिले मृष्टि के समय में
 सब देवता लोग हिम से व्याप्त होते हुए शील से अत्यन्त दुःखित होकर
 विह्वल हो गये थे । सब देवगण फिर परम पिता ब्रह्माजी की धारणापति
 में गये थे ॥२॥ देवो ने कहा—हे जगत् के स्वामिन् ! हे देव ! हम सब
 लोग हिमाद्रि से पीडित हैं । हे चार मुखी वाले पितामह ! हम बड़े डरे
 हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आपकी सेवा में प्रणाम है ॥३॥ हे

प्रिये ! देवों के इन प्रार्थना के वचनों का श्रवण करके ब्रह्मात्री ने कहा—
हे देवगण ! आप लोग हिमवान् पर्वत से पीडित हैं जो कि भगवान् शङ्कर
का श्वशुर है । अतएव मैं तो वहाँ जाने में समर्थ नहीं हूँ—मैंने यह
वित्कुल सत्य एव स्पष्ट आपको बतला दिया है । हे देवगण ! महादेवजी
के मित्राय वहाँ पर अन्य कोई भी दूसरी गति नहीं है ॥४-५॥ वह ही
महादेवजी आप सबके रक्षा करने वाले होंगे । उनकी ही आज्ञा से मैंने
पहिले इन समस्त पर्वतों की रचना की थी । मैंने यह बहुत ही अद्भुत
सृष्टि की थी और इस हिमवान् पर्वत का भी मृगन मैंने ही किया था किन्तु
यह गिरि हिमवान् सब जन्तुओं के सेवन करने के योग्य नहीं है । यह
धर्मण के, अयोग्य और महान् दुर्गम पर्वत है ॥६-७॥

हिमाचलस्य तस्यैव सास्ता देवो महेश्वरः ।

तस्माद्यास्याम हे देवाः कैलासं पर्वतोत्तमम् ॥४

यत्र तिष्ठति विश्वात्मा देवदेवो महेश्वरः ।

एवमुक्त्वा गतो ब्रह्मा देवैः साद्धं ममान्तिकम् ।

दृष्टोऽहं पूजितस्तंस्तु स्तुतोऽहं विविधैः स्तवैः ॥९

मया गम्मानिता देवाश्चतुर्वक्त्रः प्रपूजितः ।

पूजयिस्वामयापृष्टो ब्रह्मा गमनकारणम् ॥१०

किं कार्यं त्रिदशैःसाद्धं मागतोऽसि पितामह ।

कथितं ब्रह्मणा सर्वं श्रुतं सर्वं मया प्रिये ॥११

हिमाचलं समाहूय मर्यादा च कृता मया ।

शं लानाराजराजत्वे हिमाद्रिश्चप्रतिष्ठितः ॥१२

देवानां विषयाश्चैव गन्धर्वाणां तथैव च ।

यक्षाणामथ नागानां किन्नराणां तथैव च ॥१३

विद्याधराणां क्रीडार्थं पृथक्पृथङ्निवेशिताः ।

• स्तुतो भाति संलेन्द्रः शुद्धस्फटिकसन्निभः ॥१४

जाह्नवीनिर्भरं रोष्णीपः सर्वाभीजनकस्तथा ॥१५

उम हिमाचल गिरि के ऊपर धामन करने वाले केवल महेश्वर देव
ही हैं । हे देवगण ! इस कारण से हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलास पर

ही चले जहाँ पर सम्पूर्ण विश्व—ब्रह्माण्ड के आत्मा—देवों के भी देव भगवान् महेश्वर साक्षात् विराजमान रहा करते हैं। इस प्रकार से देवों को समझाकर मरमेष्टी ब्रह्माजी समस्त देवगणों के साथ मेरे समीप में उपस्थित हुए थे। उन सबने मेरा दर्शन करके पूजा की और नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा मेरा उन सबने स्तवन भी किया था ॥८-९॥ हे देवि ! मैंने भी उस समय में उन सब देवनाओं का धावर—सम्मान किया था और ब्रह्माजी की विशेष रूप से पूजा की थी। ब्रह्माजी से उनका समचन करके मैंने उनके वहाँ पर समागमन करने का कारण पूछा था ॥१०॥ मैंने पूछा—हे पितामह ! क्या कारण है कि प्रायः इन देवगणों के साथ वहाँ पर समागत हुए हैं। ब्रह्माजी ने सब वृत्तान्त कह दिया था और हे प्रिये ! मैंने वह सब सुन लिया था ॥११॥ मैंने हिमाचल को बुलाकर एक मर्यादा स्थापित कर दी थी और समस्त क्षीलों का राजाधिराज उसे प्रतिष्ठित कर दिया था। वहाँ पर देवों के देश—गन्धर्वों—यक्षों—नागों और किन्नरों तथा विद्याधरों के रहने एवं क्रीडा—विहार करने के लिये पृथक्—पृथक् स्थान नियत कर दिये थे ॥१२-१३॥ वीसों का स्वामी हिमवान् रूप लावण्य से विशुद्ध स्फटिक मणि के तुल्य ही था। गङ्गा के प्रवाह का ही उसके मस्तक पर शिरोवेष्टन वस्त्र था और वह सर्वाणों (पार्वती देवी) का जनक था ॥१४-१५॥

सर्वदेवमयो दिव्यः सर्वतीर्थभयः कृतः ।

सर्वाश्रमनिवासश्च सर्वाभरणनियेवितः ॥१६

एवं संस्थाप्यशैलेन्द्रं लिङ्गमूर्त्तिरहंस्थितः ।

विख्यातस्त्रिपुलोकेषु केदारेश्वरनामतः ॥१७

उदकं निर्मितं तत्र मन्त्रपूर्णं मया प्रिये ।।

माहात्म्यं विविधं प्रोक्तं लिङ्गस्य च जलस्य च ॥१८

योऽत्रागत्य नरो भवत्या सम्यङ् मा पूजयिष्यति ।

जलं योऽत्रैव गृह्णाति विधानेन वरानने ! ॥

तस्योदरे भविष्यामि लिंगरूपी न संशयः ॥१९

इत्युक्ते वचने देवि । सदेवासुरपन्नगा ।
 यक्षरक्ष पिशाचाश्च भूतवेतालकिन्नरा ॥२०
 विद्याधरगणाश्चैव मम दशैर्न जालसा ।
 समायाता वरारोहे । पीत्वा तत्र जलं शुभम् ।
 दृष्टोऽहं त्रिभिर्ना तैस्तु लिङ्गमूर्त्तिगतं प्रिये ॥२१

हिमवान् समस्त देवों से परिपूर्ण दिव्य और सम्पूर्ण तीर्थों से समन्वित बना दिया था । वह सभी आश्रमों का निवास क्षेत्र और समस्त देवों के द्वारा तिथेबिन हो गया था । इस तरह का उस शैलराज की प्रतिष्ठित करके मैं लिङ्ग मूर्त्ति वाला होकर वहीं पर स्थित हो गया था । उसी समय से तीनों लोको मे मैं केदारेश्वर—इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था ॥१६-१७॥ हे प्रिये । वहीं पर मैंने मात्र पूण (उदक जल) का निर्माण किया था । नाना प्रकार का माहात्म्य लिङ्ग का और जल का कहा गया है ॥१८॥ जो मनुष्य यहाँ पर आकर भक्ति से अच्छी रीति से मेरी पूजा करेगा हे वरानने । जो यही पर विज्ञान पूर्ण जल ग्रहण किया करता है मैं उसके उदर में लिङ्ग के रूप वासा हो जाऊंगा—इसमें संशय नहीं है ॥१९॥ हे देवि । इस प्रकार से कहने पर समस्त देवगण—असुर—पन्नग—घन—राक्षस—पिशाच—भूत—वेताल—किन्नर और विद्याधर गण मेरी दशन—लालसा धाने होत हुए यहाँ पर समागत हुए थे । हे वरारोहे ! उ होने इस शुभ जल का पान किया था । फिर हे प्रिये । उनके द्वारा लिंग मूर्त्ति में स्थित भुक्तों विधि के सहित देखा गया था ॥२०-२१॥

मम तुल्याश्च तं जातास्त्रिभिर्नद्विवरे स्थिता ।
 जनलोचगतं सिद्धं पूज्यमाना वरानने ॥२२
 क्षय कालेन बहुना श्रुत्वा मातात्म्यमुत्तमम् ।
 केदारेश्वरदेवस्य जलस्य च विशेषतः ॥२३
 मनुष्याः समुपायानास्ते रजोबहु शयत ।
 तम प्राणविशालादि । तदाह माहिषवजु ॥२४

कृतवांस्तद्भयार्थयि न च ते भीतिमागताः ।
 इह देवोऽत्र देवोऽत्र बभ्रमुस्तेदिदृशयः ॥२५॥
 न तं हं षो मह देवि ! यतोऽहं माहिषाकृतिः ।
 स्थितोऽस्म्यलक्ष्यरूपेण सतस्ते दीनमानसाः ॥
 उद्विग्ना निश्वसन्तश्च वंराग्यं परमं गताः ॥२६॥
 नात्र देवो न तीर्थानि न गङ्गाः पुण्यदायिनी ।
 न धर्मो न परो लोकाः सर्वं मेतद्विडम्बनम् ॥२७॥
 एषं किल पुराणेषु श्रूयते सर्वदा श्रुती ।
 हिमालये च केदारं लिङ्गं माक्षप्रदायकम् ॥२८॥

हे परम श्रेष्ठ मुक्त घाली ! वे सब मेरे ही समान हो गये थे और
 उस गिरिश्रेष्ठ पर समवस्थित हो गये थे । जनलोक में स्थित सिद्धी के
 द्वारा वे पूज्यमान हुए थे ॥२२॥ हमारे पश्चात् जब बहुत अधिक समय
 व्यतीत हो गया था उस समय में केदारेश्वर देव का और विशेष रूप से
 जल का उत्तम माहात्म्य का श्रवण करके मनुष्यगण वहाँ पर समागत
 हुए थे । यद्यपि कि हे विशाल नेत्रो वाली ! वे सब प्रायः अधिक रजोगुण
 वाले और तमोगुण से परिपूर्ण थे । उस समय में मैंने माहिष हन कर
 लिया था ॥२१-२४॥ यह माहिष स्वरूप मैंने उनके बध करने के लिये
 ही धारण किया था किन्तु वे भयभीत नहीं हुए थे और यहीं पर केदारेश्वर-
 देव विद्यमान हैं—ऐसा कहते—विचरते हुए वे मेरे दर्शन करने
 की दृष्टि से युक्त होकर भ्रमण कर रहे थे ॥२५॥ हे देवि ! उन्होंने
 मुझे नहीं देखा था यद्यपि कि मैं तो उस समय में माहिष की आकृति में
 स्थित था । जब मैं इस प्रकार से अलक्ष्य रूप से वहाँ पर स्थित हो गया
 था तो वे अधिक दीन मन वाले हो गये थे और बहुत अधिक उद्वेग से
 युक्त होते हुए खिन्नता से लम्बी श्वास लेने लगे एवं अधिक वैराग्य उत्पन्न
 हो गया था ॥२६॥ वे कहने एवं सोचने लगे कि न तो यहाँ पर कोई
 देव है न तीर्थ ही हैं और न पुण्य प्रदान करने वाली गंगा नदी ही है ।
 न कोई धर्म क्षेत्र है और परमोत्तम लोक ही है—यह सब विड-
 म्बना मात्र ही है ॥२७॥ पुराणों में और येशों में यह सर्वदा सुना

जाया करता है कि हिमालय पर्वत में मोक्ष प्रदान करने वाली केदारेश्वर भगवान् की लिंग मूर्ति विराजमान रहती है—यह क्या बात है—यह कथन धर्मार्थ तो नहीं होना चाहिए ॥२८॥

एवं तु वदतां तेषां मानुषाणां यशस्विनि !

आकाशाद्दुत्थिता वाणी मया प्रोक्तानु-रूपया ॥२९

अमार्गं मा वन्दन्त्वत्र न निन्धाः श्रुतयोऽप्ययाः ।

पुराणं नान्यथा प्रोक्तं ब्रह्मणा लोककर्तृणा ॥३०

ये निन्दन्ति पुराणानि धर्मशास्त्राणि नस्तिकाः ।

ते यान्ति नरकं घोरं यावदाभूतसम्प्लवम् ॥३१

सदा देवोऽत्रकेदारः स्वर्गमोक्षप्रदायकः ।

विद्यते त्रिदशैः पूज्यः सततं नैव दृश्यते ॥३२

करोति पूजां हिमवान्मामानशौ च शाश्वतान् ।

हिमाद्रिस्तेन पृथ्येन नगेन्द्रस्तु कृतो नगः ।

सेव्यश्च रमणीयश्च सर्वतीर्थं नमस्कृतः ॥३३

सर्वरत्ननिधानश्च देवानां बल्लभस्तथा ।

प्रीष्टमे चैत्र वसन्ते च देवदेवोऽत्र दृश्यते ॥३४

नियतेनैव कालेन मानुषाणां च सर्वदा ।

यदिबुद्धिः परा जाता संभंदा मम दर्शने ॥३५

हे यशस्विनि ! जब इस प्रकार से वे सब लोग परस्पर में बात चीत कर रहे थे तो उन मनुष्यों पर मुझे दया आ गई थी और उस समय मैं अनुकम्पा करके मेरे ही द्वारा कही गई आकाश से एक वाणी हुई थी ॥२९॥ “आप लोग यहाँ पर भिन्न मार्ग की बातें मत करो । अध्यय वेद और पुराण निन्दा करने के योग्य नहीं हैं लोको की रचना करने वाले ब्रह्माजी ने पुराणों को असत्य नहीं लिखा एवं बतलाया है । ये सभी सत्य हैं जो नास्तिक लोग पुराणों और धर्म शास्त्रों की बुराई किया करते हैं और उन्हें असत्य बतलाते हैं वे महान् घोर नरक में जाकर गिरा करते हैं और यह प्रलय काल पर्यन्त उसी में पड़े हुए यातनाएं सहा करते हैं ॥३०-३१॥ भगवान् केदारेश्वर देव यहाँ पर सर्वदा ही विराजमान रहा

करते हैं जो परम पुण्यार्थ मोक्ष के प्रदान करने वाले हैं तथा स्वर्ग का निवास भी दिया करते हैं । वे केदारेश्वर प्रभु देवों के द्वारा पूजा करने के योग्य विद्यमान हैं किन्तु सदा दिखलाई नहीं दिया करते हैं ॥३२॥ यह हिमवान् पर्वत निरन्तर घाठ मास तक उनकी पूजा किया करता है । उसी पुण्य के प्रभाव से इस को समस्त पर्वतों ने पर्वतों का स्वामी बना दिया है और यह परम सेव्य-रमणीय एवं सभी तीर्थों के द्वारा वन्द्यमान है ॥३३॥ यह समस्त प्रकार के रत्नों की खान है और देवगण का परम प्रिय है । यहाँ पर शीघ्र एवं वसन्त ऋतु में वे देवों के भी देव दिखलाई दिया करते हैं । यदि मनुष्यों की बुद्धि मेरे दर्शन करने में सर्वदा परमोत्कृष्ट रूप से समुत्पन्न हो जाया करती है तो नियत काल में दर्शन होता है ॥३४-३५॥

आख्यास्ये तदुपायं च श्रूयता सावधानतः ।

मा विकल्पोऽयकसंख्यः सर्वान्कामानवाप्स्यथ ॥३६

क्षेत्राणामुत्तमं क्षेत्रं भुक्तिमुक्तिप्रदायकम् ।

प्रलयेऽप्यक्षयं प्रोक्तं महाकालवनं नराः ॥३७

तत्राहं सम्भविष्यामि लोकानामनुकम्पया ।

लिंगरूपेण क्षिप्रायास्तटेपुण्ये सुशोभने ॥३८

सौमेश्वरस्य देवस्य पश्चिमे स्थानमुत्तमम् ।

प्रसिद्धमुपयास्यामि केदारेश्वरनामतः ॥३९

सर्वदा दर्शनं तत्रमया साद्धं भविष्यति ।

सर्वेषां च प्रदास्यामि सवान्कामान्नसशयः ॥४०

इह यावत्फलं तस्माद्दास्यामि ह्यविकततः ।

इतिते मानवाः सर्वश्रुत्वा वाणीमनोरमाम् ॥

आकाशादुत्थिता दिव्यां मनः प्रह्लादकारिकाम् ॥४१

गता वनं महाकालं सस्मरन्ती महेश्वरम् ।

विकल्पेन विचित्रेण सत्यमेवैति नान्यथा ॥४२

मैं उसका उपाय भी अभी बतलाऊंगा । आप लोग परम सावधान होकर उसका श्रवण करो । इस विषय में तुमको अपने हृदय में कितनी

प्रकार का विकल्प नहीं करना चाहिए । प्रायः लोगों की सभी कामनाएँ
परिपूर्ण होगी ॥३६॥ हे मनुष्या ! समस्त दीर्घों में अत्युत्तम क्षेत्र तथा
भुक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाला है और इस महाकाल वन को
प्रलय में भी न क्षीण होने वाला कहा गया है ॥३७॥ जोगी पर कृपा
करके मैं वहाँ पर शिप्रा नदी के परम पुण्यमय सुन्दर तट पर लिंग के
स्वरूप में रहने वाला प्रकट होऊँगा ॥३८॥ सोमेश्वर देव के पश्चिम
भाग में अत्यन्त उत्तम स्थान है मैं वहाँ पर केदारेश्वर नाम से प्रसिद्धि को
प्राप्त होऊँगा ॥ ६॥ वहाँ पर मेरे माथ में सर्वदा दर्शन होगा । मैं वहाँ
पर सबके समस्त मनोरथों को पूर्ण कर दूँगा । इसमें कुछ भी संशय नहीं
है ॥४०॥ वहाँ पर जितना पुण्य—फल होता है उसमें भी अधिक वहाँ
पर दूँगा । उन सब मनुष्यों ने आकाश से होने वाली—परम दिव्य एवं
मन को प्रसन्न करने वाली परम मनोरम वाणी का श्रवण किया था और
फिर सबके सब भगवान् महेश्वर महाकाल का विचित्र विकल्प से स्मरण
करते हुए महाकाल वन में चले गये थे । सब लोग वहाँ कहते हुए जा रहे
थे कि यह बिल्कुल सत्य है और इसमें तनिक भी शङ्का नहीं है
॥४१-४२॥

स्नात्वा शिप्राजले पुण्ये मानस्यस्पर्शान्ति भास्कारम् ।
तावद्दृष्टिपथोत्पन्नं लिङ्गं पापप्रणाशनम् ॥४३
अथ ते हर्षिताः प्रीचुः केदारोऽथ न सशयः ।
दृष्टोऽस्माकं न सन्देहो गंगा शिप्राजले स्थिता ॥४४
सतस्ते पूजयामासुः पुष्पैर्नानाविधैस्तथा ।
पूजितोऽहं विशालाक्षितेपातुष्टोवरानने ॥४५
दुर्लभोऽतिवरो दत्तः कैलासेऽथानमुत्तमम् ।
अक्षयञ्चपदं दत्ताम्पुनरावृत्तिर्वाजितम् ॥४६
अतोऽहं त्रिदशैः प्रोक्तः केदारेश्वरनामतः ।
प्रार्थितः परयाभक्त्या लोकानामनुकम्पया ॥४७
इहागत्य नरा ये च त्वां पश्यन्ति मुभक्तितः ।
तेषां फलं त्वया देव ! दातव्यमधिकं यतः ॥४८

हिमाद्रौहिमनाथस्ययात्रायाःप्रत्यहंफलम् ।

लभन्तेचनरानित्यंनान्यकार्याविचारणा ॥४६

परम पुण्यमय शिप्रा नदी के जल में स्नान करके जब तक भगवान् भुवन भास्कर का दर्शन करते हैं तभी तक समस्त पापों के विनाश कर देने वाले तिम का दर्शन उन सब लोगों की दृष्टि में समागत हो गया था अर्थात् सबने लिंगेश्वर का दर्शन प्राप्त कर लिया था ॥४३॥ इसके पश्चात् वे सब अत्यधिक प्रसन्न हुए थे और उनको यह निश्चय हो गया था कि यही भगवान् केदारेश्वर प्रभु हैं—इसमें कुछ भी शक्य नहीं रहा है हम लोगों ने सब उनका दर्शन प्राप्त कर लिया है और कोई भी सन्देह करने का अवसर नहीं है । शिप्रा नदी के जल में गंगा स्थित है ॥४४॥ इसके अनन्तर उन्होंने अनेक तरह के पुण्यों से अर्चना की थी । हे विशाल नेत्रों वाली ! हे परम श्रेष्ठ एवं सुन्दर मुख वाली ! जब मेरी उन्होंने पूजा की तो मैं उनपर तुष्ट एवं प्रसन्न हो गया था, ॥४५॥ मैंने उनको अत्यन्त श्रेष्ठ एवं दुर्लभ वरदान दिया था—कैलास गिरि पर उत्तम स्थान और पुनरावृत्ति (दुबारा जन्म ग्रहण करना) से रहित कभी क्षीण न होने वाला पद प्रदान किया था ॥४६॥ इसी लिये मैं देवों के द्वारा केदारेश्वर—इस नाम से पुकारा गया था और लोगों पर दया करके परम भक्ति से उन्होंने मेरी प्रार्थना की थी कि जो भी मनुष्य यहाँ पर आकर भक्ति पूर्वक आपका दर्शन करते हैं हे देव आपके द्वारा उनको अधिक फल अवश्य ही देना चाहिए क्योंकि हिमाचल में हिमनाथ की यात्रा का प्रतिदिन फल मनुष्य नित्य ही प्राप्त किया करते हैं—इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है ॥४७-४८॥

ब्रह्महा वासुरापोवास्तेयीवागुरुतल्पगः ।

तत्सम्पर्कानरोयस्तुत्वाद्दृष्ट्वाकित्विपाकरः ॥५०

सोऽपि याति परं स्थानं पुनरावृत्तिवर्जितम् ।

चान्द्रायणानां विधिवच्छतानां च यत्फलम् ।

तत्कञ्चं समवाप्नोतिवेदारेश्वरदर्शनात् ॥५१

ते नराः पशवो लोके तेषां जन्मनिरथ कम् ।
 यन् दृष्टो महाकाले केदारेश्वरसञ्ज्ञकः ॥५२
 कोमारेयीवने बाल्ये वाद्धं केयदुपाजितम् ।
 तत्पापं संक्षयं यातिकेदारेश्वरदर्शनात् ॥५३
 हिमालयकृता यात्रा तस्थाः प्रोक्तं च यत्फलम् ।
 तत्फलं समवाप्नोति केदारेश्वरदर्शनात् ॥५४
 ह्युक्तोऽहं तदा देवि ! देवैः प्रणतिपूर्वकम् ।
 तथेति चमया प्रोक्तं तेषु पि देवादिवं गताः ॥५५
 एष ते कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः ।
 केदारेश्वरदेवस्य पिशाचाख्यमताः शृणु ॥५६

ब्राह्मण को हत्या करने वाला—गुरापान करने वाला—चोरी का
 बर्न करने वाला और गृह की शय्या पर गमन करने वाला हो अथवा
 इन महापापात्मा पुरुषों के साथ सम्पर्क रखने वाला हो और चाहे कैंता
 भी किल्बिषों की खान बयो न हो भापका मनुष्य दर्शन प्राप्त करके वह
 भी उदा परम पद को प्राप्त हो जाता करता है जहाँ पहुँचकर फिर यह
 जीवात्मा दूसरा जन्म ग्रहण नहीं किया करता है । विधि पूर्णकाम्ये हुए
 एक सौ बान्धायण यती का जो फल प्राप्त होता है वही फल भगवान्
 केदारेश्वर के दर्शन से प्राप्त हो जाता करता है ॥५०-५१॥ वे मनुष्य इस
 लोक में पशु के ही समान हैं और उनका इस संसार में जीवन धारण
 करना भी निरर्थक ही हुआ करता है जिन्होंने महाकाल वन में भगवान्
 केदारेश्वर नाम वाले प्रभु का दर्शन प्राप्त नहीं किया है । ५२॥ कुमार
 अवस्था में—यौवन में—बाल्यावस्था में और बाल्यवय में जो भी कुछ बुरे
 कर्म या पाप हो उनका क्षय केवल केदारेश्वर के दर्शन से हो जाता है
 ॥५३॥ हिमवान् पर्वत की यात्रा और उसका जो भी कुछ फल होता है
 वह सब कह दिया है उसका जो भी कुछ पुण्य फल होता है वह केवल
 केदारेश्वर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है ॥५४॥ हे देवि ! उस समय देवों
 के द्वारा प्रणाम करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा गया था और मैंने भी
 ऐसा हागा—गठ कह दिया था । फिर सब देवगण स्वर्ग लोक को चले

गये थे ॥५५॥ हे देवि ! आपके भगवत् में यह पापों का विनाश करने वाला वेदारेद्वर भगवान् के दर्शन का प्रभाव बतला दिया है । अब यहाँ से आगे पिशाचेद्वर नामक भगवान् के विषय में श्रवण करो ॥५६॥

१०५—पिशाचेश्वरमाहात्म्यवर्णन

अष्टपट्टिकसंख्याकं पिशाचाख्यमथेश्वरम् ।
 शृणु देविप्रयत्नेन दर्शनात्पापनाशनम् ॥१॥
 आदोकलियुगेदेविशूद्रोबहुधनोऽभवत् ।
 सोमोनामसुविख्यातानास्तिकोवेदानन्दकः ॥२॥
 अग्रह्वाण्यो नृशंसदच्च कर्दयो निरपत्रपः ।
 विदवासघातकश्चैव परस्थहरणे रतः ॥३॥
 त्रिवर्गं हन्ता चान्येषामात्मकामानुवर्तिकः ।
 स कदाचिन्मृतो देवि ! कष्टेन परमेण च ॥४॥
 मत्पेशे पिशाचोऽमृन्मृन्मोदीनो भयावहः ।
 नाशकृत्सपिशाचानां स्वपक्षीच्छेदकारकः ॥५॥
 बहवो महितास्तेन पिशाचा बलवताराः ॥६॥

ईश्वर ने कहा—इसके अनन्तर अड़सठ सर्षपा वाले पिशाच नामक ईश्वर का श्रवण अब हे देवि ! आप यत्न पूर्वक करिए जिसके दर्शन मात्र से ही समस्त पापों का विनाश हो जाता करता है ॥१॥ हे देवि ! आदि में इन कलियुग में शूद्र बहुत धन वाला हुआ करता था जिसका सोम यह नाम परम प्रासिद्ध था । यह महान नारिक (ईश्वर की सत्ता का न मानने वाला) और वेदों की निन्दा करने वाला हुआ था ॥२॥ यह ब्राह्मण की सुरक्षा न करने वाला—महान् क्रूर स्वभाव से युक्त—कर्दय (प्रत्यस्त जोच)—निरपत्रप (निलज्ज)—विश्वास का घात करने वाला—सदा पराये धन का धपहरण करने में रति रखने वाला था ॥३॥ यह अन्य तीनों वर्ग अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्गों का हनन कर्ता और

केवल अपनी ही भूमिलापात्रों को पुति करने वाला था । हे देवि ! वह किसी समय में परमाविक कष्ट सहन करते हुए मृत हो गया था ॥४॥ यह अपने-अपने किए हुए घोर पाप पूर्ण कर्मों के कारण मरने के पश्चात् मरुभूमि (मरुवाह) में जहाँ जल के अभाव के कारण प्राणी मर जाया करते हैं, पिशाच हुआ था जो परम नग्न—दीन और भयावना था । यह अपने पक्ष वाले पिशाचों का भी नाश करने वाला स्वपक्ष का ही उच्छेदन करने वाला था । इसने बड़े २ परमधिक बलवाद् पिशाचों का भी मर्दन कर दिया था ॥५-६॥

अथतेनैवमार्गेणकदात्रिच्छाकटायनः ।

स्वाध्यायनिरतो विद्वान्वाग्मीशमभरायणः ॥७

उदयादित्यसकाशोविभावसुसमद्युतिः ।

शकटेन सदा याति स पश्यन्पर्वतात्मजे । ॥८

गतो ददर्श तं रौद्रं पिशाचं च भयात्रहम् ।

स पिशाचः क्षुधाविष्टो भोक्तुकामोऽभ्यधावत ॥९

दृष्ट्वा तं शकटासृढं ब्राह्मणं शकटायनम् ।

शकटस्य ध्वनिश्रुत्वा रूपं दृष्ट्वादिजस्य च ॥१०

तथारूपः पिशाचस्तु कर्णाभ्यां वधिरीकृतः ।

आत्मप्राणपरो भूत्वा नष्टः कष्टेन पार्थति ।

तं धावन्तं समालोक्य पिशाचं ब्राह्मणोऽब्रवीत् ॥११

पिशाचं सस्तरूपोऽसि त्वरितदन्तं व लक्ष्यसे ।

क्व धावसि समाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम् ॥१२

शकटस्यास्य महतोपोप श्रुत्वाभयङ्करम् ।

क भ्यागधिरोजातो विसृजस्तवदर्शनान् ॥१३

पिशाचानां बलिप्राश्च श्रूयन्ते ब्रह्मराक्षसाः ।

स त्वं मा भोक्तुकामोऽसि विख्यातो ब्रह्मराक्षसः ॥१४

हे हिमावत की पुत्रि ! इसके अनन्तर एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि किसी समय में उसी मार्ग से शकटायन महर्षि निकले थे जो वेद वेदांगों के स्वाध्याय करने में सदा निरत रहा करने से बहुत ही

अधिक विद्वान्—वाग्मी (बोलने वाले) और सर्वदा शम में परायण रहने वाले थे ॥७॥ इन महर्षि का स्वरूप उदित हुए सूर्य के समान तेजस्वी था और यह विभाषसु के तुल्य च्युति वाले थे । यह सदा शकट से ही गमन किया करते थे । वे उधर से जा रहे थे तभी उन्होंने उस अत्यन्त भयानक—रीड रूप वाले पिशाच को वहाँ पर देखा । वह पिशाच अत्यन्त भूखा था और वह इन शाकटायन महर्षि को खाने के लिए उस घोर दौड़ गया था ॥८-९॥ उस पिशाच ने एक शकट पर समाच्छे शाकटायन ब्राह्मण को देखकर तथा शकट ध्वनि का श्रवण किया था । उसने उस ने उस शकट में स्थित त्रिज के स्वरूप का धवलोकन किया था ॥१०॥ उस प्रकार के स्वरूप वाला वह पिशाच उसी समय में कानों से बहिरा हो गया था । हे पार्वति ! वह अपनी ही रक्षा करने में व्यस्त होता हुआ बहुत ही बड़ से नष्ट-सा हो गया था । इधर-उधर 'दौड़ लगाते हुए उस पिशाच को देखकर उस शाकटायन ब्राह्मण ने उससे कहा था— ॥११॥ हे पिशाच ! तू बहुत ही डरा हुआ-सा और अधिक शीघ्रता से दौललाई दे रहा है । तू इस समय में कहीं को जाने के लिए दौड़ लगा रहा है और तुझे किस का भय व्याप्त हो रहा है ? ॥१२॥ पिशाच ने कहा—इस शकट की महती भयानक ध्वनि सुनकर मैं कानों से बहिरा हो गया हूँ और आपकी देखकर मैं मूर्च्छित भ्रयात् अचेतन-सा हो गया हूँ ॥१३॥ ब्राह्मण ने कहा—पिशाची में सबसे अधिक बलशाली ब्रह्म राक्षस सुने जाया करते हैं । वही तू अब मुझे खाने की इच्छा वाला है और तू ब्रह्म राक्षस परम विख्यात है ॥१४॥

पिशाचानां समर्थोऽस्मि नष्टोऽहं तव दर्शनात् ।

दुःखं हि मृत्युः सर्वेषां जीवितं च सुदुर्लभम् ।

अतो भीतः पलायामि जीवहेतोः सुखार्थतः ॥१५॥

कुतः पिशाचसौख्यतेमरणं श्रेय एव ते ।

पेशार्ची कुत्सितायोनिःप्रापनामेवजायते ॥१६॥

सर्वं हि गतो जीवो भवत्येव सुखाश्रयः ।

तस्माज्जीवितुमिच्छामि प्रसीद ब्रह्मराक्षस ॥१७॥

नाहं त्वां भोक्तुकामोऽस्मि ब्राह्मणोऽहं न राक्षसः ।

सर्वं भूतहितार्थाय विचरामि महीतले ॥१८

सर्वपामेव जन्तूनां मंत्रो ब्राह्मण उच्यते ।

माकुर्वन्भयं मत्तो मित्रभावगतो ह्यहम् ॥१९

तस्य तद्वचनं श्रुत्वापिशाचः स्वरथमानसः ।

प्रणम्यप्रत्युवाचेद् ब्राह्मणं शाकटायनम् ॥२०

यदि ते सर्वं भूतानां दत्ता ह्यभयदक्षिणा ।

कर्मणा मनसावाचा मित्रभावं गतो यदि ॥२१

उस पिशाच ने कहा था—हे ब्राह्मण । निस्तन्देह मैं समस्त पिशाचों में महान् बलवान् हूँ एवं परम समय भी हूँ किन्तु तुम्हारे दर्शन से तो मैं नष्ट-ता हो गया हूँ—मेरी सारी शक्ति खीण हो गई है । यह भीत तो दुःखदायिनी हुआ करती है और यह शोचन घट्यन्त दुर्लभ हुआ करता है । इसलिये मैं सुखपूर्वक जीवन रखने के लिए इन जीवन के ही कारण भयभीत होकर दौड़ रहा हूँ ॥१९॥ ब्राह्मण ने कहा—हे पिशाच ! तुमको इस जीवन जीने में सुख कहाँ है ? तेरा तो मरना ही बल्याण करने वाला है । तुझे जा यह पिशाच बन जाने की योनि प्राप्त हुई है । यह तो बहुत ही सुरी है और महापापियों को ही यह मिला करती है । पिशाच ने कहा—कही भी रहे सर्वत्र ही यह जीवात्मा सुख के ही आश्रय वाला हुआ करता है । इसलिये मैं जीवन रहना चाहता हूँ हे ब्रह्म राक्षस ! आप मुझ पर प्रणम होकर कृपा कीजिए ॥१६-१७॥ ब्राह्मण ने कहा—मैं ब्रह्म राक्षस नहीं हूँ । मैं तो ब्राह्मण हूँ । मैं तुम्हें छाना भी नहीं चाहता हूँ । मैं इन भ्रमण्डल में गमन प्राणियों के हिन करने के लिये ही विचरण किया करता हूँ ॥१८॥ देखो, यह ब्राह्मण वणं ऐसा होता है कि यह सभी प्राणियों का हिन करने वाला और गवका मित्र बहू आया करता है । मुझसे हे पिशाच ! तुम किसी भी प्रकार का भय मन करो मैं तो तुम्हारे साग मित्र भाव को ही प्राप्त हो गया हूँ ॥१९॥ उसके उभयपक्ष का धरण कर पिशाच स्वस्थ मन वाला हो गया । उस पिशाच ने शाकटायन विप्र को प्रणाम करते यह वचन बोला

था ॥२०॥ यदि आपने समस्त प्राणियों को धर्म्य प्रदान करने की दक्षिणा दे दी है और यदि आप मन—कर्म तथा वचन से मित्र भाव को प्राप्त हो गये हैं अर्थात् पूर्णतया आप भेरा हित ही चाहते हैं ॥२१॥

पृच्छामि त्वां महाभाग संशयो हृदये स्थितः ।

श्रुत्वाऽनुकम्पया सम्यक्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि ॥२२

केन कर्मं त्रिपाकेन पंशाचं याति मानवः ।

पिशाचत्वात्कथं मुक्तिः प्राप्यते पापकर्मभिः ॥२३

इति तस्य वचनः श्रुत्वा पिशाचस्य वरानने ।

ममत्वेनावुत्तस्तस्मै प्रावोचच्छाकटायनः ॥२४

अपहृत्य च विप्रस्वं देवस्वं च विशेषतः ।

तेन पापेन पापिष्ठाः पिशाचत्वं प्रयान्ति च ॥२५

पितरं मातरं चैव स्त्रियं बालं द्विजं तथा ।

वञ्चयित्वा हरत्यर्थं स पिशाचो भवेन्नरः ॥२६

राजद्रव्यं गृहीत्वा तु न यजेन्नददाति यः ।

आत्मानमेव पुष्पातिपिशाचत्वं संगच्छति ॥२७

विद्वांसघातका ये च परदाररताश्च ये ।

प्राप्नुवन्ति पिशाचत्वं तथा ये वेदनिन्दकाः ॥२८

हे महाभाग ! मेरे हृदय में एक बड़ा भारी संशय उत्पन्न हो गया है । उसके विषय में मैं आपसे पूछ रहा हूँ । आप उसे सुनकर कृपया अच्छी तरह से व्याख्या करके समझाने के योग्य हैं ॥२२॥ यह मनुष्य किस कर्म के त्रिपाक से इस पिशाच की योनि को प्राप्त किया करता है ? और यह भी बतलाइये कि वे कौन से कर्म हुआ करते हैं जिनके करने से इन पिशाचता प्राप्त कराने वाले पापपूर्ण कर्मों से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त किया करते हैं ? ॥२३॥ हे वरानने ! उस पिशाच के उस वचन को सुनकर ममता से मर कर शाकटायन अपने कहने लगा ॥२४॥ ब्राह्मण का घन और विशेष रूप से देवोत्तर सम्पत्ति वा अपहृत्य करके ही उस महापाप से पापिष्ठ लोग पिशाच की योनि प्राप्त किया करते हैं ॥२५॥

माता-पिता, स्त्री, बालक और द्विज को प्रतारित करके जो इनके धन का हरण करता है वह मनुष्य भी पिशाच हो जाता है ॥२६॥ जो राजा का द्रव्य ग्रहण कर न तो उससे यजन करता है और न दान ही देता है उससे केवल अपना ही पोषण किया करता है वह भी पिशाचत्व को प्राप्त हो जाया करता है ॥२७॥ जो विश्वास के घात करने वाले होते हैं और पराई स्त्रियों से रति रक्खा करते हैं तथा जो वेदों को निग्दा करने वाले हैं वे भी पिशाच-योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं ॥२८॥

निन्दन्ति ये पुराणानि धमशास्त्राणि सवदा ।

ते भवन्ति पिशाचाश्च ये सदा पिशुना नराः ॥२९

इति ते कथितं सर्वं वेदप्रामाण्यतोऽधुना ।

इदानीं कथयिष्यामि यस्त्वं जातोऽग्निं तच्छृणु ॥३०

सोमकोनाम शूद्रस्त्वं परमर्मप्रकाशकः ।

विश्वासघातको जातो देवब्राह्मणद्रूपकः ॥३१

नास्तिको भिन्नमर्यादो जन्मन्यथापि सप्तमे ।

सकुलं पातयित्वाश्च नरकेदारुणेभृवाम् ॥३२

पिशाचयोनिं सम्प्राप्तः पुनः प्राप्स्यसिरीरवम् ।

महारौरवसञ्ज्ञं तुक्त्वं कालसूत्रकम् ।

यन्त्रपीडनकं रौद्रं मथनं कुम्भवालुकम् ॥३३

इत्येवं वदतस्तस्य ब्राह्मणस्य यशस्विनि ।

सस्मार प्राक्तनं जन्म सत्सङ्गात्कुत्सितं स्वकम् ॥३४

दुःखाभिभूतो निश्चेष्टो घिग्घिस्यमकृद्ब्रुवन् ।

पतितो भूतले देवि इदं वाक्यमथाब्रवीत् ॥३५

जो पुरुष सदा पुराणों की और भ्रमं शास्त्रों की बुराई किया करते हैं और जो भ्रमलखोर होते हैं वे मनुष्य पिशाच हो जाते हैं ॥२९॥ यह सब इस समय मैंने वेदों के प्रमाण के आधार पर ही बतला दिया है और अब मैं वह बात बतलाता हूँ जिसके कारण से तुम पिशाच हो गये हो इसे सुन लो ॥३०॥ तुम सोमक नामधारी शूद्र थे और हमेशा दूसरों के मर्म (रहस्य) को प्रकट करने वाला था । तुम विश्वास का घात करने

वाले तथा देवों और ब्राह्मणों की बुराई किया करते थे ॥३१॥ परम नास्तिरु—मर्यादा को तोड़ देने वाला इस सातवें जन्म में भी बराबर रहा था । तुमने अपने आपके सम्पूर्ण कुल को अत्यन्त दारुण नरक में डालकर इस पिशाच की योनि को प्राप्त किया है । फिर भी तुम अभी आगे रौरव—महारौरव—क्रकच—काल सूत्रक—यन्त्र पीटिनक—रोद्र—मघन—कुम्भ बालुक आदि महा घोर नरकों को प्राप्त करोगे । हे यशस्विनि ! वह ब्राह्मण इस प्रकार से कह ही रहा था कि उस पिशाच ने अपने पूर्व जन्म का इस विप्र के सरसङ्ग से स्मरण कर लिया था जो कि बहुत ही बुरा था ॥३२-३४॥ मुझे धिक्कार है—मैं धिक्कार का पात्र ही हूँ—ऐसा बारम्बार कहना हुआ वह पिशाच अत्यन्त दुःखित होकर वेहोश हो हे देवि ! भूलत मैं गिरकर यह वाक्य बोला—॥३५॥

अहोकेनापि पुण्येन भयता सह दर्शनम् ।

जातं ममाल्पपुण्यस्य दोनस्यकृपणस्य च ॥३६

नास्ति धर्मसमं मित्रं नास्ति धनसमागतिः ।

नास्तिधर्मसमं त्राणं स च नास्ति मम प्रभो ॥३७

मग्नोऽहं दु खजलघो मग्नोऽहं पापकर्मिणे ।

भ्रान्तोऽहमन्धतमं सिततस्त्वाशरणं गतः ॥३८

नमस्तेऽस्तु महाभाग किं करोमि प्रशाधि माम् ।

तत्तपोनलनिदिष्टमिदं प्रप्तं मयाऽधुना ॥३९

एवं निगदतस्तस्य पिशाचस्य वरानने ।

कथयामास माहात्म्य सविप्र.शाकटायनः ॥४०

पृथिव्यायानितीर्यानि आसुमुदगतानिर्व ।

क्षेत्राणियानिसन्तीहतेपाक्षेत्रं मुपुण्यदम् ॥४१

महाकालवनं क्षेत्रं प्रलयेऽप्यक्षयं गतम् ।

लिङ्गं तत्र महाक्षेत्रे पिशाचत्वविनाशनम् ॥४२

दुण्ढेश्वरस्य क्षेत्रस्यदक्षिणोत्तिदशाक्षितम् ।

पिशाचं विद्यतेभूयः पिशाचयोनिनाशनम् ।

तस्य दर्शनमात्रेण पिशाचत्वात्प्रमोक्षयसे ॥४३

प्रो हो ! मेरा न मालूम कौन-सा कोई ऐसा पुण्य का उदय हुआ है जिससे आपका यह दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है अन्यथा मैं तो महापापो दीन पीर कृपण हूँ ॥३६॥ धर्म के समान धन्य कोई मित्र नहीं है और धर्म के तुल्य कोई दूमरी गति ही है । यह धर्म ही परम रक्षक है । इसके अतिरिक्त रक्षा करने वाला अन्य कुछ भी नहीं है । हे प्रभो ! वह धर्म ही मेरा लेश मात्र भी नहीं है ॥३७॥ मैं तो दुःखों के प्रपार सागर में भग्न हो गया हूँ और पापों के दलदल में गड़ा हुआ हूँ । मैं इस परम घोर भ्रन्धकार में भ्रम रहा हूँ इसलिए अब मैं आपकी शरण में प्राप्त हो गया हूँ ॥३८॥ हे महाभाग ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । मुझे आप प्रसादित कीजिये कि मैं क्या कहूँ । आपके इन तपस्या के बल से निर्देश किया हुआ मैंने अब यह प्राप्त कर लिया है ॥३९॥ हे वरानने ! इस प्रकार से उस पिशाच के कहने पर उस विप्र शाकटासन ने माहात्म्य कहा था ॥४०॥ इस भूमण्डल में समुद्र पर्यन्त जो भी तीर्थ हैं और जितने भी यहाँ पर धर्म के क्षेत्र हैं उन सबका संपुण्य प्रदान करने वाला क्षेत्र एक ही है ॥४१॥ वह महाकाल वन नामक क्षेत्र है जो प्रलय काल में भी जब कि सभी कुछ नष्ट हो जाता करते हैं अक्षय बना रहा करता है । उस महाक्षेत्र में शिव निवस है जो कि इस पिशाच की योनि का विनाश कर देने वाले हैं ॥४२॥ दुष्केश्वर देव के दक्षिण भाग में देवों के द्वारा समचित पिशाच लिए हैं जो पिशाच की योनि का नाश कर देने वाला है । उसके दर्शन करने का ही ऐसा अद्भुत प्रभाव होता है कि इससे ही मनुष्य पिशाच योनि से प्रयुक्त हो जाया करता है ॥४३॥

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स पिशाचो वरानने ! ।

आजगामत्वरायुक्तो नमस्कृत्यद्विजतदा ॥४४

महाकालवने पुण्ये समोहितफलप्रदे ।

ददर्श तत्र तल्लिङ्गं स्नात्वा शिप्राजले शुभे ॥४५

दर्शनात्तस्य लिङ्गस्यसपिशाचो वरानने ॥

तत्क्षणाद्विव्यदहस्तु दिव्याभरणभूषितः ॥४६

दिव्यं विमानमारूढो गतो लोके सनातने ।
 उद्घृत्यसकलं गोत्रं मातृकं पितृकं तथा ॥४७
 दृष्ट्वा तन्महदाश्चर्यं माहात्म्यातिशयं प्रिये ! ।
 प्रोक्तं देवं विमानस्थैः सिद्धैराकाशगस्तथा ॥४८
 पिशाचोऽपि गतः स्वर्गं मस्य लिंगस्य दर्शनात् ।
 भतो देवः स विख्यातो भविष्यति महीतले ॥
 पिशाचेश्वरसञ्ज्ञस्तु सर्वपापप्रणाशनः ॥४९

हे वरानने ! उस ब्राह्मण के इस वचन का ध्यान करके वह पिशाच उस ब्राह्मण शाब्टायन का प्रणाम करके उसी समय में बड़ी ही शीघ्रता से युक्त होकर वहाँ पर समागत हो गया था ॥४४॥ अभीष्ट फल के प्रदान करने वाले परम पुण्यमय उस महाकाल वन में पहुँचकर उसने शिप्रा के शुभ जल में स्नान किया और फिर उस लिंग का दर्शन किया था ॥४५॥ हे वरानने ! वह पिशाच उस लिंग के दर्शन से उसी क्षण में दिव्य देह धारण करके परम दिव्य आभरणों से विभूषित हो गया था और फिर परम दिव्य विमान में समाारूढ़ होकर सनातन लोक को चला गया था और फिर उसने इसी के प्रभाव से अपने पितृकुल तथा मातृकुल के पितरों का भी उद्धार कर दिया था ॥४६-४७॥ हे प्रिये ! उस महाद् आश्चर्य से भरे हुए इस माहात्म्य के प्रतिशय को देख कर देवगण भी जो विमानों में रक्षित थे और आकाशगामी सिद्ध गण भी रहने लगे थे—घो ही ! क्या अद्भुत माहात्म्य है कि इस लिंग के केवल दर्शन से यह महाद् पापात्मा परम निकृष्ट पिशाच भी स्वर्ग में चला गया है । इसी लिये वह देव इस महीतल में पिशाचेश्वर संज्ञा वाला विख्यात हो जायगा क्योंकि यह तो पिशाचों के भी समस्त पापों का नाश करने वाला है ॥४८-४९॥

येष्वन्तिनरादेवि ! पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ।
 तेषांहिपितरः सद्योयेवापिनिरमेस्थिताः ।
 पिशाचत्वाद्भिनुच्यन्ते स्वर्गं यान्ति न संशयः ॥५०

अश्वमेधस्य यज्ञस्य तन्म्यगिष्टस्य यत्फलम् ।
 तत्फलं लभते सोऽपि पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५१
 गयायां पिण्डदानेनयत्पुण्यं समुदाहृतम् ।
 तत्पुण्यमधिकं ज्ञेयं पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५२
 ये पश्यन्ति चतुर्दश्यां पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ।
 प्रेतत्वं चपिशाचत्वं कुलेतेषांन जायते ॥५३
 न वियोजितं नरो याति नरकं चनपश्यति ।
 प्रमङ्गो नापि यः पश्येत्पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ॥५४
 सर्वदेवयंसमायुक्तः सर्वबन्धुसमन्वितः ।
 मोदतेपितृलोके स पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५५
 कीर्त्तनान्मूच्यते पापाद् हृष्टो स्वर्गं च गच्छति ।
 स्पर्शं नादस्तं लिङ्गस्य पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥५६
 तदेव स नरो मुक्तः संपारनिगडादिभिः ।
 पदेव वीक्षतेलिङ्गं पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ॥५७
 यज्ञानां तपसां चैव दानानां चैव यत्फलम् ।
 तत्फलं कीटिगुणितं जायतेतस्यदर्शनात् ॥५८
 यदि पश्येच्चतुर्दश्या वंशाखे फालिकेतया ।
 तस्यपुण्यमसंख्यातं जायतेनाश्रयसंशय ॥५९
 एषते कथितो देवि ! प्रभावः पापनाशनः ।
 पिशाचेश्वरदेवस्य श्रूयतां सङ्गमेश्वरम् ॥६०

हे देवि ! जो मनुष्य इस पिशाचेश्वर नामक लिङ्ग का दर्शन किया
 करते हैं उनके समस्त पितर जो भी नरको में यान्नाएँ भोग रहे हैं बुरा
 ही पिशाचता से मुक्त होकर स्वर्ग को गमन किया करते हैं—इससे कुछ
 भी मरना नहीं है ॥५०॥ मली आति यज्ञन किये हुए अवश्येय यज्ञ का
 का फल होना है उगो पुण्य-फल को मनुष्य भगवान् पिशाचेश्वर के दर्शन
 से प्राप्त कर लेना है ॥५१॥ गया में पिण्डों के दान से जो पुण्य बड़ा
 गया है उससे भी अधिक पुण्य पिशाचेश्वर के दर्शन से होता है ॥५२॥
 चतुर्दशी में जो पिशाचेश्वर का दर्शन करते हैं उनके पुत्र में प्रेतत्व

दिव्यं विमानमारूढो गतो लोके सनातने ।
 उद्दृत्यसकलं मोघं मातृकं पैतृकं तथा ॥४७
 दृष्ट्वा तन्महेश्वर्यमाहात्म्यातिशयं प्रिये ! ।
 प्रोक्तं देवविमानस्थैः सिद्धै राकाशगंस्तथा ॥४८
 पिशाचोऽपि गतः स्वर्गं मस्य लिंगस्य दर्शनात् ।
 सतो देवः स विख्यातो भविष्यति महीतले ॥
 पिशाचेश्वरसञ्ज्ञस्तु सर्वपापप्रणाशनः ॥४९

हे बरानने ! उस ब्राह्मण के इन वचन का श्रवण करके वह पिशाच उस ब्राह्मण शाकटायन का प्रणाम करके उसी समय में बड़ी ही शीघ्रता से युक्त होकर वहाँ पर समागत हो गया था ॥४४॥ अभीष्ट फल के प्रदान करने वाले परम पुण्यमय उस महाकाल वन में पहुँचकर उसने शिप्रा के शुभ जल में स्नान किया और फिर उस लिंग का दर्शन किया था ॥४५॥ हे बरानने ! वह पिशाच उस लिंग के दर्शन से उसी रात में दिव्य देह धारण करके परम दिव्य आभरणों से विभूषित हो गया था और फिर परम दिव्य विमान में समारूढ़ होकर सनातन लोक की चला गया था और फिर उसने इसी के प्रभाव से अपने पितृकुल तथा मातृकुल के पितरों का भी उद्धार कर दिया था ॥४६-४७॥ हे प्रिये ! उस महान् आश्चर्य से भरे हुए इस माहात्म्य के अतिशय को देण कर देवगण भी जो विमानों में रास्थित थे और आकाशगामी सिद्ध गण भी बहने लगे थे—ओ ही ! क्या अद्भुत माहात्म्य है कि इस लिंग के केवल दर्शन से वह महान् पापात्मा परम निरृष्ट पिशाच भी स्वर्ग में चला गया है । इसी लिये वह देव इस महोत्तल में पिशाचेश्वर संज्ञा वाता विख्यात ही जायगा क्योंकि यह ही पिशाचों के भी गमस्तु पापों का नाश करने वाला है ॥४८-४९॥

येन स्वन्ति नरादेवि ! पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ।
 तेषां हि पितरः सद्यो घेचापि निरये स्थिताः ।
 पिशाचस्थाद्भिर्बुध्यन्ते स्वर्गं यान्ति न संशयः ॥५०

अश्वमेधस्य यज्ञस्य सम्यगिष्टस्य यत्फलम् ।
 तत्फलं लभते सोऽपि पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५१
 गयाया पिण्डदानेनयत्पुण्यं समुदाहृतम् ।
 तत्पुण्यमधिकं ज्ञेयं पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५२
 ये पश्यन्ति चतुर्दश्या पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ।
 प्रेतत्वं चपिशाचत्वं कुलेतेपानजायते ॥५३
 न वियोनिं नरो याति नरकं चनपश्यति ।
 प्रसङ्गेनापिय पश्येत्पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ॥५४
 सर्वैश्वर्यंसमायुक्तं सर्वबन्धुसमन्वितः ।
 मोदतेपितृलोके स पिशाचेश्वरदर्शनात् ॥५५
 कीर्त्तनान्मुच्यते पापाद् दृष्ट्वा स्वर्गं च गच्छति ।
 स्पर्शनादस्त लिनस्य पुनात्यासप्तमं कुलम् ॥५६
 तदेव स नरो मुक्त सपारनिगडाविभि ।
 यदेव वीक्षतेलिङ्गं पिशाचेश्वरसञ्ज्ञकम् ॥५७
 यज्ञाना तपसा चैव दानाना चैवयत्फलम् ।
 तत्फलंकोटिगुणितं जायतेतस्यदर्शनात् ॥५८
 यदि पश्येच्चतुर्दश्या वैशाखे कार्तिकेतया ।
 तस्यपुण्यमसंख्यातंजायतेनाश्रसशय ॥५९
 एपते कथिनो देवि ! प्रभाव. पापनाशनः ।
 पिशाचेश्वरदेवस्य श्रूयता सङ्गमेश्वरम् ॥६०

हे देवि । जो मनुष्य इस पिशाचेश्वर नामक लिंग का दर्शन किया
 करते हैं उनके समस्त पितर जो भी नरको में यागनाएँ भोग रहे हैं सुरन्त
 ही पिशाचना से मुक्त होकर स्वर्ग को गमन किया करते हैं—इसमें कुछ
 भी सशय नहीं है ॥५०॥ भली भाँति यजन किये हुए अश्वमेध यज्ञ का
 जो फल होता है उसी पुण्य-फल को मनुष्य भगवान् पिशाचेश्वर के दर्शन
 से प्राप्त कर लेता है ॥५१॥ गया में पिण्डों के दान से जो पुण्य चलाया
 गया है उससे भी अधिक पुण्य पिशाचेश्वर के दर्शन से होता है ॥५२॥
 चतुर्दशी में जो पिशाचेश्वर का दर्शन करते हैं उनके कुल में प्रेतत्व घोर

पिशाचता कभी नहीं होती है । ॥५३॥ वह विद्योनि और नरक में नहीं जाता है । जो अन्य प्रसङ्ग से भी पिशाचेश्वर का दर्शन कर लेना है वह सब ऐश्वर्य और बान्धवों से मुक्त हो जाता है तथा पितृ लोक में भी परम प्रसन्न रहता है । कीर्त्तन से ही पापमुक्त हो जाता है । दर्शन से स्वर्ग मिलता करता है । लिंग के स्पर्श से सात कुलो को पवित्र कर देता है । ज्योही दर्शन करता है वैसे ही ससार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । यज्ञ—तप—दानों का जो फल है उनसे करोड़ गुना फल दर्शन से होता है । वैशाख—कार्तिक में चतुर्दशी के दर्शन से जो पुण्य होता है वह असह्य है—इसमें संशय नहीं है । हे देवि ! यह पापों का नाशक प्रभाव कह दिया है ॥५४-६७॥

१०६—अग्नितीर्थ, सर्पतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेत्तु राजेन्द्र ! अग्नितीर्थं मनुत्तमम् ।
 तत्र स्नात्वा तु पक्षादौ मुच्यते सर्वकिल्बिषैः ॥१॥
 तत्र तीर्थं तु यः कन्या दद्यात्स्वयमलङ्कृताम् ।
 तस्य यत्फलमुद्दिष्टं तच्छृणुष्य नरोत्तम ॥२॥
 अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां शतं शतगुणीकृतम् ।
 प्राप्नोति पुरुषो दत्त्वा यथाशक्त्या ह्यलङ्कृताम् ॥३॥
 तस्याः पुत्रत्रयपौत्राणां वा भवेद्रोमसङ्गतिः ।
 स याति तेन मानेन शिवलोके परां गतिम् ॥४॥

श्रीमार्कण्डेय मुनि ने कहा—हे राजेन्द्र ! इसके पश्चात् सर्वोत्तम अग्नि तीर्थ को गमन करना चाहिए पक्ष के आदि में वहाँ पर स्नान करके मनुष्य समस्त किल्बिषों से मुक्त होकर विशुद्ध हो जाया करता है ॥१॥ जो कोई मनुष्य उस तीर्थ में स्वयं समलङ्कृत करके किसी कन्या का दान दिया करता है उसका जो पुण्य—फल बताया गया है वह हे नरोत्तम ! मुझसे श्रेष्ठ कीजिए । अग्निस्तोम और अतिरात्र इन दोनों के पुण्य से सौ—सौ गुना पुण्य फल अलङ्कारों से यथाशक्ति विभूषित कन्या का दान करके पुरुष प्राप्त किया करता है ॥२-३॥ उस कन्या से पुत्र और पुपुत्रों

के जितने भी शरीर को रोमावलि होती है उन्ही के नाम से वह पुरुष शिव लोक में परागति को प्राप्त करता है ॥४॥

ततो गच्छेन्महाराज सर्प तीर्थ मनुत्तमम् ।

यत्र सिद्धा महासर्पस्तपस्तप्त्वा युधिष्ठिर ! ॥५॥

वासुकिस्तक्षकोघोरः सर्प ऐरावतस्तथा ।

कालियश्चमहाभागः कर्कोटकधनञ्जयो ॥६॥

शङ्खचूडो महातेजा घृतराष्ट्रो वृकोदरः ।

कुलिको वामनश्चैवतेपा ये पुत्रपौत्रिणः ॥७॥

तत्र तीर्थं महापुण्ये तपस्तप्त्वा सुदुष्करम् ।

भुञ्जन्ति विविधान्भोगान्कीडन्ति च यथासुखम् ॥८॥

तत्र तीर्थं तु यः स्नात्वा तर्पयेत्पितृदेवताः ।

वाजपेयफलं तस्य पुरा प्रोवाच शङ्कर ॥९॥

स्नातानां सर्प तीर्थं तु नराणां भुवि भारत ।

सर्ववृश्चिकजातिभ्यो न भयविद्यते क्वचित् ॥१०॥

श्री मार्कण्डेय महर्षि ने कहा—हे महाराज ! इसके अनन्तर सर्वोत्तम सर्प तीर्थ में गमन करे । हे युधिष्ठिर ! जहाँ पर महा सर्पों ने तपश्चर्चा करके सिद्धि प्राप्ति की है । उन महा सर्पों के नाम बतनाये जाते हैं—
वासुकि—तक्षक—परम घोर सर्प ऐरावत—महाभाग कालिय—कर्कोटक—धनञ्जय—शंखचूड़—महान् तेज वाला घृतराष्ट्र—वृकोदर—कुलिका और वामन ये महा सर्प कहे जाते हैं । इनके जो भी पुत्र पौत्र पौत्र ये वे भी सब है । उक्त महा पुण्यमय तीर्थ में य परम दुष्कर तपस्या करके नाना प्रकार के भोगों का उपभोग किया करते हैं और सुख पूर्वक क्रीड़ा करते हैं ॥५-८॥ उक्त तीर्थ में जो कोई भी मनुष्य स्नान करके अपने पितृगण और देवों का तर्पण किया करता है भगवान् शंकर ने पहिले ही कहा था कि उस पुरुष को वाजपेय यज्ञ करने का फल होता है ॥९॥ हे भारत ! इस भूलोक में इस सर्प तीर्थ में स्नान किये हुए पुरुषों को सर्प तथा वृश्चिक (विच्छू) जातियों से कहीं भी कभी कोई भय नहीं होता है ॥१०॥

मृतो भोगवती गत्वा पूज्यमानो महोरगं ।
 नागकन्यापरिवृतो महाभोगपतिर्भवेत् ॥११
 मार्गशीर्षस्य मासस्य वृष्णपक्षे च याऽष्टमी ।
 सोपवासः शुचिभूत्वा लिङ्गं सम्पूरयत्तिलैः ॥
 यथाविभवसारणं गन्धपुष्पैः समर्चयेत् ॥१२
 एवं विधाय विधिवत्प्रणिपत्यक्षमापयेत् ।
 तस्य यत्फलमुद्दिष्टं तच्छृणुष्वनरेश्वर ॥१३
 तिलास्तत्र च यत्सख्याः पत्रपुष्पफलानि च ।
 तावत्स्वर्गपुरे राजन्मोदते कालमीप्सितम् ॥१४
 ततः स्वर्गात्परिभ्रष्टो जायते विमले कुले ।
 सुरूप. सुभगश्चैव घनकोटिपतिर्भवेत् ॥१५

वह मनुष्य मृत्युगत होकर भोगवती पुरी पहुँच जाता है और वहाँ पर महान् उरगों के द्वारा पूज्यमान हो जाता है । उसको नाग कन्याएँ चारों ओर से घेरे रहा करती हैं और अन्त में वह महाभोग पति हो जाया करता है ॥११॥ मार्गशीर्ष मास के वृष्णपक्ष में जा अष्टमी तिथि है उसमें उपवास के साथ पवित्र होकर लिंग को तिलों से पूरित कर देवे और अपने विभव की शक्ति के अनुसार गन्ध पुष्पादि उपचारों के द्वारा लिंग का सम्यक् चर्चन करना चाहिए । इस प्रकार से विधि—विधान के साथ करके प्रणाम करे और अपराध—क्षमापन कराना चाहिए । हे नरेश्वर ! उसका जो भी पुण्य—फल होता है उसको मुझे । जितनी सख्या में वहाँ पर जो तिल होते हैं तथा जो सख्या पत्र पुष्प और फलों की होती है हे राजन् ! उन्हीं ही वर्षों तक वह पूजा करने वाला भक्ति ईप्सित काल पर्यन्त स्वर्ग में आनन्द प्राप्त किया करता है । फिर उम लम्बी स्वर्ग निवास करने की अवधि समाप्त हो जाने पर वहाँ से अष्ट होकर यहाँ इस भूमण्डल में किमो विमल कुल में जन्म ग्रहण किया करता है । इह परम सुभग और सुन्दर सुख्य वाला होते हुए धन का भी बगैर पति हुआ करता है ॥१२-१५॥

१०७—श्रीकपालतीर्थमाहात्म्यवर्णन

चतुर्थं संप्रवक्ष्यामि देवरय चरितं महत् ।
 श्रुतमात्रेण येनैवसर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१
 कपालो कान्तिको भूत्वा यथा स घ्यचरन्महीम् ।
 पिशाचे राक्षसैर्भूतैर्डाकिनोयोगिनीवृतः ॥२
 भैरवरूपमास्थाय प्रेतासनपरिग्रहः ।
 त्रैलोक्यस्याऽभयं दत्त्वाचचार विपुलं तपः ॥३
 आपादितुं कृतातत्रह्यापादं नामविश्रुतम् ।
 कन्यामुक्त्वा ततोऽन्यत्रदेवेकपरमेष्ठिना ॥४
 तदाप्रभृतिराजेन्द्र स कन्येश्वर उच्यते ।
 तस्य दर्शनमात्रेण ह्यश्वमेधफलं लभेत् ॥५
 देवो मार्गं पुनस्तत्र भ्रमते चयदृच्छया ।
 विक्रीणातिबलाकारो दृष्ट्वाचोक्तोहरेणतु ॥६
 यदि भद्रं चेतोर्षं करोपिमयिसाम्प्रतम् ।
 बलाभिर्भरमेलिगं ददामिवहुने धनम् ॥७

श्रीमार्कण्डेयजी ने कहा—अब से देवेश्वर प्रभु का चौथा महान् चरित
 कहता हूँ जिसके वेष व श्रवण कर लेने ही से मनुष्य सभी प्रकार के पापों
 से प्रमुक्त हो जाया करता है । अर्थात् शम्भु कपाली घोर कन्या धारण
 करने वाले होकर शम्भूणं महीमण्डल पर बिचरण किया करते थे और
 उनके साथ पिशाच-राक्षस-भूत डाकिनी घोर योगिनियाँ रहा करती थी
 ॥१-२॥ परम भैरव स्वरूप धारण करके त्रैलोक्य को अभय का दान
 देकर प्रेतासन पर स्थित होकर परम दुश्चर तपस्या को थी । वहाँ पर
 उन्होंने आपादी की थी अतएव आपादी यह नाम विश्रुत हो गया था ।
 इसके अनन्तर परमेष्ठी देव ने अन्यत्र कन्या मुक्त करदी थी । हे राजेन्द्र !
 तभी से वह कान्येश्वर कहे जाते हैं । उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य
 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त किया करता है । फिर देव मार्ग में वहाँ
 पर गृहस्था से भ्रमण करते थे । एक बलाकार विक्रय किया करता था ।

भगवान् हर ने उसे देखकर उससे कहा—हे भद्र यदि आपको कोई क्रोध न हो तो और मुझ पर भाप नाराज नहीं होवे तो आप बलाओं से मेरे लिंग को भर दीजिए । मैं आपको बहुत अधिक धन दूँगा ॥३-७॥

एवमुक्तोऽथ देवेन स वणिःश्लोभमोहितः ।

योजयामास बलका लिंगे चोत्तममध्यमान् ॥३

तावद्यावत्क्षयं सर्वं गताः काले सुसञ्चिताः ।

स्थितं समुन्नतं लिंगं दृष्ट्वा शोकमुपागतम् ॥९

कृत्वा तुंखण्डंखण्डानिस देवः परमेश्वरः ।

उवाचप्रहसन्वाक्यं तं दृष्ट्वागतसाध्वसम् ॥१०

नचमे पूरितं लिंगं यास्यामियदिमन्य से ।

ददामि तत्रविसंतेयद्रि लिंगं प्रपूरितम् ॥११

अधन्योऽकृतपुन्योऽहं निग्राह्यः परमेश्वर ।

तवप्रियमकुर्वाणः चोष्णिसाश्वती समाः ॥१२

एतच्छ्रुत्वावचस्तस्यवणिवपुत्रस्य भारत ।

असक्षयं धनं दत्त्वास्थितस्तत्रमहेश्वर ॥१३

तदा प्रभृति राजेन्द्र । बलाकैरिव भूपितम् ।

प्रत्ययामि स्थितं लिंगं लोकानुग्रहकाम्यया ॥१४

जब इस तरह से शम्भु के द्वारा उस बलिके से कहा गया तो वह वणिग लोभ से मोहित होकर उत्तम—मध्यम बलिकाओं को उनके लिंग पर योजित करने लग गया था । वह तब तक उन्हें योजित करता ही चला गया जब तक सुसंचित वे सब क्षय को प्राप्त हो गई थीं अर्थात् सब समाप्त हो गई थी जो उसने एकत्रित कर रखी थी किन्तु उस लिंग को पूरित नहीं हुई थी क्योंकि वह तो वैसा ही समुन्नत होकर स्थित हो रहा था—यह देखकर वह वणिग बड़े भारी शोक को प्राप्त हो गया था । वह परमेश्वर देव खण्ड-खण्ड करके हैंसते हुए बोले और उसको भयगर्ज देसकर उससे कहा—मेरे लिंग को पूरित नहीं किया गया है यदि ऐसा तुम मानते हो तो मैं अब चला जाऊँगा । यदि मेरा लिंग प्रपूरित हो गया होता तो मैं वही पर तुम्हें धन दे देता । उस वणिग ने कहा—हे

परमेश्वर ! मैं बहुत ही अथय और विना पुण्य वाला हूँ और निग्रह करने के योग्य हूँ । आपका प्रिय न करता हुआ मैं बहुत वर्षों तक चिन्ता करूँगा । हे भाग्य ! इस भवन को सुनकर उस षण्णिक पुत्र को प्रशय धन देकर महेश्वर वही पर स्थित हो गये । हे राजेन्द्र ! तभी से मकर बलाको से भूषित की भाँति लोको पर अनुग्रह करने की कामना से विरहात कराने के लिये वह लिय स्थित हो गया था ॥८-१४॥

देवेन रचितं पायंकीडया सुप्रतिष्ठितम् ।
 देवमार्गं मिति स्यात् त्रिपुलोकेपुविश्रुतम् ।
 पश्यन्प्रपूजयन्वाऽपि सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१५
 देवमार्गं तु यो गत्वापूजयेद्बलाकेश्वरम् ।
 पञ्चायतनमासाद्यरुद्रलोकं स गच्छति ॥१६
 देवमार्गं मृतानां तु नराणां भावितात्मनाम् ।
 न भवेत्पुनरायुत्तीरुद्रलोकात्कदाचन ॥१७
 देवमार्गस्य माहात्म्यं भक्त्या श्रुत्वा नरोत्तम ! ।
 मुच्यते सर्वपापेभ्यो नाऽत्र काया विचारणा ॥१८

हे पार्थ ! देवेश्वर न कीडा से ही सुप्रतिष्ठित देवमार्ग की रचना की थी जो परम बिलयात् और तीनों लोकों में विश्रुत था । इसका दर्शन करना प्रथवा इसको पूजा करते हुए समस्त पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है । जो कोई उस देवमार्ग में जाकर भगवान् बलाकेश्वर की पूजा किया करता है वह पञ्चायतन को प्राप्त करके रुद्रलोक में गमन किया करता है । जो भाविन आत्मा वाले पुरुष उस देवमार्ग में मृत्युगत होत हैं उन नरों की उस रुद्रलोक से यहाँ फिर पुनः आवृत्त कभी भी नहीं होनी है अर्थात् फिर यहाँ आकर जन्म ग्रहण नहीं किया करते हैं । हे नरोत्तम इस देवमार्ग के माहात्म्य की भक्ति से ध्यान करने अनुप्य सभी पापों से मुक्त भवश्य ही हो जाया करता है—इसमें कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए ॥१५-१८॥

१०८—जामदग्न्यतीर्थमाहात्म्यवर्णन

ततो गच्छेद्धराधीश तीर्थं परमशोभनम् ।
 जमदग्निरिति ख्यातं यत्र सिद्धो जनार्दनः ॥१॥
 कथं सिद्धो द्विजश्रेष्ठ वासुदेवो जमदगुरुः ।
 मानुषं रूपमास्थाय लोकानां हितकाम्यया ॥२॥
 एतत्सर्वं यथान्यायं देवदेवस्य चक्रिणः ।
 चरितं श्रोतुमिच्छामि कथ्यमानं त्वयाऽनघ ॥३॥
 आसीत्पूर्वं महाराज हैहयाधिपतिर्मान् ।
 कार्तवीर्यं इति ख्याता राजा बहुसहस्रवान् ॥४॥
 हस्त्यश्वरथसम्पन्नः सर्वशस्त्रभृतां वरः ।
 वेदत्रिद्यायतस्नातः सर्वभूताभयप्रदः ॥५॥
 माहिष्मत्याः पतिः श्रीमाधवाजा ह्यक्षीहिणीपतिः ।
 स कदाचिन्मृगान्हन्तुं निजंगाम महाबलः ॥६॥
 बहुभिर्द्विदसैः प्राप्तो भृगुकच्छमनुत्तमम् ।
 जमदग्निर्गहातेजा यत्र तिष्ठति तापसः ॥७॥

श्रीमाषण्डेय रुद्रि ने कहा—हे धराधीश ! इनके उपरान्त उस
 परम शोभा से समुत्पन्न तीर्थ को गमन करे जहाँ पर जनार्दन सिद्ध
 हुए थे और जो जमदग्नि—इस नाम से विप्रुत है । युधिष्ठिर ने कहा—
 हे द्विजो मे परम श्रेष्ठ । जगत् के गुरु वासुदेव ने कैसे सिद्धि प्राप्त की थी
 और लोको पर हित को कामना से मनुष्य का स्वरूप धारण किया था
 ॥१-२॥ देवो के भी देव के इस सम्पूर्ण चरित का भगवान् धर्मधारी के
 वृत्तान्त का ग्यय पूर्वक वर्णन में धर्मश करना चाहता हूँ । हे भगव !
 आपके द्वारा यह कथ्यमान होना चाहिए अर्थात् आप ही इसे वर्णन
 कीजिए । श्रीमार्षण्डेयजी ने कहा—हे महाराज ! एक परम महान्
 हैहयाधिपति पहिले हुआ था । वह कार्तवीर्य्य—इस नाम से विख्यात था
 और वह राजा एक सहस्र बाहुओं वाला था । वह समस्त प्राणियों को
 अभय प्रदान करने वाला राजा था तथा हाथी, घोड़े और रथ प्रादि

से सुतम्बन् था एवं समस्त क्षत्र धारियों के परम श्रेष्ठ और सब विद्या तथा व्रतो मे स्तान था । यह श्रीमान् माहिष्मती पुरी का पति और अशोहिणी सेना का स्वामी था । वह एक बार किसी समय में महान् बल-धाली मृगो को मारने के लिये निकल गया था बहुत दिनों मे परम उत्तम भृगु कण्ठ में वह प्राप्त हो गया था जहाँ पर तपस्वी जमदग्नि ऋषि महान् तेज से युक्त स्थान थे ॥३-७॥

रेणुकासाहेत. श्रीमान्सर्वभूताभयप्रदः ।

तस्य पुत्रोऽभवद्राम.साक्षान्त्तारायणःप्रभुः ॥८

सर्वक्षत्रगुणयुंक्तो ब्रह्मविद्याह्यणोत्तमः ।

तोषयन्परया भक्त्या पितरोपरमाथवत् ॥९

तं तदाचाजुं न दृष्ट्वा जमदग्निः प्रतापवान् ।

चरन् मृगयां गत्वा ह्यतिथ्येन न्यमन् प्रवत् ॥१०

तथेति चोक्त्वा स नृपः सभृत्यवलवाहता ।

जगाम चाऽऽत्रम पुण्यमृपेस्तस्य महारमणः ॥११

तत्क्षणादेव सम्बन्ध श्रिया परमया वृत्तम् ।

विस्मयं परम तत्र दृष्ट्वा राजा जगामह ॥१२

गतमाप्तस्तु सिद्धं न परमान्नेन भोजितम् ।

सभृत्यवलवाहतायाः साहाय्येन यदृच्छया ।

किमेतदिति पप्रच्छ कारणं शक्तिमेव च ॥१३

कामधेनोः प्रभाय तं ज्ञात्वा प्राह ततो द्विजम् ।

दक्षिणां देहि मे शिप्र कल्पया धेनुमुत्तमाम् ॥१४

वह तपस्वी जमदग्नि प्राणियों का समस्त प्रदान करने वाले श्रीमान् रेणुका के लड़के यहाँ पर तपस्या बिना करते थे उनके पुत्र राम अर्थात् परनुराम हुए थे जो साक्षात् प्रभु नारायण ही थे । वैसे यह वृत्त कि राजा उत्तम साक्षर थे किन्तु मनुष्यों लक्षियों के दुर्गों से युक्त थे । परनुराम अपने माता-पिता के परम भाए थे और परा पाटु-चिटु-मक्ति के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से मनुष्ट करते हुए परमार्थ का ज्ञान रखने वाले थे । उन समय में वरुण प्रकृत प्रदत्त मृति ने वहाँ पर कर्त्तव्य

राजा को समागत देख कर जो कि मृगया (शिकार) करते हुए वहाँ पर उपस्थित हुए थे जमदग्नि उनके पास गये और उनका अतिथि-सत्कार करने के लिये निमन्त्रित किया था । 'तयास्तु'—अर्थात् अच्छा आपका आतिथ्य हमको स्वीकार है—यह कहकर वह राजा अपने समस्त मृत्यु-सैन्य और बाहनों के सहित उस परम पवित्र पुण्य रूप महात्मा ऋषि के आश्रम में पहुँच गये थे । उसी क्षण में सुम्पन्न और परम श्री से 'समावृत्त' उस आश्रम को देखकर वहाँ पर राजा को परमादिक विस्मय हो गया था । वहाँ पर पहुँचते ही परमोत्तम सुसिद्ध अन्न के द्वारा राजा को उसके समस्त भृत्य और सेना के सहित आहारण ने इच्छा पूर्वक यथेष्ट भोजन करा दिया था । राजा ने यह समस्त विशाल भैरव देखकर उनसे इस सब अत्यधिक पूर्ण आतिथ्य करने का कारण पूछा था और ऐसी आतिथ्य के सम्पन्न कर देने की शक्ति है—यह भी प्रश्न किया था । मुनि के कह देने पर कामधेनु के उस महान् प्रभाव को जानकर राजा ने उस द्विज से कहा—हे विप्र ! भोजन तो हमको करा दिया है अब कुछ दक्षिणा दो और वह दक्षिणा यह कल्मषों को दूर करने वाली इस उत्तम धेनु को हमको दे दो ॥८-१४॥

शतं शतसहस्राणामयुतं नियुतं परम् ।

भूपितानां च धेनूनां ददामि तवचातुंदम् ॥१५

अयुतैःप्रयुतैर्नहिं शतकोटिभिरुत्तमाम् ।

कामधेनुमिमांतात नदक्षिप्रतिगम्यताम् ॥१६

एवमुक्तं सराजेन्द्रस्तेन विप्रेणभारत ।

क्रोधसरक्तनयन इदं वचनमब्रवीत् ॥१७

यस्येदृशः कामचारी मय्यपि द्विजपातन ।

अहं ते पश्यतस्तस्मान्नयामि सुरभि गृहात् ॥१८

कः क्रीडति सरोपेण निभंघोहिमहाहिना ।

मृत्युदृष्टोऽन्तरेणाऽपिममधेनु नयेतयः ॥१९

एवमुक्त्वा महादण्डं ब्रह्मादण्डमिवाऽपरम् ।

गृहीत्वा परमक्रुद्धो जमदग्निरवाचह ॥२०

यस्याऽस्ति शक्तिस्तेजो वा क्षत्रियस्य कुलाऽधमः ।

धेनुं नयतु मे सद्यः क्षीणायुः सपरिच्छदः ॥२१

राजा ने जमदग्नि से कहा—मैं आपको शत—सहस्र—अधुत और नियुत तथा अर्बुद भूषित धेनु देता हूँ किन्तु यह कामधेनु मुझको चाहिए । जमदग्नि ने कहा—हे तात ! अधुन (दश हजार)—नियुत और सौ करोड़ भी धेनुओं के बबले में मैं इस उत्तम कामधेनु को नहीं देसकता हूँ आप यहाँ से वापिस चले जाएँ । हे भारत ! उग विप्र के द्वारा जब राजेन्द्र सहस्राजुंन इस प्रकार से कह दिया गया तब वह राजा क्रोध से रक्त नेत्रों वाला होकर मुनि से यह वचन बोला—हे द्विजपांसन ! अर्थात् द्विजों में महान् नीच ! जिस तेरा मेरे प्रति भी ऐसा काम चार अर्थात् मनचाहा बरतावा है तो मैं अब देखते हुए ही तेरे घर से इस सुरभि को ले जाता हूँ । द्विज ने कहा—ऐसा कौन है जो निर्भय होकर क्रोध से युक्त महात् सर्प से फ्रीड़ा करता है । जो इस मेरी कामधेनु को लेजावेगा अर्थात् लेजाने की इच्छा करेगा वह धीच में ही मृत्यु के द्वारा दृष्ट हो जावेगा अर्थात् मर लेगा इस प्रकार से कहकर जमदग्नि ने परम क्रुद्ध होकर दूसरे ब्रह्मदण्ड की ही भाँति अपने महादण्ड को ग्रहण करके वह मुनि बोला—जिस क्षत्रिय का ऐसा तेज अथवा शक्ति है जो कुल में अधम मेरी इस धेनु को लेजावे वह सपरिकर तुरन्त ही क्षीण आयु वाला हो जावे ॥१५-२१॥

एतच्छ्रुत्वा वच. क्रूरं हैहयः शतशोवृतः ।

धावमानः क्षितितले ब्रह्मदण्डहतोऽपतत् ॥२२

हुङ्कृतेन ततो धेन्वाः खड्गपाशासिपाणयः ।

निर्गच्छन्तः प्रदक्ष्यन्ते कल्मपायाः सहस्रशः ॥२३

नासापुटाग्राद्रोमाग्रात्किराता मागधा गुहात् ।

रुध्रान्तरेषु चोत्पन्नाः शतशोऽथ सहस्रशः ॥२४

एवमन्योऽन्यमाहत्य हैहयष्टं कणान्दहन् ।

विनाशं सह विप्रेण गता स्यजुं नतेजसा । २५

कात्तं वीर्यं जयं लब्ध्वा सङ्ख्ये हत्वा द्विजोत्तमम् ।

जगाम स्वा पुरी दृष्टा कृनान्वशमोहितः ॥२६

ततस्त्वरान्विन प्राप्तपश्चाद्रामो गतेरिषी ।

आकन्दमानाजननी ददर्श पितुरन्तिके ॥२७

केनेदमात्मनाशाय ह्यभानात्साहमं कृतम् ।

मम तात जिघासुर्यो ब्रह्मु मृत्युमिहेच्छति ॥२८

सैकडो जनो से परिवृत हैहय ने जमदग्नि के इस परम क्रूर वचन को सुना था और वह घायमान होता हुआ अडादण्ड से हत होकर भूतल में गिर गया था । इसके अनन्तर उस कल्मषा यैतु क हुंकार से सहस्रों ही खड्ग-पाश और असि (तलवार) हाथों में लेने वाले निकलते हुए दिखलाई दे रहे थे । नासापुटों के अग्रभाग से—रीमों के धगले भाग से—गुह से और रन्ध्रों के अन्तरो में सैकडो और सहस्रो ही किरात और मागर उत्पन्न हो गये थे । इस प्रकार हैहय के टड्कणों का दग्ध करते हुए आपस में एक दूसरे को मारकर सहस्राजुंन के तेज से विप्र जमदग्नि के सहित सब विनाश को प्राप्त हो गये थे । राजा कार्त्तवीर्य उस युद्ध में विजय प्राप्त करके और उस उराम द्विज का बध करके अपनी पुरी को चला गया था और कृनान्त वश से मोहित देखा गया था । इसके पश्चात् उस रिपु क चले जाने पर शीघ्रता से युक्त राम (परशुराम) वहाँ प्राप्त हो गये थे । उन्होंने अपने पिता के सन्निकट माता को रुदन करते हुए देखा था । परशुराम ने कहा—किस बुद्ध ने धत्तान से घातक नाश करने के लिये ऐसा दुस्साहम किया है ? मेरे पिताजी को मारने की इच्छा वाला यह यही पर अब स्वयं अपनी मृत्यु को देखने की इच्छा कर रहा है ॥२२-२८॥

ततस्ता रामवाक्येन गतसत्त्वेवविह्वला ।

उदर करयुग्मेन ताडयन्नीह्युवाच तम् ॥२९

अर्जुनेन नृश सेन दात्रियरपरं सह ।

इहाऽऽगत्थपिता तेन निहती बाहुशालिना ॥३०

तंपश्य निहतं तातं गतामुंगतचेतसम् ।
 संस्कृत्य विधिवत्सुत्र तर्पयस्वयथातथम् ॥३१
 एतच्छ्रुत्वासवचनं जननीमभिवाद्यताम् ।
 प्रतिज्ञामकरोद्याता शृणुष्वचनराधिप ॥३२
 त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी निः क्षत्रियकुलान्वयाम् ।
 स्नात्वा च तेषामसृजा तर्पयिष्यामि ते पतिम् ॥३३
 तस्यापि परशुना बाहून्कार्तवीर्यस्य दुर्मतेः ।
 छित्वा पास्यामि रुधिरमिति सत्य शृणुष्व मे ॥३४

इसके अनन्तर राम के इस वाक्य से गत सत्व की भाँति मध्यन्त विह्वल होती हुई उसको माता दोनों हाथों से छाती पोटती हुई उससे यह वचन बोली—परम क्रूर सहस्राजुर्न ने दूसरे क्षत्रियों के सहित यहाँ आकर बाहुशाली उसने ही तेरे पिता को निहत किया है । हे बेटा । अपने मूल पिता का दर्शन कर ले जो इस समय में गत प्राण और चेतना से रहित हैं । हे पुत्र । अब इनका तुम विधिपूर्वक अन्त्येष्टि संस्कार कर शाली और ठीक २ रीति इनका तर्पण करो । हे नराधिप । भाना के यह वचन सुनकर उस अपनी जननी का अभिवादन करके उठोने जो उस समय में प्रतिज्ञा की थी उसका प्राप अब अवश्य करिये—क्षत्रिय कुल के अन्वय वाली इस पृथ्वी को इक्कीस बार क्षत्रिय रहित करके उन्हीं के रक्त से स्नान कर के ही अब मैं आपके पति का तर्पण करूँगा । मैं अपने इस फरसा से उस दुर्मति कार्तवीर्य की भुजाओं का छेदन करके ही उसका रुधिर पान करूँगा—यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है उसे सुन लो । इस प्रकार से प्रतिज्ञा करके परम प्रतापी जामदग्न्य ने महान् क्रोध से आविष्ट होकर फिर अपने पिता जमदग्नि का संस्कार किया था ॥२६-३४॥

एवं प्रतिज्ञा कृत्वाऽपि जामदग्नयः प्रनामवान् ।
 क्रोधेन महताऽऽविष्टाः संस्कृत्य पितरं ततः ॥३५
 म हिंस्रमजी पुरी रामो जगाम क्रोधमूर्च्छिनः ।
 छित्वा बाहुवनं तस्य हत्वा तं क्षत्रियाघमम् ॥३६

जगामक्षत्रियान्तात पृथिवीमवलोक्यन् ।
 सप्तद्वीपाणं वयुता सशैलवनकाननाम् ॥३७
 पूर्वतः पश्चिमामाशा दक्षिणोत्तरतःकुरुन् ।
 स्यमन्तपञ्चके पञ्च चकार रुधिरहृदान् ॥३८
 सतेपुरुधिराम्भस्मुहृदेषु क्रोधमूर्च्छिता ।
 पितृन्सन्तर्ष्यं घामामरुधिरेणेतिन श्रुतम् ॥३९
 अथर्चाकादेयोपेत्य पितरो ब्राह्मणपंभम् ।
 त्रंक्षमस्वेति जगदुस्ततः स विरराम ह ॥४०
 तेषा समीपे यो देशो हृदाना रुधिराम्भसाम् ।
 स (स्य) मन्तपञ्चकमिति पुण्यं तत्परिकीर्तितम् ॥४२
 निर्वर्त्यकमणस्तस्मात्पितृन्प्रोवाचपाण्डव ।
 रामः परमधर्मायदिदं रुधिरं मया ॥४२
 क्षिप्तं पञ्चमु तीर्थेषु तद्भूयात्तीर्थं मुत्तमम् ।
 तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे पितरोऽद्दश्यता गताः ॥४३

क्रोध से एक दम मूर्च्छित होते हुए परशुराम माहिष्मती पुरी को चला दिए थे । और वहाँ पहुँचकर उसकी जो सहस्र बाहुओं का वन था उसको काटकर उस अधम क्षत्रिय को मार गिराया था और फिर क्षत्रियों के मन्त कर देने के लिए सात द्वीपों और भ्रंशों वाली—पूर्वत और वन काननों से युक्त सम्पूर्ण पृथ्वी को देखते हुए वहाँ से चला दिये थे । पूर्व से पश्चिम दिशा तथा दक्षिण उत्तर कुरुओं को गये थे । सामन्तक पञ्चक में पाँच रुधिर के हृद किये थे । उन रुधिर के जल वाले हृदों में उन परशुराम ने क्रोध से मूर्च्छित होकर रुधिर से ही पितृगण का तर्पण किया था—ऐसा हमने सुना है । इसके अनन्तर अर्थात् पितरो ने उन ब्राह्मण श्रेष्ठ के समीप में उपस्थित होकर उनसे कहा था—उसको क्षमा कर दीजिये । इसके पश्चात् वह विरत हो गये थे । रुधिर रूपी जल वाले उन हृदों के समीप में जो देश है वह स्यमन्तक पञ्चक—इस पुण्यमय नाम से परिकीर्तित किया जाता है । हे पाण्डव ! उस कर्म से निवृत्त होकर परम धर्मात्मा राम ने पितरो से कहा था कि मैंने जो यह रुधिर

पाँच तीर्थों में प्रक्षिप्त किया है वह उत्तम तीर्थ हो जावे—उपास्तु—
प्रधातु ऐसा ही होगा—यह कह कर सब पितृगण अदृश्यता को प्राप्त हो
गये थे ॥३६-४३॥

एवं रामस्य संसर्गोदेवमार्गं युधिष्ठिर ।

सर्वपापक्षयकरो दर्मनात्सर्गं नान्नुणाम् ॥४४

रेणुकाप्रत्ययार्थाय अद्यापि पितृदेवताः ।

दृश्यन्तेदेव मार्गस्थाः सर्वपापक्षयकराः ॥४५

तत्र तीर्थं तु राजेन्द्र नर्मदोदधिस्तद्भ्रमे ।

स्यात् नं कृत्वा विधाननमुच्यन्तेपातर्कनराः ॥४६

कुशाप्रणाऽपि कोन्तेयनस्पृष्टयो महोदधिः ।

अनेन तत्रमन्त्रेण स्नातव्यं नृपसत्तम ॥४७

नमस्ते विष्णुरूपाय नमस्तुभ्यमपांपते ।

सान्निध्यं कुरु देवेश सागरे खवणाम्भसि ॥४८

हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार से देव मार्ग में राम का संसर्ग दर्शन से
घोर स्वर्ग करने से मनुष्यों के सशस्त्र पापों के शय करने वाला होता
है । रेणु का माता के प्रलय विवशात) के लिए उस गमम्य पापों
के क्षय करने वाले देव मार्ग में स्थित पितृ देवता गण सभी भी दिलाताई
दिया करते हैं । हे राजेन्द्र ! नर्मदा घोर सागर के समम उस तीर्थ में
विधान के साथ स्नान करते मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाया करते हैं ।
हे कोन्तेय ! कुशा व अथ भाग से भी महोदधि का स्वर्ग नहीं करना
चाहिये । हे नृप सत्तम ! वहाँ पर इव निम्नादिन मन्त्र के द्वारा स्नान
करना चाहिये । हे अपांपते ! हे देवता ! विष्णु के उपकरणपापों क्षय की
सेवा में प्रणाम भक्ति है—त्रयी के स्वामी की सेवा में नमस्कार है ।
सब गुण सागर में आप सान्निध्य करिये ॥४४-४८॥

अग्निदत्त नेत्रो मृष्टश च देहे रेतोऽप्य विष्णुरमृतस्य नाभिः ।

एतद्द्रुतन्नाऽवमत्यशायनंतजोःशगाहेत उति नदीनाम् ॥४९

पञ्चरत्नतमानुक्तं फलमुपासातुं तम् ।

मन्त्रेणाग्नेन राजेन्द्र ददाइष महोत्थे ॥५०

सर्वं रत्ननिधानस्त्वं सर्वं रत्नाकराकरः ।
 -सर्वाभरप्रधानेश गृहाणार्घं नमोऽस्तु ते ॥५१
 आजन्मजनितात्पापान्मामुद्धर महोदधे ।
 याह्यर्चितोरत्ननिधे पर्वं तान्पार्वणोत्तम ॥५२
 कोऽपरः सागराद्देवात्स्वर्ग द्वारविपाटन ।
 तत्र सागरपर्यन्तं महातीर्थं मनुत्तमम् ॥५३
 जामदग्न्येन रामेण तत्र देवः प्रतिष्ठितः ।
 यत्र देवाः स गन्धर्वा भुनयः सिद्धचारणाः ॥५४
 उपासते विरूपाक्षं जमदग्निमनुत्तमम् ।
 रेणुकाचैव येदेवी पश्यन्ति भुवि मानवाः ॥५५
 प्रियवासे शिवे लोके वसन्ति कालमीप्सितम् ।
 तत्र स्नात्वानरो राजंस्तर्पयन्पितृदेवताः ॥५६
 तारयेन्नरकाद्धोरात्कुलानां शतमुत्तरम् ।
 स्नात्वा दत्त्वाऽत्र सहिताः श्रुत्वा वै भक्तिपूर्वकम् ॥५७

हे पाण्डव ! अग्नि—तेज और मृडया देह मे इसके अनन्तर प्रसृत
 की नाभि विष्णु हैं—यह सत्य वाक्य बोलता हुआ नदियों के पति मे
 फिर ध्रुवगाहन करना चाहिये । हे राजेन्द्र । पार्वी रत्नों से युक्त फल-
 पुष्प और मन्दातो से समन्वित इस निम्न मन्त्र से महोदधि को धर्य देना
 चाहिए ॥५०॥ हे समस्त भ्रमरी में प्रधानों के भी ईश ! आप सम्पूर्ण
 रत्नों की खान है और सभी रत्नों के धारकी की धारक हैं । हमारे इत
 धर्य को ग्रहण कीजिये आपकी सेवा मे आपके लिए हमारा प्रणाम
 अर्पित है । मह धर्य देने का मन्त्र है । हे महादधे ! मेरे जन्म से लेकर
 समुत्पन्न हुए पापों से मेरा उद्धार कर दो । हे पार्वणोत्तम ! हे रत्ननिधे !
 आप समर्पित होकर पर्वतो को गमन कीजिए । यह विमर्जन का मन्त्र
 है । इस सागर देव से अधिक स्वर्ग के द्वार को विपाटन करने वाला
 दूसरा कौन हो सकता है ? वहाँ सागर तक अत्युत्तम महा तीर्थ है ।
 जामदग्न्य भी परशुराम ने वहाँ पर देव की प्रतिष्ठा की थी जहाँ पर देव
 गण—गन्धर्व—गुनि लोग—सिद्धगण और धारण्य सभी अत्युत्तम

जमदग्नि विरूपाक्ष भगवान की उपासना किया करते हैं। इस भूमि में जो मनुष्य रेणुका देवी का दर्शन किया करते हैं वे प्रियवास शिवलोक में अभीष्ट काल पर्यन्त निवास किया करते हैं। हे राजन् ! उरा तीर्थ में स्नान करके अपने वितृग्ग और देवी का तर्पण करते हुए मनुष्य घोर नरक में उत्तर में होने वाले सौ कुनो का उद्धार कर देना है। स्नान करके यहाँ पर दान करके घोर भविन पूर्वक सहित इस माहात्म्य का श्रवण करके भी अपना और अपने बहुत से कुल का तारण कर दिया करते हैं ॥५०-५७॥

१०६—रेवासखण्डपुस्तकदानादिमाहात्म्यवर्णन

इतिवः कथितं विप्रारेवा माहात्म्यमुत्तमम् ।
यथोपदिष्टं पार्थाय मार्कण्डेयेन वपुरा ॥१
तथा तीर्थं कदम्बाश्च तेषु तीर्थं विशेषतः ।
प्राधान्येन मया ख्याता यथासख्य यथाक्रमम् ॥२
एतत्पवित्रमतुलं ह्येतत्पापहरं परम् ।
नर्मदाचरितं पुण्य माहात्म्यं मुनिभाषितम् ॥३
सप्तकल्पानुगो विप्रो नर्मदाया मुनीश्वराः ।
मृकण्डतनयो धीमान्परमार्थविदुत्तमः ॥४
ससेव्य सर्व तीर्थानि नदीः सर्वाश्चर्वपुरा ।
बहुकलास्मरा रेवामालक्ष्यशिवदेहजाम् ॥५
मेकलेति च शत्रोक्ता क्षरणं शवजा ययौ ।
अत्र रामभरादेवी दंत्यध्वकरी पराम् ॥६
महाविभ्रसंयुक्ता भवघ्नी भवजाह्नवीम् ।
तस्यामात्रघ्न्य सत्प्रोम जातः सोऽप्यजरामरः ॥७

श्रीसूत्रजी ने कहा—हे विप्रगण ! पुरातन समय में जिस प्रकार ते महर्षि मार्कण्डेयी ने पार्थ युधिष्ठिर को इसका उपदेश किया था वही मैंने आप लोगों को यह अत्युत्तम माहात्म्य वर्णन करके बनना दिया है। मैंने

बहुत-से तीर्थों का तथा उनमें भी विविध तीर्थों का प्रधान रूप में संस्था
 और व्रत के अनुसार बर्णन किया है । यह धरमन्व ही पवित्र घोर अनु
 पापों के हरण करने वाला है मुनीश्वरों ! पृथ्वीमय नर्मदा का पवित्र एवं
 माहात्म्य है जिनको कि महामुनि ने कहा था । हे मुनीश्वरों ! गाण्डर्वों
 तब अनुगमन करने वाला मृकण्ड का पुत्र विप्र बहुत ही युद्धिमान् घोर
 उग्रम व्यय का वेत्ता था । इनने पहिले ममस्त तीर्थों का भवो मीडि सेवन
 करके घोर ममस्त नदियों का सेवन करके बहुत बन्नों तब रमरण को
 जाने वालो घोर शिव प्रभु के देह से ममुत्पन्न हुई रेवा नदी को देतकर
 मगवान् शर्व के द्वारा मेरुता—इन नाम से बहो गई घोर शर्व ने ही
 ममुत्पन्न हुई के कारण से वह पते गये थे । यह देवों त्रय रहित—धमर
 —परा—घोर दैत्यों के र्धंग करने वाली थी—मशान् ब्रह्मव में ममविष
 —मंगार की साधार्थों का हनन करने वाली और भव का आरूढो थी ।
 उनमें मत्त्रेय को आवृत्त करके यह मेमो भी मज्जरामर हा जाया करता है

रेवा के दोनो तटों पर कदम—बदम पर हे सत्तमो ! साठ हजार और साठ करोड तीर्थ व्यवस्थित हैं । सरिता के दोनो ओर सहस्रो सतीर्थ हैं । हे मुनीश्वरो ! ये सब रेवा की सुखमा प्राप्त नहीं होते हैं—ऐसा मैं मानता हूँ । हे द्विगण ! आप लोगो मे जो कुछ भी मुझसे पूछा है वह सब मैंने आरको बतला दिया है जो कि भगवान् महेश के मुख से श्रवण करके यापुदेव ने ऋषियो से कहा था । उसी भाँति मृकण्ड के पुत्र ने भी सम्पूर्ण नदी का अनुभव प्राप्त करके इस पावनी सतीर्षा को पद से पाण्डु के पुत्र को कहा था । हे द्विजोत्तमो ! यह सभी रुंतेप से मैंने कह दिया है । यह नर्मदा का चरित परम पुण्यमय है और तीनों नौको मे परम दुर्लभ है । अन्य सहस्रो सरिताओ के जलो का सेवन करने से क्या लाभ है यदि रेवा का जल भली भाँति सेवन किया जावे जो कि पापी के नाश करने वाला है । मेकला के जल का संसेवन करने वाया शाश्वती मुक्ति की प्राप्ति किया करता है ॥८०१४॥

यथा यथा भजेन्मर्त्यो यद्यदिच्छति तीर्थं गः ।

तत्तदाप्नोति नियतं श्रद्धयाऽथद्वयापि च ॥१५

इदं ब्रह्माहरिरिदिमिदं साक्षात्परोहरः ।

इदं ब्रह्म निराकार कवल्य नर्मदाजलम् ॥१६

तावद्गजन्ति तीर्थानि नद्योह्वयफलप्रदा ।

यावन्तस्मर्यते रेवासेवाहेवा कलौ नरैः ॥१७

ध्रुवं लोके हितार्थाय शिवेन स्वशरीरतः ।

शक्तिः कापिसरिद्रूपा रेवयमवतारिता ॥१८

तावद्गजन्ति यज्ञाश्च वन क्षेत्रादयो भृशम् ।

यावन्तर्मदानाम कीर्तनं क्रियते कलौ ॥१९

गरिमा गण्यते तावत्तापोदानव्रतादिषु ।

नरैर्वा प्राप्यते यावदसुविभगभवा धुन्ती ॥२०

ये वसन्त्युत्तरेकूले रुद्रस्यानुचरा हि ते ।

वसन्ति याम्यतीरे ये लोकं ते यान्ति वंष्णवम् ॥२१

जैसे—जैसे मनुष्य भजन करात है और तीर्थों में गमन करने वाला जो-जो भी चाहता है वही-यही नियत रूप से वह अयश्य ही प्राप्त कर लिया करता है चाहे वह धृदा से करे अथवा अश्रुदा से करे । यह नर्मदा का जल ही ब्रह्मा है—यही हारि है तथा यह जल ही परास्पर साक्षात् हर है—यही निराकार ब्रह्मा है और यही कैवल्य है । तभी तक अन्य समस्त तीर्थ गर्जन किया करते हैं अर्थात् अपने द्वारा प्राप्त होने वाले पुण्य-फल की घोषणा करते हैं और नदियाँ भी मुन्दर फल देने वाली बना करती हैं जब तक इस कलियुग में नरों के द्वारा रेवा की सेवा से होने वाले पुण्य फल का स्मरण नहीं किया जाता है । यह निश्चय ही लोक में हित सम्पादन करने के लिये भगवान् शिव ने अपने ही शरीर से कोई सुरिता के स्वरूप बाली यह रेवा दत्ति अवतारित की है । तभी तक वन क्षेत्रादि यज्ञ अत्यधिक गर्जना किया करते हैं जब तक इस कलियुग में नर्मदा के नाम का कीर्तन नहीं किया जाता है । तप—दान और दत्त आदि में तभी तक गौरव की गणना हुआ करती है जब तक भूमण्डल में मनुष्यों के द्वारा भर्ग से समुत्पन्न नदी की प्राप्ति नहीं की जाया करती है । जो उत्तर कूल में निवास किया करते हैं वे रुद्र के अनुचर होते हैं और जो दाम्य तट पर निवास करते हैं वे वंष्णव लोक में गमन किया करते हैं ॥१४-२१॥

धन्यास्ते देशवर्षास्ते येषु देशेषु नर्मदा ।

नरकान्तकरीशश्वस्रिथिताशवनिर्मिता ॥२२

कृतपुण्याश्च ते लोकाः शोकाय न भवन्ति ते ।

ये पिवन्ति जलं पुण्यं पार्वतीपतिसिन्धुजम् ॥२३

इदं पवित्रमतुलं रेवायाश्चरितं द्विजाः ।

शृणोति यः कीर्तयते मुच्यते सर्वपातकः ॥२४

यत्फलं सर्ववेदैश्च सपङ्क्तपदकमैः ।

धृतं च पठितं स्तस्मात्फलमष्टगुणं भवेत् ॥२५

ये पुनर्भावितात्मानः शास्त्रं शृण्वन्ति नित्यशः ।

पूजयन्ति च तच्छास्त्रं नाम देवं वस्त्रभूषणैः ॥२६

पुष्पं फलेश्चन्दनाद्यंभोजनैविविधैरपि ।
 शास्त्रेऽस्मिन्पूजितेदेवा पूजितागुरवस्तथा ॥२७
 इहलोकेपरेचैव नात्र कार्या विचारणा ।
 तस्मात्सर्वं प्रयत्नेन गन्धवस्त्रादिभूषणं ॥२८
 पूजयेत्परया भक्त्या वाचक शास्त्रमेव च ।
 वेदपाठैश्च यत्पुण्यमग्निहोत्रैश्चपालितं ॥२९
 तत्फलं समवाप्नोति नर्मदाचरिते शुभे ।
 कुक्षेत्रे च यत्पुण्य प्रभासे पुष्करे तथा ॥३०

वेदो ह्येव देश परम धन्य है जिन दशो मे नर्मदा नदी बहती है । यह साक्षात् भगवान् शम्भु के द्वारा निर्मित नदी है जो निरन्तर ही मरकों का अन्त कर देने वाली है जो लोग इसका सदा सश्रय ग्रहण करते हैं । वे लोक महान् पुण्यो के करने वाले हैं और उस को लोक कभी भी नहीं होता है जो पार्वती देवी के पति के द्वारा विरचित इस नदी के पुष्प जल का पान करते हैं उनको कभी भी शोक का भवसर ही प्राप्त नहीं होता है ॥२३॥ हे द्विजगण । यह रेवा का चरित अतुल्य पवित्र है । जो इस चरित का श्रवण करता है और जो इसका कीर्तन करता है अर्थात् पढता है वह सभी महा पातको से छुटकारा पा जाया करता है । जो फल पद—क्रम घन—जटा—बल्ली आदि छै भङ्ग क सहित समस्त वेदो के पठने एवं श्रवण करन का फल होता है उस फल से अठपुना फल इस नदी से हुमा करता है ॥२५॥ जो लोग भावित आत्मा वाले हाते हैं और नित्य ही शास्त्र का श्रवण किया करते है । वस्त्र और भूषणो क द्वारा उस नर्मदा के शास्त्र का जो लाग पूजन किया करते है । पुष्प—फल—चन्दन आदि द्वारा तथा विविध भाँति के पूजनो से इस शास्त्र के पूजन किये जाने पर समस्त देवता और गुरुवर्य पूजित हो जाया करते है । हम लोक मे और पर लोक मे भी सब समर्चित होते हैं—इसमे कुछ भी विचारणा नहीं करनी चाहिए । इसलिये सभी प्रकार के प्रयत्नो से गन्ध—वस्त्र—भूषण आदि के द्वारा पराभक्ति से इस शास्त्र का और हमो वाचन करने मान

का पूजन करना चाहिए । वेदों के पाठों से तथा पालित अग्नि होत्रों से जो पुण्य फल होता है वही पुण्य फल शुभ नर्मदा के चरित में प्राप्त हो जाया करता है । कुरक्षेत्र में—प्रभासक्षेत्र में तथा पुष्कर में जो पुण्य होता है वही पुण्य फल परम शुभ नर्मदा के चरित के पठन, श्रवण और समर्पण से हो जाता करता है ॥२६-३०॥

रुद्रावर्तं गयाया च वाराणस्या विशेषत ।

ग गाद्वारे प्रयागेच ग गासागरस गमे ॥३१

एवमादिषु तीर्थेषु यत्पुण्यं जायते नृणाम् ।

नर्मदाचरितं श्रुत्वानत्पुण्यं सकल लभेत् ॥३२

आदिमध्यावमानेषु नर्मदाचरितं शुभम् ।

यः श्रुणोति नरो भवत्या श्रुणुष्वं तत्फलं महत् ॥३३

समाप्य शिवसंस्थानं देवकन्यासमावृतः ।

रुद्रस्यानुचरो भूत्वा शिवेन सह मोदते ॥३४

धर्माख्यानमिदं पुण्यं सर्वाख्यानेष्वनुत्तमम् ।

गृहेऽपि पठयत्यथ चतुर्वर्णस्य सत्तमा ॥३५

धन्यं तस्य गृहे मन्ये गृहस्थं चापि तत्कुलम् ।

पुस्तकपूजयेद्यस्तु नर्मदाचरितस्य तु ॥३६

नर्मदा पूजिता तेन भगवाश्च महेश्वरः ।

वाचके पूजिते तद्दृष्ट्वाश्च श्रेययोऽचिताः ॥३७

रुद्रावर्त में, गया में, विशेष करके वाराणसी में, गङ्गा द्वार में, प्रयाग में, गङ्गा सागर के चङ्गम में, इस तरह के बड़े २ तीर्थों में मनुष्यों को जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वही पुण्य फल नर्मदा के चरित को श्रवण करके सम्पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाया करता है । आदि, मध्य और अवसान में नर्मदा के शुभ चरित का जो जो कोई मनुष्य भक्ति से श्रवण किया करता है उसके महान् फल का श्रवण करो । शिव के संस्थान को

१५। करके देव कन्याओं से समावृत होता हुआ देखा भगवान् रुद्र देव के अनु-

१६। होने का पद प्राप्त करके शिव के ही साथ मान-व प्राप्त किया करता

१७। धर्माख्यान परम पुण्यमय है और अन्य सभी आख्यानों में सर्वोत्तम

शाख्यान है । हे थोड़ेबनो ! जिसका पाठ चारो तरफों के घर में भी किया जाता है । उसके घर को परम धन्य मानता हूँ और वह गृहस्थ तथा कुल भी अतीव धन्य है जो नर्मदा चरित की पुस्तक की पूजा किया करता है । जिसने नर्मदा नदी का पूजन कर लिया है उसने भगवान् महेश्वर का ही अभ्यर्चन कर लिया है । इस पुराण के वाचन करने वाले का जिसने पूजन किया है मानो उसने सभी देवों और ऋषियों का अभ्यर्चन कर लिया है ॥३१-३७॥

लेखयित्वा च सफलं देवाचरितमुत्तमम् ।

भूषणं सर्वशास्त्राणायोद्वातिद्विजन्मने ॥३८

नर्मदा सर्वतीर्थेषु स्नानदानेन यत्फलम् ।

तत्फलं समधाप्नोति सतरोनाम्न सशयः ॥३९

एतत्पुराणं श्लोक्तं महापुण्यफलप्रदम् ।

स्वर्गदं पुत्रदं धन्यं यशस्यं कीर्तिवर्धनम् ॥४०

धन्यं मायुष्यमनुलं दुःखदुःस्वप्ननाशनम् ।

पठतां ऋणवता चापि तयं कामार्थं निद्विदम् ॥४१

यत्प्रदत्तनिदं पुण्यं पुराण वाक्यते द्विजैः ।

शिवलोके स्थितिस्तस्य पुराणाक्षरयत्तरो ॥४२

इति निगदितमेतन्नर्मदायाश्चरितं

पवनगदितप्रथं शर्ववचनादवाप्य ।

त्रिभुवनजनवन्द्य त्वेतदादौ मुनीनां

शुक्लपतिपुरतस्तत्सूतमुख्येन साधु ॥४३

इस सम्पूर्ण देवा के उत्तम चरित को लिखता कर इन समस्त शास्त्रों के भूषण स्वरूप को जो कोई बिना ब्राह्मण को दान दिया करना है उता को नर्मदा अथवा समस्त तीर्थों में स्नान और दान से जो फल प्राप्त होता है वही फल उस मनुष्य को दिया करती है, इसमें शिव भी सत्य गहो है । यह पुराण भगवान् यद के द्वारा ही कहा गया है और महान् पुण्य फल का प्रदान करने वाला है । यह स्वर्ग निषाग, पुत्र देने वाला है, परम धन्य, यशस्य और कीर्ति देने बढ़ाने वाला है । धर्म से मुक्त, धाम्य प्रदान

करने वाला, अनुपम और दुःख संघा जुड़े संवेष्टों के नोश करने वाला है । जो भी इसका पाठ किया करते हैं तथा इसका ध्वस्त करते हैं उनके समस्त कामों के प्रयोजन को सिद्धि प्रदान करने वाला है । जो यह दान किये हुए पुण्यमय पुराण को द्विजों के द्वारा बाँचा जाया करता है उनकी शिवलोक में स्थिति हुमा करती है । और वह पुराणाक्षर बत्सरी होता है । यह हमने नर्मदा चरित कह दिया है । यह शिव के मुख से प्राप्त करके वायु देव ने इस सर्वोत्तम को कहा है । यह त्रिभुवन के जनों का वन्दनीय है । आदि काल में कुलपति के आगे मूत्रजो ने साधु रूप से इस का वर्णन किया है ॥३८-४३॥

११०—सत्यनारायणविप्रसम्वादेवर्णन

व्रतेन तपसाऽर्वापि प्राप्यते वाञ्छितं फलम् ।

सर्वं तच्छ्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ॥१॥

नारदेनैवमुक्तः स भगवान् कमलापतिः ।

सुरर्षयेषां प्राह तच्छृणुध्वं समाहिताः ॥२॥

एकदा नारदयोगीपरांनुग्रहकाम्यया ।

पर्यटन् विविधांल्लोकान्मर्त्यलोकमुपागतः ॥३॥

तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानादुःखसमन्विताः ।

नानायोनिःसमुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः ॥४॥

केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद्घ्नुवम् ।

इतिसञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा ॥५॥

तत्र नारायणं देवं शुभ्रवर्णं चतुर्भुजम् ।

शङ्खचक्रगदापद्मवर्णमालाविभूषितम् ॥६॥

दृष्ट्वा तं देवदेवेशं वन्दुं समुपचक्रमे ।

नमस्ते वाङ्मनोऽस्तीतरूपायाऽनन्तशक्तये ।

आदिमध्यान्तहीनाय निगुणाय गुणात्मने ॥७॥

ऋषियो ने कहा—हे महामुने ! जिम व्रत धरया तप से मनुष्यों को मन-वाञ्छित फल की प्राप्ति होती है उसे सबको देवपि नारदजी के पूर्ण

हुए प्रश्नानुसार मैं श्रवण करना चाहता हूँ । उसे आप कहिए ॥१॥ धो
सूतजी ने कहा—श्रीनारदजी के द्वारा इस प्रकार से कहे गये भगवान्
कदला पति ने उन देवपि से जिस प्रकार से जो भी कहा था वही आप
लोग धर्म परम सावधान होकर श्रवण कीजिए । एक समय की बात है
कि योगीराज देवपि श्रीनारदजी दूसरे ओरों पर अनुग्रह करने की इच्छा
से बनेक लोकों के पर्यटन करते हुए मनुष्य लोक में आकर प्राप्त हो गये
थे । वहाँ पर उनके द्वारा सभी मर्त्य लोक निवासी मनुष्य बनेक प्रकार
के दुःखों से युक्त नाना प्रकार की योनियों में समुत्पन्न अपने किये हुए पाप
पूर्णा कर्मों से पलेप पाते हुए देखे गये थे ॥२॥ देवपि नारदजी ने
अपने मन में इन विचारे मूलोक वासी मनुष्यों की ऐसी बुरी बधा देख
कर सोचा था कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसके करने से
निश्चय रूप से इनके दुःखों का विनाश हो जावे । उसी समय में यही
विचार करते हुए विष्णु लोक में पहुँच गये थे । वहाँ पर भगवान् नारा-
यण देव का दर्शन किया था जो सुनन वरुण वाले थे और जिनकी चार
भुजाएँ थीं । नारायण का स्वरूप शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला
से विभूषित था । उन देवों के देव प्रभु का दर्शन करके नारदजी ने अपना
कथन आरम्भ किया था । नारदजी ने कहा—मन और बाणों से भी परे
स्वरूप वाले, अनन्त शक्ति में सुसम्पन्न तथा आवि, मध्य और अन्त से
रहित, बिना गुणों वाले और गुणों की धाम्ना वाले प्रभो । आपके
लिये नमस्कार है ॥५॥ ७॥

सर्वेषामादिभूताय भक्तानामासिनाशिने ।

श्रुत्वास्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत ॥६॥

किं मयं मागतोऽसित्वं किन्ते मनसि वस्तंते ।

कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते ॥९॥

मत्स्यलोके जनाः सर्वे नानाकथैः समन्विताः ।

नाना योनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥१०॥

तत्सर्वं शमयेन्नाथेषु लपायेन तद्बद्धम् ।

श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं तृपाऽस्तयदिते भयि ॥११॥

करने वाला, अनुपम और दुःख तथा दुःखियों के नाश करने वाला है। जो भी इसका पाठ किया करते हैं तथा इसका ध्यान करते हैं उनके समस्त कामों के प्रयोजन को सिद्धि प्रदान करने वाला है। जो यह दान किये हुए पुण्यमय पुराण को द्विजों के द्वारा बाँचा जाया करता है उनकी शिवलोक में स्थिति हुआ करती है। और वह पुराणाक्षर बत्सरी होता है। यह हमने नर्यंदा चरित कह दिया है। यह शिव के मुख से प्राप्त करके वायु देव ने इस सर्वोत्तम को कहा है। यह त्रिभुवन के जनों का बन्दनीय है। आदि काल में कुलपति के आगे मूत्रजो ने साधु रूप से इस का वर्णन किया है ॥३८-४३॥

११०—सत्यनारायणविप्रसम्प्रादवर्णन

व्रतेन तपसा वाऽपि प्राप्यते वाञ्छितं फलम् ।

सर्वं तच्छ्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामुने ॥१॥

नारदेनैवमुक्तः स भगवान् कमलापतिः ।

सुरपंथेयथाप्राहतच्छूणुष्वं समाहिताः ॥२॥

एकदा नारदयोगीपरानुग्रहकाम्यया ।

पर्यटन् विविधाल्लोकान्मर्त्यलोकमुपागतः ॥३॥

तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नानाद्रुखसमन्विताः ।

नानायोनिःसमुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः ॥४॥

केनोपायेन चैतेऽपाद्रुःखनाशो भवेद्घुक्त्वम् ।

इतिसञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा ॥५॥

तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम् ।

शङ्खचक्रमादापद्यवनमालाविभूषितम् ॥६॥

दृष्ट्वा तं देवदेवेशं वक्नुं समुपचक्रमे ।

नमस्ते वाङ् मनोऽस्तीतरूपायाऽनन्तशक्तये ।

आदिमध्यान्तहीनाय निगुणाय गुणात्मने ॥७॥

श्रुत्वा येने कहा—हे महामुने ! जिन व्रत प्रथवा तप से मनुष्यों को मन-वाञ्छित फल की प्राप्ति होती है उसे सबको देववि नारदजी के पूर्व

हुए प्रदानानुसार मैं श्रवण करना चाहता हूँ । उसे आप कहिए ॥११॥ यो
 सूतजी ने कहा—श्रीनारदजी के द्वारा इस प्रकार से कहे गये भगवान्
 कर्मसा पति ने उन देवशि से जित प्रकार से जो भी कहा था वही प्राप
 लोग श्रय परम साधवान होकर श्रवण कीजिए । एक समय की बात है
 कि योगीराज देवशि श्रीनारदजी दूसरे जोती पर अनुग्रह करने की इच्छा
 से प्रनेक लोको मे पर्यटन करते हुए मनुष्य लोक मे आकर प्राप्त हो गये
 थे । वहाँ पर उनके द्वारा सभी मर्त्य लोक निवासी मनुष्य प्रनेक प्रकार
 के दुःखों से युक्त नाना प्रकार की मोनियों मे समुत्पन्न अपने किये हुए पाप
 पूर्ण कर्मों से बलेश पाते हुए देखे गये थे ॥२४॥ देवशि नारदजी ने
 अपने मन मे इन विचारे मूलोक वासी मनुष्यों की ऐसी बुरी दशा देख
 कर सोचा था कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है जिसके करने से
 निश्चित रूप से इनके दुःखों का निनाश हो जावे । उसी समय मे यही
 विचार करते हुए विष्णु लोक मे पहुँच गये थे । वहा पर भगवान् शार-
 ण देव का दर्शन किया था जो सुकज बण्डे वाले थे और जिनकी शार-
 णुजाए थी । नारायण का स्वरूप शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और वज्रपा-
 से विभूषित था । उन देवों के देव प्रभु का दशन करके नारदजी ने भय
 कयन आरम्भ किया था । नारदजी ने कहा—मन और बालों से भी परे
 स्वरूप वाले, अमृत शक्ति मे समुत्पन्न तथा आदि, मध्य और अन्त से
 रहित, बिना गुणों वाले और गुणों वने आत्मा वाले प्रभो ! आपके
 लिये नमस्कार है ॥१५॥ ७॥

सर्वेषामादिभूताय भक्तानामात्तिनाशिने ।

श्रुत्यास्तोत्र ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत ॥१६॥

किमर्थं मागतीऽसि स्व किन्ते मनसि बर्त्तते ।

कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते ॥१७॥

मत्स्यलोके जनाः सर्वे नानाबलेशसमन्विताः ।

नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः ॥१८॥

तत्सर्वं क्षमयेन्नाथ च उपायेन तद्दद ।

शोभति च्छामितसर्वं कृपास्ति यदिते मयि ॥१९॥

वृद्धब्राह्मणरूपेणपप्रच्छद्विजमादरात् ॥२३

किमर्थं भ्रमसे विप्र महीकृत्स्नां सुदुःखितः ।

तत्सर्वं श्रोनुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते ॥२४

ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमणं मम ।

उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो ॥२५

इसके अनन्तर स्तब्ध करके भगवान् श्री सत्य नारायण प्रभु का स्मरण करते हुए अपने घर की ओर गमन करे । ऐसी विधि से इस व्रत एवं पूजन के करने पर मनुष्यों की वाञ्छा की सिद्धि निश्चित रूप से हो जाया करती है । विशेष करके इस परम घोर कलियुग में भूतल में दुःखों के विनाश करने का अन्य कोई भी उपाय ही नहीं है । हे द्विज ! अब मैं भगवान् सत्य नारायण प्रभु की कथा बतलाता हूँ जिसके ध्वन्य करने से मनुष्य कृतकृत्य अर्थात् पूर्णकाम एवं सफल हो जाया करता है । कथा का यही से आरम्भ होता है—काशीपुर नामक ग्राम में कोई एक परम निर्बल विप्र था । वह विचारा धुवा और तृषा से अत्यन्त व्याकुल होकर निरन्तर पृथ्वी पर भ्रमण किया करता था । इस प्रकार से अत्यन्त दुःखित उस ब्राह्मण को ब्राह्मणों पर विशेष प्यार करने वाले सत्यनारायण भगवान् ने देखकर स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके उसके समीप में समागत हुए और बहुत ही आदर के साथ उस ब्राह्मण से उन्होने पूछा था—हे विप्र ! आप मुझे यह तो कृपा करके बतलाइये कि आप इस तरह से अत्यन्त दुःखित होते हुए किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए सम्पूर्ण भूमि पर भ्रमण किया करते हैं ? मैं यही सब सुनने की इच्छा रखता हूँ । यदि आप ठीक समझते हो तो यह मुझे बतला दीजिये । ब्राह्मण ने कहा—मैं ब्राह्मण हूँ और बहुत ही अधिक दरिद्री हूँ । मेरा यह समस्त भ्रमण केवल भिक्षा की प्राप्ति के लिये होता है । यदि आप मेरे इस उदर भरण की पीडा के निवारण का कोई उपाय जानते हो तो हे प्रभो ! आप कृपाकर मुझे यह बतला दीजिये ॥२०-२५॥

सत्यनारायणोविष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः ।
 तस्यत्वद्विजशाहूल कुरुष्वव्रतमुत्तमम् ।
 यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः ॥२६
 विधानञ्च व्रतस्याऽस्य विप्रायाऽऽभाष्य यत्नतः ।
 सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवाऽन्तरधीयत ॥२७
 ततोऽसीमनसाविप्रश्चिन्तयामासईश्वरम् ।
 व्रतं नारायणेनोक्तं विदित्वा मन्दिरं ययौ ॥२८
 ततोऽहं तत्करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् ।
 इति निश्चित्य विप्रोऽक्षी रात्रौ निद्रां न लब्धवान् ॥२९
 ततः प्रातःसमुत्थाय सत्यनारायणव्रतम् ।
 करिष्येऽहञ्च सङ्कल्पसिद्धार्थं भगवद्विज ॥३०
 तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् ।
 तेनैव बन्धुभिः साद्धसत्यस्य व्रतमाचरन् ॥३१
 सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः ।
 बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्याऽस्य प्रसादतः ॥३२
 ततः प्रभृति कालञ्च मासि मासि व्रतं कृतम् ॥३३
 एवं नारायणादेतद् व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः ।
 सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान् ॥३४
 व्रतमेतदयदा विप्रं पृथिव्या सञ्चरिष्यति ।
 तदेव सर्वदुःखं हि मानवानो विनश्यति ॥३५
 एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने ॥३६

उस वृद्ध ब्राह्मण वेप वाने प्रमु ने कहा—हे द्विजों में शाहूल के समान ! भगवान् सत्यनारायण विष्णु सम्पूर्ण वाञ्छित धर्मों के फलों के प्रदान करने वाले हैं । उन्हीं के परम उत्तम व्रत एवं धर्मेन को आप करिये जिसके करने से मनुष्य इस संसार में सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाया करता है । श्री भगवान् ने नारद जो से कहा—उस बुभुक्षित विप्र को इस सत्यनारायण प्रभु के व्रत का पूरा विरान यत्नपूर्वक कहकर वह वृद्ध ब्राह्मण के स्वरूप में उपस्थित सत्यनारायण प्रभु वही पर प्रन्तहित

हो गये थे । उनके वही द्विप जाने पर इसके पश्चात् उस विप्र ने मन में ईश्वर का चिन्तन किया था कि यह व्रत तो स्वयं नारायण ने ही मुझे बतलाया है—यह समझकर वह मन्दिर में गया था । इसके अनन्तर अपने अपने मनमें विचार किया था कि मैं इस व्रत को करूँगा—ऐसा निश्चय करके उस ब्राह्मण ने रात्रि में निद्रा प्राप्त नहीं की थी अर्थात् व्रत करने के निश्चय करने पर इमो के चिन्तन करते रहने में रात को नींद बिल्कुल नहीं आई थी । फिर सुबह होते ही हे द्विज ! वह उठकर मन में विचारने लगा कि मैं सत्य नारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा ऐसा सकल्प करके वह सिद्धार्थ को प्राप्त हो गया था । भगवान् सत्य नारायण प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि उसी दिन में उस विप्र ने प्रचुर दान प्राप्त कर लिया था । उसी द्रव्य से उसने अपने बन्धुओं के साथ में मिल कर सत्य नारायण का व्रत किया था । इसके करने से वह सभी कष्टों से निमुक्त हो गया था और सब प्रकार की सम्पत्ति से युक्त हो गया था । वह द्विजो ने श्रेष्ठ इसी व्रत के प्रभाव से एवं प्रसाद से सर्व सुख सम्पन्न हो गया था । तभी से लेकर सर्वदा प्रत्येक मास में उसने यह व्रत किया था । इस प्रकार से उस द्विज श्रेष्ठ ने इस सत्य नारायण के व्रत का ज्ञान साक्षात् भगवान् नारायण से ही प्राप्त किया था और वह इसे करके समस्त पूर्व कृत पापों से छुटकारा पाकर पूर्णतया विशुद्ध हो गया तथा उसने अन्त में परम दुर्लभ मोक्ष के पद को भी प्राप्त कर लिया था । भगवान् श्री विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा—हे द्विज ! जिस समय में यह व्रत पृथिवी में संचार प्राप्त कर लेगा उसी समय में भू मण्डल में समस्त परग पीडित मानवों का दुःख पूर्ण रूप से विनष्ट हो जायगा । श्री सूतजी ने कहा—हे महर्षियो ! इस रीति से महान् आत्मा वाले देवर्षि श्री नारद जी से भगवान् नारायण ने इस व्रत के विषय में कहा था । जो कि मैंने आप लोगों के सामने वर्णन कर दिया है ॥२६-३६॥